



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227791
CG-DL-E-22062021-227791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ 1, 1943

No. 255]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

सं. 13-32/2021 – के0 हो0 प0/के0 हो0 र0— (छब्बीसवां), होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59 वॉ) की धारा 21 की उपधारा (1) (अ) व (2) तथा धारा 15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुरूप केन्द्रीय परिषद् एक रजिस्टर का रखरखाव करती है जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर कहा जाता है। उक्त रजिस्टर के भाग-I को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

क्रम सं. 1 से 20243, 20244 से 33097, 33098 से 37359, 37360 से 39961, 39962 से 45989, 45990 से 49450, 49451 से 61693, 61694 से 66678, 66679 से 72135, 72136 से 86959, 86960 से 100446, 100447 से 115139, 115140 से 129438, 129439 से 145398, 145399 से 147514, 147515 से 158079, 158080 से 164994, 164995 से 174034, 174035 से 186006, 186007 से 198702, 198703 से 204732 एवं 204733 से 206349 तक केन्द्रीय रजिस्टर भाग-I में भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड 4 में जनवरी 2, 1993; अक्टूबर 9, 2004; मई 26, 2007; नवम्बर 15, 2008; अगस्त 8, 2009; अप्रैल 24, 2010; अप्रैल 16, 2011; मार्च 3, 2012; अगस्त 24, 2013; फरवरी 22, 2014; अक्टूबर 4, 2014; मई 25, 2015; अगस्त 19, 2017, मार्च 17, 2018, अगस्त 21, 2018, जनवरी 09, 2019, मार्च 05, 2019, अगस्त 02, 2019, नवम्बर 19, 2019, जुलाई 22, 2020; अक्टूबर 28, 2020 एवं मार्च 25, 2021 को क्रमशः प्रकाशित हो चुके हैं।

डा. कुमार विवेकानन्द, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./119/2021-22]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

क्रम सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	अर्हताए (क) साधारण (ख) आयुर्विज्ञान संबंधी	अर्हताए प्राप्त करने की तारीख	उस संस्था का नाम जहां से रजिस्टर किए जाने के योग्य अर्हताए प्राप्त की गई थी	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत है और राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्टर मे रजिस्ट्रीकरण की तारीख	राज्य रजिस्टर मे दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्याक	अतिरिक्त आयुर्विज्ञान अर्हताए तथा उन्हें प्राप्त करने की तारीख और अर्हता प्रदत्त करने वाले प्राधिकारी का नाम	यदि केन्द्रीय रजिस्टर से हटाया गया है तो उसकी तारीख और उसका/ उसके कारण	टिप्पणिया (सीधे पंजीकरण संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206350	ए. अभिमन्यू	एन. अनिरुधन	जानकी निवास, 739/02, लाल बहादुर गली, कारनाकी नगर, वाडाक्कनथारा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.09.2018	12784			
206351	आर्चा सुरेन्द्रन	सुरेन्द्रन के.टी.डी	कारायिल थक्कुट्ट हाउस, एदामुत्तम पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11344			
206352	आधिरा रविन्द्रन	पी.वी. रविन्द्रन	"दीपम", पन्नीयानूर पी०ओ०, पारल (वाया), थलारसेरी, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12652			
206353	अधिरा वी. नायर	एस. विजयाकुमारन नायर	अधिरा, टीसी 13/1568/4, कालाकौमुडी रोड, कुमारपुरम मेडिकल कॉलेज पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.03.2019	13096			
206354	अब्दुल औवाल	अब्दुल सलीम	पालामूटिल हाउस, वालारा पी०ओ०, इरुमपुपालम, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	03.12.2018	12959			
206355	अब्दुल्लाह एस.	शिहाबुद्दीन	बैथुल राहुमा, उमायानाल्लूर पी०ओ०, एच.के.एम. कूलेंज के पारा, काल्लुकुजी, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13192			
206356	अब्दुरसमाद ए.पी	माम्मुडू	अम्बायापुल्लो (हाउस), कुरुका पी०ओ०, काल्लिगालपरम्बा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11988			
206357	आबीदा एम.के.	मोइदीन कोया	"अल-कमर" हाउस, कोनोत्ते पी०ओ०, कुन्नामगलम वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11328			
206358	अमय कृष्णन ए.जे.	बी.एस. अनिल कुमार	श्रीकृष्णा टीएनआरए-10, टेलेनगर, पाप्पानामकोड पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12935			

206359	अमया वी.पी.	मुरलीधरन वी.पी.	वाडायवीडू, पारायकड पी०ओ०, धुरावूर, चेरथाला, जिला—अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12151				
206360	अभिजा रामाचंद्रन पी.	रामाचंद्रन नायर वी.	पुलियिकोडु वीडू, मुल्लूर पी०ओ०, वाया विजिजम, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.05.2019	13113				
206361	अभिजीत जी.एस.	गोपाकुमार आर.	टी.सी. 15 / 1642, ईटोएन-81, शारदा भवन वजुथाकोड, मिनाचिन रोड, थायकोड पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12642				
206362	अभिजीत पी.आर.	रवि पी.आर.	पुल्लुत्ती पराम्बोल हाउस, मुलमकुन्नाथु कावू पी०ओ०, कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	12.10.2018	12917				
206363	अभिजीत रजन एस.	श्रीरजन जी.एस.	“साई मंदिर”, कामुकिकोड पी०ओ०, नेयाट्टिनकारा, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	09.01.2018	12430				
206364	अभिजीत साई शकर आर.एस.	पी.आर. सिरिसर	शकरा विलास, 671, वेल्लानाड, चंगा, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11984				
206365	अभिजीत वी.	अचुथन वी.के.	वेगारसरी हाउस, अराकुफुरसी, मन्नारक्कड पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.08.2017	12115				
206366	अभिजीत वी.एस.	वालसलन के.	चिचू निवास, कारियारा, पायात्तुविला पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10794				
206367	अभिलाष एम.पी.	अशोकन एम.पी.	मयून पुरायिल (एच), कारुवमोयिल पी०ओ०, कोडुवली (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10784				
206368	अभिरा ई.एच.	हरीनद्रन वी.	इराथुविला (हाउस), पुजामकुन्नु, कैथपोयिल पी०ओ०, धमारारसरी (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2019	13204				
206369	अभिराम आर.	राधारामानन पिल्लई डी.	अक्षरा निवास, पकलकुरी पी०ओ०, पल्लिककल, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11118				
206370	अभिरामी पी.वी.	राजन एन.पी.	पालाक्कील वालापील हाउस, कुन्नारू, पट्टवाम पी०ओ०, तालीपराम्बा, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12697				
206371	अभिरामी एस.	साथया राजू आर.	विनोद भवन, वेकाविला, पाजाकुट्टी पी०ओ०, नेडुमगड, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12649				
206372	अभिषेक	विजय बहादुर सिंह	बैशाली पारा, इचापुर नवाबगज, नोर्थ 24 परगनास 743144	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32640				
206373	आबिद रहमान के.	अबूबक्कर के.	कुम्माली हाउस, मेलगडी पी०ओ०, कोडोट्टी वाया, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.08.2017	12075				

206374	अबिदा मोहम्मद मोइदीन के वी	मोहम्मद मोइदीन	काडारशेरी वालापील (हाउस), कूडाशोरिपारा, कुरुमबाथुर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11020				
206375	अबिन के. जॉर्ज	जॉर्ज के.जे.	कुलाथुम्पट्टू (हाउस), कानीचार पी०ओ०, कानीचार, केलाकम वाया, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.04.2017	11849				
206376	अबिन पी. जॉन	पी.ए. जॉनसन	पुल्लुमाट्टाथिल (हाउस), चंगालोरी पी०ओ०, मन्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	22.01.2018	12461				
206377	अबिनी मारिया जोश	जोश वी.पी.	वाडाक्कनचेरी (हाउस), इराविमगलम पी०ओ०, एम.जी.रोड, ग्रिस लेन, जिला-थिरयुर, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	25.06.2019	13176				
206378	अबिया बी.पोक्काट्टु	बेबी जॉर्ज	पोक्काट्टू हाउस, कुजूर, एरापुरम पी०ओ०, पेरुमबावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12242				
206379	अवनाजबीन के वी	अब्दुलजब्बर के वी.	जबीन हाउस, अलूगल, पुलिककल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	30.12.2017	12362				
206380	अबुबक्कर सिद्धिकी के.	उमर कोदाडन	कोदाडन हाउस, कुट्टीयिल, वानोयमबलम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.07.2018	12635				
206381	अबी बी. अब्राहम	बेबी अब्राहम	बेथेल (हाउस), ग्रीन वाली विला, पैनगारापिल्लो पी०ओ०, धुरुथिक्कारा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2018	12773				
206382	अबीमोन जॉर्ज	जॉर्ज थोमस	किजाक्कायिल (हाउस), बाल्लोकाडावू पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	27.09.2017	12249				
206383	आचार्या प्रदीप कुमार	रव. निखिल रजन आचार्या	ग्राम व पी०ओ०-बिरुलिया, जिला-पूर्व मेदिनीपुर 721650	बीएचएमएस	जनवरी-1996	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल	03.02.2017	31494				
206384	आदरसा ई.के.	बालन ई.	प्रसादम, थय्यूत्ताथिल (हाउस), कुन्नाथेरु, नानामिदा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12159				
206385	आदीबा थाहसीन एम.सी.	बावा एम.सी.	अलमास हाउस, मुथुकुरुस्सी, इलड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.08.2018	12668				
206386	अदीबुज्जमान पी.वी.	अहमद पी.वी.	पूवालापील (हाउस), एराहिमगड पी०ओ०, निलम्बूर (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.08.2017	12142				
206387	अधिकारी सजय	निमाई चंद्र अधिकारी	गाव-जन्नैरत, पी०ओ०-आर्यापारा, जिला-साउथ 24 परगनास 743377	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32769				
206388	आदर्श जे.	जयाचंद्रन के.	आदर्श निवास (हाउस), पानीपेरुन्थाला, कुट्टीपालम पी०ओ०, पूजारिकुदम, चित्तूर, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13407				

206389	आध्या तनुश्री	गोपाल चद्र आध्या	मार्फत पापिया रानी शाव, 30, स्वामीबाग रोड (मडल पार्क) 20 खरदाहा, नोर्थ 24 परगनासा 743178	बीएचएमएस	जनवरी-2020	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	07.02.2020	32793				
206390	अदिला शिरिन पी.	अब्दुल सलाम पी.	पल्लाथ हाउस, कुलूक्कालूर पी0ओ0, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12408				
206391	अदित्या अशोक एन. पी.	अशोकन एम.	आरती (हाउस), किजुर पी0ओ0, पायोलो (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12800				
206392	अदिति	शारदा तिवारी	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लौतोर 01. पी0ओ0-सैनथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32751				
206393	अदवोइया राज ई.	राजन ई.	आर्यावर्धम हाउस, किजाकुमपुरम पी0ओ0, मानूर (वाया), जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12205				
206394	अफीदा पी.	कुहान्दुल्ला	पुलायनडी, अयानचेरी पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12884				
206395	अफीफा पी.के.	मोहम्मद पी.के.	पेनाकालाथिल (हाउस), इरुमबुचोला, ए.आर. नगर पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12801				
206396	अफिला एन.	अब्दुल लथीफ	नारिकोटे (हाउस), अयानचेरी पी0ओ0, पोन्मेरो वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.02.2017	11757				
206397	आफिया अल्लूर	माराक्कर अल्लूर	अल्लूर (एच), पट्टरकुलम, नारुकारा पी0ओ0, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10995				
206398	अफरा के.एम.	मोहम्मद अशरफ के.एम.	के.एम. हाउस, पचाट्टिरी पी0ओ0, तिरुूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.09.2018	12822				
206399	अफरा एम. अशरफ	मोहम्मद अशरफ	पून्थोट्टम पोथिल (हाउस), वालियाकदम पराम्बा, मारिककूनू पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12872				
206400	अफरा टी.	अकबर टी.	ड्रीम वैली, आदिवारम, मुलियन पाराम्बा, फारुक कॉलेज पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.10.2018	12862				
206401	अफरुसन्नारानी ए. एम.	हामजाकोया के. आई.	अचम्माडा हाउस, कालपेनी आइसलैण्ड, जिला-यू.टी. ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप	बीएचएमएस	2018	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	25.10.2018	12920				
206402	अफसथ कुट्टियिल	मोइदु	कुट्टियील (हाउस), कतामेरो पी0ओ0, विल्लियापल्ली वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.03.2016	11176				
206403	अफताब एस.के.	एस.के. असलाम	गाव व पी0ओ0-बोनहूधली (नालागोरा हट), जिला-कोलकाता 700103	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32472				

206404	अफजल अब्दुल अजीज	अब्दुल अजीज आई.	पुधेनपुरायल, वेगा पी०ओ०, सारथम्कोट्टा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11636				
206405	अग्रवाल वदना	अनुज कुमार गर्ग	44-ए, ग्राउड फ्लोर, सेक्टर-30-33, आई पी. कॉलोनी, जिला-फरीदाबाद	बीएचएमएस	1996	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	हरियाणा	05.04.2017	6326-ए				
206406	अगरवाला बिजय लक्ष्मी	चंद्र शेखर अगरवाला	मार्फत हनुमान शाई दिवान, पुरान हट, बर्नपुर, मंदिर रोड, आसनसोल, बर्धमान 713325	बीएचएमएस	सितम्बर-2003	यूनिवर्सिटी ऑफ बुदवान	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32771				
206407	अग्रवाल आयुषी	श्री कपिल अग्रवाल	269, कच्छ घासी राम चादनी चौक, दिल्ली-110006	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5723				
206408	अग्रवाल प्रेक्षी	श्री राजेश अग्रवाल	डी-11/25, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-85	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5750				
206409	अगिला पी.वी.	अनिल कुमार पी.	पुलीक्कडी (हाउस), इरिनावे पी०ओ०, चेरुकुन्नु (वाया), जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	07.09.2015	10909				
206410	अगनाल शोबिका बी. एम.	जे. बनेडिक्ट	एजल हाउस, कालूवेडानकुजी, वेगानूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.12.2018	12981				
206411	अगनेस बोनिता रुबिन के.	के.एस.रुबीन	कुट्टीपुरथ हाउस, कन्नामली पी०ओ०, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12169				
206412	अगनूस जोमी	जोमी जॉर्ज	वडयात्तुकुजी (हाउस), एलाजी पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11080				
206413	अग्रवाल रनेहा अशोककुमार	अग्रवाल अशोककुमार नारायणलाल	3, श्रीकृष्णा अपार्टमेंट, सर्वेश को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एरिया, पंजाब कॉलोनी, नाशिक रोड, नाशिक-422101	बीएचएमएस	2012	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	महाराष्ट्र	06.10.2012	57666				
206414	अहद सुफी अकीब उल	सुफी अब्दुल हलीम	मालगुदमपट्टी, मेमारी, बर्धमान (ईस्ट) 713146	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32671				
206415	अहमद साफिक	फरीद अहमद	मार्फत अमर नाथ दत्ता, रामचंद्रपुर, सोदेपुर, पानिहटी, नोर्थ 24 परगनास 700110	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.12.2019	32784				
206416	अहमद मोर उमायेर	मौर जुबदातुल असेफिन	गाव व पी०ओ०-हरहरी, जिला-मुशिदाबाद 742226	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32644				
206417	अहमद मो० अरशाद	मो० नूरुद्दीन अहमद	एंट-पेवाडी, पी०ओ० व पु०स्टे०-चेनारी, जिला-रोहतास, बिहार-821104	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	07.01.2020	33545				
206418	अहमद नियास एम. पी.	अब्दुल गफूर एम. पी.	मदाथिपाराम्बथ (हाउस), वाजक्कड पी०ओ०, मुडुमुजी, जिला-मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12110				

206419	अहमद साफिया	श्री फुरकान अहमद	एफ-111, अबुल फजल एन्क्लेव, टोकर नं० 4, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	21.08.2020	बीएचएसडी/5705			
206420	अहमद मदिहा	श्री अहमद मियाँ	2555/56, सारक प्रेम नारायण चोरीवाला, दिल्ली-110006	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5747			
206421	अहमद तरसनीम	सरोफुद्दीन अहमद	कुसुम विला, मोरचाक बाह्याली (वेस्ट) जिला-मालदा 732101	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32646			
206422	अहसान के.ए.	अशरफ के.एस.	कीपुरथ हाउस, वालारा पी०ओ०, इरुमपुपालम, अडिमली, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2018	12609			
206423	एनला एम इमचेन	आई मायग इमचेन	हाउस नं० 99 अर्ताग वार्ड मोकोक्चुग 798601	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	06.03.2019	114			
206424	एनामशीष खलिनादोह	श्री डी. स्नेतग	नॉन्गलग, मोंवकिरवत, साउथ वेस्ट खासी हिल्स	बी.एच.एम.एस.	27.04.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	11.01.2021	496			
206425	आइशा बिरमी साहीद	के.के. साहीद	कारुकाप्पादथ पुथेन वीट्टु, गार्डन हाउस, इरियाड पी०ओ०, कोडुगाल्लूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	15.09.2017	12194			
206426	ऐश्वर्या ए.	कन्नान ए.	मूथेनी पराम्बोल हाउस, चेमराक्काट्टोर पी०ओ०, एरियाकोड (वाया), जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	30.03.2019	13095			
206427	ऐश्वर्या बी	आर. हरिकुमार	पीआरए-3, 'ऐश्वर्या', पूरावूरकोनम, काराकुलम पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12528			
206428	ऐश्वर्या बेनी	बेनी ऑगस्टीन	कूचपाराम्बोल (हाउस), मुथलाकोडम पी०ओ०, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13267			
206429	ऐश्वर्या देवी के.चद्रन	चद्रन के.डी.	कोम्बुक्कारा, अलपारा पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11235			
206430	ऐश्वर्या के.	राघवन के.	कुडुक्कील (हाउस), इरिगावूर पी०ओ०, तिरूर, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	17.01.2017	11689			
206431	ऐश्वर्या के.	विश्वानाथन के.	अरवाथी निवास, कैम्प रोड, एरियाकोड पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12629			
206432	ऐश्वर्या के.	कुट्टुमनी आर.	मानियानथारा, ओडायचल, पाडिमारुथ पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.08.2019	13343			
206433	ऐश्वर्या लक्ष्मी एम. नायर	के.एस. मुरलीधरन नायर	प्रनवम (हाउस), पुथुपल्लो पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12802			

206434	ऐश्वर्या एम.	सुरेन्द्रन एम.	मालायिल (हाउस), मक्काडा पी०ओ० चेरुकुलम, काक्कोडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12133				
206435	ऐश्वर्या एम. नायर	जी.एस. विनोद	टी.सी. 50 / 1453 (6), श्रीगोपालम, थालियाल, कारामना, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12246				
206436	ऐश्वर्या मोहनन	मोहनन	काडाक्कालकिजाक्कोथिल (हाउस), वेल्लाथोवल पी०ओ०, वेल्लाथुवल, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2018	12588				
206437	ऐश्वर्या एस.	टी.एस.सम्बासीवन	श्रीस्यलम, कोडुकुलजी पी०ओ०, चेगान्नूर, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.07.2015	10870				
206438	ऐश्वर्या एस. नायर	के. शिवादास	सकलपम, पारुवास्सेरी पी०ओ०, कन्नामबरा (वाया), जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.04.2018	12487				
206439	ऐश्वर्या वी.	राघवन वी.	'श्रीपदम' कादिरूर पी०ओ०, काक्कारा, थलारसेरी, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11026				
206440	ऐश्वर्या एम.बी.	मधुसूदनन जी.	बीना भवन, थजामेल, आचल, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13140				
206441	अजना राजन	जे.एस. राजन	नक्षत्र, अप्पाट्टूविला, थिरुपुरम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12006				
206442	अजयदेव एच.ए.	अशोक कुमार एच. वी.	अम्बिका अलामिपल्ली, कन्हानगड पी०ओ०, जिला-कारारागोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	24.08.2019	13339				
206443	अजीबा के.	मोहम्मद के.	कूरिक्कादन हाउस, इदाथनात्तुकारा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11655				
206444	अजीना शा	मोहम्मद शा पी.ए.	अदिवीट्टिल मालायिल, मुथूर पी०ओ०, थिरुवल्ला, जिला-पथनामथित्ता, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	19.10.2016	11567				
206445	अजिन के.	देवादसन के.	कुन्थ (हाउस), कन्नानथोडी, पूवाथिक्कल पी०ओ०, एरियाकोड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13168				
206446	अजीत कुमार सी. एस.	चद्रन एल.	सी.एस.भवन, पेरुमथोड्डम, मुल्लुविला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12385				
206447	अजमल पी.	अब्दुल मजीद पी. सी.	कुलगारा कडी (हाउस), पुथुर पल्लीक्कल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11313				
206448	अजमल एस.	सैफुद्दीन एम.	'जायिज महल', चट्टनचल, पाल्लाथिकल, थेक्कील पी०ओ०, जिला-कारारागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11945				

206449	अजमी महमूद ई.वी.	महमूद	कीरनकाई (हाउस), मुयीप्पोथ पी०ओ०, मेप्पायूर (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.08.2017	12161				
206450	अजमी मोल ए.आर.	एस. अब्दुल रजाक	मानावुविला वीडू, चेन्नापूर, डिसेट जक्शन पी०ओ०, जिला—कोल्लाम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12841				
206451	अखिल ए.आर.	राधाकृष्णन	अल्लम काट्टिल (हाउस), कूडाराही पी०ओ०, वीट्टिपारा, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	16.06.2018	12517				
206452	अखिल हरिकृष्णा सी.एस.	सुरेद्रन के.	काविल शकार कृष्णा, ओट्टारा, कोल्लेनगोड, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11744				
206453	अखिल कृष्णन आर.	के. राधाकृष्णन नायर	कृष्णा श्री, वेगानूर पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.02.2017	11753				
206454	अखिल राज पी.	राजन पी.	पेरियाल हाउस, किनानूर पी०ओ०, पाराप्पा (वाया), बिरीकुलम, जिला—कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2017	12081				
206455	अखिल एस.एस.	शाजी एम.	टीसी 68/1090, केसवामगलम, केएनआरए-257, चौथा माईलस्टोन, पाचाल्लूर पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	12.12.2015	10969				
206456	अखिल वर्घस के.जे.	जुडे के.वी.	2/700, कोल्लानारसरी हाउस, सी.पी. थोडे, पुल्लूपालम रोड, फोर्ट कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	03.10.2019	13419				
206457	अखिला अशोकन	अशोकन	चिरायिल पुथेन वीडू, चथिनामकुलम, चदनाथोपी पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	28.05.2019	13126				
206458	अखिला जी. नाथ	वी.एस. गोपीनाथन अचारी	अखिला निवास (वेट्टियिल), वी.एम. रोड, मन्नारक्कड पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11316				
206459	अखिला जॉर्ज पी.	जॉर्ज जे. पक्रियथ	पक्रियाथ हाउस, ओचुनथुरुथ पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12234				
206460	अखिला के. चद्रन	के. चद्रन	अरवाथी निवास (हाउस), कैम्प रोड, एरियाकोड पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.05.2017	11886				
206461	अखिला के. शशि	शशि ई.के.	इडायमथदाथिल (हाउस), काल्लारा (नींथ) पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.09.2018	12771				
206462	अखिला के. जिडिक	के.एम. जिडिक	काराकुन्नेल (हाउस), एडावेट्टी पी०ओ०, थोडुपुजा, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2018	12594				
206463	अखिला के.पी.	माधवन के.पी.	कोट्टूवाडियन पाराम्बोल (हाउस), कालौकावू पी०ओ०, अम्बालाक्कूनू, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	30.12.2017	12365				

206464	अखिला कुट्टापन	के.वी. कुट्टापन	कुरुट्टी हाउस, एनआरए हाउस नं० 43, नेडुपुजा पी०ओ०, पानामुक्कु, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13041				
206465	अखिला नाध एस.	जी रघुनाथन पिल्लई	अखिलास, एडावाट्टोम, वेल्लीमोन पी०ओ०, जिला—कोल्लाम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11033				
206466	अखिला पी.एस.	सजीव पी.एम.	पेजाक्कामाट्टुथिल हाउस, कलमबूर, इनानाल्लूर पी०ओ०, मुवाट्टुपुजा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13149				
206467	अखिला सुरेश पी.	पी.के. सुरेश कुमार	पुलिकोट्टील (हाउस), कोट्टापपडी, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12047				
206468	अखिला वर्धस	एन.जे. वर्धस	नेल्लीरसेरी हाउस, गवर्नमेंट कॉलेज रोड, नाडाथारा पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12970				
206469	अखिलेश	रतिराम	हाउस नं०-72/102, वीपीओ—मुआपुर, फरीदाबाद, हरियाणा—121101	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	हरियाणा	23.12.2019	6497-ए				
206470	अख्तर जावेद	श्री जैनुल हक	आर-121, जोगा बाई एक्शन बाटला हाउस, ओखला, दिल्ली—110025	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	03.03.2021	बीएचएसडी/5815				
206471	अख्तर सामिम	मो० अफसर अली	गाव-होसैनाबाद डायरा पी०ओ०-उत्तरलक्ष्मीपुर, जिला—मालवा 732207	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32578				
206472	अक्षरा एम.	मुरलीधरन पी.	पुथियादुध पवित्रम, थकाट्टुरसेरी पी०ओ०, चेरथाला, जिला—अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.09.2018	12849				
206473	अक्षय पी.	मोहनदास पी.	पल्लीक्कुथ (हाउस), कोलापराम्बा पी०ओ०, एरियाड, पंडिक्कड, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12009				
206474	अक्षया के.पी.	मनोज कुमार के. पी.	धत्तारकाडी हाउस, फ्लोरिक्कन हिल, मालापराम्बा पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.09.2017	12215				
206475	अक्षया मून पी.के.	उपेद्रन पी.के.	अमृथम (हाउस), पाराम्पथ थाजथ, कूदाथुम पोयिल काक्कोडी पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.11.2017	12311				
206476	अक्षया पी.	अरूणदास जे.	साजिन निवास, मुडुवीट्टुविलाकम, मारुथाथूर, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11974				
206477	अक्षया प्रकाश	ई.के. जयाप्रकाश	मालायील हाउस, मालाकुन्म पी०ओ०, चगानासेरी, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10851				
206478	अक्षयराज के.एस.	साथयाराजन सी.	कृष्णा निवास, कारिजालीपल्लम, चित्तुर पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12680				

206479	अक्षिमा के.एस.	शिबू के.के.	कुट्टाथरा (हाउस), ओचनथुरुथ पी०ओ०, व्यपिन, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12622			
206480	अलका एम. अजय	आर. अजया कुमार	अलाकापुरी, चथानकोनम, कल्लारा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.11.2017	12292			
206481	आलम असारौ अफसाना खातून मोहम्मद	मो० इमरान असारौ	31/2, डॉ० एच.के. चटर्जी लेन, घुसुरी, हावडा-711107	बीएचएमएस	फरवरी-2011	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32555			
206482	अलिना जॉर्ज	जॉर्ज मैथ्यू	वाडाक्केनचेरिल (हाउस), नाडावायल पी०ओ०, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12811			
206483	अलीना जोश	जोश प्रकाश ए.वी.	ग्लेन विला, थेक्केमुरी, टू रोड, ईस्ट कल्लडा पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	10.01.2018	12438			
206484	अलीना रॉय	रॉय मार्टिन	"कूदराम", एम.एम. पाराम्बा पी०ओ०, उन्नीकुलम (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13266			
206485	अलीना एस.जे.	स्टीफन के.	पलाविला वीडु, मुल्लूविला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13077			
206486	अलीना थॉमस	थॉमस के.के.	काट्टाक्कल (एचएसई), चिट्टारिक्कल पी०ओ०, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.08.2019	13354			
206487	अलीशा एम. सुबीर	के.एस.सुबीर	कोल्लामपराम्बोल, पल्लीकाचिरा पी०ओ०, पैप्पाड, चगनाचेरी, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10840			
206488	अल्फिना एम.एम.	एम.ए. मोहम्मदकुट्टी	पालियथ हाउस, कारीकोड, थोडुपुजा ईस्ट पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13351			
206489	अलाफिया अली	टी.के. अली	थेक्केमोलथ (हाउस), एनानालूर पी०ओ०, वेस्ट पुन्नामट्टोम, मुवाट्टुपुजा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13469			
206490	अल्फियाखान एफ.	फिरोज़खान	माविस विला, मुडायिल, वर्काला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11410			
206491	अली मो० फरमान	रव. मो. इयाक अली	प्रातिक पचानन ताला, चलतिया, बेरहमपौर, मुंशिदाबाद 742407	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	बी.आर.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32676			
206492	अली शेख सवैफ	शेख राशिद अली	गाव-गणेशनगर, पी०ओ०-साहाबाजार, जिला-हुगली 712402	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32562			
206493	अलीना अशरफ	अशरफ	जन्नथ, लेडिस हॉस्टल के पास, टी.के.एम. कॉलेज पी०ओ०, कारीकोड, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.09.2018	12812			

206494	अलीशा एन टोम	टॉम जॉर्ज	पलाथोट्टम (हाउस), कोट्टामुरी, अथिरामपुजा पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12532				
206495	अलिवी वी. चिशी	वी. विखेहो चिशी	हाउस न० 176 लेक व्यू विलेज पुराना बाजार दिमापुर 797116	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	13.02.2019	113				
206496	अल्का पी. अरविदाक्षन	पी. अरविदाक्षन	“श्री निलायम”, के.एस.एच.बी. कॉलोनी पी०ओ०, मालापराम्बा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.01.2018	12450				
206497	अल्का आर. नाडक्कल	राजन जॉर्ज	मालायील हाउस, पून्थानम रोड, तिरुवकुलम पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10812				
206498	अल्लन जे. लाल	पी. जयलाल	“ईडन”, पुल्लान्निविला, थुदाथिल पी०ओ०, कारियावाट्टोम, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11645				
206499	अल्फी मैथ्यू	मैथ्यू ई.टी.	एलावाक्कून्नेल (हाउस), केलाकम पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.08.2016	11403				
206500	अलसा भारकरन के. के.	भारकरन के.के.	कन्नाची काडी, नादुवान्नूर पी०ओ०, कोयिलडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.01.2017	11675				
206501	अलथाफ ई.एम.	मोहम्मद इकबाल एच.	फजर मजिल, पुन्नाथाला, थिरुमुल्लावाराम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.05.2017	11864				
206502	अमल चद्रा पी.	चद्रा भानू पी.पी.	पानाक्कल हाउस, आर.एम.वी. रोड, इलामाक्कारा, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2019	13199				
206503	अमल रॉय	के.एस. रॉय	कल्लानीक्कल हाउस, अनाविराट्टी पी०ओ०, इरुट्टूकानम, अदिमल्य, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12694				
206504	अमाला बी.एस.	के. भारत कुमार	अरुण निवास, मचामकोडु, नेयारडम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13190				
206505	अमाला साइरिएक	साइरिएक जोशफ	वाडाकेल (हाउस), थेक्केनाडा, वैकोम पी०ओ०, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11944				
206506	अमाला जयाकुमार पन्नाक्कल	जयाकुमार एम. पन्नाक्कल	“मनासी”, एम.एस. बाबुराज रोड, काल्लई पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.10.2018	12864				
206507	अमाला माथाई	माथाई के.जे.	कुदमथनाम कुजियिल (हाउस), राजापुरम पी०ओ०, कल्लार, जिला-कासरगाड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	29.07.2017	12063				
206508	अमलशामोल के.एस.	के.के.शानमुखन	कारुम्बाकन्डी हाउस, कोलक्कड पी०ओ०, अथोली, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10822				

206509	अमाना मोहम्मद अशरफ	परादन मोहम्मद अशरफ	एलाम्बिलात्ते हाउस, वाताम्पोयिल रोड, वेस्ट काल्लाई, काल्लाई पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	06.04.2016	11213				
206510	अमाथुनासीर सी.	पी. अब्दुल बशीर	माहदी महल, चिना क्ले रोड, पायगडी रेलवे स्टेशन पी०ओ०, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10983				
206511	अमीर शाह टी.एस.	शाहुल हमीद टी.एम.	थलाक्काट्टु हाउस, थोटाक्काट्टुकारा पी०ओ०, मगलापुजा ब्रिज, अलूवा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.02.2017	11756				
206512	अमिना एम.	निस्सार जी.	दारुस्सालम, अलूकाडु, एस.एम. लॉक के पास, पूनथुरा पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	25.10.2018	12922				
206513	अमीना एम.बी.	मोहम्मद बशीर ए.	नीमा, एजबा मजिल के सामने, नीरकुन्नाम, वदनाम पी०ओ०, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.04.2016	11257				
206514	अमीना नाजीम	ए. नाजीम	चित्तानिककारायिल हाउस, कल्लुमथाजाम, किलिकोनूर पी०ओ०, रोयल नगर, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11402				
206515	अमिना एस.	सलीम एम.के.	पुथुवल पुथेन वीडू, अमाराविला, अमाराविला पी०ओ०, नेयात्तिनकारा, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11462				
206516	अमीरफा एम.	अब्दुल्ला एम.	मरहबा हाउस, मुबारक रोड, कोयिलडी पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13022				
206517	अमजीथ नैसम	नैसामुधीन	अमारा, कान्नानल्लूर पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13050				
206518	अमलाह ओ.के.	खलीद ओ.के.	ओलाक्कोट हाउस, कैपामगलम पी०ओ०, जिला—थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12678				
206519	अमृता वासुदेव	वासुदेवन एम.पी.	श्रीहरी हाउस, कोविलाकामकुडू नॉर्थ, मजेरी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.09.2018	12854				
206520	अमृता के.	वी. कुमारन	वानाथिचल, पेरिये पी०ओ०, जिला—कासारागोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.09.2015	10922				
206521	अमृताश्री के.सी.	दामोदरन टी.	अजनीयम, माक्केरी पी०ओ०, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13471				
206522	अमरुता सी.डी.	धरमन सी.पी.	चल्लीयिल हाउस, एलाकुन्नापुजा पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.12.2015	10977				
206523	अमृथा सी.एम.	सजीद्रन सी.एम.	देवीकास (हाउस), अधोलिक्कावू अधोली पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.09.2018	12768				

206524	अमरुता कृष्णन पी.	पी.पी. राधाकृष्णन	वेल्लूर वायाल, बेल्कोथ, अजानूर पी०ओ०, जिला-कासारागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11935				
206525	अमरुता एम.	सुधाकरण एम.	“धुशरा”, बालाथुरुथो, काडालुदी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11001				
206526	अमरुता एम.	प्रसाद एम.	मूधेदथ (हाउस), गवर्नमेंट आर्ट एण्ड साइंस कॉलेज पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	27.09.2017	12257				
206527	अमरुता मुरलीधरन	के. मुरलीधरन	“प्रनवम”, 38/1851 ए, एडवाइजिपुराथु पराम्बा, एडाक्कड पी०ओ०, कुदुपराम्बोल, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2013	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.04.2015	10773				
206528	अमरुता एन. जयन	ए.एन. जयन	निर्मल्लायम हाउस, बाय पास रोड, ईईसी मार्केट पी०ओ०, मुवाट्टुपुजा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13148				
206529	अमरुता साबू	साबू के.के.	कोल्लिक्कापराम्बोल (हाउस), साउथ वाजाकुलम पी०ओ०, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12029				
206530	अमरुता सदासीवान पी.	सदासीवान पैकादन	पैकादन (हाउस), कुरुमबाथूर पी०ओ०, थिरुनावया (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.06.2018	12570				
206531	अमरुता शशिधरन	के.के. शशिधरन	कृष्णा विलासम, मामबाट्टुमूला पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.01.2018	12403				
206532	अमरुता वी.	अशोकन वी.	सी.वी.आर., भावनाम, चलिगल, हरिपुरम पी०ओ०, आन्ध्राश्रम (वाया), कान्दानगड, जिला-कासारागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13294				
206533	अमरुता वी.पी.	सुधाकरण वी.पी.	वेल्लूथेदथ पराम्बोल, इजहुर रोड, तिरूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12417				
206534	अमृतामौल के.एस.	सासि के.एन.	कानियमकुडियिल, कौरिथोडु पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11106				
206535	अनाघा अशोक	अशोकन एम.	कालहरा, कानिनाडा ब्रिज के पास, थोदानूर पी०ओ०, वदाकरा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.04.2016	11248				
206536	अनाघा बाबू ए.	बाबू ए.वी.	अदियिरुथिल (हाउस), एडाविलंगू पी०ओ०, काडुगाल्लूर, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11204				
206537	अनाघा एम.	अम्बाडी पी.	थकायम, त्रिकारूर पी०ओ०, जिला-कासारागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	09.10.2017	12264				
206538	अनाघा राघवन	पी.के. राघवन	लक्ष्मी होम्यो क्लोनिक, तिरूर रोड, तानूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12836				
206539	अनाघदास	बी. कृष्णादास	श्री मूलम, थोडियूर पी०ओ०, कारुणागापल्ली, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2018	12456				

206540	आनंद के.एस.	शकरन नामपुथिरी के.	कारिमपेथु मडोम, काडापरा, निरानाम पी०ओ०, थिरुवात्ला, जिला—पथनमथिष्टा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13143				
206541	आनंद कृष्णा	राधाकृष्णन के.	“हिल हाउस”, चथमगलम पी०ओ०, एनआईटी वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11361				
206542	अनंतकृष्णन वी.ए.	एस. अशोककुमार	वेलिमपराम्बोल पुथेन वीडू, जिला कोट्ट वाई, थथामपल्ली पी०ओ०, जिला—अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11947				
206543	अनन्था सुनील	सुनील कुमार पी.	अनुग्रह (हाउस), गुरुवायुराप्पन कॉलेज पी०ओ०, पोक्कुन्नु, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12752				
206544	अर्नाखा अजीत	अजीत कुमार एस.	पुथेनपुरायिल हाउस, किजाक्केकारा, मुवाट्टुपुजा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13147				
206545	अनारवरा के.जी.	कुरिसुमुथु ए.	के.जी. भवन, अरायूर, अरायूर पी०ओ०, अमाराविला वाया, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11445				
206546	अनारवारा एम. श्रीधर	श्रीधर	मूजिरसैरियिल हाउस, वेल्लून्नी पी०ओ०, केलाकम, जिला—कानूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.06.2015	10827				
206547	अचिता ए.	चद्रन पी.	अजली ऐश्वर्या गार्डन, पानाविला, बालारामपुरम, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2019	13200				
206548	अचू के.एस.	के.जी. केसवा पिल्लई	श्री निलायम, नेडुम कोडु, इच्चिविला (वाया), पारारसाला पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.01.2018	12453				
206549	अचु एस. थोमस	एम. थोमस	काडाथिलविला वीडू, नाल्लूरवाट्टोम, प्लामूट्टूक्काडा पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11447				
206550	एसो सी.एम.	ई.बी. चद्रबाबू	पीस कॉटेज, नेल्लीमूडू पी०ओ०, काजीरामकुलम, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12128				
206551	एसो जॉर्ज	जॉर्ज एम.वी.	मालम्बुरथ हाउस, चथारी, व्यमोथी रोड, सीआरए-46, त्रिपुनिथुरा पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2018	12581				
206552	एसो मारिया एम.ई.	एम.ए. इनासु	मजली हाउस, आर. मगलम, कान्नामबरा पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	03.10.2019	13418				
206553	एसो पी.ए.	एटोनी पी.के.	पेरैक्कादन (हाउस), चेनगलूर पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12094				
206554	एसो पॉल	पॉल	नावाय्योति प्रोविशियलेट, ओलारीक्कारा, पुल्लाजी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.10.2016	11553				

206555	एसी वी.एन.	वार्धस टी.	एसी मदिराम, मनालुविला, कुन्नाथुकल, काराकोनम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.04.2016	11246				
206556	अनीना सुनीचन	सुनीचन	एरसोमपाराम्बोल (हाउस), काहीरादुक्कम पी०ओ०, आनदासरामाम (वाया), जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12738				
206557	अनीस टी.बी.	अब्दुल्ला एम.	मुमतास मंजिल, कीचेरी पो.ओ., महानूर (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12530				
206558	अनीसा सी.	मूरसा	वाजायिल हाउस, अकोडे पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.03.2017	11808				
206559	अनीसा ई.ए.	ई.एच. अब्दुल करीम	काराक्कुजी (हाउस), थोट्टुमुघम पी०ओ०, कुट्टामास्सेरी, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.08.2018	12669				
206560	अनीश मोहन	मोहन के.	“जय” (हाउस), मुथप्पानकावू रोड, एराविमगलम पी०ओ०, चेरुकरा वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	21.03.2016	11160				
206561	अनीश एन.एस.	सुरेन्द्रन	निजरालापेल (हाउस), कूमथोडे पी०ओ०, मारोतिचुवाडू, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.07.2018	12636				
206562	एजल जॉनसन	जॉनसन ए.एल.	अचेरी (एच), ए.के.जी. मंदिर के पास, चेवेरामबालम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10997				
206563	एजल जोशफ	बैबी ए.जे.	एडाप्पट्ट (हाउस), कल्लाडिकोड पी०ओ०, चुगम, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.06.2018	12503				
206564	अमिथा पवित्रन	पवित्रन	वाथुक्कल पाराम्बथ (हाउस), वाट्टोली पी०ओ०, काक्काट्टिल (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.05.2017	11865				
206565	अनिका रोसेल सी.	रोसेल बाबू सी. एल.	चुगथ हाउस, पाट्टीकड पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13406				
206566	अनिला जॉन	जॉन टी.जे.	नाडुथदाथिल (हाउस), थचामपारा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12524				
206567	अनिला जोश टी.	जोश टी.जे.	थलाक्कोट्टूर हाउस, न्हामघट पी०ओ०, अजूर रोड के पास, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.10.2016	11546				
206568	अनिला मोहनन	मोहनन के.के.	मुडाक्कल हाउस, ओलिम्काडावू पी०ओ०, पोकाडम, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	20.07.2019	13213				
206569	अनिला पी.	आनदन पी.के.	अजंनम (हाउस), मुदायम पाराम्बा पी०ओ०, पयाम (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12095				

206570	अनिता प्रिया एस.	इंदिराक्षण	अनिल भवनम, मुक्कनथल बी. (कुप्पाना), पेरिनाड पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13043				
206571	अनिता राजम टी. आर.	थकाराजन के.	वारुविलाकथू वीडू, एथियूर, बालारामपुरम, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11178				
206572	अनिता टी. अब्राहम	अब्राहम टी.एस.	धुरुथिचिरा हाउस, वाडाकचेरी आर.एस. पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11539				
206573	अनिता विजयन	के.के. विजयन	किजाक्के किजीयाना (हाउस), एदाकुलम पी०ओ०, कोयिलडी, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11522				
206574	अनिता प्रकाश	प्रकाश कुमार के.	'कैम्पूरथ' हाउस, वेलागेरी पी०ओ०, जी.ए. कॉलेज, पालाजी, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12052				
206575	अनीस अहमद	रसुल अरारी	एस.के.एच. मेडिकल कॉलेज, विद्या नगर (वेस्ट) बीड, महाराष्ट्र—431122	बीएचएमएस	2015	यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी	बिहार	26.12.2020	34225				
206576	अनिशा धर्मराज के. पी.	धर्मराज के.पी.	कन्नमपुरथ (हाउस), पाराप्पानागडी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12350				
206577	अनीशा कुरियन	कुरियन मैथ्यू	थोम्बिकोट्टु (हाउस), कुलापाराचल पी०ओ०, कुरुविलासिटी, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12137				
206578	अनीषा पी.	अनिलकुमार पी.	'सकरा', पुथुरसेरी, काडालुडी पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	12.10.2018	12913				
206579	अनिषा पी.एस.	सुधरसनन पी.	पेरुकुलगारा (हाउस), पेरुवेम्बा पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12704				
206580	अनित कुरियन	कुरियन	वाडाक्केल हाउस, पूनजार थक्केकारा पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12889				
206581	अनिता सन्नी	सन्नी ऑगरस्टीन	इदिनजापुजाक्कल (हाउस), कोडुम्पिडी पी०ओ०, इलिवली, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.08.2018	12759				
206582	अजली ए.	अशोकन एम.के.	मैथनी पाराग्बा (हाउस), कुथुपाराम्बा पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.01.2018	12449				
206583	अजली ए.	अनिल कुमार एस. आर.	अनीषा कौटंज (हाउस), थिक्कलंगोडु पी०ओ०, कारिक्काडु (वाया), मजेरी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12620				
206584	अजली ए. एम.	वलसन ए.एम.	श्रीलकम, अथाजाकुन्मल, नामिदा, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12744				
206585	अजली जैम्स	ए. जैम्स	इडात्तु हाउस, वेनमोनी पी०ओ०, वारिक्कामूथन, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12938				

206586	अजली जयाराज	जयाराजन यू	“अरवाधी”, मडाप्पल्ली कॉलेज पी०ओ०, वटाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	13.04.2016	11221			
206587	अजली के.वी	मोहनन के.वी	किजाक्केवारापुरथ काडी (हाउस), कोत्तुर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	25.07.2016	11376			
206588	अजली कृष्णा एस.	बीकृष्णनकुट्टी नायर	श्रीमूलम, नजाराक्काट्टुविला, नेदुमपाराम्बू पी०ओ०, अट्टिगल, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.04.2018	12490			
206589	अजली एम. जॉर्ज	जॉर्ज	अजली भवन (एच), मोव्वार पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.12.2015	10974			
206590	अजली मानायिल	अनिल कुमार वी	थुलसी, मानेक्कारा, पानियानूर पी०ओ०, धालास्सेरी, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.01.2016	11012			
206591	अजली आर. कृष्णन	के राधाकृष्णन नायर	पुलियानथनाम (हाउस), वाजाप्पल्ली पी०ओ०, चगनाचेरी, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12598			
206592	अजली रविन्द्रन के.	रविन्द्रन नायर के.	कोम्पिलड (हाउस), थुरुथियाड पी०ओ०, बालूरसेरी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12173			
206593	अजली एस. मनोज	मनोज के.के.	शरावीटिल (हाउस), कूमथोडे पी०ओ०, कारीक्कोट्टाकारो, पयाम (वाया), इरिट्टी, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	25.10.2017	12288			
206594	अजली टी.वी	विरवानाथन टी.पी	थंजिरसेरी हाउस, धमारायुर पी०ओ०, कोट्टापडी वाया, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.08.2016	11389			
206595	अजली विक्रमन	जी टी विक्रमन पिल्लई	धदाथिल पुथेन वीडू, पाजाकुलम पी०ओ०, आडोर, जिला-पाथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	04.05.2015	10796			
206596	अजली के.ए.	आर. कल्याण सुदरम	उथरादम, टी.सी 21/677, पम्बरा-47, पाल्लीथानाम रोड, नेडूकोड, कारामाना पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	16.11.2015	10954			
206597	अजली आर. नायर	के.एम. रविन्द्रन नायर	कोल्लाका, अट्टारिकोम, ओमाल्लूर पी०ओ०, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12120			
206598	अजली रमेश	टी.आर. रमेश बाबू	अय्याप्पा कृपा (हाउस), थिचट्टुकुलम पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11921			
206599	अजना ए.आर.	राधाकृष्णा पिल्लई पी.एम.	कृष्णालयम, कोट्टक्कल पी०ओ०, आचल, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2017	11679			
206600	अजना बी	बालाकृष्णन टी.पी	कृष्णा लयाम, विल्लयाप्पल्ली पी०ओ०, वाडाकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12709			
206601	अजना के.	चद्रन के.	काडारसेरी हाउस, चेत्टोप्पाडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12086			

206602	अजना एम.के.	राजन एम.के.	एलथेटाविदा (हाउस), कडावाथूर पी०ओ०, थलारसेरी, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12529				
206603	अजना पी.	बालासुब्रहमणियन पी.	पेजुगल्लि (हाउस), जे.एन. रोड, पेरितलमन्ना, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2016	11310				
206604	अजना एस.	एम.एस. बिजू कुमार	सुदिश भवन, ओरुत्तमबलम, ओरुत्तमबलम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12612				
206605	अजना एस. मोहन	मोहनन के.	दालावामाडोम, कृष्णापुरम पी०ओ०, कायमकुलम, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11326				
206606	अजना सतोष	सतोष कुमार के. वी.	कोथमगलथ (हाउस), चेरथाला पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11952				
206607	अजना वी. कुमार	पी.आर. बिजूकुमार	मानीमादिराम (हाउस), चिगावनम पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13142				
206608	अजनी कृष्णा टी.के.	उन्नीकृष्णन टी.	कालारिककल हाउस, कोडान्नूर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.03.2017	11818				
206609	अजोथा सी. चद्रन	सी.जी. चद्रन	चेरुवाल्लिपडी (हाउस), कोमबनाड पी०ओ०, मुनिप्पारा, पेरुमबावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.09.2018	12816				
206610	अजिथा पी.	राजागोपालन पी.	पोजयिल हाउस, नाडूवथ पी०ओ०, वडोर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.08.2017	12141				
206611	अजिता पी.एम.	सुकुमारन पी.	दोपाकम (हाउस), मुट्टिल पी०ओ०, कालपट्टा (वाया), जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13460				
206612	अजू ए.पी.	सुरेशकुमार ए.पी.	अदाथिल पुरायिल (हाउस), पेनगोट्टुपुरम, कुन्नामगलम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12157				
206613	अजू ए.एस.	श्रीकुमारन नायर	मेक्केसूलाङ्कुजी वीडू, ओट्टासेखरामगलम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11953				
206614	अजू अरविद पी.टी.	अरविदाक्षन पी.	पाट्टारुथोडियिल (हाउस), पुलिककल पी०ओ०, पेरियामबलम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12176				
206615	अजु चेरियन	चेरियन जोशफ	उरुम्बुकुजिहिल (हाउस), कजौरापुञ्जा पी०ओ०, मन्नारकाड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11149				
206616	अजु दास सी.	हरीदासन सी.	वृदावनम चेरुली (हाउस), मकाडा पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	04.08.2018	12681				

206617	अजू ई.आर.	रारीचन	एलामपुरादिदाथिल (हाउस), पजामरिकदोम पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.06.2018	12557				
206618	अजु जॉर्ज	जॉर्ज एन.जे.	नाडुधदाथिल (हाउस), थचामपारा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13304				
206619	अजु जॉर्गी	जॉर्गी	प्यनादथ हाउस, 6/1063 ए, साफा बिल्डिंग, हेड पोस्ट ऑफिस, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13415				
206620	अजू के.एस.	के.एम. नारायणन उन्नी	कजीराक्काट्टू माडोम, पक्कोल पी०ओ०, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	28.01.2017	11706				
206621	अजु के.वी.	चद्रन के.वी.	कोगारसेरी वालापील, अरुण कॉटेज, कालाडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2015	10881				
206622	अजु कृष्णा	एम.एस. वासु	अयाम्कुडियिल (हाउस), अट्टापल्लेम पी०ओ०, अट्टापल्लेम, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.04.2016	11261				
206623	अजु एम.जी.	गगाधरन नायर एम.	बेनूर (हाउस), पेरुम्बाला पी०ओ०, कालानड वाया, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.10.2016	11528				
206624	अजू एम.एस.	सी.वी. मधुसूदना वारियर	चेगाला वारियम, रमनथली पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12558				
206625	अजु मेरी जॉर्ज	वार्घस	वेल्लाक्काकुडियिल हाउस, राजाकुमारी (एन) पी०ओ०, राजाकुमारी, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10894				
206626	अजु पी.	दामोधरन पी.	श्रीनिलायम हाउस, मक्कारापारम्बा पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10837				
206627	अजु पी.	विनोदकुमार पी.	पिडियाथ हाउस, पेरिजनम पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.05.2017	11870				
206628	अजु पी.	अप्पुकुट्टन ई.	पाराम्बोल हाउस, वैदियारागडी पी०ओ०, रामानाट्टुकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.10.2018	12865				
206629	अजु प्रभाकरण टी.	प्रभाकरण टी.के.	थेवैलिल हाउस, मेथला पी०ओ०, कोडुगाल्लूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12639				
206630	अजू रथीश पी.	रथीश कुमार पी.	पाराक्कुलगांरा (हाउस), कोलाक्कड पी०ओ०, अथोली (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12843				
206631	अजू एस.	शिवाशकरन के.	'अजनाम', ननामुक्कू पी०ओ०, चगारामकुलम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12057				

206632	अजु एस. नायर	बी. सोमाराजन नायर	शौला सदानाम, इनाथु पी०ओ०, जिला-पाथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12807				
206633	अजु शिवराम	सिवारमन ओ.	ओमबलामुरिकल हाउस, नेनमेनी, सुलतान बाथेरी, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10833				
206634	अजु टी.	देवादास टी.	थेमपट्टी हाउस, काप्पील पी०ओ०, वडोर (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.05.2017	11868				
206635	अजु थुरुथिवायलिल	गोपालन टी.वी.	थुरुथिवायलिल (हाउस), मानियूर पी०ओ०, पायेली (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12710				
206636	अजु वी. लॉरेस	लॉरेन्स एस.	ग्रीन व्यू, वाडाक्केमावुगल, थिरुपुरम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13083				
206637	अजु वी.एन.	चद्रन वी.एन.	वालियानादाम्मल (हाउस), नाडुवाथूर पी०ओ०, कोयिलडी वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11388				
206638	अजु विलसन सी.	विलसन कुरियन सी.	चेरुवाथोर (हाउस), फिल्ड नगर, कुन्नामकुलम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12019				
206639	अजलौ पी.एम.	माधवन टी.	माला निवास, वल्लिकुन्नाम पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11508				
206640	अजुप्रिया आर.	रामाचद्रन सी.एच.	अचेना (हाउस), चोरोंड पी०ओ०, वडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.10.2016	11532				
206641	अकिता के. नायर	उन्नीराजन ए.	थुशराम, पुथियाकदम, मुथाप्पनार कावू के नजदीक, पडान्नाक्कड पी०ओ०, जिला-कासरगाड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13463				
206642	अकिता प्रिया	परमानंद प्रसाद	पोस्टल पार्क, जवाहर कॉलोनी, रोड न०2, पटना, बिहार-800001	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33706				
206643	एन मारिया जॉर्ज	जॉर्ज थॉमस	वाडाकुमुकालायिल (हाउस), कजीराथनाम पी०ओ०, मजूर (वाया), जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2019	13215				
206644	एन मेरी सोजन	सोजन कुरियाकोस	इलुवालुमकल (हाउस), कालीयार पी०ओ०, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12595				
206645	अन मैथ्यू	मैथ्यू जोशफ	एरुमाला हाउस, पानीपरा पी०ओ०, कोथमगलम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11914				
206646	एन मौलिया	जोश एम.वी.	माडाथिल हाउस, एरामाल्लूर पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13171				
206647	एन शिल्पा जॉय	जॉय टी. थॉमस	अक्षिथा हाउस, डी.पी.ओ. रोड, एम.एस.एल.पी.पी.एस. के पास, मलपुरम पी०ओ०, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11525				

206648	एनी ए.	अब्दुल रहमान कुजू	कालीक्कल हाउस, पाडा नोर्थ, टीएनआरए-56, करुणागपल्ली पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10803				
206649	अनूप सौ.	चेत्लापन एन.	अनु भवन, काजक्कुन्नु, चुल्लीमानूर पी०ओ०, नेदुमगड, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.07.2018	12573				
206650	अनूप के.एस.	शाशिधरन	किलियाथारा हाउस, इदामुट्टम पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13031				
206651	अनूप कृष्णन	अप्पुकुट्टन नायर पी.	पालाधिकल हाउस, नोर्थ अर्याड पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11951				
206652	अन्ना हाशमी वी. एच.	वी.के. मोहम्मद हाशोम	वाडाक्केवीतिल हाउस, एडावानाकड पी०ओ०, इल्लाथुपडी लेन, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11929				
206653	अरार मो० फारुक बिन	असार अली	गाव व पी०ओ०-इटाचुना, जिला-हुगली 712147	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32502				
206654	असारी मो० अरकम	मो० मजूर आलम	हाउस न० 45/4 बी.एल. न० 22, बराई पारा, पी०ओ०-आर. एल.बी. लेन, जगतदल, नोर्थ 24 परगनास 743194	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32694				
206655	असीना ए.	अजारी एम.	धनुवीलेल, चगनकुलगारा, वाव्वाकावू पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.05.2018	12496				
206656	अशा परवीन कुमालिल थजाथथिल	अली के.टी.	कुमालिल थजाथथिल (हाउस), कान्हीपुरा, कारीपोल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13468				
206657	अशिरा थरसनीम वी.	अहमदकुट्टी वी.	वाडाकिनीयेदथ (हाउस), काल्यपल्ली, मावूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	17.08.2018	12739				
206658	अशया जेम्स	पी.पी. जेम्स	पुलिमूत्तिल हाउस, एन.एस.एस. स्कूल के पास, साउथ चलाकुडी पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11116				
206659	असी मोहम्मद पी.	मोहम्मद पी.	पालेकोडन हाउस, नीरड, मुधुवाल्तूर पी०ओ०, कोडोड्टी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.02.2019	13008				
206660	असिया ए.	अजर	चथनामूडू वीडू, पुकायिला पडाकशाला, थमाराकुलम, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12653				
206661	असु सुसान अब्राहम	के.ए. अब्राहम	कन्नुकुजियिल (हाउस), कलेक्ट्रेट पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.12.2017	12334				
206662	अनु ए.ए.	ए.जी. अनिल कुमार	8/286 एफ, प्रभा अपार्टमेंट, सिल्क गली, बीच पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12671				

206663	अनु अटो	एम वी एटोनी	अलवेर्निया प्रोविशियल हाउस, चलाकुडी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12165				
206664	अनु जैकब	चाक्को मैथ्यू	पूवाक्कुलम (हाउस), कोरुथोडू पी०ओ०, कुट्टिकायम, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.07.2017	12032				
206665	अनु जॉन	जॉन पी.ए.	पाराप्पानाकोडे पुथेनपुरा, पाथिरिकोडे पी०ओ०, मेलात्तूर वाया, जिला—मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.01.2016	11048				
206666	अनु के. कुमार	अनिल कुमार के. बी.	काल्लोलिल हाउस, अधिनाडू पी०ओ०, पाला, जिला—कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	19.10.2016	11568				
206667	अनु लुके	लुका मैथ्यू	पाराथनाथ (हाउस), उरुट्टेरी, थडिक्कादावू पी०ओ०, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13296				
206668	अनु मारिया एटोनी	पी वी एटोनी	पनावेलिल (हाउस), पूमकावू, पथिराम्पल्ली पी०ओ०, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	13.06.2017	11895				
206669	अनु मरियम जॉन	जॉन कुरियन	पालीकुनेल हाउस, चनानिकाडू पी०ओ०, जिला—कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12755				
206670	अनु मैथ्यू	के.जे. मैथ्यू	कारिप्पामाट्टोम (एच), कोगनडोर पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10946				
206671	अनु मोहन	जी.एस. मोहन	अजू बिला, एलपीजेएस के पास, वरकाला पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12244				
206672	अनु पी.	पुरुषोत्तमन के.	मेलैकोट्टायथू हाउस, फोल्ड नगर, कोलाजी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12675				
206673	अनु पी.ए.	पी.के. अदावन	पूवाथिन पाराम्बोल हाउस, पारुथिपुल्ली पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12098				
206674	अनु पॉल वी.	पॉल वी.वी.	विथायाथिल हाउस, कोराट्टी ईस्ट पी०ओ०, थिरुमुडिक्कून्नु, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.12.2018	12958				
206675	अनु एस.	सुरेश बाबू आर.	अजली निवास, पेरूर लेन, एन.एफ. गेट, त्रिपुनिथुरा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.08.2018	12722				
206676	अनुजा बाबू	बाबू टी.जी.	श्रीविलासम (हाउस), पानापुजा पी०ओ०, पारावूर, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12804				
206677	अनुजा सी.एस.	राधाकृष्णन नायर एस.	थोड्रापुरा वीडू, कुदायल पी०ओ०, वेल्लाराडा (वाया), जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12088				

206678	अनुजा जॉन	जॉन डेनियल	माथिला विला, नाल्लिला पी0ओ0, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.04.2019	13101				
206679	अनुजा उन्नीकृष्णन	उन्नीकृष्णन वी.के.	चिथिरा, मुधुकुलम साउथ पी0ओ0, मुधुकुलम, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.06.2019	13131				
206680	अनुला एस.आर.	रवीन्द्रनाथन के.	इल्लाथ (हाउस), वाकायड पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	25.07.2016	11375				
206681	अनुमोल अलीश	अलीश पी.पी.	पारामेलिल (हाउस), चेम्पनाडू वारिकोली पी0ओ0, पुधेनकुज, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13172				
206682	अनुमोल जॉनसन	जॉनसन जोशफ	पालमकुन्नेल (हाउस), काहिरादुक्कम पी0ओ0, आनदासराम (वाया), जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2018	12602				
206683	अनुमोल पी.जी.	ई.के. गोपी	पुधेनपुराक्कल (हाउस), कूवाक्कदोम पी0ओ0, मेथोटी, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12640				
206684	अनुपम ज्योति	प्रमोद कुमार	गली न0 8, घना कॉलोनी, रामकृष्णा नगर, पटना 800027	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भौमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	27.09.2019	33272				
206685	अनुपमा	श्री कृष्णपाल सिंह	हाउस न0 5015-ए, गली न0 04, कौशिक पुरी, ओल्ड सीलमपुर, दिल्ली-110031	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5740				
206686	अनुपमा जयाधिलाकन	जयाधिलकन सी.	चद्रोथ हाउस, इलायावूर, थाजे चूवा, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13462				
206687	अनुपमा के.सी.	बालारमन के.सी.	चेरोरामान्नील, कोनोट पी0ओ0, कुन्नामगलम वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.04.2016	11242				
206688	अनुपमा के.पी.	गोपीनाथन नायर के.पी.	अरून निवास, अम्बालापडै, वडूर पी0ओ0, जिला-मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11032				
206689	अनुपमा कुमारी	राधे श्याम साह	श्याम निवास, विवेकानन्द पल्ली, सुर इज. वर्क के पास, इरमाईल वेस्ट आसनसोल 713301	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32455				
206690	अनुपमा एम.जी.	मोहन कुमार एम.	मोहनाम, टी.सी. 55/1059, अपरा ए21, कालाडी, कारामना पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13414				
206691	अनुपमा एम.एस.	सुधाकरण एम. आर.	मानाट्टुपाराम्बील हाउस, नायाराम्बालाम पी0ओ0, कोचो, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11282				
206692	अनुपमा पी.वी.	पी.वी. शशिधरन	“अनुपुक्था निवास”, काहिरा, थोड्टाडा पी0ओ0, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12901				

206693	अनुपमा एस.	ससिदरन नायर जी.	अम्बादी, मन्नाक्कल थिरुपुरम पी०ओ०, नेयाट्टिनकारा, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11188				
206694	अनुपमा एस.बी.	के सुधाकरण	अनीश भवन, थेक्कुम्पुडू, थोलेक्कूडू पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10842				
206695	अनुपमा वी.पी.	पदमनाभान वी.	“अनुपमा” (हाउस), मगलम पी०ओ०, जिला—मालापुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	30.04.2016	11259				
206696	अनुपमा वी.पी.	प्रभाकरण वी.के.	वैक्काथोडी (हाउस), कूरड पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.06.2017	11893				
206697	अनुपमा वर्षीस वी.	एस. वर्घेसे	ट्रीमलैण्ड, अम्बालाथारा पुरायिदम, नीराविल, पेरिनड पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12140				
206698	अनुप्रसाद के.के.	सोमन नायर	प्रसूनम (हाउस), कूरिकुन्मल, कान्नाडिपोयिल पी०ओ०, बालूरसेरी (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2017	12190				
206699	अनुप्रिया एस. कृष्णन	के.सी. राधाकृष्णन	कानोडिचलिल (हाउस), कोट्टूर पी०ओ०, नाडुवान्नूर (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.12.2017	12331				
206700	अनुप्रिया वी.	सुब्रमयन	वल्लमकुलम (हाउस), कोट्टियूर पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11152				
206701	अनुराज जे.बी.	जी. जयाराज	राज भवन, मथारा, माय्पाजाक्कारा, पेरुमपाजुथूर पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.11.2016	11591				
206702	अनुरेज ए.आर.	अजयाकुमार पिल्लई के.	थिरुवोनम, चेम्माकद पी०ओ०, पेरौनाड, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11140				
206703	अनुरेजिनी ए.एस.	अनिलकुमार डी.	अनिता भवन, अचूमराम्काला, वेल्लाराडा पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12559				
206704	अनुशा अशरफ	अशरफ के.ओ.	कैथपोला पुथेन वीडू, पावर हाउस वाई, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12352				
206705	अनुशा के. जॉर्ज	जॉर्ज के.एस.	कुरुन्नापिल्लिल (हाउस), थट्टेकाडु पी०ओ०, पालामाट्टोम, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13170				
206706	अनुशा मारियम टी.	थाहीर ए.ए.	हीरा कॉटेज, अलामकोड पी०ओ०, अट्टिनगल, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.02.2019	13045				
206707	अनुशा रॉय	के.जे. रॉय	कोयूपराम्बोल हाउस, पालकारा पी०ओ०, निलम्बूर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12701				

206708	अनुशा यू.बी.	वी.के. बालाचद्रन	उषा मालारी, कनाराविला, नेल्लीमूड पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11055				
206709	अनुशा विजयन	विजयन ए.के.	अयाचिरा हाउस, वत्तानाथरा पी०ओ०, अलागप्पा नगर वाया, कावाल्लूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11117				
206710	अनुष्का सुभाष	रोबरिटयन	वालियामगलम (हाउस), कालाथुकादावू थलाप्पालम, जिला-कोडियाम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12756				
206711	अनुश्री एम.	सुगथन एम.	मेप्पाराम्बथ (हाउस), काराकालीपाराम्बू, मान्नूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13164				
206712	अनुस्मिता मौसिमो	कृष्णा के.	रिमथराग, मुदाकनम, पुथिगे पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2018	12631				
206713	अनुश्री जी.एस.	सी.के. गोपी	गोपिका (हाउस), पुराक्कातिरी, थलाकुलाथुर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.09.2016	11481				
206714	अनुश्री के.के.	मोहनन	काडोथु कुलगारा (हाउस), एरावाट्टूर पी०ओ०, पेराम्बरा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12618				
206715	अनुश्री आर.एस.	राघवन एन.पी.	नीलमपाराम्बोल हाउस, वाल्लोयी, पथयाकुन्नू पी०ओ०, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13262				
206716	अनुश्री एस. चद्रन	के.वी. चद्रशेखरन	कोट्टाक्कल (हाउस), पुलिकुम्बा पी०ओ०, नाडुविल (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11932				
206717	अनुश्री एस.एन.	नारायणन	कोरोथ (हाउस), आवाला पी०ओ०, मेप्पायूर वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.02.2017	11761				
206718	अनुश्री वी.एस.	सी.एच. सुरेन्द्रन	चुदाक्कट्ट (हाउस), कोट्टूर पी०ओ०, नाडुवान्नूर (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.01.2018	12375				
206719	अनुश्रुति के.ए.	अरविदाशन	कालेन कोलुम्बू कलाम, पेरुवेम्बा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11995				
206720	अनवर आशिफ	जमालुदीन असारो	एट एण्ड पोस्ट-समाहुता, पु०स्टे०-कचवान, जिला-रोहतास, बिहार-821309	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33695				
206721	अजिया ए.एस.	अशरफ हाजी एम.	जालिका, पुलिप्पारा, नेडुमगड पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	09.10.2017	12263				
206722	अजिया अजीज	एन. अब्दुल अजीज	अजिल्दविला पुरायिडोम, पथारिक्कल पी०ओ०, पथानापुरम, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.05.2017	11873				

206723	ओचुबा पोणेन	लिमालेम्बा	हाउस नं० 25 टजुसापाग मोकोकचुग नागालैण्ड 798601	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	25.09.2019	122				
206724	अपर्णा अनोश	अनोश पी.आर.	पानगायिल (हाउस), काथापाराम्बू पी०ओ०, कोडुगल्लूर, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12526				
206725	अपर्णा बाबू	बाबू पी.वी.	अधिरा गार्डन, कुदावेचूर पी०ओ०, वैकोम, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10790				
206726	अपर्णा सी.के.	राधाकृष्णन सी.के.	देवीकृपा थलियादथ पाराम्बू, वेस्थील पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.05.2019	13110				
206727	अपर्णा गोपी	गोपी के.के.	कालाक्काट्टूर (हाउस), मूलामत्तोम पी०ओ०, मूलामत्तोम, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11201				
206728	अपर्णा एन.के.	राजीवन सी.के.	मगोत (हाउस), एरीकालथाजे, कोल्लम पी०ओ०, किलडी, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	09.10.2018	12907				
206729	अपर्णा पी.	मुकुदन पी.	अनुग्रह, पाराक्कोट्ट, कन्नानकारा पी०ओ०, चेलानूर (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.09.2018	12769				
206730	अपर्णा पालेरी	वेन्गोपाल एम.पी.	वैष्णवम हाउस, थालिचलम, इलामबाची पी०ओ०, साउथ त्रिकारीपुर, जिला—कासारागोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.12.2016	11649				
206731	अपर्णा प्रकाश	जया प्रकाश	कुन्नाथु हाउस, पेरिगास पी०ओ०, थिरुवाल्ला, जिला—पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11961				
206732	अपर्णा एस०	वी.बी. श्रीनिवासन	सोपणिका, मंगाराम, कोन्नी पी०ओ०, जिला—पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.04.2016	11249				
206733	अपर्णा एस. कुन्नुमेल	शिघरन के.आर.	कुन्नुमेल पाराम्बील, थठाम्पल्ली पी०ओ०, जिला—अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10839				
206734	अपर्णा सुधीन	सुधीनदन ए.एस.	अपर्णा, टी.सी 30/970 (2), सी. केशवन रोड, पेल्लाह पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2016	11560				
206735	अपर्णाराज ए.	राजन के.के.	अपर्णा (हाउस), चेनोली पी०ओ०, पेराम्बरा (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.04.2017	11857				
206736	अपूर्वा आर.एस.	वी.के. राधाकृष्णन	जय विला, कारामूडू, काल्लायम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2019	13218				
206737	अप्सू वर्धस	वर्धस पी.ई.	पडायट्टिल (हाउस), अगामली, किडनगूर पी०ओ०, थुरावूर, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11920				
206738	अपूर्वा	राजेन्द्र प्रसाद	वीपीओ—बादोपाल, जिला—फतेहबाद, हरियाणा—125048	बीएचएमएस	2020	प० बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, रोहतक	हरियाणा	18.09.2020	6533—ए				

206739	आरा अर्शी	आरिफ अज़िमी	84/4, नारकेलदगा नोर्थ रोड, पी0ओ0 व पु0रस्टे0-नारकेलदगा 700011	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32558				
206740	आरा रोशन	शमशाद आलम	जेड-3/103/बी, डॉ0 ए.के. रोड, पी0ओ0-बादरताला, कोलकाता-700044	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32778				
206741	अराया मुरली	मुरलीधरन पी.के.	पालानिलक्कुनाथिल वडाकैथल, मूडियूरक्कोनम पी0ओ0, पडलम, जिला-पथनामथिटा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12134				
206742	आरती ए.आर.	राजेन्द्रन जी.	अजली, टी.सी. 43/353, कमलेश्वरम, मानाकोड पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	23.09.2017	12222				
206743	आरती प्रदीपन	के.के. प्रदीपन	कोनाट्टु हाउस, वाडावुकूडे पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13188				
206744	आरती पी.	प्रमाकरण नायर जे.	नदनम, अलूमूडू पी0ओ0, मुकाथला, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13057				
206745	अरविद सी.यू.	सी.एस. उन्नीकृष्णन	चुल्लीमगलाथु इल्लोम, चेम्पू पी0ओ0, वैकोम, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13261				
206746	अरविद के. राज	एम. राजन	राजधानी (हाउस), इरोगापुरम पी0ओ0, पुथनपल्ली (साउथ), जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12171				
206747	अरविद एल.एस.	सुदरन नादर	एल.एस. भवन, पोटाक्कुजी, पलामूट्टूकाडा पी0ओ0, अमाराविला वाया, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11737				
206748	अरविद एस. नायर	सिवदास पी.सी.	'स्वाति', टी.सी. 8/1156-1, वालिया विला, थिरूमाला पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10787				
206749	आर्चा पी.	प्रेमन पी.	सरायू (हाउस), कोडक्कड पी0ओ0, चेल्लैपडै वाया, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11150				
206750	अर्चना बेबी	बेबी एड्डयूज	ऐराथु (हाउस), विजयागिरी पी0ओ0, अलाकोड, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13259				
206751	अर्चना जे. नायर	जयाकुमार एम.के.	चमपोट्टु मालियल हाउस, वाडयार पी0ओ0, थलाथोलापराम्बु, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.11.2018	12925				
206752	अर्चना के.	उन्नी वी.पी.	कीर्थी (एच), कोक्काल्लूर पी0ओ0, बालूरसेरी वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10993				
206753	अर्चना के.एस.	शिवारमन के.के.	कालाचिरा (हाउस), अराकाथाजम, कोडुगल्लूर पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12527				

206754	अर्चना मोहन वी.	चद्र मोहन एस.	अर्चना, डीसेट जकशन पी०ओ०, मुखथला, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.04.2017	11845				
206755	अर्चना पी. नायर	एम. जयाचद्रन	मलेकलपाकासेरी वीडू, विवेकानंद नगर, पाप्पानाक्कोड, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11459				
206756	अर्चना प्रसाद	सिवा प्रसाद	मैलायिल वाडाक्काथिल, माधिलिल पी०ओ०, पेरिनड, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	05.04.2016	11211				
206757	अर्चना प्रिया एम.पी.	के. प्रथापन	प्रथपा सदानम, सधिपुरम, मूल्लूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	05.01.2017	11671				
206758	अर्चना उन्नीकृष्णन	उन्नीकृष्णन पी.के.	पी.के. हाउस, साउथ बाजार, कुट्टीपुरम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.08.2019	13359				
206759	अर्चना वी.	वेकिटचलम पी.टी.	पथापुलाक्कील (हाउस), कोट्टापुपुरम पी०ओ०, श्रीकृष्णापुरम वाया, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11537				
206760	अर्चिथ लाल पी.	पी.मनोहर लाल	लात्स, कॉलेज रोड, रामानुट्टुकारा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.06.2019	13184				
206761	अर्धरा सी	विद्याधरन सी	चम्बायिल (हाउस), अराक्कीनार पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.01.2016	11016				
206762	अर्दस असोक एम. पी.	अशोकन एम.पी.	मालायमपराम्बथ (हाउस), अरियाल्लूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	02.05.2016	11264				
206763	अरद्रा एन.सी.	चद्रन के.पी.	काराट्टुपोयिल, नामिदा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.09.2018	12850				
206764	अरद्रा आर.पी.	रामाचद्रन पी.के.	मुदायिल (हाउस), थैयमदाडिक्कुथ, चम्बरारसेरी पी०ओ०, पडिक्कड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12625				
206765	अरफीन आलिया	मो० अरीफ	13/एच/1/2 इलियोट लेन, कोलकाता-700016	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32756				
206766	अर्जुन बी.राज	बाबूराज पी.ए.	पुथेन वीदू (एच), पेरिगोत्तुकुरिरसी, जिला पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	25.04.2015	10781				
206767	अर्जुन सी.एच.	सुरेन्द्रन सी.एच.	राम निवास (हाउस), पुरामेरी पी०ओ०, वाटाकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13291				
206768	अर्जुन गोविंद	मोहन	"मोहनालायम", हाउस, मादापल्ली कॉलेज पी०ओ०, वाटाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	12001				

206769	अर्जुन एम.	सुधाकरण एम.	मूडोट्टू (हाउस), एनआईटीसी पी०ओ०, चेनोथ (रोड), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	16.06.2018	12516				
206770	अरूबा एन.	अब्दुल खदर एन.	पोट्टाम्मल हाउस, मुथुवाल्थूर पी०ओ०, कोडोड्टी, नीरद, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	16.12.2017	12341				
206771	अरोडा अक्षरा	श्री राजय कुमार अरोडा	बी-55, ग्राउड प्लोर, मोती नगर, नई दिल्ली-110015	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	21.09.2020	बीएचएसडी/5783				
206772	अरोडा सिमरन	श्री सी.एस. अरोडा	पॉकैट-ई, 344-ए, एलआईजी पलेट्स, जी.टी.बी एन्कलेव, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-93	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	13.08.2020	बीएचएसडी/5692				
206773	अरोडा सिमरन	श्री अजीत अरोडा	3784, गली न० 21, रेघारपुरा विष्णु मंदिर, नई दिल्ली-110005	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5733				
206774	अर्शा अशोकन	अशोकन सी.वी.	चथेनगदन हाउस, वेल्लामचिरा पी०ओ०, वेल्लामचिरा, जिला-थ्रिस्सुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.03.2019	13048				
206775	अर्शा चद्रन	चद्रदेथन के.जी.	प्रणावम, पाराथल पी०ओ०, पदालम जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11398				
206776	अर्शा पी.	अशोकन पी.	श्रीपदम हाउस, किजाक्के मादाथिल, मानूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11996				
206777	अर्शना एम.वी.	अहमद कुट्टी	बैथुल खसाब, मुदरी पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.08.2018	12720				
206778	अरुमुगम धमारसेलवी	एन. अरुमुगम	302, कोफिडेट अतलिया-3, सरजापुर, बैंगलोर 562125	बीएचएमएस	2001	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	27.08.2001	1241				
206779	अरुण बी जगदीशन	जगदीशन जी.	उथराम, नीरानीकल विलाकम, मुरियाथोड्टम, पारास्साला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12706				
206780	अरुण के. जॉन	जॉन	कुडियिरिककल (हाउस), कालीचनादुकम पी०ओ०, निलेश्वर (वाया), जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13268				
206781	अरुण के.के.	कुट्टाप्यन	कारुमुक्कील हाउस, मुट्टिककील, कुदानूर पी०ओ०, कोट्टापुपुरम, जिला-थ्रिस्सुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	22.04.2019	13107				
206782	अरुण कृष्णा एस. आर.	सिवानकुट्टी नायर आर.	एससीटीआरए-49, एस.एल. निवास, टी.सी. 19 / 1366, धमालम, पूजापुरा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12533				
206783	अरुण पी.	गोपालाकृष्णन के.	सोपणिका, मुडुपाराम्बा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.12.2017	12355				
206784	अरुण पी. थोमस	थोमस वकैय पी.	पुराथुर किट्टन हाउस, मुल्लाक्कारा, मनुथी पी०ओ०, जिला-थ्रिस्सुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12677				

206785	अरुण आर.एस.	सुभाशिवन	रामामगलम (हाउस), चम्पाकुलम पी०ओ०, मानापरा, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2019	13203				
206786	अरुण एस. राज	पी. राजेन्द्रन	पकज निलायम, कारुमकुलम, पुथियाथुरा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	26.07.2017	12039				
206787	अरुण विवेक एस.जे.	बी.एस. सुगुना वर्मा राजा	स्वारिथका भवन, किदाराकुजी, किदाराकुजी पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.07.2016	11378				
206788	अरुणदेवन एम.	वासुदेवन एम.	मानाप्यादन (हाउस), अमारामबालम साउथ पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.07.2017	12010				
206789	अरुणिमा आर.एस.	वी. राजन	चिथिरालायम, टीआरए-26, चथनपारा, थोड्वाक्काडु पी०ओ०, काल्लमबालम, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12145				
206790	अरुणिमा एस.	सुदर्शनन के.	ऐश्वर्या, काजाक्कुन्नु, चुल्लीमानूर पी०ओ०, नेडुमगड, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13152				
206791	अरुणिमा एस. मोहन	मोहनन एस.	कालीलिल वीडू, माथुराप्या, थडिकाडु पी०ओ०, आचल, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13344				
206792	अरुया एस.जे.	सुगथा वर्मा	सुगथस, किदाराकुजी, किदाराकुजी पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11458				
206793	आर्या अजीत	के. अजितकुमार	श्रीमथ मादिराम, रायामगलम पी०ओ०, कुरुप्पामपडी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	20.07.2018	12616				
206794	आर्या अशोकन	के.एन. अशोकन	वारक्कड हाउस, मुट्टीकुलगारा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.04.2017	11836				
206795	आर्या बाबू	बाबू	वाडाक्के पुथुथारा, वारानाड पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11923				
206796	आर्या सी.	अनिल कुमार सी.	वालापील हाउस, मन्नूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.01.2019	12990				
206797	आर्या सी. राजन	एन. राजन	राजीवम, करिमपिपूजा पी०ओ०, पुथुर, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12643				
206798	आर्या एच.जे.	के. हरीकुमारण नायर	पदमाविलाराम बगलो, कट्टाचलविला, कूनाथुकल पी०ओ०, नेयात्तिनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11408				
206799	आर्या जे. नायर	जनार्दनन नायर	कार्तिका (हाउस), उनीपाराम्बथ थजाम, कुरुवात्तूर पी०ओ०, कावकोडी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12808				

206800	आर्या के.	नारायणन कुट्टी के.	कारीयेदथ, कृष्णाकृपा हाउस, पत्तोक्कल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	13003				
206801	आर्या पी.	प्रेमन पी.	सरायु (हाउस), कोडाक्कड पी०ओ०, चेत्तीपाडी वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11087				
206802	आर्या राजेंद्रन	राजेन्द्रन पी.	कोल्लेरसोरिल, पूनथोप्पू वार्ड, अवालुकुन्नू पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	26.07.2017	12038				
206803	आर्या एस.	शिधरन नायर एस.	अनुग्रह, टी.सी-18/149(1), प्लाविला जकशन, धिरुमाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12144				
206804	आर्या एस. मैथ्यू	जे. सेबस्टियन मैथ्यू	नेल्लीनिनाथिल वीडू, चनी, काजीरामकुलम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11407				
206805	आर्या सुबोध कात प्रकाश	आनंद प्रकाश आर्या	गाव-बारेव, पोस्ट-खन्नापुर, पु०स्टे०-मुफसिल, जिला-गया, बिहार-823003	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	30.10.2019	33399				
206806	आर्या सुधान के.	सुधाकरण के.	अरामाम (हाउस), ओचियम पी.ओ., चोम्बाला वाया, वाटाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	29.07.2017	12050				
206807	आर्यामोल सी.एस.	साबू सी.के.	चेरामकुलम (हाउस), धुकोथमगलम पी०ओ०, पुधुप्पल्ली, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12626				
206808	आर्यामोल पी.एस.	राजीवन पी.एन.	पडिन्जाराट्टाथ हाउस, अन्नानड पी०ओ०, चालाकुडी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12964				
206809	आर्याश्री वी.पी.	विरवान पुथलथ	प्रतीक्षा-थलियाराम्बथ हाउस, काविल पी०ओ०, नाडुवानूर (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.09.2018	12855				
206810	असाफा थसनोम के.	अब्दुल मजीद के.	किजाक्कील हाउस, चेरुपुथुर, ओलामाथिल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12202				
206811	एश अनौरबन	दिजादास एश	जगदीशपुर रोड, डोमजुर, हावडा 711405	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32662				
206812	आशा एटोनी	एटोनी के.के.	कारुथेदाथू पाराम्बील (हाउस), कदास्सकादावू पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.09.2015	10921				
206813	आशा हुसैन पुडुरसेरी	हुसैन पुडुरसेरी	मुक्कानियील (हाउस), एनानाल्लूर पी०ओ०, मूवाट्टुप्पुआ, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11589				
206814	आशा के.	के.रविन्द्रन	उशास (हाउस), परियारामकुन्नू, मानाथवाडी पी०ओ०, जिला-वायनड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11025				

206815	आशा कृष्णा	वी.के. कृष्णकुट्टी	वैपुपाराम्पील (हाउस), वेगल, आलमथुरुथी पी०ओ०, थिरुवाल्ला, जिला-पथनामथिद्रा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12155				
206816	आशा एस.	सिवारमन के.	प्रिया निवास, कदमकोड, करिगारापल्ली पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11536				
206817	आशा सतोष	एम. सतोष कुमार	मुलक्कल हाउस, चादिरूर पी०ओ०, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12753				
206818	आशा थकाचन	थकाचन के.के.	काल्लोलिक्कल, कारुकाचल पी०ओ०, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12121				
206819	आशमस एन शाज	शाजन थोमस	'स्नेहाशमस', पी.वी.आर. नगर पल्लीपुरम पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.06.2018	12508				
206820	आशारवी जे.आर.	रवि टी.	कोट्टाराम वाथुक्कल, थुरुथी पी०ओ०, चेरुवाथुर (वाया), जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.10.2018	12909				
206821	अशीष्मा चाज़हूर	सेबरिडयन चाज़हूर	चाज़हूर थट्टूपाराम्बील (हाउस), कूट्टूर पी०ओ०, कोट्टेक्कड, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12396				
206822	आशी चद्रन	चद्रन पी.	पृथलथ हाउस, पराम्बरा (वाया), चेनोली पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12940				
206823	अशिदा आर	असारी पी.एम.	ताज मजिल, माकमकुज़ी पी०ओ०, मार्वलिककारा, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11739				
206824	आशिष्ठा एम.एम.	एम.पी.मोहम्मद	मुकालेल (हाउस), पल्लारिमंगलम पी०ओ०, पल्लारिमंगलम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.10.2017	12290				
206825	आशिष्मा एलेक्स	एलेक्स मैथ्यू	पलक्कुजायिल (हाउस), सेट जॉर्ज कॉलेज रोड, अरुविथारा पी०ओ०, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	30.06.2017	11908				
206826	आशिका पी.के.	अब्दुरहीमान कुही टी.एम.सी.	पुलारी, टी.सी. 3/1459, एन.एस.पी. नगर-144, कंसवादासपुरम, पट्टोम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12085				
206827	आशीष गजमिये	स्व. श्री रविन्द्र गजमिये	ग्राम/पोस्ट-चिचोलीबड, तहसील-पार्दुना, जिला-छिन्दवाडा मध्य प्रदेश	बीएचएमएस	2009	रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर	मध्य प्रदेश	21.07.2010	17725				
206828	आशिता एम.वी.	नारायण एम.वी.	मगाट्टू वालाप्पील (हाउस), विलायनकोड पी०ओ०, पिताथरा (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2018	12603				
206829	अशक आवेद	स्व. कादीर हुसैन	छोटा बरियारपुर, बिरसा नगर, बार्ड न० 38, पु०स्ट०-छटौनी, पी०ओ०-मोतीहारी, जिला-ईस्ट चम्पारण, बिहार-845401	बीएचएमएस	2018	बाबासाहेब भोमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	12.01.2019	32859				

206830	एश्लिन ऑगरस्टीन	ऑगरस्टीन वी.जे.	विमलामथा प्रोविशियल हाउस, धमारास्सेरी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13401				
206831	एशली जॉर्ज	जॉर्ज	अल्लैक्काप्पालियल (हाउस), पानाथडी पी०ओ०, राजापुलम वाया, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	27.06.2017	11906				
206832	एशली एल.जे.	लॉरेस डी.	चैतन्या, कानीमाथाट्टु, मुलुविला, मुलुविला पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12890				
206833	अशमोना अशरफ टी.	अशरफ टी.वी.	धक्काथू वालापील (हाउस), कारीक्कड पी०ओ०, कुन्मकुलम, जिला-थिरपुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.08.2018	12719				
206834	अशिमना सी.बी.	मोहम्मद बशीर पी. ए.	चेत्तुकुडियिल हाउस, पुल्लेपाडी, काथरिकाडावू रोड, कालूर कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	19.01.2017	11691				
206835	आशना डी.	दामू ए.	अलोलायिल (हाउस), कुरिहालीयोड पी०ओ०, विल्लियापल्ली वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11144				
206836	आशना जॉर्ज	जॉर्ज सी.एम.	चेनाट्टुकुडियिल (हाउस), वालारा पी०ओ०, इरुमपुपालम, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12525				
206837	आशना वी. श्रीधर	श्रीधरन वी.	गोकुलम, शरियोल वाडूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11108				
206838	अश्वनी वी.	विनोद कुमार के.	मूजाक्कोम, चेरुवाथुर (वाया), क्लायिकोड पी०ओ०, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2017	12191				
206839	असिफा वी.एम.	मोहम्मद अली वी. एम.	वेलुधेथोडी मेलोथिल (हाउस), नात्यामगलम, चुडामपट्टा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.11.2018	12924				
206840	असितानदा मुखोपाध्याय	स्व. अमालानदा मुखर्जी	9ए, रशबेहारी अवेन्यू, कोलकाता-700026	डीएचएमएस	जून-1986	यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार	वेस्ट बंगाल	17.10.2017	31692				
206841	आसमा एम.	शौकताली एम.	मैलाडी कॉलोनी, चदाकुन्नु पी०ओ०, निलामुदुर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10982				
206842	अरमोया वी.	नौशाद एच.ए.	अस्मियिल, कैराली गार्डन, बलरामपुरम, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13082				
206843	आरिसया एम.	कुहीमोहम्मद	महाम्मात्तोल (हाउस), सी.के. नगर, तिरुरगडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	01.02.2016	11070				
206844	आरसीया इब्राहिम	इब्राहिम कुट्टी	कुन्नायिल, वाडुधला जेट्टी पी०ओ०, अरोकुट्टी, जिला-अलामुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.01.2017	11684				

206845	अश्वनी ए.	अशोकन के.पी.	किजाक्के पुनाथिल (हाउस), ओयियाम पी०ओ०, चोमबाला (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.08.2017	12070				
206846	अश्वनी अशोकन	एम. अशोकन	थिरुवाथिरा, कोल्लोन्नम, कुरियोडू पी०ओ०, चदायमगलम, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11661				
206847	अश्वनी के.	श्रीनिवासन	कायुम्मल (हाउस), पराम्बरा पी०ओ०, पिथोथ (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	12.01.2018	12445				
206848	अश्वनी एन.	प्रेमाचद्रन एन.	प्रनावम (हाउस), नेडुगाट्टुम्मल, एनआईटीसी पी०ओ०, चथामगलम, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13167				
206849	अश्वनी पी.	रघुनाथ	पदिनचरायिल हाउस, वेट्टाथूर, चेरुवायूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12651				
206850	अश्वनी के.वी.	करुणाकरण	काराक्काडी (हाउस), नोचड पी०ओ०, नाडुवानूर (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.09.2017	12218				
206851	अश्वनी के.के.	रवीन्द्रन के.के.	कदाथ कुञ्जियिल (हाउस), बालूरसेरी पी०ओ०, बालूरसेरी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12741				
206852	अश्वनी के.एन.	नारायणन	किजाक्कायिल (हाउस), मानाससेरी पी०ओ०, मुक्कोम, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.09.2017	12211				
206853	अश्वनी के.वी.	सांसि एन.के.	एश्वर्या, पुडुकाई पी०ओ०, नेलेश्वर पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	25.07.2016	11371				
206854	अश्वनी एम.	सिवादरसन पी.	“अम्बाडी” बोधनाथा अश्रम के पास, चेरारामबालम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11454				
206855	अश्वनी एम.वी.	वेणु गोपालन एम. वी.	देवादेयाम (हाउस), थयिलथाजम, मयानाड पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12871				
206856	अश्वनी मोहन	वी.पी. मोहनन	वेकुलथिल हाउस, मुलम्पुजा पी०ओ०, पडालम, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.12.2018	12986				
206857	अश्वनी पी.	उन्नी राजन पी.	मुन्नालथ हाउस, पुट्टेक्कड, फेरोक पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11202				
206858	अश्वनी राज	पी. राजन	‘अजील’ हाउस, रेलवे स्टेशन के पास, कायिलडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.02.2017	11732				
206859	अश्वनी सुरेश	सुरेश एन. वी.	अजली (हाउस), अथोली पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	02.05.2016	11267				

206860	अरवधो टी.जी.	गोपी टी.वी.	थोत्तुपुरथ हाउस, नहामघत पी०ओ०, कुन्नामकुलम वाया, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.01.2016	11051				
206861	अरवधो वी.	वी. रविप्रसाद	“कूडू”, अम्बालाम्पाडी, बडूर पी०ओ०, जिला—मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10844				
206862	अरवधो ए.	के.डी. अम्बी	अरवधो भवन, कोट्टमकुलगासा वार्ड, अवात्कुन्नू पी०ओ०, जिला—अलाप्पुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12785				
206863	अरवधो ए.बी.	बालाचद्रन बी.	वैष्णवम, टी.सी. 76/1766, एमएनआरए—81, कडाकमपल्ली लेन, अनायरा पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12531				
206864	अरवधो ए.एस.	जी.सुरेश चद्रन पिल्लई	अरवधो भवनम, मुल्लाक्केरी, पनमाना पी०ओ०, चवारा, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.10.2017	12286				
206865	अरवधो ए.एस.	शशिधरन आर.	अरवधो भवन, कान्नाराविला, मन्नाक्काल्लू, नेलीमूडु पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2018	12774				
206866	अरवधो अशोकन	एन.एम. अशोकन	नक्कारा हाउस, पोद्दा पी०ओ०, चलाकुडी, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	02.02.2017	11713				
206867	अरवधो बालन एम. के.	बालन एम.के.	मुधुकुट्टियिल, मानारसेरी पी०ओ०, मुक्कोम, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.06.2019	13181				
206868	अरवधो चद्रन	चद्रन पी.एस.	पुथुपाराम्बोल (एच), बायपास रोड, थक्काडी पी०ओ०, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10941				
206869	अरवधो के.एल.	लोहिधक्षन के.एम.	काराते हाउस, कूरकैवेरी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11322				
206870	अरवधो के.एस.	सदानंदन डी.	कालसादनम (हाउस), कारिमथोट्टुवा पी०ओ०, सारथमकोट्टा पी०ओ०, सारथमकोट्टा, कुन्नाथुर वाया, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	24.08.2019	13340				
206871	अरवधो एल.	प्रसन्नावदानन वी.	रचना, पुल्लूरमुक्कू, कल्लामबालम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.01.2018	12451				
206872	अरवधो मुरली	मुरलीधरन पिल्लई	थेवारुमुकालिल, मूथाला पी०ओ०, पल्लिककल, किलीमानूर, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.08.2017	12118				
206873	अरवधो नायर वी. एस.	विक्रमन नायर के. जी.	विष्णु विहार, टी.सी. 23/1402 (2), सीआईटी रोड, मेलारानूर, जीएनआरए—173, कारामाना, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12026				
206874	अरवधो पी. नामबुदिरि	वासुदेवन नामपुथिरी पी.आर.	पोरकालामिट्टाथिल्लम, ईरूर पी०ओ०, त्रिपुनिथुरा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12734				
206875	अरवधो आर.	राधाकृष्णन के.	कृष्णा कृपा, चिथरा, चिथरा पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2016	11561				

206876	अरवधो आर.के.	एम. राजन	पथीश भवन, काल्लूवाराम्बोल, पूवाथूर पी०ओ०, नेडुमगड, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.06.2018	12502				
206877	अरवधो आर.एस.	रामाचंद्रन पिल्लई के.	अरवधो भवन (हाउस), पदप्पाराम्बा, वाट्टालूर पी०ओ०, मक्कारापाराम्बा (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12689				
206878	अरवधो राज आई	के.ए. राजेन्द्रन पिल्लई	अरुण निवास, मायलौड पी०ओ०, पूयाप्पल्ली, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11084				
206879	अरवधो शानमुघम	शानमुघम चेट्टीयार	थोट्टूमकल (हाउस), चेंगलम पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12135				
206880	अरवधो वी.नायर	एम.एन. हरिकुट्टन	मल्लिका सदानाम, कुलाप्पाराचल पी०ओ०, राजाकुमारी, कट्टापाना, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	10.02.2017	11721				
206881	अरवधो विजयन	विजयन एस.	पानामूट्टिल किजाक्केथिल, कुरीपुजा, कावनाडु पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12644				
206882	अश्विनो के.वी	शशिधरन के.वी	अश्विनो निवास, पिलिकोड बायल, पिलिकोड पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2018	12613				
206883	अश्विनो एम. नायर	पी.के. मुरलीधरन नायर	कूमारा सदानाम, पूवाथूर पी०ओ०, कोडपुरम, थिरुवत्ता, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11007				
206884	अश्विथा थोरथा वाई. टी.	यथोदर नाथ दास	पुराथुड हाउस, मुत्तुगल वेस्ट पी०ओ०, वाडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.11.2018	12945				
206885	अरवधो सी.वी	राघवन	चेदायटाविडा हाउस, मूदाडी नैथ पी०ओ०, कोयिलडी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13030				
206886	अतीक अफशा	मोहम्मद अतीक	बी-14/बी, तीसरा फ्लोर, ब्लॉक-बी, अबुल फजल ऐन्कलेव, जामिया नगर दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5748				
206887	अथिथी ए.पी.	श्रीनिवासन पी.के.	दिल्से (हाउस), नेडुवा पी०ओ०, पाराप्पानगडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13307				
206888	आथिफ अहमद के.	के. कमरुद्दीन	कोडुवाजाक्कल हाउस, मुरियकान्नी, थिरुविजामकुन्नु पी०ओ०, अलानाल्लूर-III, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2019	13217				
206889	अथिरा ए.वी	विश्वानाथन के. एम.	सोपनाम (हाउस), 39/1150, थोत्तुमुखम पराम्बा, पुथियानगडी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.01.2016	11021				
206890	अथिरा अशोक टी. पी.	अशोकन टी.पी.	अथिरा (हाउस), थिक्कनडियुर पी०ओ०, तिरुर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.11.2016	11577				

206891	अधिरा बाबू एम.	बाबू मगत	मगत हाउस, पारियराम पी०ओ०, चलाकुडी, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10902				
206892	अधिरा सी.	चद्रन	अधिरा निवास, कोट्टापूरम पी०ओ०, श्रीकृष्णापुरम (वाया), जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12064				
206893	अधिरा सी.एस.	जे. क्रिस्टू दास	अजिन निवास, कुट्टीकाडु, पारासुवैकल पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11083				
206894	अधिरा दास	के.एस. हरीदास	कानीयमपाराम्बील (हाउस), पाजायरीकादोम पी०ओ०, पाजायरीकादोम, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11329				
206895	अधिरा दास	योगीदास	तिट्टू भावनम, क्लाप्पना पी०ओ०, कारुनागप्पल्ली, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11736				
206896	अधिरा ई.	गोपी वी.	विथन (हाउस), पाडियोटुचल पी०ओ०, पायानूर (वाया), जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13264				
206897	अधिरा जी.	वेणु वी.	नेनमेली, निकार्थ, इरामाल्लूर पी०ओ०, चेरथाला, जिला—अलाप्पुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.03.2019	13093				
206898	अधिरा जे.	जयाचद्रन के.	आदर्श निवास (हाउस), कुट्टीपल्लम पी०ओ०, पन्नीपेरुनथला, चित्तूर, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12067				
206899	अधिरा के.	सहादेवन	कोट्टीलामारी (हाउस), पोट्टासरो पी०ओ०, काजिराम, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12016				
206900	अधिरा के.	राजागोपाल टी.	कारापुरथ (हाउस), भूमिका, अर्थात पी०ओ०, कुन्नामकुलम (वाया), जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12731				
206901	अधिरा के.	मुरली के.	काक्कादथ हाउस, मधुरा बाजार, चेरुवानूर, फेरोके पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13038				
206902	अधिरा के. साथयन	साथयन के.एस.	कालिजाथिल हाउस, मुप्पाथाडोम पी०ओ०, अलूवा-10, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11955				
206903	अधिरा के. थकाचन	के.एन. थकाचन	कुन्नाथ कीजथुट्टाथिल हाउस, मुल्लाक्कारा, मन्नुथी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12963				
206904	अधिरा के.एम.	करुणाकारा कुरुप	अजली, काडाक्कारापल्ली पी०ओ०, चेरथाला, जिला—अलाप्पुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.08.2018	12757				
206905	अधिरा के.पी.	प्ररान्ना कुमार के.	श्रीमुकुडा, कारियाकडी, एराहिककल पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.03.2016	11187				

206906	अधिरा कृष्णन	कृष्णन ए.	पदिनचारे वीडू (हाउस), रदर पी०ओ०, मुवात्तुपुजा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12654				
206907	अधिरा एम.	मुरलीधरन पी.	अम्बाडी हाउस, पचाडिरी पी०ओ०, तिरूर एस., जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	भारती विद्यापीठ डिम्ड यूनिवर्सिटी, पुणे	केरल	02.03.2019	13059				
206908	अधिरा मोहन	मोहनन के.के.	कालूमपुराथु (हाउस), पेरुमबिल्लीचिरा पी०ओ०, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.07.2017	12034				
206909	अधिरा एन.के.	कुजूपानिकेन के.	एजेआई भवनाम, थोट्टुआ, अनायडी पी०ओ०, जिला-पथनामथिप्पा, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10789				
206910	अधिरा एन.वी.	विश्वानाथन एन.	अवानी, नीरवेली पी०ओ०, निर्मलागिरी, जिला-कान्पुर, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.07.2019	13206				
206911	अधिरा पी.	प्रेमन पी.	न्यू तेज, वायलेरी मीथल (हाउस) न० 14/127/ए, वेल्स वेस्ट पी०ओ०, अथोली (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2018	12775				
206912	अधिरा पी.बी.	बालाकृष्णन पी. आर.	पचोलिल (हाउस), सेलियामपारा पी०ओ०, सेलियामपारा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12576				
206913	अधिरा पी.वी.	चद्रन पी.वी.	अधिरा निवास, पदनाक्कड पी०ओ०, जिला-कसरागोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2016	11472				
206914	अधिरा पी.वी.	लक्ष्मणन पी.वी.	कुहीपाराम्बथ हाउस, पुन्नाड पी०ओ०, इरिट्टी (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.11.2017	12316				
206915	अधिरा प्रकाश के.पी.	प्रकाशन के.पी.	सराज (हाउस), कोलास्सेरी पुथुर, पथेरानकावे पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.09.2018	12839				
206916	अधिरा आर. नायर	एम.डौ.राधाकृष्णन	उथुस (हाउस), मेवेल्लूर पी०ओ०, मेवेल्लूर, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.04.2016	11250				
206917	अधिरा राजू	राजू पी.एम.	पेक्कल हाउस, पेरुमपल्ली पी०ओ०, मुलथुरुथी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11362				
206918	अधिरा एस. लाल	सतीश लाल के. आर.	नीलम्बरी, पुराथनाथ हाउस, इरिगालूर पी०ओ०, पालाजी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12136				
206919	अधिरा सुनील	सुनील आर.	थरायिल हाउस, पूचाक्कल पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13151				
206920	अधिरा टी. के.	वासुदेवन टी.के.	थेक्केदाथ कोविलाकथ हाउस, वेट्टाथूर, वाजाक्कड वाया, चेरुवायूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	19.10.2016	11565				

206921	अधिस वी वारियर	वेणुकुमार एस.	वेणुनादम, राप्पल वारियम, राप्पल, पाडुकड पी०ओ०, जिला-धिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12692				
206922	अधिस वी.एस.	वेनू आर.	काट्टोल पुथन वीडू, मार्केट रोड, अट्टिन्नल, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11005				
206923	अधिस विजयाकुमार	वी.आर. विजयाकुमार	वाजापराम्बोल, पल्लोक्काचिरा पी०ओ०, पैपाड, चगनाचेरी, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.05.2019	13119				
206924	अधिसागगा एस.एस.	शिधरन बी.	थित्ताचल पुथन वीडू, वेपाकल पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11666				
206925	अधिसाकृष्णन जी.के.	कृष्णन पिलाचेरी	पिलाचेरी (हाउस), पुथनचेरी, कुन्नाथारा पी०ओ०, उल्लीयेरी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13256				
206926	अधिसा सी.के.	अबूबक्कर सी.के.	थट्टाराक्कल (हाउस), किजक्कुम मुरी पी०ओ०, काक्कोडी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.11.2017	12310				
206927	अधिसाथुल बारी टी. ए.	अबूबक्कर टी.के.	थनाथ हाउस, हाउस न० ७७/७८३-बी, कचेरीपाडी (वेस्ट), पल्लूरुथी पी०ओ०, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.12.2017	12333				
206928	अधिसा बीवी पी.एस.	सैडालवी पी.	कुन्नामपल्लो हाउस, सैकण्ड साउथ, कुजिमान्ना, कुजिमान्ना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.03.2016	11162				
206929	अथुल नाथ एन.वी.	नरेन्द्र नाथ एन.वी.	शिमफोनो, गणेश नगर, हाईस्कूल रोड, मेल पट्टांबो, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13474				
206930	अथुल्लया ए.एस.	श्रीनिवासन ए.डी.	अरीकाट्टू (हाउस), अमृता नगर, वेलियामबम पी०ओ०, पुलपल्ली, जिला-वायानाड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12383				
206931	अथुल्लया एस.	शशिकुमार सी.	पुलिक्कल हाउस, विलायोडी पी०ओ०, चित्तुर, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.09.2018	12829				
206932	अथुलराज आर.	राजन	अचियाराम्बथ (हाउस), चक्कीट्टापारा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.12.2017	12329				
206933	अथुल्लया ए.	पी. गोपीनाथन पिल्लई	वारूर वीडू, नैलीमुक्कू पी०ओ०, मदनथाकोडु, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12650				
206934	अथुल्लया सी. सोमन	पी. सोमन	कुलियानमूला हाउस, चौयाम्बुम पी०ओ०, पुलपल्ली, जिला-वायानाड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12109				
206935	अथुल्लया हरिदास	हरिदासन	पुथलथ, हरीलथा, पथलायानी, कोयिलडी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.10.2017	12268				

206936	अधुल्या के.	गोपालाकृष्णन के.	देवकीयाम हाउस, बेयपौर नॉर्थ पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	28.05.2019	13127				
206937	अधुल्या राजेश	राजेश जोसफ	अम्बट्ट (हाउस), के.के. रोड, मुरिगूर, वडाक्कुमुरी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13408				
206938	अट्टेला बाबू	बाबू ए.	ईएफ 4 / 5631, बिलाथिकुलम हाउसिंग कॉलोनी, एराहिपालम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2017	12273				
206939	अट्टू जॉय	पी.के. जॉय	पुथुक्कुनाथ (हाउस), नाडुकनी पी०ओ०, कोथमगलम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	29.11.2016	11603				
206940	अक्सा मार्कोस	मार्कोस के.बी.	कालापुरायिल (हाउस), नोर्थ पिरामाडोम पी०ओ०, पाम्पाकुडा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.11.2017	12321				
206941	अयिमनिचेट तजुदीर	टी. इमटियाकुम	हाउस न० 332 लॉवर पीडवुडी कॉलोनी लोथा बैपटिरट चर्च के पास कोहिमा 797001	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	17.02.2020	128				
206942	आयशा	कुहाबुल्ला कारीचेरी	पारापील (हाउस), पुरामेरी पी०ओ०, वडाकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	12.01.2018	12440				
206943	आयिशा ई.के.	मोहम्मद ई.के.	थाय्यील हाउस, माट्टाथूर पी०ओ०, ओथुक्कुगल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12152				
206944	आयशा फेबिन पी.टी.	अरौन कुट्टी पी.टी.	पीडिकाथोडुकायिल (हाउस), कोडुवल्ली पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12411				
206945	आयशा जिजुशा एन.	मुहियुधीन कोया एन.	अयशा फथ (हाउस), सारोथ चलिह, कोडुवल्ली, कोडुवल्ली पी०ओ०, कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11349				
206946	आयशा जुबैरीयथ के.	अयूब के.	मेलेपाराकोटे (हाउस), फेरोके पी०ओ०, चुगम 8/4, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	12.01.2018	12446				
206947	आईशा नसीबा के.बी.	बीरनकुट्टी के.बी.	काट्टू बावा (हाउस), कोट्टापपुरम, नल्लानी पोट्टा, इरिम्बिलियम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11183				
206948	आयशा नसरीन ई.सी.	अम्मद ई.सी.	इलायादथ हाउस, पानामराम पी०ओ०, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.09.2018	12828				
206949	आयशा ओत्तुपराक्कुडी	अब्दुल नाजेर ओत्तुपराक्कुडी	'नास' हाउस, कूटालुगल, कोडोट्टी, चिरायिल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	07.09.2015	10908				
206950	आयशा रोशिन	अब्दुल कदर के.	कापूर (हाउस), अलीपराम्बा पी०ओ०, अनामगड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.05.2017	11887				

206951	आयशाबी टी	मोहम्मद टी	आसरा मजिल, विकास नगर, इरिटी पी०ओ०, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	10.12.2015	10966				
206952	आयशा ए. रौफ	अब्दुल रौफ	मेहेक, अधिराकम यूपी रकूल, मुदायद, वराम पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.11.2017	12314				
206953	आयशा असिया पी	पीअलाबी	पुथुपाडन (हाउस), चेरूमन्नु, एदावन्ना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	05.08.2015	10903				
206954	आयशा फेमिन टी	अब्दुल करीम टी	धीराम (हाउस), मनीपुरम पी०ओ०, कोडुवल्ली (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.01.2018	12381				
206955	आयशा वीपी	बाबू वीपी	कैयिस, प्रिया रोड, तानूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	06.04.2016	11218				
206956	आयशथ अजरा टी पी	अजीज टी	दिलिस्थान, हिदायथ नगर, उलियाथडुक्का पी०ओ०, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2019	13220				
206957	आयशथ रफीदा बी एल	अब्दुल लथीफ बी एम	वाल्लीयोड हाउस, मेलपाराम्बा, कालानड पी०ओ०, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	26.10.2015	10933				
206958	अयशूरा रूबीना टी	थजुधोन एच	एचएम हाउस, रोज गार्डन कॉलोनी, ओंधुगोड, थिरुनेल्लायी, नूरानी पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12197				
206959	एश्वर्या	अजयाकुमार जी	नदनम, चूराकोड पी०ओ०, आडोर, जिला-पाथनमथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2017	11681				
206960	एश्वर्या जी	ए.पी. गोपाकुमार	अरुणोधयाम हाउस, पालामेल, पडानिलम पी०ओ०, नूरानाडु, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12579				
206961	अजीम टी के	थजुदीन ए	अम्बालायिल, मारु-साउथ, अलूकाडावू पी०ओ०, कारुणागम्पल्ली, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	19.08.2019	13298				
206962	अजिजुल ईरलाम खादिम	अतिकुल ईरलाम खादिम	मार्फत असित कुमार जी, कौशल्या, पोस्ट-खरागपुर, जिला-वेस्ट मिदनापोर 721301	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32708				
206963	बबिथा पी	कोरन पी	पुलास्सेरी हाउस, कुमारानेल्लूर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10834				
206964	बबिता शरीफा ए	मोहम्मद कुट्टी ए	पालीक्कल हाउस, अरिपरा पी०ओ०, अगाडीपुरम (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.12.2018	12979				
206965	बदियाह बशीर	ई मोहम्मद बशीर	थोद्दाथुल वीडू, कान्नानाल्लूर पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12837				

206966	बफीना एन.सी.	वीरान एन.सी.	नानम चिराक्कल (हाउस), कुरुवानवायल, कोलाथरा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12232			
206967	बाहजा नासला वलियापाराम्बथ	शिहाबुद्दीन बी.पी.	एम.एम. हाउस, वाडिनूर, कुनियिल किजुपाराम्बा पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	06.01.2018	12399			
206968	बिद्या रित्तु	सत्येन्द्र नाथ बिद्या	गाव व पी०ओ०-निश्चितापुर, साउथ 24 परगनास 743374	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32764			
206969	बिद्या सोनाली	गौतम बिद्या	गाव-सहजादपुर बिद्या पारा, पी०ओ०-निमिषिथ आर के. आश्रम, जिला-साउथ 24 परगनास 743338	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	26.12.2019	32788			
206970	बैशनोब समर	रबिन्द्र नाथ बैशनोब	गाव व पी०ओ०-बागू, नोथ्र 24 परगनास 700135	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32590			
206971	बैसोया कुणाल	श्री शोरज सिंह	243, अलीगज कोटला, मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	18.12.2020	बीएचएसडी/5795			
206972	बक्शी अदिति	कमल बक्शी	1/7145 शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	13.01.2020	बीएचएसडी/5636			
206973	बालमकुपर माजाव	श्री एस. खोन्गलाह	सोहखा, मॉडल, वेस्ट जैनतिया हिल्स	बीएचएमएस	04.11.2021	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कोलकाता	मैघालय	15.01.2021	500			
206974	बालानंद के.एस.	सुदेसन के.के.	किजाक्केवेलिककाकथ (हाउस), चेराय पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2017	11793			
206975	बलानी दीपिका	श्री सुन्दर लाल बलानी	जी-13/11, एफएफ, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5658			
206976	बाली सौरभ	श्री राजेश बाली	जीएफ, डबल्यू 1, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	13.08.2020	बीएचएसडी/5693			
206977	बदयोपाध्याय मोनिशा	काली साधन बदयोपाध्याय	गाव-महल, पी०ओ०-पडझबेरवार, बर्धमान 713346	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32740			
206978	बेनजी लाबोनी	स्व. शेखर बेनजी	नाजरूल पल्ली, पी०ओ०-चिचुरिया, दोब्राना, जिला-पश्चिम बर्धमान 713378	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32734			
206979	बानिक पौलमी	जयला बानिक	38 बी जनगर रोड, महेश, सेरामपोर, हुगली 712202	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32690			
206980	बनरिषिशा सुतोंग	श्री डी पाजुह	सुतगा, पोहस्कूल, ईस्ट जैनतिया हिल्स	बीएचएमएस	21.10.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मैघालय	11.11.2020	492			

206981	बानू इस्तारिन	रियाजुल इरलाम	गाव-पोली, पो०ओ०-खेरूर, जिला-मुर्शिदाबाद 742237	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32602				
206982	बानू साबा निसात	हारुन अल रशीद	गाव-मडल पारा, उत्तर बिरायल, कालियामगज, नोर्ध दिनाजपुर 733129	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32594				
206983	बारीरा के.एम.	मोहम्मद बशीर के.एम.	कोल्लमपाराम्बोल हाउस, मालापल्लीपुरम पो०ओ०, प्लाविमुरी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11343				
206984	बारह रतनदीप	कमल किशोर बारह	महाप्रभु मंदिर पारा, टाउन पादुमबसम, पो०ओ०-तामलुक, जिला-पूर्वा मदिनीपुर 721636	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32626				
206985	बरहान मोहम्मद पी.पी.	मोहम्मद बशीर पी.पी.	पाराचेरी पाराम्बोल हाउस, असामग्राम, पाडानिलम पो०ओ०, कुन्नामनकलम (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	01.09.2018	12776				
206986	बरी तनहा	अब्दुल बरी	गाव-बासुदेवपुर, पो०ओ०-चचदा, जिला-मुर्शिदाबाद 742224	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32755				
206987	बरीता लयगदोह	श्री टी. वान्निगाम	पिडेनगरै नॉनस्टोन, वेस्ट खासी हिल्स	बीएच.एम.एस.	14.05.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मैघालय	07.07.2020	478				
206988	बसक रनेहा	रनेहेदु शेखर बसक	दत्तापारा, पो०ओ०-मोक्कुम्पुर, जिला-मालदा 732103	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32632				
206989	बशीरा ए.	अली ए.	अल्लुग (एच), त्रिप्पानाची पो०ओ०, कुजिमान्ना वाया, जिला-मलपुरम केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	23.11.2015	10960				
206990	बशीरा परवीन बी.	मोहम्मद बशीर बी.	शाजी कॉटेज, कारुवथोरुथी, फेरोक पो०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.10.2016	11523				
206991	बशीरा पी.ई.	नूरुद्दीन पी.ई.	बेसील मजिल, थोड्रास्सोरियारा, कन्नामगलम (डब्ल्यू) पो०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.02.2019	13007				
206992	बासिल कुरियन जोश	जोश के.के.	कारीकुझियिल (हाउस), पुथुप्पाडी पो०ओ०, इगापुजा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13423				
206993	बासिला चेंनान कुलगारा	कुही मोहम्मद चेंनान कुलगारा	सकान बासिला (हाउस), पुन्नाप्पाला पो०ओ०, कोझिपाराम्ब, धुवाली, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13412				
206994	बासीमा पी.	अब्दुल सलाम पी.	पथार (हाउस), कॉलेज रोड, मामपड पो०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेंनई	केरल	12.01.2018	12439				
206995	बासामा एम.एम.	मुहम्मद अली एम. ए.	पुथलाथ हाउस, काक्कादमपुरम, ए.आर. नगर पो०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10809				

206996	बासु अनामिका	आदिनाथ बासु	गाव-कालीनगर दक्षिण पारा, पी0ओ0 व पु0स्टे0-डायमण्ड हारबौर, जिला-साउथ 24 परगनास 743331	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32560				
206997	बासू सघती	परधा सारथी बासू	महेशताला, बिधाननगढ़, साउथ 24 परगनास 700066	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.12.2019	32786				
206998	बासू सायतन	मोनोतोश कुमार बासू	12/1, चांदिताला रोड, पी0ओ0-पूर्वा निरिचतापुर, जिला-साउथ 24 परगनास 700137	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32628				
206999	बाविथा पी बी	भारकरन पी के	पुवथ (हाउस), मुथुवातूर, चवाक्कड पी0ओ0, जिला-थिरुसूर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11542				
207000	बिलिदा ग्रेस एबेनेजर	एस अरुल जॉन एबेनेजर	टी.सी. 11/940 (4), अक्षया अपार्टमेंट, नालदा, नानथेनकोड, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.02.2018	12468				
207001	बेला मारिया जोश	जोश के.के.	कारीकुम्पिल हाउस, पुथुप्पाडी पी0ओ0, इगापुजा, पुथुप्पाडी पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.07.2017	12012				
207002	बेनर्जी नगिरी आशीश	नगिरी गनानानदा बेनर्जी	17-478/1, क्रिस्टियन कॉलोनी, सोमपेटा (एम), श्रीकाकुलम जिला आन्ध्र प्रदेश-532284	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश	20.05.2019	8630/एच/2019				
207003	बेनाजोर पी.एस.	शमसुधौन पी.के.	पुलिमूडिल हाउस, कुजिवेलिपाडी, एडाथला पी0ओ0, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12560				
207004	बेदागयागर	रव. इमना ओ	हाउस नं0 56 आगरी कॉलोनी चौथा माईल डिफुपर-ए दिमापुर नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2015	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	नागालैण्ड	23.02.2018	102				
207005	बेरा शरिजीब	सुनील कुमार बेरा	गाव-भगवानपुर, पी0ओ0-मगलामारो, जिला-ईस्ट मेदिनीपुर 721434	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32660				
207006	बेरली बाबू	बाबू मैथ्यू	कानीयम कदाथिल हाउस, पुरापुजा पी0ओ0, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13029				
207007	बेरली बेरन्नाबास	बेरन्नाबास एम.ए.	मानाकिल हाउस, गोथुरुथ पी0ओ0, मूथकुन्म (वाया), जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10811				
207008	बेसरा प्रसता	शुम्भु चरण बेसरा	पाटुल, पोलबा, हुगली 712102	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32504				
207009	बेउलाह ई.	इबेजू एन.	थुड थुड विला वीडू, काक्काविला पी0ओ0, पाजया उचाक्काडा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	12.01.2018	12442				
207010	बेयोनदेस्तर दयागोह	श्री टी. वन्निआग	नॉनरपोदेन्ना, नॉनरटौन वेस्ट खारसी हिल्स	बीएच.एम.एस.	30.05.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मैघालय	16.09.2020	483				

207011	भाग्य बी.ए.	बिजू जी	गोपी सदानम, पुलिकुडी, मूल्तूर पी०ओ०, विजिञ्जम, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12555				
207012	भाग्यलक्ष्मी के.	एस गोपालाकृष्णन पिल्लई	वेचूर (हाउस), कारुमडी पी०ओ०, अम्बालापुञ्जा, जिला—अलापुञ्जा, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11164				
207013	भाग्यरश्मि टी.के.	वासू टी.के.	धुनीर काडी हाउस, अरियाल्लूर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2013	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	25.07.2016	11367				
207014	भाग्यश्री	नगनाथ येते	सुपुत्री नगनाथ येते, उमार्गा रोड, देशमुक कॉलोनी, अलदम जिला. गुलबर्गा—585302	बीएचएमएस	2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	कर्नाटक	25.06.2020	ए-14229				
207015	भाग्यश्री एस.	पी.जी. नारायणनकुट्टी	पानामपिल्लिल हाउस, चुडाकुञ्जी पी०ओ०, अकानद, पेरुमबावूर, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11956				
207016	भक्त अकिता	बबलू भक्त	गाव—तातिपारा, पी०ओ०—मगलबारी, जिला—मालदा 732142	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32633				
207017	भडारी केशवी	श्री राज कुमार भडारी	ए-100, दूसरा फ्लोर, सुदर्शन पार्क, मोती नगर के पास, नई दिल्ली-15	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5653				
207018	भारद्वाज शताक्षी	श्री महेश भारद्वाज	हाउस न० 37, टेंगोर गली, बाबरपुर शाहदरा, दिल्ली-110032	बीएचएमएस	2018	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	31.07.2020	बीएचएसडी/5682				
207019	भारती नितिका	श्री रविन्द्र कुमार	हाउस न० 220, केएच न० 322, नेब सराई, नई दिल्ली-110068	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5762				
207020	भारती पूनम	श्री राजमणि कुमार भारती	बी-191ए, न्यू जनकपुरी, गली न० 7 सेट मिशेल स्कूल के पास, उत्तम नगर नई दिल्ली-110059	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	27.08.2020	बीएचएसडी/5708				
207021	भारती टविकल	श्री तिलक राज भारती	3138, दूसरा फ्लोर, गली सतग्रहा आर्य पुरा, सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5735				
207022	भाटिया एशा	श्री रमेश भाटिया	डी-3, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5722				
207023	भट्टाचार्या सौमिल्या	तपस भट्टाचार्या	पी-73 रास्त्रगुरु अवेन्यू, अनुराग अपार्टमेंट, नगर बाजार, कोलकाता-700028	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32761				
207024	भट्टाचार्या पूजाश्री	नरेन्द्र चद भट्टाचार्या	94, राममोहन प्लेस, कोननगर, हुगली 712235	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32604				
207025	भट्टाचार्या सुदिप्ता	पारीतोश भट्टाचार्या	3/12, रविन्द्र नगर, बेहाला, कोलकाता 700060	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32687				

207026	भव्या के.एम.	के. मोहनन	कुरुमदल्लिमल, चोकली पी०ओ०, धलरसेरी, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	15.04.2016	11223				
207027	भव्या लक्ष्मी वी.एस.	शशिधरन वी.के.	वेल्लापराम्बोल हाउस, पावराट्टी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.05.2018	12495				
207028	भव्या सन्नी	सन्नी	मालायिल (हाउस), मकुलम पी०ओ०, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11989				
207029	भव्याश्री बी.	भास्करन सी.एम.	चित्तालक्कोट्टूर मेथल (हाउस), पथेरकावे पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11200				
207030	भौमिक पामेला	रवपन कुमार भौमिक	ए.टी. घोष रोड, नदिपारा, जगाचा हावडा-711112	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32699				
207031	भौमिक हरितुपनी	राजेन्द्र चन्द्र भौमिक	मार्फत चित्रा चट्टर्जी, ग्राम—लातुर 01 पी०ओ०—सैनथिया, जिला—बीरभूम 731234	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32449				
207032	भुइन अरिजोता	रवपन कुमार भुइन	प्रोफेसर कॉलोनी, पी०ओ०—कंदोदिहा, जिला—बकुसा 722102	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32724				
207033	भुक्ता सारादिदु	जयता भुक्ता	84/6, निसिथ सेन सारणी, बिद्याबती, हुगली 712222	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	12.07.2019	32550				
207034	भुनिया देबासिस	दुलाल भुनिया	गाव व पी०ओ०—रामबाग, जिला—पूर्वा मेदिनीपुर 721628	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32606				
207035	भुवनेश्वरी आर.	राजाचंद्रशेकर	श्री कुडिलम हाउस, पाक्कील पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2000	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.08.2019	13278				
207036	बैगदासाहिशा मरबनियाम	श्री बी. खयरीम	नॉन्नाथिम्माई रेड नॉन्नाकिनरिह, ईस्ट खारी हिल्स	बी.एच.एम. एस.	12.05.2020	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कोलकाता	मेघालय	21.10.2020	488				
207037	बिबिन बी. बाबू	बी.बाबू	पुष्पा भवन, पारानियम, पूवार पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12183				
207038	बिजी एटोनी	एटोनी	पूवाक्कुलथ (हाउस), कोट्टीयूर पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11353				
207039	बिजिमोल एन.बी.	बैबोचन	नाडुमकोम्बोल (हाउस), श्रीकदामगलम पी०ओ०, अधिरामपुजा, जिला—कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11965				
207040	बिजिना ए.	बालाकृष्णन पी.	अलथाट्टील हाउस, कुडायम कोवल, ककोल पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	08.12.2017	12330				
207041	बिजिता मडल बीजी	बकीम प्रसाद मडल	आशोष गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, इरिट्टी पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13255				

207042	बिल्लाह मेहदी आरिफ	अब्दुल मन्नान मुडी	गाव व पी०ओ०-देबालया, जिला-नोर्थ 24 परगनास 743424	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32584				
207043	बिमिमोल ए.बी	ए.एन. बाबू	अलाम्बमकुजियिल (हाउस), इरुमपूजिकारा, उदयानापुरम पी०ओ०, वेकोम, जिला-कोट्टम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.12.2017	12356				
207044	बिनय बी.बी	एन. बेजामिन	अबिया कॉटेज, अलाथोट्टम, पारारसाला पी०ओ०, नेयात्तिनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11034				
207045	बिन्सी ए.वाई.	येसुदास जे.	जियोन हाउस, कारिकदा, चुल्लोमानूर पी०ओ०, नेदुमगड, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2018	12455				
207046	बिसी के.	सुकुमारन के.	कुनेक्कट्ट (एच), पारियापुरम पी०ओ०, तानूर वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10992				
207047	बिधिया के. बेनहुर	बेनहुर के.बी	कोल्लानूर हाउस, पी०ओ० पालीरसेरी, पालक्कल, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13420				
207048	बिदु अनिल	के. कारुणाकरन	लक्ष्मी गोविंदम, साथयन आर्ट क्लब के पास, अन्नूर पी०ओ०, पायानूर (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	डीएचएमएस	1996	महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, मुंबई	केरल	28.11.2018	12957				
207049	बिदुजा बाबू	बाबू के.जी	कूरामालायिल (एच), पलालकुजा पी०ओ०, कूथत्तुकुलम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.12.2015	10978				
207050	बिदुजा एस.आई.	सुधाकरण जी.	बिनोज भवन, कुजियाम्बिला, किदाराकुजी पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11664				
207051	बिनीश ए.	एस. अशोकन	मनीविलास, इराट्टाचिरा, पुलिमथ पी०ओ०, किलिमानूर, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12179				
207052	बिनी एन मारिया	बाबू एल.	जेसुस विला काट्टिल, वायालिल, एराविपुरम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13346				
207053	बिनिषा के.आर.	टी के. कुन्हीरमन	अमृत हाउस, कारायड पी०ओ०, मेप्पायूर (वाया), कोझीकोड, केरल-673524	बीएचएमएस	2011	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.03.2019	9356				
207054	बिजू अन्न पुनूस	पुनूस जैकब	कोट्टूचालिल बिजो विला, वाईएमसीए रोड, शोरानूर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12810				
207055	बिजू सुसान पिट्टर	पाथरोज सी.पी.	चेम्माला (हाउस), विलगु पी०ओ०, इदाथला वाया, ओराकड, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	30.11.2016	11615				
207056	बिन्नाथ उरुथोदी	वीरन कुट्टी यू.	उरोथोडी हाउस, वालियाड, कोडुर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10814				

207057	बिनिया	ई उम्मेर	अयिलाकडी हाउस, पेरुवामुजी पी0ओ0, पिल्लापेरुवान्ना, पेराम्बरा, जिला-कोडिकोड, केरल.	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कनाटक	केरल	19.08.2017	12180				
207058	बिसी सी.बी.	बालन	चोला (हाउस), मुदुवाना पी0ओ0, पायोलो (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कनाटक	केरल	23.12.2016	11648				
207059	बिन्कृष्णा पी. मेनोन	बी.जी. पीथमबरन	वाडारसेरी हाउस, थनिरसेरी पी0ओ0, इरिजालाकुडा, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13071				
207060	बिनुशा बी.	बालन पी.वी.	पोथिवायिल्लि हाउस, नारायण नगर, न्यू बस स्टैण्ड के पास, वाटाकारा पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2018	12578				
207061	बिनुशा यू.	वेलायुधन ओथलाकडी	कालाथिगलसेरी हाउस, महाप्पाट्टा पी0ओ0, मजेरी वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11093				
207062	बिजीना बशीर	बशीर टी.के.	थुप्पेली हाउस, चेरुवालूर पी0ओ0, कोराट्टी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11280				
207063	बिपिन ए. पिल्लई	अनिलकुमार एम. एस.	बिपिन निवास, ब्लॉक नं0 142, काल्लार पी0ओ0, थन्नोमूडू, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2019	13297				
207064	बिपिसी एस.पी.	जी. सुधाकरन	कन्नाराविला वीडू, कन्नाराविला, नेल्लोमूडू पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.04.2017	11841				
207065	बिसिनी वी.	वेलायुधन के.एम.	श्रीनिलायम (एच), सरानडियिल, चवायूर पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.12.2015	10976				
207066	बिरिमल जॉन जैकोब	जैकोब जॉन	चेम्मानाम (हाउस), मुलावूर पी0ओ0, मुवाट्टुपुजा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कनाटक	केरल	02.08.2019	13269				
207067	बिरवास बित्तू	बिकाश बिरवास	गाव व पी0ओ0-हेलेनचा कॉलोनी, जिला-नोर्थ 24 परगनास 743270	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32779				
207068	बिरवास बित्तु	बिकाश बिरवास	गाव-हेलेचा कॉलोनी, पी0ओ0-हेलेचा कॉलोनी, पु0रट्टे0-बागदाह, जिला-नोर्थ 24 परगनास, वेस्ट बंगाल-743270	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32779				
207069	बिरवास मौली	सुवरो प्रतिम बिरवास	आनदादीप अपार्टमेंट, फ्लैट नं0 एफ/3, एच रोड, आनदापुरी, बराकपोर, प्रगती साघा के सामने, कोलकाता-700122	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पुणे	वेस्ट बंगाल	13.02.2020	32796				
207070	बिरवास निशित	निमाई चंद्र बिरवास	गाव-पुरातन हेलेचा, पी0ओ0-हेलेचा कॉलोनी, जिला-नोर्थ 24 परगनास 743270	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32656				
207071	बिरवास पायेल	रव. कालीदास बिरवास	गरिया, मिडल ब्लॉक चौथी लेन, नबाग्राम, राजपुर सोनापुर, पी0ओ0-पचपोटा 700152	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32695				

207072	बिस्वास पूजा	दिनेश बिस्वास	प्रता पल्ली, पो0ओ0 व पु0स्टे0-गोजोले, जिला-मालदा 732124	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32566				
207073	विश्वारा शान्तनु	निशीर कुमार विश्वारा	1 न0 बेलेस्वर, पो0ओ0 व पु0स्टे0-फालटा, जिला-साउथ 24 परगनास 743504	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32484				
207074	बिस्वास सुभाष	सुरता बिस्वास	गाव-परखनाथपुर, पो0ओ0-गंगारा मझरग्राम, जिला-नादिया 741238	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32564				
207075	बिस्वास स्वरूप	सजीब बिस्वास	75, अजय नगर साउथ दुम दुम, मोतीझील, नोर्थ 24 परगनास 700074	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32685				
207076	बिट्टमोल बेनी	पैट्रिक बेनी	पुलिकाथारा हाउस, नैलिकुजी पी0ओ0, थिक्कारियूर (पार्ट), कोथमगलम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12751				
207077	ब्लेसन थोमस	थोमस मैथ्यू	मूलामूत्तिल (हाउस), न0 18/155, मादुरचेरी कादावू के पारा, वादावाथूर पी0ओ0, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11359				
207078	ब्लेसी चाको	चाको पी.पी	पोट्टनपुजा (हाउस), वाराम्बट्टा पी0ओ0, पोञ्जुथन (वाया), जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	20.07.2018	12630				
207079	ब्लेसी वार्धसे	वार्धसे एम. जोशाफ	मालेपारम्बोल (हाउस), नीलम्पेर पौ0ओ0, कुरिची, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12225				
207080	बोधक निलजन	निताई चरन बोधक	गाव व पो0ओ0-खलना, जिला-हावडा 711413	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32580				
207081	बोनी राजन विलियम	पी. राजन	थोडूमकल (हाउस), पीरूमद पी0ओ0, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.04.2017	11852				
207082	बोस जोगोमाया	समीर कृष्णा बोस	14, बिरेन रॉय रोड (ईस्ट), कोलकाता-700008	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32701				
207083	बोस पल्लव	प्रदीप कुमार बोस	मात्रीपल्ली, 54, सी.आर. रोड, पो0ओ0-नटगढ़, सोदेपुर, जिला-नोर्थ 24 परगनास 700113	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32622				
207084	बोस सितिका	तरुन कुमार बोस	बारानिलपुर उत्तरपारा, बुर्दवान, बर्धमान 713103	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32680				
207085	ब्राइटी टी.एस.	सिमोन टी.ए.	थेक्कादन हाउस, आर.एस. वाडाक्कनचेरी पी0ओ0, मगलम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12894				
207086	ब्रिजित चेरियन	चेरियन	चित्तौनापल्ली हाउस, थुरावूर पी0ओ0, अगामली, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	05.10.2016	11514				

207087	ब्रिजी एटोनी	ए.वी. एटोनी	कृपा ज्योति प्रोविशियलेंट, मुवात्तुपुजा पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	केरल	07.09.2015	10911				
207088	बुशरा वी.एम.	मोहम्मद अली	वालियापाराम्बोल (हाउस), जी.एल.आर स्कूल के पास, चेरुथुरुथी, चेरुथुरुथी पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	केरल	16.06.2018	12521				
207089	सी चोंगमा चाबा	एच चोंगशेन	याली गाव टुइसग नागालैण्ड 798612	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	20.07.2020	130				
207090	सी शहनास	अलावीकुट्टी सी	मारहाबा मजिल, इरिगाल्लूर, कोट्टापाराम्ब, इरिगाल्लूर पी०ओ०, वेगसा, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10897				
207091	सी सोमा सुरेशन	सी सुरेशन	देवकी निवास, पाल्लीपोयिल, मूवानचेरी पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12679				
207092	कमिला नाजरीन	हमसा एम.एम.	मानालिकुडी हाउस, आदिमाली, आदिमाली पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	08.10.2018	12880				
207093	कारमेल रेगीला मैनु टी.टी.	थोमस मिशेल टी. ए.	थक्केवीटिल हाउस, कोलारीक्कल रोड, साउथ चित्तूर फेरी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	02.07.2015	10866				
207094	सेरिन फ्रांसिस	एम.ओ. फ्रांसिस	निर्मला प्रोविशियल हाउस, एरुमाथाला पी०ओ०, चुनागमवेली, अल्ला, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	केरल	07.09.2015	10910				
207095	चित्रा एस.	सुगथन के.	इल्लूविला वीडू, थजुथाला, कोट्टीयम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2017	11682				
207096	चक्रबोती पलाश	पकज कुमार चक्रबोती	गाव व पी०ओ०-कानपुर, कोस्ट-उडयनारायणपुर, जिला-हावडा 711410	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32514				
207097	चक्रवती अनीन्द्या	चदन चक्रवती	लाईन न० 14, रूम न० 319, फार्टगोस्टर 'डी' ब्लॉक, हावडा-711310	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32477				
207098	चक्रबोती अर्पण कुमार	अनिल कुमार चक्रबोती	गाव-मथुरा, पी०ओ०-बोदाई, नोर्थ 24 परगनास 700126	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32776				
207099	चक्रबोती अरुनघती	आशीष चक्रबोती	एफआर 5/4/ए, जयगरा, साउथ मध, पी०ओ०-जयगरा, नोर्थ 24 परगनास 700059	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32706				
207100	चक्रबोती आर्येशिक	पार्थ प्रतीम चक्रबोती	32, शिबपाडा पौल पल्ली, अरियादाहा, नोर्थ 24 परगनास 700057	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32603				
207101	चक्रबोती बिरवाज्योति	बिरवानाथ चक्रबोती	2, रफी अहमद किदवई रोड, धर्माताला, कोलकाता-700013	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32700				

207102	चक्रबोती डोली	सुभाष कुमार चक्रबोती	जीबी-4, बिनोद अपार्टमेंट, रबिंद्रपल्ली, जयागरा, बागुयती, कोलकाता-700059	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32684				
207103	चक्रबोती प्रनय	ठाकुरदास चक्रबोती	12/जी हरनचंद्र बेनजी लेन, पो0ओ0-कोनगर, जिला-हुगली 712235	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32517				
207104	चक्रबोती रितुपर्णा	सौमित्रा चक्रबोती	मार्फत अमरेश दत्ता, रामचंद्रपुर, पानिहटी, सोदेपुर, नोर्थ 24 परगनास 700110	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32730				
207105	चक्रबोती श्रीमती प्रियका चट्टर्जी	प्राणगोपाल चक्रबोती	एल/3, सरतपल्ली, मेदिनीपुर (वेस्ट)-721101	बीएचएमएस	जुलाई-2008	यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान	वेस्ट बंगाल	30.05.2014	30620				
207106	चक्रबोती सौरभ	समीर कुमार चक्रबोती	वार्ड नं0 11, नदीरा, रघुनाथपुर, पुरुलिया 723133	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32600				
207107	चक्रबोती तनुश्री	तपन कुमार चक्रबोती	4/15, जतिन दास नगर, बेलघरिया, नोर्थ 24 परगनास 700056	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32624				
207108	चक्रबोती प्रिया	समीर चक्रबोती	खयरामरी कॉलेज रोड, बोनगाव, नोर्थ 24 परगनास 743235	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32718				
207109	चक्रवती एस जी एस	एस वी सत्यानारायणा मूर्ति	हाउस नं0 4ए, डीडी वेचर बन अपार्टमेंट, तिरुनाक्कारा यूनिवर्सिटी क्लब, जिला-कोड्डाग, केरल	बीएचएमएस	2005	डॉ0 एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आंध्र प्रदेश	केरल	04.11.2019	13444				
207110	चदाना सी वी	एम चद्रन	किलिकूडू, विद्याराला नगर-476, अररामाम पी0ओ0, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11638				
207111	चदाना के.	राजेश के.	नावाचदनम, चिराक्कल पी0ओ0, करियाड-पुजाथिल, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.10.2018	12923				
207112	चदेरा मादियन स्नेहा	मगाथिल गनेसन	गायत्री, बेल्लिकोथ, कहनगड, जिला-कसरगोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.07.2017	11910				
207113	चादनी सी	मनिकटन एस	चदिनी, प्लानकाला, पूवार पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12023				
207114	चादनी एम पी	चद्रन के.एम	चद्रकथम, एजोम, एजोम पी0ओ0, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11363				
207115	चादनी राज एस एन	राजन कोबुम्मल	मावात्ते (हाउस), पायली पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12090				
207116	चादनी पी एस	सुगुनन पी पी	पाडिहारे पुराक्कल हाउस, मान्नूर पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13042				

207117	चन्द्र सुभाष	श्री आशाराम यादव	मोहल्ला-बाकेरगज, पो0ओ0 व पु0स्टे0-लहेरियासराय, दरभंगा	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	18.10.2019	33364				
207118	चानू लिखुराम बिद्यारानी	लैखुराम इबोतोम्बो मोती	मार्फत नवानिता कुडु, बदनगज, इआर पार्ट, दलालपारा, बदनगज, गोघाट, हुगली-712122	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32705				
207119	चारू चद्रन	पीएस. चद्रसेनन	चारूलयम, कृतिलोकानाम, चैकूट्टकोनम पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11592				
207120	चट्टर्जी प्रियश	प्रवीर कुमार चट्टर्जी	सी-24, ब्रह्मपुर मोर, कोलकाला-700096	बीएचएमएस	मार्च-2008	बी.आर.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	वेस्ट बंगाल	13.10.2015	30966				
207121	चटर्जी सौमी	तपस चटर्जी	गाव-चादीनगर, पो0ओ0 व पु0स्टे0-हरिपल, जिला-हुगली 712403	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32623				
207122	चट्टोपाध्याय स्वजन	देबाग्राता चट्टोपाध्याय	मिलानपल्ली, को-ओप्रेटिव, राजपुर सोनारपुर साउथ 24 परगनास 700150	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32505				
207123	चतुर्वेदी मेघा	श्री अशोक चतुर्वेदी	हाउस नंबर 142, पहला फ्लोर न्यू लाहौर कॉलोनी, गली नंबर 5, शारत्री नगर दिल्ली-110031	बीएचएमएस	2017	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	31.12.2020	बीएचएसडी/5802				
207124	चौधरी जूही	श्री अशोक कुमार	ए-107, न्यू अशोक नगर दिल्ली-110096	बीएचएमएस	2019	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	27.08.2020	बीएचएसडी/5709				
207125	चौधरी सौरभ	दिलावर सिंह	मिथलेश विहार कॉलोनी, टैगोर शिक्षा सदन इण्टर कॉलेज के सामने, असोरा रोड, हापुड, उत्तर प्रदेश-245101	बीएचएमएस	2020	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	13.08.2020	एच039122				
207126	चौहान श्रीमती इंदु	अनुभव कुमार सिंह	हाउस नं0 791/23 रामपुरी, मुजफ्फरनगर	बीएचएमएस	14.09.2011	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	01.02.2018	एच036828				
207127	चावला अनमोल	श्री राजेश चावला	ए-282, जीएफ, सूरजमल विहार दिल्ली-110092	बीएचएमएस	2018	पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब	दिल्ली	10.02.2021	बीएचएसडी/5813				
207128	चावला नवनिधि सिंह	श्री अमरजीत सिंह	ए-1/16, पचशील एन्क्लेव ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली-17	बीएचएमएस	2019	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	21.08.2020	बीएचएसडी/5704				
207129	चेलसी अब्राहम	अब्राहम पी.एम.	623/बी, पेरुवेलिल हाउस, चदनी नगर, इराहिपालम पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2019	13216				
207130	छिछोलिया शोफाली	श्री अजीत पाल छिछोलिया	प्लॉट नं0 120, ग्राउंड फ्लोर, विपिन गार्डन, द्वारका मोर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5742				
207131	चिचू बी.	सी चद्र दास	बेथेल हाउस, एनआरए-179, कुरडिबिला, नारुवामूडू पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.09.2017	12189				

207132	चिदू थॉमस ए.	ए.टी. थॉमस	एराक्कापडन हाउस, उदया प्रोविशियल के पास, इरिजालाकुडा, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12902				
207133	चिजू पौल	जोश पी.एम.	पारुथिकारायिल (हाउस), थेकारा पी०ओ०, चेरुमकुलम, मन्नारक्कड, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.01.2018	12425				
207134	चिक्कू वी. राजन	वी.जी. धर्मराजन	वेट्टियाट्टिल हाउस, पी.एस.रोड, ओल्लूर पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10813				
207135	चिन्नू ए.आर.	राजन पिल्लई	विष्णु भवन, रालूरकायू, नागारूर पी०ओ०, किलोमानूर, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.08.2018	12760				
207136	चिनोले माघ रेगमा	नथावु माघ	रेगमा कॉलोनी बालफोर्ड दिमापुर नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2018	श्रीमता शंकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस गुवाहाटी असम	नागालैण्ड	19.09.2018	108				
207137	चिथु पी.एस.	शिवादास	पुनाक्काथरायिल हाउस, काजुविलगू, माथिलाकम पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10991				
207138	चित्रा ए.आर.	रेमावरन के.	अरामोम, केआरए सी-8, एच.एस. रोड, काराकुलम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11130				
207139	चित्रा वी.एस.	विजयन के.	वीएस भवन, उचाक्काडा, पायात्तुविला पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12058				
207140	चिथु वी.	के. गणेशन	विजया विलासम, 21/349 वी. वेट्टीयारा पी०ओ०, कदमपुट्टाकोनम, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.01.2018	12464				
207141	चित्रा	श्री नवल किशोर	हाउस न० 17/656, बैंक एनक्लेव, नजफगढ़ रोड, जिला—झज्जर, बहादुरगढ़, हरियाणा—124507	बीएचएमएस	27.11.2018	भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, पुणे	हरियाणा	27.11.2018	6423-ए				
207142	चोरे कविता	रमेश चोरे	महावीर गज गली न०2, पिपलिया मंडी मद्रास मध्य प्रदेश—458664	बीएचएमएस	2019	जनादन राय नागर राजस्थान डीमंड यूनिवर्सिटी, राजस्थान	मध्य प्रदेश	09.07.2019	24656				
207143	चौधरी अनू	श्री दवेद्र नागर	ई-95/6, स्ट्रीट न० 6, तौरास पुस्ता जगजीत नगर, दिल्ली—110053	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5718				
207144	चौधरी बिपिन कुमार	अर्जुन चौधरी	न्यू तारीदीह (भागलपुर), पी०ओ० व पु०स्टे०—बोधगया, जिला—गया, बिहार—824231	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	14.10.2020	34014				
207145	चौधरी राजदीप	श्री ओम प्रकाश चौधरी	फ्लैट न० 301, बी-3/10, साई बाबा मंदिर रोड, श्याम विहार फेज-II, दिनपुर नजफगढ़, दिल्ली—110043	बीएचएमएस	2009	जनादन राय आयुर्वेद राजस्थान यूनिवर्सिटी	दिल्ली	05.08.2020	बीएचएसडी/5688				
207146	चौधरी शिवानी	सुरेन्द्र कुमार	बी-99, गली न० 3, गंगाविहार, नई दिल्ली—110094	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	23.07.2019	बीएचएसडी/5568				

207147	चौधरी अजन	स्व. अमितारजन चौधरी	अराबिदा पल्ली, पो0ओ0 व पु0स्टे0-सूरी, जिला-बीरभूम 731101	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32735				
207148	चौधरी देबाजन	देबाशिश चौधरी	417/3, अशाकनगर, पो0ओ0 व पु0स्टे0-अशोकनगर, ललिन सारणी, जिला-नोर्थ 24 परगनास 743222	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32582				
207149	चौधरी राजेश चद्र	सुरेश चद्र चौधरी	37, देशप्रिया स्कूल रोड, तरुन दल पार्क नदन कानन, पो0ओ0-नबा पल्ली नोर्थ 24 परगनास 700126	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	23.05.2019	32539				
207150	चौधरी सबनम	मोरुदीन चौधरी	गाव-तेलूर, पो0ओ0-बिउर, जिला-बकुरा 722205	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32475				
207151	चौधरी सुरमीता	सोवोन चौधरी	178/ए, निबेदिता पल्ली, राजा राममोहन रॉय सारणी, बिद्याबती, सरामपोर, हुगली, 712222	बीएचएमएस	सितम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	25.02.2020	32798				
207152	चुविलु रहिमेह	डापी रहिमेह	दा ग्लोबल यूनिवर्सिटी पी.ओ एआरटीसी, सोडजुलहोउ गाव दिमापुर नागालैण्ड 797115	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	15.02.2020	126				
207153	सिटो कात	सूर्याकात	अनुग्रह हाउस, कारमाकुजी, थिरुपुरम पी0ओ0, नेयाट्टिनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.06.2019	13133				
207154	सिरना टी. सुरेन्द्रन	सुरेन्द्रन टी.के.	कमल (हाउस), बाय-पास रोड, थिरुवनूर नाडा पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12873				
207155	क्रिसटीना सारा चाक्कू	चाक्कू वर्धस	कोडिकेरिल हाउस, कुरुगाजा पी0ओ0 कोडपुरम, कुरुगाजाभगोम, जिला-पठानामथिष्टा, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.07.2019	13198				
207156	क्रिस्टी जोश	जोश टी. जॉर्ज	थिक्कानास्सेरिल (हाउस), मुथलाकोडन पी0ओ0, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13258				
207157	कुक्कू रजीव आर.	रजीव पी.के.	उथरात्ताथि, कय्यम, अरियिल पी0ओ0, तालोपराम्बा, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2016	11473				
207158	डागर मनाली	श्री सतबीर सिंह डागर	फ्लैट नंबर 572, पॉकेट-8, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110053	बीएचएमएस	2018	डॉ0 एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	दिल्ली	22.10.2020	बीएचएसडी/5787				
207159	डालिया ई.	बालाकृष्णन	एडकडियियल (हाउस), कारियाद साउथ पी0ओ0, मुक्कालिककारा, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12068				
207160	दाना सोमेन	भक्ता राम दाना	गाव व पी0ओ0-निरोल, निरोल, बंधमान 713140	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32710				
207161	दानो सी	सुदरन सी	चोनाथिगल, मुडरी पी0ओ0, मुडरी, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.04.2019	13098				

207162	दानीश अली पी.के.	अब्दुल अजीज पी.के.	दादु हाउस, एदाशरीरी कादायू, चीकोडे पी०ओ०, एडावन्नाप्पारा वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11285				
207163	दानिया शाजी	शाजी के.जे.	कोयिक्कल (हाउस), एडाक्कारा पी०ओ०, कालासागर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12676				
207164	दानिया उमर पी.	उमर पी.	पारोकोट (हाउस), कारियावाट्टोम, मान्नारमाला पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.03.2017	11821				
207165	डफ़ेनेसिया परैट	श्री पी. डैन्नादोह	लडथादलाबोह, जोवाई, वेस्ट जैनतिया हिल्स	बी.एच.एम.एस.	21.10.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मेघालय	28.11.2020	489				
207166	दर्शना देव ए.पी.	पुष्पागिथन सी.	देव निवास, मुल्लाराविला, पेरूमपाजुथूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11918				
207167	दर्शना एम.एस.	सुगुनाकुमार एस.	श्रीरूद्र भवन, पीएचसी के पास, एनएच 17, चेरानाल्लूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	22.10.2018	12919				
207168	दास अभिषेक	परीमल काति दास	काकट्टीप, साउथ 24 परगना, राधताला, पूर्वा गणेशपुर 743347	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32511				
207169	दास अलोक रजन	स्व. श्री आशु देब दास	935/ए, फरीदपुरी, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली-110008	डीएमएस	1970	काउंसिल ऑफ होमियोपैथी वेस्ट बंगाल	दिल्ली	28.09.2020	बीएचएसडी/5784				
207170	दास अनिरबन	आरूप कुमार दास	3/डी, सारितताला लेन, रिशरा, जिला-हुगली 712248	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32561				
207171	दास अरिजित	निर्मल चद्र दास	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01, पी०ओ०-सैनथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32518				
207172	दास आशा	स्व. दिलू दास	62, बिपिन गागुली रोड, मायरा बगान, घुघुदगा 700030	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32691				
207173	दास देबोब्रिता	कामालेदु दास	गाव-रघुनाथपुर, पी०ओ० व जिला-झारग्राम 721507	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32497				
207174	दास जॉय देब प्रसन्ना	कृष्णा चद्र दास	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01, पी०ओ०-सैनथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	14.08.2019	32552				
207175	दास कौशिक	सिसिर दास	गाव व पी०ओ०-हीरापुर, जिला-हावडा 711310	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32715				
207176	दास कृष्णा गोपाल	सुजित कुमार दास	ई-18/4, मिलन पल्ली, कुरुकुरिया दगा, पी०ओ०-अमराय, दुर्गापुर, जिला-बर्धमान 713203	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32519				

207177	दास निबेदिता	नित्यानदा दास	गाव व पो0ओ0-बिस्वारम्भा (चपाताला), जिला-बुर्दवान 713513	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32520				
207178	दास पलास	गोविन्दा चन्द्रा दास	गाव-जटाधरपुर, पो0ओ0-कालरा, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर 721146	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32483				
207179	दास पौलामी	स्व. नेताई चद्र दास	100/एच/15 सुरेन सरकार रोड, कोलकाता-700010	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	13.05.2019	32535				
207180	दास पूजा	गोपी लाल दास	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लौतौर 01, पो0ओ0-सैनथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32732				
207181	दास राजू	मनोज दास	गाव व पोस्ट ऑफिस-रगाबेलिया, जिला-साउथ 24 परगनास 743370	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32468				
207182	दास शावोली	सर्जोय दास	मार्फत अनिरबन एश, जगदीशपुर रोड, डोमजुर, हावडा 711405	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32663				
207183	दास सोमनाथ	स्व0 पद्मीपता कुमार दास	गाव-कमरदा, पो0ओ0 कमरदा बाजार, जिला-पूर्वा मेदिनीपुर 721432	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32474				
207184	दास सोनाली	सुभाष दास	गाव-उत्तरब्रह्मापुर, पो0ओ0-निमताला बाजार, जिला-नादिया 741257	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32506				
207185	दास सौरिता	तारक नाथ दास	शाशिताला लेन, कालीताला, पो0ओ0-मालदा 732101	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32559				
207186	दास सारिरुपा	स्व. डी0 स्वपन कुमार दास	10/1बी, इद्रा राय रोड, भोवानीपोर, कोलकाता 700025	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32589				
207187	दास सुभोजीत	नारायण चद्र दास	जी-49 स्कूबी गली, बिधान-नगर, दुर्गापुर-12, जिला-बुर्दवान 713212	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32510				
207188	दास सुरजोत	रजोत सीएच. दास	भैरव अपार्टमेंट फ्लैट न0-403, 60 फीट बाय पास, इस्माईल, सारितनगर, शताब्दी नगर, बीआई बीए डीआई पॉली, हीरापुर, पश्चिम बुर्दवान-713301	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32440				
207189	दास तानिमा	सनत कुमार दास	गाव व पो0ओ0-गोपालनगर, जिला-पूर्वा मेदिनीपुर 721130	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32733				
207190	दास तनुश्री	केशव चद्र दास	अधिकारी पास (पूर्वा पास) वार्ड न0 6, पो0ओ0 व पु0स्टे0-मेखलोगज, जिला-कूच बेहार 735304	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32556				
207191	दास वैष्णवी	स्व. मानश दास	निजगन, पुखुरिया, मालदा 732204	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	13.05.2019	32533				

207192	दासमडल सोमा	अरोबिदा दसमडल	गाव-जगलपारा, पो0ओ0-जगलपारा बाजार, जिला-हुगली 712701	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32722				
207193	दस्तालुकदार नटु	निखिल दास तालुकदार	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01. पो0ओ0-सैनधिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32528				
207194	दत्ता अरिन्दम	उत्तम कुमार दत्ता	भैरव अपार्टमेंट फ्लैट न0-403, 60 फीट बाय पास, इस्माइल, सारितनगर, शताब्दी नगर, बीआई बीए डीआई पॉली, हीरापुर, पश्चिम बुर्दवान-713301	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32442				
207195	डाउन सुमन	उज्ज्वल डाउन	ग्राम- चैतन्यापुर, पो0ओ0- माथरून, जिला-पूरबा बुर्दवान 713143	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32459				
207196	डी सुबामय	शकर डी	ग्राम-राजहाथी, पो0ओ0- राजहाथी बंदर, जिला-हुगली 712417	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32460				
207197	डे सौरव	बलाई डे	गाव-कागली, पो0ओ0-बखराबाद, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर 721424	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.12.2019	32787				
207198	देब अनुरुद्ध	बिपलाब देब	245 बिरेन्द्र कुमार दत्ता लेन, उकौलपारा, रायगज, उत्तर दिनाजपुर 733134	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32689				
207199	देब पियाली	परीमल चंद्र देब	मार्फत सीमा दत्ता, 81, रामचंद्रपुर रोड, रामचंद्रपुर रोड, पानिहटी, 23, खरदाह, नोर्थ 24 परगनास 743178	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32767				
207200	देववर्मा बुलती	रव0 दिलीप देववर्मा	मार्फत चित्रा चट्टर्जी, ग्राम-लातुर 01 पो0ओ0-सैनधिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32452				
207201	देववर्मा सुशमिता	अता मनि देववर्मा	मार्फत चित्रा चट्टर्जी, ग्राम-लातुर 01 पो0ओ0-सैनधिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32451				
207202	देबनाथ दिपाविता	दीपक कुमार देबनाथ	मार्फत गौतम गोरवामी, 46-ए, अरुणाचल (पूर्वी), खरदाह, सोडपुर, कोलकाता-700110	बीएचएमएस	मई-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.06.2019	32548				
207203	देबनाथ इशिता	श्याम प्रसाद देबनाथ	1492, श्री पल्ली पाटला, नोर्थ बराकपुर, पो0ओ0-बंगाल एनामेल नोर्थ 24 परगनास 743122	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32696				
207204	देबनाथ नबानिता	ज्योतिर्माय देबनाथ	मार्फत जुधिका मोल्ला, घोशपुर कॉलिया, नबाग्राम, सिकीपुर, हावडा-711315	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32617				
207205	देबनाथ निलजना	नानी गोपाल देबनाथ	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01. पो0ओ0-सैनधिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32498				
207206	देबनाथ निलिमा	नारायण चंद्र देबनाथ	मार्फत सुजित माजुन्दार, 49, स्वामी बारगा रोड, 23 खरदाह, नोर्थ 24 परगनास 700110	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32727				

207207	देबनाथ तपस	तारानी देवनाथ	भैरव अपार्टमेंट फ्लैट न०-403, 60 फीट बाय पास, इस्माईल, सारितनगर, शताब्दी नगर, बीआई बीए डीआई पॉली, हीरापुर, पश्चिम बुर्दवान-713301	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32441				
207208	देब्रॉय दिपानिता	सुब्रता देबरोय	मार्फत अशोक कुमार बारोड, 39ए, अरुणाचल (ईस्ट), सोदपुर, कोलकाता-700110	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32669				
207209	दीना डेविस सी	डेविस सी.ए.	अरिससी प्रोविशियल हाउस, थिरसुर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2016	11471				
207210	दीपा एम.	पदमनाभान पी.	कोलाथयिल हाउस, पथोरानकावू पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.12.2017	12357				
207211	दीपा पी.पी.	पैथल पी.पी.	पंडिपराम्ब (हाउस), चूल्कोड पी०ओ०, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	09.11.2017	12294				
207212	दीपा रामानाथ	टी.आर. रामानाथन	लक्ष्मी (हाउस), वल्लुवल्ली, कूनाम्मावू पी०ओ०, नोर्थ, पारावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.12.2016	11667				
207213	दीपा एस.	सुभाष के.आर.	एडायदियिल (हाउस), मुरियाद पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12797				
207214	दीपा वी.वी.	विजयाप्रसाद वी.जी.	वाजाप्पिल्ली (हाउस), काप्पील पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11089				
207215	दीपक के.पी.	के. चद्रन	कुन्नुमल पुथिया हाउस, कारामल, वेल्तूर पी०ओ०, पायानूर, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.10.2018	12918				
207216	दीपना राजा वादिवू जी.	एन. गणपती	मायूखम, वरनाड पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2008	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13422				
207217	दीपिका लाल	एस.आर. लाल राजन	राजी मंदिरम, वेलियम पी०ओ०, कोट्टाराकरा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11090				
207218	दीपिका पी.एन.	प्रभाकरन के.	महेश भवन, थोड्याथिल पोद्दा वीडू, कचमपाञ्जिरी पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.11.2017	12312				
207219	दीपिका एस.मोहन	एन. मोहनन	कुदरावायालिल, मुद्रोथुरुथु, पट्टमथुरुथु पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.01.2018	12402				
207220	दीप्ति सी.	दिवाकरन के.	चम्मूर हाउस, केचेरी वाया, चेम्मानथत्ता पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.07.2017	12045				
207221	दीप्थी सी.टी.	चद्रन सी.टी.	चेरुकट्टु थोडी हाउस, कप्पिल पी०ओ०, वडोर वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.02.2017	11755				

207222	दीप्ति फर्नांडीज डब्ल्यू	पी विलियम फर्नांडीज	टी.सी. 34 / 565, जोविन लैण्ड, कन्नानथुरा, बीच पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2013	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11518				
207223	दीप्ति के.वी.	उन्नी कृष्णन के. वी.	पूक्काट्टे हाउस, नाडुक्कावुगल, चेमराक्काट्टुर पी0ओ0, एरियाकोड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13062				
207224	दीप्ति एम.के.	कुमारन एम.	मानाम्मल (हाउस), अरियाल्लूर पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12743				
207225	दीप्ति एन.पी.	कुमारन टी.पी.	नाडुप्पाराम्बोल (हाउस), बाल्स्सेरी पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	12.01.2018	12444				
207226	दीप्ति नदानन	के.वी. नदानन	पूणिमा, हाउस न0 वरेरा 11, वाट्टाक्काट्टूर रोड ईस्ट, कालूर, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	02.07.2015	10863				
207227	दीप्ति पी.	राघवन पी.	प्रनारसेरी (हाउस), चेरुवायूर पी0ओ0, वाजाकड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.06.2018	12571				
207228	दीप्ति आर.के.	जी. राधाकृष्णन	दीपक, थिरुपुरम पी0ओ0, थिरुपुरम, न्य्याट्टिन्कारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11138				
207229	डेनो जॉर्ज	जॉर्ज देवासिया	एस.एच. प्रोविशियल हाउस, राजामुडी पी0ओ0, मुरिकारसेरी, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12906				
207230	देवेदु सी.वी.	विनयाकुमार सी.	श्री रगम, ओरुमा-63, अरालूमडु पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.09.2018	12770				
207231	देवी जी. राधी	एन.आर. गोविंथा राजू	न0 3 / 3, के.पी.जी. नगर, सुलुर कोयम्बटूर, तमिलनाडु-641402	बीएचएमएस	2009	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	29.06.2009	3092				
207232	देवी कृष्णा	जी.आर. कृष्णा कुमार	श्रीविलास, थक्कैविला पी0ओ0, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11171				
207233	देवी महेश एस.	के. माहसन	देवी मंदिराम, पुन्नापरा पी0ओ0, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12087				
207234	देवी पी.एम.	मुरलीधरन पी.एस.	पाराथ (हाउस), मेथला पी0ओ0, इरिसेर्यपालम, कोडुगल्लूर, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.05.2017	11871				
207235	देवी सोराम अमिता	सोराम उपेन्द्रो सिंह	मार्फत आरोबिन्दा सरकार, पुकुर पारा, कुन्डोला, बीरभूम 731234	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32448				
207236	देविका बाबू	पी.एम. बाबू	स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक, सिटी बाजार, आदिमाली पी0ओ0, आदिमाली, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2017	11676				

207237	देविका एम.	मनोज एम.	अवधिका, कालपाथुर पी०ओ०, मेम्पायूर, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2016	11469				
207238	देविका वी. मेनोन	वी.के. विजयाकुमार	श्रीसेलम, मजाकाडु रोड, नाराक्कल, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13416				
207239	देवान दीपशिखा	बिमल काति देवान	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लौतोर 01, पो०ओ०—सेनथिया, जिला—बीरभूम 731234	बीएचएमएस	नवम्बर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32729				
207240	डे अखिलेश	गणेश डे	गाव—रघुबती, पो०ओ०—ब्रह्माणपारा, जिला—हुगली 712405	बीएचएमएस	मार्च—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32489				
207241	डे नदिता	नारायण चद्र डे	4, काजी नाजरूल इस्लाम सारणी, नोर्थ दुम दुम, निमाता, जिला—नोर्थ 24 परगनास 700049	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32673				
207242	डे रुद्रक्षी	सुधागणु डे	मार्फत सुजित माजुन्दार, 49, स्वामी बारगा रोड, 23 खरदाहा, नोर्थ 24 परगनास 700110	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32728				
207243	डे सागर	सलिल कुमार डे	गाव—मुरलीबार, पो०ओ० व पु०स्टे०—बगनान, जिला—हावडा 711303	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32713				
207244	डे सुभाकर	गोपाल चदा डे	ए/12, बाघजतिन पल्ली, पो०ओ०—सेगट एस्टेट, कोलकाता—700092	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32625				
207245	डे ताराचद पारामिता	सुदर्शन बिस्वास	मार्फत सुदर्शन बिस्वा, फ्लैट न० जे०४, दूसरा फ्लोर, ब्लॉक—बी, जीत ओमेगा, 2153, मुकुदापुर, मिलन पार्क, साउथ 24 परगनास 700099	बीएचएमएस	फरवरी—2011	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	वेस्ट बंगाल	06.06.2019	32544				
207246	धनलक्ष्मी पी	मुरलीधरन एम.	लक्ष्मी विहार, कुन्नाथोर ईस्ट पी०ओ०, कुन्नाथोर, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11654				
207247	धनाश्री एम.बी	पी.मोहन	मुदनताकादायिल वीदू, नीराविल, पेरिनाड पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.03.2016	11159				
207248	धनाश्री वेद्व्याथु	राजन वी.के.	वेद्व्याथु हाउस, कोलेनचेरी पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.12.2018	12969				
207249	धानेश चद्रन	वी. चद्र बाबू	लक्ष्मी विलासम, पोरुथमोन, पुलिमथ पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11734				
207250	धन्या फ्रांसिस	फ्रांसिस पुथुकारा वाराप्पन	पुथुक्कारा हाउस, पेरामगलम, जिला—थिरुसर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12024				
207251	धया ए.पी	सुकुमारन ए.पी	एरीरी पारामबील (हाउस), वेट्टोम—पाडोयाम पी०ओ०, तिरूर, जिला—मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11533				

207252	धया के.	पी. कोचू गोविंदन	16/400, पनिकरकलाम, नाट्टुकल (वाया), अधिकोड पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11742				
207253	धन्या के.	उन्नीकृष्णन के.	धन्य भवन, चेमबथिट्टा, करिम्बा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	24.10.2017	12282				
207254	धन्या एन. राजन	नटराजन आर.	पुथु वीट्टु विलाकाथु पुथेन वीडू, कारुमानूर, परसाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.11.2019	13447				
207255	धया एस.एस.	जी. सेल्वाराज	एस.एस. भवन, पारुथिविला, अयिरा पी०ओ०, नेयाट्टीनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2017	11683				
207256	धन्या सुधाकरन	आर. सुधाकरन	चित्रा भवन, वेकोड, चेरियाकोल्ला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13424				
207257	धवन तान्या	श्री सुरिंदर धवन	90/6बी, जीएफ, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5758				
207258	ढेकवार देवकी	गुलचंद ढेकवार	एंट प्रो हेल्थ सेटर सिगोला, पी०ओ०-मिरिया, तहसील-ताजी, जिला-बालाघाट, मध्य प्रदेश-481224	बीएचएमएस	2019	रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर	मध्य प्रदेश	03.03.2020	25340				
207259	दिलना अब्दुल्ला टी.	अब्दुल्ला टी.	धदायिल हाउस, पूलावर, आर.ई.सी. पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.10.2016	11545				
207260	दिलरुबा अब्बास	पी.एम. अब्बास	पदिहाक्कारा हाउस, पेरुमपिलावू पी०ओ०, कारीक्कड (वाया), जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.10.2017	12267				
207261	दिनी सुधीर के.	सुधीर के.एन.	कालाथिल हाउस, पालायूर, चावाक्कड पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.11.2016	11578				
207262	दिव्या आर.	रामारवामी के.	धनुष निवास, चित्तुर कावू, चिट्टू पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.10.2017	12270				
207263	दृश्या आर.	सोहिथ पी.के.	कृपा, आईटीआई कॉलोनी, कारिगारापुल्ली पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12703				
207264	दृश्या शिवदर्शन	सिवदर्शन	प्रियकारी (हाउस), इदाक्कुलम पी०ओ०, कोयिलडी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2018	12601				
207265	ध्यानी शाम्भवी	श्री मनोज कुमार ध्यानी	हाउस न० बी-81, स्ट्रीट न० 10, खजूरी खास, कॉलोनी, दिल्ली-110094	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	11.08.2020	बीएचएसडी/5691				
207266	डिबोइमि लयगदोह	श्री एच. सुतिग	साहकिमफोर ईस्ट जैनतिया हिल्स	बीएचएमएस	03.01.2021	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बेगलोर	मंगलालय	25.03.2021	511				

207267	दिफला के.	मोहम्मद के.	काराक्कादन हाउस, वाल्लुवगड साउथ, पादिककड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10859				
207268	डिगिमोल विरोनी टी डी	टी डी देवास्सी	धनीक्कापिल्लो हाउस, मदर टेरेसा लेन, के.पी. वाल्लोन रोड, काडावाथरा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11998				
207269	दिलना डी एस.	दावादास	डी एस. हाउस, कट्टारथ थाजक्कुनी, वैक्कीलारसोरी पी०ओ०, वाटाकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.12.2017	12338				
207270	दिलना के पी	रविन्द्रन पी.	किन्नक्के पुथालथ (हाउस), मक्काडा पी०ओ०, काक्कोडी वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11199				
207271	दिलना पी के.	कृष्णन	अरिमीथल, मेमुडा पी०ओ०, वडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2017	11792				
207272	दिलराज एम.	के रामाचद्रन	ह्वारका (हाउस), वेल्लानूर, चूलूर पी०ओ०, एनआईटी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12740				
207273	दिलरुबा अब्दुल सलाम	टी.एम. अब्दुल सलाम	थचोडी (हाउस), थुडिपराम्बोल, पी.जे. एटोनी रोड, पाचलम पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.08.2018	12723				
207274	दिलशा के.	दामोदरन के.	कोट्टाराथिल कुट्टीपल्लीयालिल (हाउस), पुलिककल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.10.2018	12867				
207275	दिलशाद अली के.	मोहम्मद अली के.	कोम्बथ हाउस, कोम्ब, कोदाक्कड पी०ओ०, मन्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.08.2017	12117				
207276	दीनू एस.	एम. सतीश	के.एम.पी. हाउस, हाई स्कूल जकशन के पास, वारकाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11983				
207277	दीप्ति नारायण	ललित नारायण	ग्राम व पोस्ट-मदिर ताला, बेजबाबूर घेरी, वाया-रूद्र नगर, सागर इसलेण्ड, 24 परगनासा साउथ, वेस्ट बंगाल-743373	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32454				
207278	दिशा	श्री वी.के. मल्होत्रा	176, राजौरी अपार्टमेंट्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110064	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	18.08.2020	बीएचएसडी/5701				
207279	दिविया कृष्णा नायर पी	ई.एन. उन्नीकृष्णा नायर	पट्टाथिल हाउस, पुथुवल रोड, पल्लीपुरम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11476				
207280	दिव्या बाबू	बाबू	कूरमकुन्नेल हाउस, उप्पाडा पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12096				
207281	दिव्या बाबू	टी.आर. बाबू	थक्केकावानाट्टु, मारियाथुरुथु पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13070				

207282	दिव्या जे.बी.	जया कुमारन धामपी	गीताजली, अम्बाकुडी वीड, कोडनकारा, मारियापुरम, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13086				
207283	दिव्या के.	सुरेन्द्रन वायडीयर के.	कारुपाराम्बोल (हाउस), के.पुरम पी०ओ०, मूलाक्कल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11538				
207284	दिव्या के.	उन्नीकृष्णन के.	कालेनमारिल (हाउस), वालियाकुन्नू पी०ओ०, बालचेरी (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.11.2018	12934				
207285	दिव्या के.जी.	एस. गोपालाकृष्णन	गोपालाकम, एडावट्टोम, वेल्लीमोन पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10793				
207286	दिव्या पुष्पराज	पुष्पराज के.	पाट्टिला मुरियल हाउस, एवर साउथ, कीरिक्ड पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.12.2019	13478				
207287	दिव्या राजन	राजन टी.एन.	धनिकुन्नील हाउस, कुरुवितारसेरी पी०ओ०, माला, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	06.03.2017	11776				
207288	दिव्या सोमन	सोमन पिल्लई के.	अमर दीपम, प्रयार (नोर्थ), प्रयार पी०ओ०, ओचिरा, जिला-अलाप्पुजा केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	15.02.2018	12473				
207289	दिव्या श्रीनाथ	के. श्रीनाथ	श्रीनिलायम हाउस, कावुमपडी, मुवाट्टुपुजा पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	22.03.2019	13068				
207290	दिव्याश्री के.बी.	दिवाकरण के.बी.	साबरी निवास, कोयामाराक्काडु, निदा गार्डन के सामने, काजीक्कोड पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.04.2018	12485				
207291	दिवाकर उर्वशी	श्री पी.आर. दिवाकर	डीडीए प्लेट्स, प्लेट नंबर 8 डी, पॉकट-2, सेक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली-110075	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	10.02.2021	बीएचएसडी/5811				
207292	दिया गोपी	गोविंदन के.बी.	कन्नामपिल्ली हाउस, किफरा पी०ओ०, कोराट्टी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12410				
207293	दिया सेबेरिटयन	सेबेरिटयन जोशफ	थेवारकुन्नेल हाउस, रामापुरम बाजार पी०ओ०, वेल्लिलाप्पल्ली, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10900				
207294	डोन्ना जे. ऐकारा	ए.एम. जोनी	एकारा हाउस, थिदानद पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13413				
207295	ड्रिसया एल.जो	जोश राज एम.	टी.सी. 19/402-2, धिलिजयो वाट्टाविला, थिरुमाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12148				
207296	दृश्या वी	जी.बाबू	पालाविला वीडू, येरूर पी०ओ०, येरूर, आचल, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.10.2017	12259				

207297	दत्ता सुदेशना	आशिम कुमार दत्ता	कल्याण ग्राम-2, पी0ओ0-हिन्दुरतान कबाल, जिला-वेस्ट बुरुदवान 713335	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32693				
207298	दत्ता सुदिप्ता	सुनील कुमार दत्ता	धर्मराज ताला, पी0ओ0 व पु0स्ट0-सेनथिया, जिला-बोरभूम 731234	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32636				
207299	एस्थर लिवी शोहे	हेवोटो शोहे	हाउस न0 46/बी चौथा माईल डिफुपर दिमापुर नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2017	श्रीमता शकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस गुवाहाटी असम	नागालैण्ड	25.09.2018	109				
207300	ईश्वरी टी.के.	बी थका नादर	कमला भवन, अरायूर, अरायूर पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12395				
207301	ईबी सेन	सेबरिटयन पी.एम.	पुलिकाकुन्नेल हाउस, ओजुकुर पी0ओ0, मोरायूर, मोगम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11993				
207302	एल्बी एल्डोस	पी.पी. एल्डोस	पालाक्कापिल्लिल (एच), सेनापथी पी0ओ0, सेनापथी, जिला-इडुक्की केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.07.2015	10874				
207303	एल्बू पॉल	पॉलस ए.बी.	अलूगपाडाविल (हाउस), चेम्मानाडु (कारा), वारिकोली पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11102				
207304	एल्थो पॉल	पॉलस	पूथेथ (हाउस), वदायमपडी पी0ओ0, मालेकूज, एकारनाड साउथ, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12535				
207305	एलिया स्टेफी	शाजी जॉर्ज	पानाक्कापाराम्बील, पल्लोपॉर्ट पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12407				
207306	एलिजाबेथ अब्राहम	अब्राहम के.वी.	कुझिवेल्लोपुरथ (हाउस), थेवाक्कल, वी.के.सी. पी0ओ0, कोचो, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.09.2018	12772				
207307	एलिजाबेथ निरसी जरटीन	एस. जरटीन	सेबरिचयन कॉर्टेज, काल्लुविलायिल हाउस, त्रिपुनिथुरा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.07.2017	12033				
207308	एल्सा एनी मैथ्यू	वी.ई. मैथ्यू	वाट्टाधिचिरायिल (हाउस), कुझिमाट्टोम पी0ओ0, पानाचिक्कड, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11233				
207309	एमेलिया मिशेल	थोमस मिशेल	थायिल हाउस, मगोड, कोट्टामाला पी0ओ0, जिला-कासारागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	29.07.2017	12054				
207310	एमिदकश्वा रिगाखलेम	श्री आर. गुरुग	मिहमीन्तदू, लुमाप्रितुह, जावाई, वेस्ट जैनतिया हिल्स	बीएच.एम.एस.	04.01.2021	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मैघालय	18.02.2021	505				
207311	ईश्वरी एम.एस.	अचुथन पिल्लई पी.जे.	मदक्काविल विडु, पूवात्तूर वेस्ट, मावदी पी0ओ0, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11134				

207312	फाबिधा पी पी	लथीफ पी पी	पुथान पीडिकाक्कल हाउस, चिरायिल पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.11.2017	12305				
207313	फाबना एम	वोरनकुट्टी एम	कौदाक्कट हाउस, कालीकट ऐयरपोर्ट पी०ओ०, कोडाट्टी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.10.2018	12860				
207314	फाबी ए	अशरफाली के एम	कोट्टयल हाउस, कन्मबरा पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.02.2018	12471				
207315	फादिया अली सी	मोहम्मद अलीयार सी	चिट्टेथुकुडी हाउस, पायनाड पी०ओ०, कुट्टीपारा मजेरी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13023				
207316	फौजा सी के	अहमद सी के	अनाप्पिलक्कल हाउस, पुल्लचेरी, कुजिमन्ना पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	06.05.2016	11268				
207317	फहीमा पी	मोहम्मद अब्दुल अजीज पी	ग्रेस, केएमएच रोड, तिरुसगडी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	10.12.2015	10967				
207318	फाहिमा एन	मोडदुटी एन	हिल व्यू, कुन्नाक्कावू पी०ओ०, चेरुकारा (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.06.2018	12561				
207319	फाहिसा के	मोइदीनकुट्टी	कोडनगिलाकथ हाउस, ईस्ट ओट्टापलम, ओट्टापलम, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.01.2019	12989				
207320	फाहमोदा जहान पी	अब्दुरसमाद पी	कारीपाला हाउस, ईस्ट वेलियाथुनाड, वेस्ट वेलियाथुनाड पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12590				
207321	फाहमो बेकर	अबूबक्कर	चुनदायिल (हाउस), कोट्टापल्ली पी०ओ०, विल्लियापल्ली वाया, वाडाकरा, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.03.2016	11192				
207322	फैयाज मो०	मो० मूसा	8/2/70 औराबिदा सारपी (ईस्ट कमलापुर), पी०ओ०—दुम दुम, कोलकाता—700028	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32709				
207323	फैजा पी एस	पी बी शॉल हमीद	पुल्लाथ पाराम्बील (एच), अजका भवन, यू सी कॉलेज पी०ओ०, अलूवा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	28.07.2015	10888				
207324	फैजा शहनाज	गुलाम मो० मुस्तफा	मोहल्ला—सादपुरा, जामा मस्जिद के पास, पी०ओ०—रामना, पु०रटो—काजी मोहम्मदपुर, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार—842002	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33708				
207325	फामिथा के एम	के एम मोहम्मद कारीम	कालाक्कात्तुपाराम्बील हाउस, कजनी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11526				
207326	फनशा बी	अब्दुल नजर बी	मूधेदथा पाराम्बा (हाउस), कावानूर पी०ओ०, कावानूर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12711				

207327	फरीद अहमद के.	एम. कमल बटचा	6-3-68/1, इदिरा नगर, उधमापलायम (पीओओ)(तालुक), धेनी (जिला), तमिलनाडु-625533	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	23.05.2019	6280				
207328	फरीदा के.वी.	अब्दुल्ला एम.पी.	मादीहा, नाराथ पीओओ, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11348				
207329	फरहा हबीबुल्ला	पी.ए. हबीबुल्ला	पूवाथिल हाउस, वी.पी. माराक्कर रोड, इडाप्पल्ली टोल कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12586				
207330	फरहा एम.एच.	सैयद अवर मुनाफर	इलहम, बीच रोड, कोयिलडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11075				
207331	फरहाना कमल एम.	मोहम्मद टी.एम.	अहमदिया मुरलीम जामा-आथ, पुल्लूपालाम रोड, फोर्ट कोची पीओओ, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.02.2017	11758				
207332	फरहीन गुलफशान	मो० रातात परवेज असारो	नीमतपुर, रहमानपार, पी.ओ.- सीतारामपुर, जिला-पश्चिम बुरुदवान 713301	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32444				
207333	फरहीन नहीद	ए.एफ.एम. सामसुद्दोहा	कखुली मडल पारा, महेशताला, बिधानगड, साउथ 24 परगनास 700066	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32754				
207334	फरसाना सी.वी.	मोहम्मद सी.वी.	चेलथु बालापिल हाउस, कोलोलम्बा पीओओ, एडप्पल बाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2016	11157				
207335	फरसाना फाथिमा पी.	अब्दुल्ला पी.	बैध-अल-अब्दुल्ला, मनारायिल पाराम्बु, जी.ए. कॉलेज पीओओ, पाराक्कल, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	27.08.2016	11444				
207336	फरसाना एम.के.	अब्दुल लथीफ एम.के.	पट्टाथोडी (हाउस), कोलाथुर पीओओ, चदाप्पडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.05.2018	12499				
207337	फरसाना पी.ए.	अबूबेक्कर	पोनेथ (हाउस), मुडा पीओओ, पालाथिंगल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12895				
207338	फरसाना वी.के.	मोहम्मद कबीर वी.के.	कोलायिल पोईल हाउस, कोडियाथूर पीओओ, मुक्कम (बाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.03.2019	13085				
207339	फरसानाथ कोयिरसन	सदीक अली के.	कोयिरसन (हाउस), एडाक्कापराम्बा, कान्नामगलम पीओओ, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.06.2017	11903				
207340	फरजाना मोहम्मद एन.एम.	मोहम्मद कुहो एन.एम.	देवादियाल पाराम्बु हाउस, धेनहिपालम पीओओ, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	27.09.2017	12256				
207341	फरजाना शिरोन के.आई.	के.वी. इब्राहम कुट्टी	वेल्लाकुट्टी (हाउस), सौहर्षा नगर, कैंपाराम्बू पीओओ, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13341				

207342	फसलुल फरिसा पी. के.	बीरकुट्टी पी.के.	पट्टर कादावन (हाउस), वालियोरा पी०ओ०, वेगारा वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	11.05.2016	11271				
207343	फसोला पी.टी.	हारिस पी.टी.	पी.टी.एस हाउस, चेम्मालारसेरी पी०ओ०, पुलामथोले वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11165				
207344	फासला पी.	आलवी पी.के.	पावकुनाथ (हाउस), पावकुनम पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11079				
207345	फसना के.	मोहम्मद के.	कोलकाट्टील हाउस, कारुलाई पी०ओ०, निलाम्बूर रोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.09.2017	12248				
207346	फाथिमा नेसला टी. एन.	टी.एस. अब्दुल नज़र	धनिकापिल्ली (हाउस), एरामाम, मुप्पाथाडोम पी०ओ०, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11465				
207347	फाथिमा अब्दुल्ला ए. पी.वी.	अब्दुल्ला हाजी पी. ए.पी.	ए.पी.वी. हाउस, ओलापल्ली के पास, माडायि पी०ओ०, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.12.2018	12987				
207348	फाथिमा फरहथ पी.	अलीकुट्टी हाजी के.	एन.वी. मुहबथ (हाउस), काडालुडी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	24.05.2016	11274				
207349	फाथिमा हमीदा के. के.	अब्दुल शुकूर कारियन कट्टुकाविल	कारियनगट्टुकाविल (हाउस), थोजुवानूर पी०ओ०, वालनचेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12220				
207350	फाथिमा आई.पी.	हुरीन आई.पी.	इत्तीकापाराम्बोल (एच), कैमालारसेरी, थिप्रगोडू पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11002				
207351	फाथिमा जन्नथ शेरीन सी.एच.	अब्दुल गफूर सी. एच.	चेलगादन हाउस, अनाक्कायम पी०ओ०, मुट्टिपालम, वी.टी. पाडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12684				
207352	फाथिमा जुमाना के.	हामजा के.	कोशिककल हाउस, तिरुगडी पी०ओ०, पल्लोपराम्बू, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.05.2017	11880				
207353	फातिमा के.पी.	मराक्कर के.पी.	कूलिपीलाक्कल, कुरुमथोदिका (हाउस), मून्नीपूर पी०ओ०, पाराक्कादावू, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11493				
207354	फातिमा नजमा बीवी पी.एम.	सैय्यद मुहलार शिहाबुधीन	पुथिया मालियेक्कल (हाउस), वेट्टीचिरा, पुन्नाथाला पी०ओ०, वालाचेरी (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	13.07.2017	11979				
207355	फाथिमा नाजरीन सी.एन.	नाजिरुद्दीन सी.के.	चोलन (हाउस), चेरुवातूर पी०ओ०, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2019	13303				
207356	फातिमा नुरारत कुरियेदतु	अब्दुल्ला के.	कुरियोदथ हाउस, पोमुडम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13051				

207357	फाथिमा पी अहमद हुसैन	पीअहमद हुसैन	खमेर, ओट्टेन इरिश स्कूल के पास, वाडोर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.12.2017	12339				
207358	फाथिमा पी.के.	निजार ए.पी.	बैथुल नूर, कदमबुर, एडाक्कड पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.11.2017	12299				
207359	फाथिमा पी.एम.	इब्राहिम कुट्टी पी.एम.	मचिगल हाउस, मुडुपराम्बा पी०ओ०, कट्टुगल, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.02.2016	11124				
207360	फाथिमा रोशनी	अशरफ एन.	लावन्या हाउस, पुथिया रोड, काडावथारा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.11.2016	11582				
207361	फाथिमा एस.एम.	शाहीर	फोसिया मजिल, अझिकोड पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.04.2016	11228				
207362	फाथिमा शबनाम एस.	शाहुल हमीद ए.	पाल्लोपराग्वील हाउस, वेट्टेक्कारा पी०ओ०, कटमपाजिपुरम, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.11.2018	12928				
207363	फाथिमा शामना पी.टी.	मूसा पी.टी.	पुल्लियानथोडी हाउस, वालापुरम पी०ओ०, पुलामथोले (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12056				
207364	फाथिमा शिफना के.	शामसुधीन के.	कारुवादन (हाउस), पुलिस्सेरी, वानीयाम्बलम पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12055				
207365	फाथिमा सुगरा पी.	बोरान कुट्टी पी.	टीपी मजिल, पूवाचिना, रदाथनी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	24.07.2017	12037				
207366	फाथिमा थाहीर	थाहीर पी.	मारियम हाउस, अवानाचेरी पी०ओ०, अत्तिगल, जिला—तिरुवनथपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11453				
207367	फाथिमा धेरनीम सी.	कुहीकोया सी.	चेलापुरथ (एच), वेलिमुक्कू साउथ पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	10.12.2015	10964				
207368	फाथिमथ आबिदा ए.	बी अब्दुलरहीमान	अजिलादका हाउस, पेरला पी०ओ०, जिला—कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.01.2016	11049				
207369	फाथिमथ निदशा पी.टी.	मोहम्मद हनीफ	पल्लोप्पट्ट थोमबन (हाउस), थलक्कादाथुर पी०ओ०, तिरूर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	15.03.2018	12480				
207370	फाथिमाथ रमोसा एम.	कुहीमोहम्मद एम.	मेलेदथ हाउस, कारुवाराकुडू पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	07.03.2017	11778				
207371	फाथिमथ शमीमा पी.	मोइदीनकुट्टी पट्टरकदावान	पट्टरकदावन हाउस, मक्कारापरांबा पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	19.12.2017	12343				
207372	फाथिमाथ सिथारा टी.के.	अन्दुल मजौद टी.के.	थेक्कुमुरथ कालाथिल (हाउस), कारियावाट्टोम, मन्नारमाला पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11670				

207373	फाथिमथ सुहरा टी.	अब्दुल्ला टी.	धारसेरी (हाउस), कोडाससेरी, चम्बरारसेरी पी०ओ०, पडिक्कड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.06.2018	12501				
207374	फाथिमाथू शाहना	काजुगिल पीडिकायिल शामसुधीन	काजुगिल पीडिकायिल हाउस, वालायमकुलम पी०ओ०, कोक्कुर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12875				
207375	फाथिमाथुल फिधा	इरामाईल	थेफ (हाउस), सी.पी. रोड, पन्नीयान्नूर पी०ओ०, पराल जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.12.2017	12336				
207376	फाथिमाथुल इसिहा पी.सी.	अब्दुल सलाम पी. के.	साखीनास, सी०पी० वाई, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.07.2015	10886				
207377	फाथिमाथुल मुहसिना बीबी सी.बी.	कुहीकोया	पुथियोट्टील हाउस, वालियड पी०ओ०, विलियाम्पल्ली वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.07.2017	11973				
207378	फाथिमाथुल शामला पी.बी.	मोहम्मद अशरफ	पुथुवीट्टिल हाउस, थेक्कुमूरी पी०ओ० पुलिस लेन, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.07.2019	13202				
207379	फातिमा नुदरत	श्री अबसार अहमद	हाउस 278, लेन-14, जाकिर नगर, दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	21.08.2020	बीएचएसडी/5702				
207380	फैबा साजू	साजू के. पॉल	कोट्टाराथुम्यालिल, मुलथुरुथी पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	19.08.2017	12184				
207381	फैबिन जॉर्ज	वाकेय के.जे.	कुजिमाक्कल (हाउस), नेल्लोकुट्टी पी०ओ०, चम्पेरी (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13293				
207382	फैबिना पी.	अहमद पी.	पाराम्मल हाउस, पोमुडुम पी०ओ०, वैलाथुर, कावनाडुचोला, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2017	12275				
207383	फैबिना एन.के.	मोहम्मद एन.के.	नेचिक्कादेन (हाउस), पलक्कैलवेट्टा पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	25.07.2016	11381				
207384	फैबिना पी.टी.	अब्दु पी.टी.	पल्लोक्कात्तुथोडी हाउस, चेरुकोडे, चथगोत्तुपुरम पी०ओ०, वडार (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12015				
207385	फैबिना टी.	सुलेमान टी.	थरिपायिल (हाउस), थिरुथियाद, वाजारूर पी०ओ०, रामानाट्टुकास (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12888				
207386	फैबना एस.	अब्दुल रशीद	ड्रीम की. टी.सी. 69/421 (1), पयाट्टिकुप्पम रोड, कमलेश्वरम, मानाकोड पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.01.2018	12380				
207387	फैमिना थदाथिल	अब्दुल कदर	थदाथिल हाउस, माम्मालिप्पाडी, एदारिकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10830				

207388	फेमो शाजी	शाजी थॉमस	पेरिगाट्टु पाराम्बील (हाउस), मानाथूर पी०ओ०, पामपाकुडा (वाया), जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.06.2019	13159				
207389	फिदा पी.एम.	अब्दुलमजिद टी. पी.	थेक्के पुनाथिल (हाउस), नामिडा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12198				
207390	फिदा के.	अमीर हमजा के.	20 / 399, दारुसालेम, पुडुपल्ली गली, नूरानी पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.04.2016	11254				
207391	फिदा साहला एन. सी.	अब्दुल खादर एन. सी.	"हिल व्यू", थेक्केनी रागड, पाल्लिकल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.03.2019	13049				
207392	फिजिना फाथहु	फाथहुदीन	अल-फथाह, वडाक्केविला पी०ओ०, (कैटीएन-53), पल्लीमुक्कू, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	08.06.2018	12510				
207393	फिल्दा मोहम्मद टी.	मोहम्मद टी.	थोडेगल (हाउस), अरिपरा पी०ओ०, अगडीपुरम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11031				
207394	फिसिया शिरिन के.	अबूबकर के.	चेरुकायिल हाउस, पुथूरमदाम, पथोरकावू पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.07.2017	12043				
207395	फिथा पी.	हरसन पी.	पुलथ हाउस, पूक्कोट्टूमाना पी०ओ०, चगाथारा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10984				
207396	फौजार के.के.	कौमू करीकुन्नन	मूधेदथ (हाउस), कुजिमन्ना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	30.12.2017	12371				
207397	फौसा एम.आर.	एम. मोहम्मद सली	शेरस मजिल, मुल्लिककाडू, विथरा पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12227				
207398	फौसिया ए.के.	अब्दुलकलाम	वारुविला वीडू, नेडुम्पाना, नेडुम्पाना पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13342				
207399	फौजिया सी.पी.	हमीद पी.पी.	फाथिविला, कहिरोडे, कहिरोडे पी०ओ०, कूडाली वाया, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.07.2016	11306				
207400	फौजिया सी.वी.	सिद्धिक सी.वी.	चेरुवालाप्पील, खैमाह मजिल, वेगारा पी०ओ०, एस.एस. रोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11392				
207401	फौजिया हुमायून	हुमायून कबीर	आलीफ हाउस, वेलतेपाराम्पील, पल्लीप्पात्तुमुरी, थिकुन्नापुजा पी०ओ०, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12422				
207402	फौजिया ए.	अशरफ वाई.	साफा हाउस, एराविचिरा ईस्ट, सूरानाडु पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12230				

207403	फौज़िया एस.	सैनुदीन एस.	थवाक्कल मजिल, अर्कानूर पी०ओ०, मनियामुक्कू जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.04.2016	11256				
207404	फरोदा एम. जोशफ	जोशफ के.पी.	कोडियामकुन्नेल (हाउस), वेल्लारियायल, ओडाक्कल, अरालम पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12223				
207405	फ्रेड्री पॉल एम.	एम.जी. पॉल	मानावलन हाउस, अयरूर पी०ओ०, अल्लुपुरम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11512				
207406	जी. सैथिल कुमारन	ए.जी. नानाप्रकाशम	2, पल्लवरम, मेन रोड, मनाचेरी गाव, कुद्राथुर, चैन्नई-600069	बीएचएमएस	2013	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	21.01.2014	4729				
207407	गधा एम.पी.	श्रीनिवासन एम.पी.	मुथुकड पुथान वेट्टील, काराकुलम, मन्नाथिपोडल पी०ओ०, निलाम्बूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11594				
207408	गंगा एस.एल.	सुधाकरण एस.	कुन्नील वीडू, एदावाट्टूम, चिराक्कारा पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11239				
207409	गंगादेवी वी.	गोपालन वी.के.	वेलाथदथ (हाउस), पल्लीक्कारा पी०ओ०, मेलडी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.05.2017	11883				
207410	गंगवार बन्दी	लाल बहादुर गंगवार	65-परवेज नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश-243001	बीएचएमएस	2018	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	09.12.2019	एच०38868				
207411	गर्ग तनिषा	श्री यदराम गर्ग	824, जी/4, सुखदेव नगर, केएम पुर नई दिल्ली/110003	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5726				
207412	गरिमा	श्री अनिल कुमार	बी-61, गली नं० 23, महावीर एन्क्लेव पार्ट-2, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5670				
207413	गौर आस्था	श्री सजय कुमार गौर	ए-3/92-93/दूसरा फ्लोर, सेक्टर-11 रोहिणी, दिल्ली-110085	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5666				
207414	गौर ओम प्रकाश	श्री राजपति गौर	ई-2/718, गली नंबर 10, पुरता सौनिया विहार, दिल्ली	बीएचएमएस	2018	भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार	दिल्ली	05.03.2021	बीएचएसडी/5818				
207415	गौरव खिडा	श्री दलजीत सिंह	ग्राम-गोबिंदपुरा, पी०ओ०-ओट्टु, तहसील-रानिया, जिला-सिरसा	बीएचएमएस	2015	गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, होशियारपुर	हरियाणा	29.09.2016	6292-ए				
207416	गौतम भूमिका	श्री निरजन कुमार गौतम	1/2606, गली नं० 6, लोनी रोड राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-32	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5744				
207417	गायत्री बी. राज	बालाकृष्णा राज ए.	'लक्ष्मी', थिक्कावू, पून्नी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11112				

207418	गायत्री पी. सतोष	पी. सतोष कुमार	अक्काराकट्टिल हाउस, अलाविल पी०ओ०, (ओटाथेगु), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11141				
207419	गायत्रीदेवी एम. पी.	शेखरन एम.पी.	मेलपुराक्कल हाउस, अल्पेड्याकुलम्बा, कोडूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.11.2017	12308				
207420	गायत्री बी.एस.	जी.बाबू राज	गोविंदम, टी.सौ. 3/2542-2, प्लाम्मूडू, पाट्टोम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	16.11.2015	10953				
207421	गायत्री विजयन	के.एम.विजयन	काल्लानिककल (हाउस), काल्लार, वाल्तियार पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.01.2016	11030				
207422	गायेण पल्लवी	कृष्णा कुमार गायेण	विवेकानदा पल्ली, बेलादगा, दक्षिण बरसात, साउथ 24 परगनास 743372	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32487				
207423	गायेन रामकृष्णा	प्रदीप कुमार गयेन	गाव-गोरखाली, पी०ओ०-महेशदारी, जिला-साउथ 24 परगनास 743609	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32605				
207424	गजाला के.सी.	के.सी. अब्दुल गफूर	कं.सी. हाउस, कुट्टायी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13163				
207425	गोधू चेरिया कुही	चेरिया कुही	गोकुलम (हाउस), मुथनाड, चेम्नाड पी०ओ०, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12170				
207426	गीताजली जे.एल.	सी. लालापन	रोहिणी अनथेरी, चैकोट्टूकोनम पी०ओ०, नेयात्तिनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.02.2017	11759				
207427	गीताजली एम.	गोपीनाथन नायर के.	शातितिकेतन, कानाथुर पी०ओ०, मुलियार बाया, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13299				
207428	गीथी एस.गोपीनाथ	गोपीनाथन वी.पी.	सोपणिका, काल्लोरसेरी पी०ओ०, चेंगन्नूर, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10821				
207429	गीथी सुरेन्द्रन	सुरेन्द्रन अचारी वी.	चैथराम, मारुथामोपल्ली, प्याप्पल्ली पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10939				
207430	गीथू जी.	अशोकन एम.	चारुविला वीदू, कालारियिल किजाक्कुम कारा, मादावूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10942				
207431	गीथू जी.एल.	जॉर्ज जेम्स	उलीकुलथु वीदु, टी.सी. 9/2364, एडावाकोड, श्रीकारियम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.04.2019	13103				
207432	गीथू के.पी.	के.के. पोन्नाप्पन	कोलाक्कादन (हाउस), अरुवाप्पारा पी०ओ०, पेरुमबावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12712				

207433	गोधू एम.जी.	मोहनासुदरन एस.	शांति भवन, चुत्तियूरकोड, मालायिकल पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11930				
207434	गोधू प्रसाद	के.के. प्रसाद	काल्लुकुलथ गोकुलम हाउस, काल्लोसेरी पी०ओ०, उमायाडुकारा, चेंगन्नूर, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.03.2019	13080				
207435	जॉर्जिना जॉर्ज	जॉर्ज के.जे.	किजाक्केमुरयिल (हाउस), कन्नीवायल पी०ओ०, चेरपुजा (वाया), जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.10.2017	12269				
207436	जॉर्जिथस पॉल वर्धस	रेव. एफ.आर. वर्धस एम.पी.	मुडाक्कल हाउस, वेमबिल्लो पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11943				
207437	गेरिन एलिजाबेथ जॉर्ज	जॉर्ज पी. मानी	पुथुरमनीमालायिल हाउस, मुलाकुलम साउथ पी०ओ०, पेरुवा (वाया), जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2014	गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी	केरल	25.10.2017	12289				
207438	घजाला मुसरत	नयीमुदीन	सुपुत्री नयीमुदीन, सयादना चौराहा गली, शामिम क्रोकरी, फूलवारी शरीफ पटना, बिहार-801505	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	03.09.2019	33097				
207439	घोराय पौलमी	बिकाश रजन घोराय	सारस्वत को० ओप्रेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड एफएल-2, नैटी रोड, चोटो बाहेरा, नबाग्राम, बाराबहेरा, हुगली-712246	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32618				
207440	घोष असुमन	राधाकाता घोष	गाव व पी०ओ०-पाहलमपुर, जिला-हुगली 712223	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32642				
207441	घोष अतानु	अंसित कुमार घोष	गाव-आदिनगर, पी०ओ०-कारजाली, जिला-साउथ 24 परगनास 743348	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32591				
207442	घोष देबोसमिता	बयासदेब घोष	अपर्णा अपार्टमेंट, 17/2, काबी सुकाता लेन, कोलकाता-700075	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32766				
207443	घोष महारवेता	प्रसता कुमार घोष	गाव-अतघारा, पी०ओ०-मदरात, जिला-साउथ 24 परगनास 743610	बीएचएमएस	मई-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	23.05.2019	32538				
207444	घोष निरूपा	नानी गोपाल घोष	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लौतोर 01, पी०ओ०-सैनधिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32499				
207445	घोष प्रनब	परितोष घोष	पडा पारा, घोष पारा, वार्ड न० 14 जलपैगुरी 735101	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32607				
207446	घोष राहितोष	भागीराह घोष	गजादगा घोषपार, डी. चरकाश्वसाली, नबाहीप, नाडिया 741313	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32675				
207447	घोष शिबजी	सुभेन्दु घोष	गाव-मोकातीपुर, पी०ओ०-ओल्ड मालदा, जिला-मालदा 732128	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32736				

207448	घोष सोमा	निमाइ चद्र घोष	गाव-रामेश्वरपुर, पो0ओ0 व पु0स्टे0-बुरवान, जिला-मुर्शिदाबाद 742132	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32775				
207449	घोष सुदेशना	घोष बरन समीर	1/32 बी विद्यासागर कॉलोनी, पो0ओ0-नकताला, कोलकाता-700047	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32608				
207450	घोष सुदिता	स्वराज कुमार घोष	गाव-कयेशपारा, पो0ओ0 व पु0स्टे0-गंगारामपुर, जिला-दक्षिण दिनाजपुर 733124	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32781				
207451	गिली जॉर्ज	जॉर्ज ओटी	सेंट जोसफ विद्याभवन, सीटीसी, जेनेरलेट, इडापल्ली, टोल, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	18.02.2016	11113				
207452	गिला दीप्ति	जी थोमसन	एस-1, नेशनल होम्योपैथी रिसर्च इंस्टिट्यूट इन मेटल हेल्थ, कुरिची, एस पुरम, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2005	डॉ0 एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आंध्र प्रदेश	केरल	30.07.2018	12638				
207453	गिन्ू अब्राहम	अब्राहम पी.आई.	पनामपराम्बील (हाउस), वाकाथनम पी0ओ0, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12129				
207454	गिरी मोहन	मोहनकुमार एस.	उथुस, अदिनाडु साउथ, काट्टिलकाडावू पी0ओ0, कारुनागपल्ली, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.09.2018	12820				
207455	गिरी प्रमोद	श्री भागेश्वर गिरी	मोहनपुर बार्ड न0 09, दुर्गा मंदिर के पास, समरतीपुर, बिहार-848101	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	03.09.2019	33091				
207456	गिरीजाकुमारी आर.	बी. राजेन्द्रन	हाउस न0 बी/410, पॉवरहाउस डिविजन, पल्लोवसाल एस्टेट पी0ओ0, मुन्नार, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10836				
207457	गिशा गोपी	ओ.एन. गोपी	कुचू वीडू, तगास्सेरी पी0ओ0, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	15.04.2016	11226				
207458	गियका के. गिल्स	गिल्स	कोचुवेम्बालिल (हाउस), अम्बायाथोडे पी0ओ0, कोट्टिप्पर (वाया), जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.08.2019	13355				
207459	गोडसे बी. थॉमस	थॉमस वर्धस	पाथिककाट्टु, कुडारसानाडु पी0ओ0, पूजिककाडु, पडालम, जिला-पथनमथिष्टा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13079				
207460	गोयल पकज	श्री विजय कुमार गोयल	बी-51, मेन काति नगर, हीरो एजेंसी के पीछे, दिल्ली-110051	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5774				
207461	गोयल कोईया के. ओर.	श्री पवन कुमार गोयल	ए-17, अमन अपार्टमेंट्स, सैक्टर-13, प्लॉट न0 39, रोहिणी, दिल्ली-110085	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5731				
207462	गोकुल कृष्णन जी एस.	गोपालाकृष्णन नायर टी.	पुथुवल पुथन वीडू, इजिनियरिंग कॉलेज के पास, श्रीकृष्णा नगर, श्रीकरयाम पी0ओ0, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12349				

207463	गोकुल विनोद	विनोद कुमार के. पी.	पुलियेरिताविदा (हाउस), माडापल्ली कॉलेज पी०ओ०, वाडाकारा (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.07.2017	12005				
207464	गोपिका जी. कृष्णा	गोपालाकृष्णन टी. ई.	गोपुराम (हाउस), कोक्कालूर पी०ओ०, बालूरसेरी वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11337				
207465	गोपिका जी. नायर	गोपी पी.	गोपिका, अन्नूर पी०ओ०, पायानूर, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13263				
207466	गोपिका गंगाधरन	ई.ए. गंगाधरन	कार्तिका भवन हाउस, मगाट्टुकावाला, थोडुपुजा ईस्ट पी०ओ०, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13040				
207467	गोपीकानाथ के.	गोविंदन के.	गोकुलम हाउस, कोदगड, कोदोटी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	08.10.2018	12886				
207468	गोस्वामी शिवम	श्री खेम चंद गोस्वामी	103ए, न्यू लाहौर शारत्री नगर, जैन मंदिर के पास, नई दिल्ली—110031	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	18.12.2020	बीएचएसडी/5799				
207469	गोस्वामी सौरव	सारली चरन गोस्वामी	मेथयाली, पी०ओ०—मेताली, जिला—बकुरा 722142	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32643				
207470	गौरी के.	काककोथ मुकुंदन	मुकुदालायम, वाट्टिप्राम, मगाल्टोडोम पी०ओ०, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12892				
207471	गौरी कृष्णन एच.	आर. लीलाकृष्णन	थैमूतिल, मारुथूरकुलगारा (साउथ), अलुम्कादावू पी०ओ०, करुणागपल्ली, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12787				
207472	गौरी रमेश	रमेश बाबू	किलियारा हाउस, वयलूर, नेल्लायो पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.03.2019	13090				
207473	गौरीकुट्टी वी.	पी. वासुदेवन पिल्लई	गीताजली (हाउस), पत्तनाकड पी०ओ०, चेरथला, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11086				
207474	गौतम टी.वी.	वेकटचलम टी.पी.	गीथम, विवेकानदा नगर, चलाकुडी, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	24.09.2018	12845				
207475	गौधमी शशिकुमार	वी.एस. शशिकुमार	तेजस, टीसी 10/123, कादायिलमुडुन्नु मंदिर रोड, कुलासेखरम, कोडुगानूर पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12786				
207476	गोविंद एम.	बी. मनीलाल	कारिगोट्टू वीडू, पाल्लिमोन पी०ओ०, कान्नानाल्लूर, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12177				
207477	गोविंद पी.देव	विष्णु प्रकाश	टीसी 21/1252 (1), शिवापदमम, आगरा—121, सोमन नगर, कारामना पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	28.05.2019	13120				

207478	गोयल मयक	अजीत गोयल	फ्लैट न०-123, अकुर अपार्टमेंट, आई पी. एक्सटेशन, पटपडगज, दिल्ली-110092	बीएचएमएस	2019	गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब, होशियारपुर	दिल्ली	07.10.2019	बीएचएसडी/5619			
207479	ग्रेस अब्राहम	अब्राहम माइकल	पूवाथनिककल (हाउस), पूनजार पी.ओ., पनाचिपारा, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.05.2017	11862			
207480	ग्रेस राचेल पील	पीलोसा के.एम.	कोट्टककरन हाउस, कोराट्टी साउथ पी.ओ., जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	केरल	11.04.2017	11837			
207481	ग्रेसलिन किन्टर	श्री एम अली	रियागडो, वेस्ट खासी हिल्स	बी.एच.एम.एस.	27.04.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	10.03.2021	509			
207482	ग्रीशला मोहन पी.एम.	मोहन कुमार	पाराप्पुरथ (हाउस), काविल पी.ओ., नाडुवनूर वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	केरल	25.07.2016	11374			
207483	ग्रीष्मा सी	एम.सी. बिंदू सारन	गनाम, चेनीरकारा पी.ओ., कुलानडा (वाया), जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.01.2018	12433			
207484	ग्रीष्मा चद्रन एस.	बालाचद्र मेनोन एन.	गिरीश भवन, वालियारा, वेल्लानड पी.ओ., जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11586			
207485	ग्रीष्मा जी नायर	गोपीनाथ	पोथन वीडु (हाउस), थेक्कुमुरी पी.ओ., कारालामन्ना वाया, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	15.04.2016	11224			
207486	ग्रीष्मा आई.के.	कोचू आई.ए.	इरुप्पारसीरी (हाउस), अर्थात् पी.ओ., कुन्नामकुलम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	केरल	10.01.2018	12437			
207487	ग्रीष्मा एम.	हरि कुमार	विजया भवनम, डिसेट जक्शन पी.ओ., जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	13000			
207488	ग्रीष्मा प्रताप	प्रतापन	इडामुट्टाथ (हाउस), अजिकोड पी.ओ., कोडुगाल्लूर (वाया), जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	केरल	14.11.2018	12930			
207489	ग्रीष्मा वी.के.	विजयाकुमारन नायर एस.	पौरणम, विनायक ऑडिटोरियम के पास, अनाप्पड, मालायिनकीजु पी.ओ., जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12953			
207490	ग्रीष्मा विक्रमन	पी.एस. विक्रमन	नेस्ट, अक्काराविला नगर-86, वाडाक्केविला पी.ओ., मादान्नादा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	केरल	11.08.2016	11404			
207491	ग्रीष्मी थॉमस	थॉमस पी.पी.	पाट्टेत्तु (हाउस), उप्पुथारा पी.ओ., काक्काथोडु, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13301			
207492	ग्रीष्मा जी कृष्णा	पी. गोपालाकृष्णन	ग्रीष्माम, मूचिककल, बालाचरी, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	केरल	08.01.2018	12409			

207493	ग्रीसिल्दा शदाप मन्नेर	श्री के. सुतगा	मोवकियाव, वेस्ट जैनतिया हिल्स	बीएचएम एस.	20.01.2021	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बेंगलूर	मैघालय	19.02.2021	506			
207494	गुहा प्रतापादित्य	स्व. कृष्णा गोपिदा गुहा	गोबिन्दा होम्सो हॉल, धर्मशाला बिल्डिंग, जज बाजार, दार्जीलिंग 734101	बीएचएमएस	जून-2009	बी.आर.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	वेस्ट बंगाल	02.05.2016	31278			
207495	गुलाटी कृति	सुरेन्द्र कुमार गुलाटी	ए-2/87, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	26.09.2019	बीएचएसडी/5611			
207496	गुलशाना एस.	सईद के.	कोल्लेथ कारुवालापील, काल्लारमगलम पीओओ, कदमपुजा (वाया), जिला-मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.03.2017	11806			
207497	मलिक गुजन	कपिल अरोडा	जे 147, सेक्टर-41, गौतम बुद्ध नगर	बीएचएमएस	09.04.2005	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	उत्तर प्रदेश	30.05.2018	एच037043			
207498	गुजोटे आनंद अरविद	गुजोटे अरविद बाबूराव	एट पोस्ट-बालरूर, तालूक-ओर्मेगा, जिला-ओरमानाबाद, महाराष्ट्र-413607	बीएचएमएस	2012	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	महाराष्ट्र	24.08.2012	57322			
207499	गुप्ता अरुणिमा	श्री बिजोय गुप्ता	ईए-1/64, इद्रपुरी, नई दिल्ली-12	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	13.08.2020	बीएचएसडी/5694			
207500	गुप्ता महेश	श्री राधा कृष्ण गुप्ता	ई-312, आस्था विहार, प्रेम नगर-III किरारी सुलेमान नगर, दिल्ली-110086	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5763			
207501	गुप्ता मौनू	श्री गिरीश बाबू गुप्ता	1883/1, जगराम मंदिर गली, कोटला मुबारकपुर, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट-1, दिल्ली-110003	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5755			
207502	गुप्ता शिवम्	अजय गुप्ता	बी 39/12ए, गली नं० 1, अर्जुन मोहल्ला, मौजपुर, दिल्ली-110053	बीएचएमएस	2019	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	27.06.2019	बीएचएसडी/5552			
207503	गुप्ता शिवानी	एसएस गुप्ता	ए-343/3, राजेन्द्र नगर, प्रेम नगर, बरेली-243122	बीएचएमएस	2019	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी	उत्तर प्रदेश	11.06.2019	एच038390			
207504	गुप्ता शिमरन	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता	2473, स्ट्रीट नं० 13, बिहारी कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली-110032	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5732			
207505	गुप्ता सुभद्रा	श्री राजीव गुप्ता	फ्लैट नं० 34, शुभ निकेतन अपार्टमेंट्स, ए-4, पश्चिम विहार दिल्ली-110063	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5751			
207506	गुप्ता सुलागना	सुप्रिया कुमार गुप्ता	16/8/1, हलदर पारा लेन, शिबपुर, हावडा-711101	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32655			
207507	गुरयन अभिषेक	श्री रोहिताश्व गौरन	सी-13/1, रेडियो कॉलोनी, किन्सव कैम्प जो टी.बी. नगर, दिल्ली-110009	बीएचएमएस	2019	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	28.05.2020	बीएचएसडी/5652			

207508	हबीबामोल के.	मोहम्मदकुट्टी के.	कून्नुमल (हाउस), पूनाथवानाम पी०ओ०, कोडिपाराम्बा, पाट्टिककड (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12788			
207509	हफीफा के.	अलावी के.	कुडुवायिल (हाउस), पोन्नमाला पी०ओ०, जिला—मालापुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12900			
207510	हाफसा एच.	हारून रशीद	हाफसा मजिल, पेरिगम्माला पी०ओ०, पालोड, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11954			
207511	हफसीना सी.	अशरफ सी.	चेनगनाक्काट्टिल हाउस, के.पुरम पी०ओ०, तानालूर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12655			
207512	हफसिना सी.के.	अहमद पी.वी.	‘सिथारा’, चेत्ताक्कडियल, उम्माथुर, पाराक्कादावू पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.02.2016	11071			
207513	हाफजा हमीद	अब्दुल हमीद	थेक्कायिल हाउस, काल्लूरुट्टी पी०ओ०, ओमारसेरी (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	12.12.2017	12332			
207514	हाजरा पी.	अब्दुरजाक पी.	पाल्लौक्कल (एच), कुरुप्पाथ, कोडोट्टी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10950			
207515	हजारा पी.	मोहम्मद पी.	बशीर मजिल, एलागोड पी०ओ०, पानूर वाया, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.07.2016	11300			
207516	हाजिजा सी.ए.	सी. अब्दुल हमीद	हाजिजा मजिल, चूमेरी कोदाथिपाडी, मान्नारक्कड पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.02.2019	13018			
207517	हलदर तमय	नदा दुलाल हलदर	गाव—कनागड आश्रममथ, साउथ नालदगा, पी०ओ०—नालदगा, जिला—हुगली 712123	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32585			
207518	हलदर सौरव काति	सुमीत कुमार हलदर	बाहीर सरबूमोगाला रोड, बाथन पारा, बुदवान, जिला—पूर्ब बर्धमान 713101	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32682			
207519	हालीम के.टी.	हामजा के.टी.	पुथलाथ हाउस, काक्कादमपुरम, ए.आर. नगर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10808			
207520	हमीदा हबीब	रबीब पी.एम.	पट्टाम्माकुडियिल (हाउस), ओरावाक्कुझी, मोर्केट पी०ओ०, मुवाट्टुपुजा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12126			
207521	हमीदा रिजवाना एम. एस.	सैनुधीन	चेगनगालथ हाउस, कोलोलम्बा पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.09.2016	11483			
207522	हामना के.	के. अलावीकुट्टी	थोलियल हाउस, काडालुडी पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	08.09.2015	10914			

207523	हमना शरीन एम. एस.	मयथीनकुजू एम. एस.	स्टार मजिल, कोट्टूर पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11455				
207524	हामनबी ए. वाहिद	अब्दुल वाहिद	काल्लूविलावीडू, चवारकोड, पारिपल्लो पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.09.2017	12251				
207525	हना पी.	फैसल पी.	असिया महल, अरिपरा पी०ओ०, अगडीपुरम वाया, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11088				
207526	हानान वी.एम.	मोहम्मदकुजी	वैपीप्पादथ (हाउस), पृथियाकावू, मथिलाकाम पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12536				
207527	हन्ना सी.एम.	साईडालबी वी.पी.	मालारवाडी, अदात्तिल हाउस, ए.वी.एस. हॉस्पिटल के पास, कोट्टाक्कल, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	26.10.2015	10932				
207528	हननाथ पी.	कुन्ही मोइदीन पी.	पुलिककल हाउस, टी.एस. रोड, पायानगडी, तिरूर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	07.09.2015	10907				
207529	हानूना पी.पी.	अब्दुल बशीर पी. पी.	पालाट्टुपाराम्बोल हाउस, नौलेश्वरम पी०ओ०, ओमारसेरी (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.12.2018	12976				
207530	हसा जमाल	जमाल मोहम्मद के. के.	हिल यू (हाउस), मुदाप्पालूर पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.08.2018	12724				
207531	इक शेख नाजिरुल	शेख मो० गोलम मुस्तफा	गाव—बलितापारा, पी०ओ०—अजोथ्या, जिला—हावडा 711312	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32588				
207532	हारिदा एन.ए.	एनीयान लाल एन. आर.	नीस्सेरिल हाउस, थोन्नोयाक्कावू, नोर्थ पारावूर पी०ओ०, नोर्थ पारावूर, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11131				
207533	हरिगोविंद ओ.पी.	हरीदास एम.	कृष्णालीला (हाउस), वी.एम.सी.जी. एच.एस.एस. के पास, वडूर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2016	11474				
207534	हरिकृष्णा एच.आर.	हरिहारासुधन के. एल.	रोहिणी, पूरननूर, पलामूडूकाडा पी०ओ०, नेयाट्टिनकारा, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13053				
207535	हरिप्रिया जी.	गणेशन एम.	मुहाली हाउस, मोरीक्कारा पी०ओ०, काक्कोडी वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	24.08.2019	13349				
207536	हारिथा ए.एस.	साथयानदन ए.	अदगामपुरथ, लक्ष्मीनिलायम, वेजाक्कोड, पूवाथिक्कल पी०ओ०, एरियाकोड (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.01.2018	12435				
207537	हरीथा सी.	पीताम्बरन	चथनाथ (हाउस), वालियाकुन्नु पी०ओ०, वालचेरी (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	25.06.2019	13173				

207538	हरीथा के.	हरिदसन के.	हारिथा निवास, पारायथला, नट गली पी0ओ0, वाडाकरा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	06.04.2016	11219				
207539	हारिथा पी.	हरिदसन पी.	मकानाथुवालापिल (हाउस), पेरुमपाराम्बा पी0ओ0, इडाम्ल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	03.10.2019	13421				
207540	हारिथा आर.	राधाकृष्णन पी.	श्रीविलासम, पानायिल पी0ओ0, नूरानड, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.01.2018	12436				
207541	हारिथा रवि	रवि टी.वी.	हारिथ निवास, कोरामकुलम, उदिनूर पी0ओ0, त्रिकारीपुर (वाया), जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.05.2017	11884				
207542	हरिथा एस नायर	एम.एन. हरिचद्रन	श्रीनिलायम हाउस, पाल्लीपुरम पी0ओ0, चेरथाला, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13169				
207543	हारिथा वेनुगोपाल	के. वेनुगोपाल	हरिथा, कन्नानकदारी पाराम्बु, काराट्टूथाजम, कुरुवात्तूर, कोनोट्ट पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11934				
207544	हर्षा अशोक	ए.जी.अशोककुमार	स्मृथि (अशोकालायम), कोथकुलगारा, अगमली पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10850				
207545	हर्षा के.	उमर कोया के.	कोट्टूमल हाउस, कायाट्टियोल रोड, ओलावाना पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12195				
207546	हर्षा एम.	मणिकदन	मेलपुराकल (हाउस), चथनूर पी0ओ0, पेरिंगोड (वाया), जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12348				
207547	हर्षा सुरान एलियास	एलियास	पीस कोर्टेज, अट्टुविलाकोम, प्लाविला, थिरुमाला पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.09.2017	12219				
207548	हर्षिया के.टी.	मोहम्मद बशीर	चाईना क्ले कम्पाउंड, मोट्टाम्मल पी0ओ0, कान्नापुरम, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.10.2019	13396				
207549	हराबुल्ला एन.	मोहम्मद मौलवी	बैथुनूर हाउस, काडाचिरा पी0ओ0, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11997				
207550	हसीना कादावथ	मोइदीन कुट्टी के.	काडावथ हाउस, त्रिकुलम, पालाथिगल, पतारागडी पी0ओ0, तिरुरगडी वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	14.07.2016	11354				
207551	हसीरा पी.के.	आसीस	पाडिहारे कुय्याल (हाउस), पोमेरिपाराम्बील पी0ओ0, विलियामपल्ली (वाया), वाडाकरा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	19.08.2019	13330				
207552	हसीरा वी.पी.	मोहम्मद यूसुफ	वाल्लिकापट्टा (हाउस), अरीकुलम, वेगारा पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	09.03.2017	11800				

207553	हाशीमा एस.	शानवास खान एम.	उपूत्तिल श्रेयस, कोल्लाका पी0ओ0, कारुणागापल्ली, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10804				
207554	हाशीमा एम.एम.	अब्दुरहिमान के.के.	मूपील मोथल, पारान्नूर पी0ओ0, नारीक्कुनी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	26.09.2018	12848				
207555	हाशिया जन्मथ ए. एस.	सादिक टी.एच.	अनिमूट्टिल (हाउस), अचनकावला, मदाक्काथनाम पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.07.2017	12027				
207556	हासिफा मुस्तारी एम.	अब्दुल्ला	मारुथ हाउस, चोक्कड पी0ओ0, पेडायनथल रोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	13006				
207557	हासिफा टी.पी.	मोइदीनकुट्टी टी. पी.	थैक्कन्डी पाराम्बिल हाउस, मेलगडी पो.ओ., कोदोट्टी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10832				
207558	हसना ए.	अब्दुल सलाम	अयोडिल हाउस, वारवाट्टोर, पाल्लूर पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	17.05.2017	11879				
207559	हसना एम.	मुस्तफा के.	मकादकुजी (हाउस), कुन्नापल्ली पी0ओ0, कालाथिलाक्कारा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	11.05.2016	11270				
207560	हासना एम.सी.	अब्दुल सलाम एम. सी.	चीनियेदाथिल हाउस, थिरुथियाड, वाजयूर पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	09.10.2018	12908				
207561	हासना एम.के.	शमसुद्दीन पी.	वाईट हाउस, पन्नूर, किजक्कोथ पी0ओ0, कोडुवल्ली (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.01.2018	12458				
207562	हसना परवीन वी.के.	अब्दुरसलाम वी.के.	वाल्कीककडन हाउस, वेकुलम, ओके मूरी पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2019	13201				
207563	हसनी जलाल	ओ जलालुद्दीन कुजू	अलूमूट्टिल हसनो महल, साउथ ऑफ रेलवे स्टेशन, कायमकुलम पी0ओ0, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.09.2017	12212				
207564	हसन एसके इम्ताजुल	एसके. अनिसुल हक	113, अम्बागन रोड, नेताजी सुभाष सारणी, दमदुम ऐयरपोर्ट, इटाइगाचा, नोर्थ 24 परगनास 700079	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	13.05.2019	32532				
207565	हरवीमा शिबला एम. सी.	अब्दुल अली एम. सी.	चोलाक्कल हाउस, ओलामाथिल पी0ओ0, मोनगम (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13026				
207566	हताई रिंतु	अनिल कुमार हताई	गाव-निरिचनटाबसन, पी0ओ0-बैचाई, जिला-पूर्वा मेदिनीपुर 721627	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32557				
207567	हाजरा ज्ञानेन्द्र नारायण	इद्रजोत हाजरा	गाव व पी0ओ0 व पु0स्टे0-उरथी, जिला-साउथ 24 परगनास 743375	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32568				

207568	हाजरा प्रिथा	श्री मनबेद्र नाथ हजारा	सेक्टर-14, राधिका अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 451, द्वारका, नई दिल्ली-78	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5767			
207569	हीरा ई. चद	चंद्रशेखरन ई.के.	एरिगमल हाउस, मानाक्कोडम, चेदामगलम पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11205			
207570	हेनिफ क्रिस्टी बरेह	श्री टी. लयगदोह	रीमबाइ पोहरकुर, ईस्ट जैनतिया हिल्स	बीएचएमएस	21.10.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मेघालय	02.11.2020	490			
207571	हेमा	श्री पुष्कर राज	एन-14, जीएफ, श्री निवास पुरी, एल मार्केट के पास, नई दिल्ली-110065	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5761			
207572	हेमत एस.एल.	सुकुमारन के.	भार्गवी विलासम, अथिरूर, अरुविपुरम पी०ओ०, नेय्यात्तिकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10795			
207573	हेन्ना रहमान पी.	अब्दुल रहमान पी.	पट्टायिल गजल, कुट्टीकाटूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12240			
207574	हेन्ना वी	मूसाक्कोया वी	शाजी कॉटेज, कारुवथोरुथी, फेरोक पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11136			
207575	हिबा	सिदीकी	अराक्कल हाउस, विलियम, ओरुमानापूर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.11.2017	12297			
207576	हिबा अब्दुल कादेर	पी.के. अब्दुल कादेर	कादाविल हाउस, पाजुविल, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	16.09.2015	10918			
207577	हिबा पी.के.	अब्दुल जलील पी.के.	पुलाकादावथ (हाउस), पारापुर पी०ओ०, पाराविल, कोट्टाक्कल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.11.2019	13459			
207578	हिमा जे.एस.	वी. जोश कुमार	कै.आर.एन.वी. हाउस, काडिनामकुलम, चनानकारा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.04.2019	13105			
207579	हेमा एम.	रमेश एम.	मुल्लोली (हाउस), एथोली पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.12.2017	12354			
207580	हिमा मधुसूदनन	ए.वी. मधुसूदनन	आरीक्कल (हाउस), नेडुमन्नी पी०ओ०, नेडुमकुन्नाम, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10849			
207581	हिमा पी.एच.	एन. हरि कुमार	विद्या रिट्रोड अपार्टमेंट, फ्लैट न०-जो३, पेलस नगर, थेवाल्लो, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2013	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.11.2019	13446			
207582	हिनोटोली ए. किबा	अघावी किबा	हाउस न० 15 वैलो ब्यू कॉलोनो	बीएचएमएस	2020	श्रीमता शकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस गुवाहाटी असम	नागालैण्ड	21.10.2020	134			
207583	हिसाना मुमताज यू.के.	मूसाकुट्टी यू.के.	कुन्नाथ, मुडाक्कल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10990			

207584	हिशाम हैदर सी.टी.	हैदराली सी.टी.	चेत्तीयारामल थडुपाराकल, पुथनपुराकल हाउस, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11050				
207585	होदा खुशीदुल	नूरुल होदा	1. होदा मजिल, उदू बाजार, लाल बाग, दरभंगा, बिहार-846004 2. मार्फत गोदविन अमान्ना, पहला फ्लोर, रूम न० 2, बारकू चौक, जोश नगर के पास, साकीनाका, अधेरी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400072	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	24.12.2019	33524				
207586	हुसैन मुबारक	मो० मोहिरुद्दीन	गाव-एकदालिया, पो०ओ०-सम्बलपुर, जिला-मालडा 732102	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32716				
207587	हृदय सी.एन.	गिरिसन सी.एन.	अनुग्रह हाउस, कोट्टयम पोइल पी०ओ०, पथयाकुन्नु, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.05.2016	11273				
207588	हृदयना एस.एन.	शिधरन के.	स्नेहानदिनी हाउस, कोव्वाल, चेरुवाथुर, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11936				
207589	हृदय बातू के.	बालाकृष्णन के.	निरजना (हाउस), वालिकून्नु पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12537				
207590	हुधा अब्दुल रजाक	के.यू. अब्दुल रजाक	कोट्टाथायिल हाउस, चम्मानूर पी०ओ०, पुन्नापूरकुलम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2015	10927				
207591	हुसैन मेराज	श्री इकराम हुसैन	बी१/702, पजाबी सौदागर (अपार्टमेंट) मयूर विहार-1, एक्सटेंशन, नई दिल्ली-91	बीएचएमएस	2011	कुमाऊं यूनिवर्सिटी	दिल्ली	21.08.2020	बीएचएसडी/5706				
207592	हुशियार के.पी.	मोइदु	पूर्वलाथिल हाउस, निडुमपाराम्बा पी०ओ०, काल्लाची वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	12002				
207593	हुसना अब्दुल खदर	अब्दुल खदर टी. के.	सज्जद मजिल, मत्तूल साउथ पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.03.2017	11817				
207594	हुसना बानू एम.	एम.के. अलावी	मूथली हाउस, पूलामन्ना पी०ओ०, तुबूर (वाया) जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	20.07.2015	10885				
207595	हुसना ई.के.	अबूबकर ई.के.	इल्लीकाथोडिका हाउस, कोडारसरी, चेम्बारासरी पी०ओ०, पडिककड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.05.2018	12500				
207596	हुसना फरसाना	कुजू मोहम्मद	कुजियेगल (हाउस), चुल्लीयोडे पी०ओ०, इल्लूमपाराम्बू, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12656				
207597	हुसना हुसैन एम.एम.	हुसैन एम.एम.	मुद्दनचेरी मान्नील हाउस, पाडानिलम पी०ओ०, कुन्नामगलम (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	24.01.2019	12994				

207598	हुसना के.	उमर के.	चेरुवथ (हाउस), थलाक्कुलथुर पी०ओ०, अथोली, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11345			
207599	हुसना पी.	उरमान पी.	पक्कादन हाउस, माचिगल, मेलमुरी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10856			
207600	हुसानियाह हुसेन	सैयद अवर हुसेन	हुरिनया मंजिल, मानिमाला रोड, इडाप्पल्ली, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13189			
207601	आई. श्रावण	एन. इलगामणि	टी.सी. 39/1001, केआरए-31, कोथुवाल गली, चलाई, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.07.2017	12069			
207602	इबालास्ता ग्रैसफुल खरमाब्लोग	श्री एच. बुहवान	लूमसोहखलुर मैरग, वेस्ट खासी हिल्स	बी.एच.एम. एस.	21.10.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मैघालय	04.11.2020	491			
207603	इफिरिया वी.पी.	युसुफ वी.पी.	वालियापीडिकाक्कल (हाउस), अराक्कुपारम्बा पी०ओ०, पेरिनथलमान्ना (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	30.12.2017	12366			
207604	इफराना पी.पी.	मोहम्मद पी.पी.	पाराम्मल पाराक्काडी (हाउस), वाजयूर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.06.2019	13180			
207605	एजाज नजर पन्नाकल	अब्दुल नजर पन्नाकल	पानाक्कल हाउस, कन्नात्तिपाडी पी०ओ०, वेगारा, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2016	11334			
207606	इग्लिसागला एस पोगेन	सॉटिटेमसु टी पोगेन	हाउस न० 280 सिगनल अगामी विलेज दिमापुर, नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	07.03.2018	103			
207607	इद्र देव प्रताप	अशोक कुमार	मार्फत—बीएल-2, तीसरा फ्लोर, फ्लैट—सी, 168/1, रामकृष्णापुर लेन, पल्लीमथ, शिबपुर, हावडा-711102	बीएचएमएस	नवम्बर-2010	भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, पुणे	वेस्ट बंगाल	20.09.2017	31691			
207608	इदु कला	आर. धुलसी धरन पिल्लई	कट्टील पुथन वौडू, मालिभगम, थेखुमभगम, चवारा साउथ पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	पजाब यूनिवर्सिटी	केरल	12.03.2018	12477			
207609	इदु सायरा जॉन	जेकब जॉन	कैपल्लीमालिल, मार्वैलिकारा, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.09.2015	10920			
207610	इदुजा जयाकुमार	जयाकुमार वी.के.	लक्ष्मी निवास, आइसलेण्ड क्लब रोड, नाराक्कल, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.09.2017	12210			
207611	इशा के.	कबीर दास के.	आयशा निकेथ, मूझिक्कल, चैलावूर पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12805			
207612	इरम गजाला	श्री अब्दुल अलौम	हाउस नंबर 170/1 गली नंबर 9, ग्राम वजौराबाद, अमौना मरिजद के नजदीक, बुरारी, दिल्ली-110084	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	11.03.2021	बीएचएसडी/5819			

207613	इरफान पी.के.	अब्दुल कदर सी.के.	कादीजा कॉटेज, कावीयर, चूकली पी०ओ०, जिला-कानूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12881				
207614	इरफाना एम.वी.	मोहम्मद अशरफ एम.वी.	पुथियेरुथियिल हाउस, अनधायूर, वाजाक्कड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	26.09.2018	12847				
207615	इरफाना रहिला	इब्राहिम के.के.	राहिला मजिल, ब्राइट क्रॉस रोड, उदयवार गुथू, मजेश्वर पी०ओ०, जिला-कासारगोड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11277				
207616	इरफाना टी.एस.	टी.एम. साईद इरमाईल	रू/263, धगलीवीडु, के.बी. जैकब रोड, अमारावथी, फोर्ट कोची पी०ओ०, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11279				
207617	इरफाना धट्टारुथोडी	मोइदीन टी.टी.	धट्टारुथोडी (हाउस), माट्टाथूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.08.2018	12725				
207618	इरफाना यारामीन पी.ए.	अब्दु रजाक पी.के.	पल्लीका वालिया वीडु, अजिकोड जेट्टी पी०ओ०, कोडुगाल्लूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2019	13197				
207619	इरलाम अलिउल	अब्दुल मन्नान	गाव-आजाद नगर, पी०ओ०-महेसैल, जिला-मुशिदाबाद 742201	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32501				
207620	इरलाम मिराजुल	अब्दुल खलेक मिया	गाव-शिमूलिया, पी०ओ०-चोवराशी, जिला-24 परगनास 743424	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32665				
207621	इराना इब्राहिम	इब्राहिम ई.एस.	एरान्तुपराम्बोल (हाउस), सलाफो मरिजद के पास, एडामुट्टोम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2013	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.12.2016	11662				
207622	इररार अहमद पी.पी.	मोहम्मदाली पी.पी.	सालामथ कॉटेज, कारुमाराक्काडु, एरियाल्लूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.10.2018	12863				
207623	इरसक पी. बॉस	बॉस पी. सिमोन	पुथुकायिल (हाउस), पूमाला पी०ओ०, सुलतान बाथरी, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12538				
207624	इविन सुनील	सुनील पी. जेवियर	पल्लीवाथुक्कल (हाउस), कालाथुकादावू पी०ओ०, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11335				
207625	जे० वैशाली	वी. जगधीसन	38/26, फ्लैट-सीजी-1, ओशिया एनक्लेव, करनान गली, मोगापपेर वेस्ट, चैन्नई, तमिलनाडु-600037	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	17.08.2015	5367				
207626	जैविकलिन जरस्टस	जरस्टस पेरीरा	आरामाम, कान्नीमेल वेस्ट, कावानड पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	13.07.2017	11982				
207627	जहान रौशन	मो० कामरुल होडा	2/1, तिलजाला लेन, कोलकाता-700039	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32493				

207628	जहाना फाथिमा जे.	जे.एम.मुस्तफा	पी.बी. हाउस, कानियाकुलागारा, वेम्बायम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.09.2015	10923				
207629	जेन मैरी सी.जे.	जोश पॉल सी.के.	चक्रमाक्कल (हाउस), पालुवाई पी०ओ०, जिला—थिरुचुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12730				
207630	जेसन जॉन	बी.जे. जॉन	वारयानगनल (हाउस), इरुमाप्रमाट्टेम पी०ओ०, एरुमापरा, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10943				
207631	जयसवाल रजनी	प्रेम शंकर जयसवाल	डब्ल्यू जैड-428, राज नगर-1, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110077	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	30.08.2019	बीएचएसडी/5586				
207632	जेजी ई.पी.	पी.पी. पुरुशोत्तमन	धनीक्कामपोइल हाउस, थोक्कीलगडी, कुथुपराम्बा पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	09.11.2017	12293				
207633	जालिता माघ	कोहरी माघ	हाउस न० 27 टसेमियु न्यू टाउन 797109	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	02.09.2019	121				
207634	जामलामडाका श्रीकांत	प्रभाकर सरमा	हाउस न० 1-3-21, पुट्टा वारी गली, नजर पट, तेनाली, आन्ध्र प्रदेश-522201	बीएचएमएस	2006	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश	14.06.2006	6261				
207635	जामसीना पी.	अली पी.	पुथलन हाउस, कोलोथ, कोडोटी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.03.2017	11807				
207636	जाम्शिया सी.ए.	मोहम्मद सलीम सी.ए.	कुन्थ हाउस, वाजाक्कड पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.11.2016	11579				
207637	जनगम जयश्री नरसेयाह	नारसेयाह	अकथियूर पी०ओ०, टैकिल क्वार्टर्स, चिगावनाम, रॉयल एक्लवम, फेक्ट काडायु रोड, थलापिल्ली तालूक, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2005	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	केरल	05.03.2019	13064				
207638	जतुआ मौबानी	नानी गोपाल जतुआ	नयापारा, गणेशपुर, काकद्दीप, साउथ 24 परगनास 743347	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32703				
207639	जारील अहमद एन. पी.	उसमान एम.पी.	निरावथ पाराम्बा (हाउस), कुन्नामगलम पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12108				
207640	जरीला अब्दुल रजाक पी.	मोहम्मद अब्दुल रजाक पी.	खदीजा महर हाउस, चेन्नामगल्लूर पी०ओ०, मुक्काम (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12965				
207641	जरीला सी.	अब्दुल अजीज सी.	चेरायाकाट्टु, कोट्टायील हाउस, थोडिलाक्काडावू, ओलावाना पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12200				
207642	जरीला सी.	मोडुन्नी सी.	चेन्नाथ हाउस, मारानचेरी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.11.2018	12933				
207643	जरीना पी.	अबूबकर पी.	पेरायिल (हाउस), चेराक्कापाराम्बा पी०ओ०, अगडोपुरम वाया, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11466				

207644	जसीरा सी के.	मोहम्मद कोया पी. पी.	सबीरा मजिल, चलियाथ, मूजिक्कल, चेलावूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11535				
207645	जाशीला ए.पी.	हमजा ए.पी.	अनाप्पादिककल हाउस, कदालुदो नागराम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	10.04.2015	10776				
207646	जसीना एन.	मोइदीनकुट्टी एन.	नानाट्ट हाउस, कावापुरा पी०ओ०, अडद्रेरसेरी, पानमुडम (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12149				
207647	जैरिमन ए.टी.	उम्मारकोया ए.टी.	अरामथोपिल (हाउस), कल्लारमगलम पी०ओ०, कदमपुजा वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	26.04.2016	11253				
207648	जैरमीन अली के.	अली कदनथोडी	कदनथोडी हाउस, कानायम पी०ओ०, शोरनूर, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12789				
207649	जैरिमन जे.डी.	दिलीप कुमार	वी.एम. हाउस, नागाचेरी आनंद पी०ओ०, नेडुमागड, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10945				
207650	जैरिमन पेरुम्बली	मूसाकुट्टी पी.	पेरुम्बल्ली (हाउस), रदाथनी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11104				
207651	जैरिमन टी.	मोहम्मद पी.	थदाथिल सानु निवास (हाउस), काराथुर पी०ओ०, कुन्नामगलम, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.01.2016	11054				
207652	जैरिमन यूसाफ	यूसाफ के.एम.	कालायिल परम्बील, कुलायट्टेक्कारा पी०ओ०, काजीरामाट्टोम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	17.01.2017	11687				
207653	जैरमीन जे.	एस. पीरुकन्नु	निराकूत्तु, बालाथुगल पी०ओ०, एराविपुरम, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2013	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11451				
207654	जैरिमन जोश	जोशाफ वी.ए.	वानीरसेरिल हाउस, वायात्तुपाराम्बा पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11963				
207655	जैरिमन पी.ए.	अबूबक्कर	पानगदेन (हाउस), धरिश पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12658				
207656	जैरिमन पी.आई	इब्राहिम पी.पी.	कोजिरसेरी (एच), वाजाक्कड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10981				
207657	जैरिमन एस.	सैनुल्लाबदीन ई.	जारीम मजिल, कोट्टयम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11126				
207658	जसना के.आर.	रहमतुल्लाह	कुडुकुली हाउस, पूकूट्टमाना पी०ओ०, चुगाथारा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10845				
207659	जसना मैथ्यू	एम.सी. मैथ्यू	मानारियथ हाउस, पाल्लोक्थ पी०ओ०, चुगाथारा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.01.2016	11013				

207660	जसना टी.पी.	हामजा कुट्टी टी.पी.	थोराक्कात्तिल पाजमथोत्तिलगल (हाउस), वेत्ताथूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.08.2016	11409				
207661	जवाद मोहम्मद वी.के.	मोहम्मद वी.के.	वानीयमकुलगारा (हाउस), मूक्कूथाला पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	24.10.2017	12281				
207662	जावा बी.	जी. बाबू	खिजाक्के काल्लुविला वीडु, कान्नानलूर पी०ओ०, वाडाक्केमुक्कू, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13036				
207663	जावेद अरीबा	जावेद वाहीद	16, गगाधर बाबू लेन, कोलकाता-700012	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32747				
207664	जया लक्ष्मी एम.	रविन्द्रनाथन पिल्लई एम.जी.	थेगुविला पुथेन वीडु, चथिनामकुलम, चदनाथोपू पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.01.2018	12401				
207665	जयाकृष्णा पाल बी.	बालाकृष्णा पाल	गणेश मंदिर, न्यू विलेज, कोल्लेगोड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11507				
207666	जयाप्रिया पी.	जयानदन	थेक्कुमकाट्टील (हाउस), चेम्मानियोडु पी०ओ०, उचाराक्काडावू, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.09.2017	12216				
207667	जयश्री रानी	चंद्र किशोर पाण्डेय	चौहान चौक, बेलबनवा, मोतीहारी, जिला-ईस्ट चम्पारन, बिहार	बीएचएमएस	2017	बाबासाहेब भोमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	11.02.2017	32029				
207668	जायसी सी.	सासि सी.	अलिंगल हाउस, वेट्टेम पी०ओ०, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	30.12.2017	12363				
207669	जाजिला अली	साईद अली बाफखी	अल-रायान, बीच रोड, कोयिलडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.10.2017	12266				
207670	जीमा जॉनसन	के.ए. जॉनसन	जीवोदया प्रोविशियल हाउस, यू.सी.कॉलेज पी०ओ०, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10893				
207671	जीन सी.	क्रिस्टोफर वी.	मेलेकाल्लुविला वीडु, वानीयाकोड, चेरुवाराकोनम वाया, पारासराला पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.08.2017	12116				
207672	जीनी जोषाफ	एम.जे. जोषाफ	अथिरथिमुक्कील हाउस, कारिमपन, मनोप्पारा पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	15.02.2019	13013				
207673	जीशमा के.	कृष्णन के.	कैलिकोदन हाउस, एराहिमगड पी०ओ०, मोदावना, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12657				
207674	जीवा सुसान थोमस	थोमस जॉन	एदाथरा (हाउस), नालुन्नाकल पी०ओ०, वाकाधनम, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11237				
207675	जीवन के.वाई.	के.वाई. योसफ	काट्टूमात्ताथिल (हाउस), मानकुझी, उदुम्बानूर पी०ओ०, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11643				

207676	जेफना इरमाईल	इरमाईल के.सी.	'अमिनास', परिनगडी पी०ओ० पुधिया रोड, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2013	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.12.2016	11663				
207677	जेहिथा वी.एस.	सुलेमान वी.एम.	वेलूमकोडन हाउस, एन.ए.डी. पी०ओ०, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	28.05.2019	13128				
207678	जेमशदा पी.	कुहीमोहम्मद पी.	पारंगल हाउस, किजीरसेरी, कुजिमान्ना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10854				
207679	जेनी जोश	जोश जोशफ	वट्टाकुडियिल (हाउस), अवोली पी०ओ०, मुवाट्टुपुजा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.05.2017	11875				
207680	जेरी के. मोहम्मद	के.पी. मोहम्मद	कुट्टीक्कात्तुचलिल (हाउस), माथिरापिल्ली, कोथमगलम पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.09.2018	12818				
207681	जेसिथा ए.एम.	अब्दुल रजाक ए.एम.	अथिमान्नील हाउस, मजेरी कॉलेज पी०ओ०, पडीक्कड रोड, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.03.2019	13065				
207682	जेरसन जोशुआ	जोशुआ एम.	ज्योति भवन, वेगूर, उम्मानूर पी०ओ०, कोट्टाराक्कारा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12153				
207683	जेरवीन मारिया जोश	जोश पी.जे.	पाराडियिल (हाउस), नाल्लोमपुजा, कान्नीवायल पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	24.08.2019	13348				
207684	जेवेल सुलताना के.एफ.	के.एच. फैज़ल	14/1423 ए. कुम्बालथ हाउस, इल्लथ नगर, पाल्लूरुथी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	15.02.2018	12472				
207685	झा कविता सुखवीर	सुखवीर झा	एफ-64 विभाग-7, पशवानाथ टाउनशिप, शक्ति चौक कृष्णनगर, नवा नारोदा, अहमदाबाद-382345	बीएचएमएस	2018	जीवाजी यूनिवर्सिटी, न्वालियर	गुजरात	30.11.2019	जी-26006				
207686	झा मोनी	श्री कन्हैया जी झा	सी-256, मिलेनियम अपार्टमेंट, सेक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली-110089	बीएचएमएस	2019	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5674				
207687	जिबिना नजर	नजर एम.	पानिक्का वीडू, एन.ए.डी. पी०ओ०, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.03.2017	11822				
207688	जिजी मोल बी.	बालासुब्रह्मनियन के.सी.	जिजी निवास, माननाथ कावू, धन्नीसेरी पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12008				
207689	जिजोमोन के.के.	कुट्टाप्यन	थेक्कथिल (हाउस), मन्नादिसाला पी०ओ०, मन्नादिसाला, रानी, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	19.10.2016	11572				
207690	जिज्यजॉन	ए.पी. जॉन	कारीबिकालायिल हाउस, मान्नीचिरा, पूमाला पी०ओ०, सुलतान बाथेरी, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2016	जीवाजी यूनिवर्सिटी, न्वालियर	केरल	18.12.2017	12342				

207691	जिलना सतोष	ए.के. सतोष	नेल्लातुकुडियिल हाउस, चेत्तापलम पी०ओ०, पुलपल्ली, जिला—वायानड, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.08.2015	10890				
207692	जिलशना पी.के.	अब्दुल मजिद पी.के.	धपफाह (हाउस), पाराम्बोल पी०ओ०, चेरुवाट्टा, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.11.2018	12931				
207693	जिलसी जोश एम.	जोश एम.ए.	थिरायथ मजियोल हाउस, मजौलस गली, मनुथी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.03.2018	12478				
207694	जिलू अन्ना जैकोब	रेजी जैकोब वर्घस	नाक्कोलाक्कल पुलिमुतिल, मामपरा पी०ओ०, वेगन्नूर, जिला—अलाप्पुझा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13138				
207695	जिम्शी वल्लिक्कादन	कोया वी.के.	वाल्कीक्काडन हाउस, मामबीथि, ओ.के. मुरी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.06.2019	13155				
207696	जिसी एस.वी.	सेलवाराज पी.	टीसी 11/1401, (स्टू. टी.सी. 25/3053-1), बैन्स कम्पाउंड, नाथेनकोड, कोडियार पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.08.2019	13361				
207697	जिसी जाचारियस	जाचारियस सी.	कार्मलाईट प्रोविशियल हाउस, कोझिम्पिल्ली पी०ओ०, कोट्टामगलम, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13466				
207698	जिनो सिग	टैसिग	थिट्टेप्पाराम्बोल, अम्बिकामार्केट पी०ओ०, वैकोम, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13055				
207699	जिसिया पालक्कल	मूसा पालक्कल	पालक्कल (हाउस), उम्मालाथूर, मेडिकल कॉलेज पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	02.02.2017	11714				
207700	जितू एम.	धनजयन	रतनम निवास, मनलथजाम, काम्मरी पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12415				
207701	जिनू जोसेफ	जोसेफ ओ.जे.	ओजिकाट्टे हाउस, पानापुजा पी०ओ०, काराकुडू, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12696				
207702	जिनू जरिदन	जरिदन राज	थेजस, कोदनकारा, चैनकल पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12707				
207703	जिनू पी. जेम्स	जे. जेम्स	जे.जे. भवन, सीकेआरए-79 सी, चेचेरी, कुरुमकुलम, नालाचिरा पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.10.2016	11549				
207704	जिनू पॉल	एन.वाई. पौलोस	नाम्मान्नी हाउस, मारोटीचल पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12181				
207705	जिशा अशरफ	एम. अशरफ	नौफल मजिल, टीसी 19/1249 (1), (स्टू-47/1843), कारामना पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.06.2018	12569				

207706	जिशा शाजहा	शाजहा एम.ए.	जे.जे. लैण्ड, वाडारसरिरोनम पी०ओ०, वरकाला, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	15.04.2016	11222				
207707	जिशनना टी.पी.	मोहम्मद टी.पी.	थोरक्कात्तिल पाजमथोट्टुगल (हाउस), वेट्टाथूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.05.2017	11882				
207708	जिर्मो थोमस	ए.वी.थोमस	अराक्कल (हाउस), कारुकुट्टी पी०ओ०, वजाचल, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11390				
207709	जिसना जोश	जोश	नाराकाथरा (हाउस), चुडा पी०ओ०, चेरुपुजा वाया, वाजकुदम, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12700				
207710	जिसना वी.ई.	इब्राहिम वी.ई.	वाराप्पिल्लोक्कुडी (हाउस), कादावूर पी०ओ०, पानाकारा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11206				
207711	जिर्नी थोमस	थोमस के.एल.	कट्टीपारागंबील हाउस, चेट्टीक्कड, कुजीथाई पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	19.08.2017	12185				
207712	जिधा एलिजाबेथ	वी.एल. जोश	वेट्टुवाजियिल हाउस, सेंट जोसफ चर्च रोड, थेवारा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.07.2017	12035				
207713	जिथेश ए.पी.	राजन के.एम.	बिनेश भवन, पट्टीयम, कोट्टय्योडी, पथायाकुन्नू पी०ओ०, थलारसेरी वाया, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.04.2017	11848				
207714	जिधी एस.	शाजी पी.वी.	ज्योथिस, कालारिककल हाउस, थिक्कोदिथनम पी०ओ०, चगानासीरी, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.08.2016	11426				
207715	जिथिन एम. ओसफ	एम.वी. ओसफ	मजाकुजाकुन्नेल, पाराप्पानगाडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10892				
207716	जिथु एस. आनद	जयानदन जे.	टीसो 1/747, जयनगर, मेडिकल कॉलेज पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.02.2019	13017				
207717	जिथुमोल जोशफ	जोशफ पी.ए.	हाहनेमन होम्यो हाउस, उल्लानाम पी०ओ०, पाराप्पानगाडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12952				
207718	जिया जॉन	पी.वी. जॉनी	पुथुस्सेरी (हाउस), पोजास्सेरी पी०ओ०, सोभाग्य नगर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12562				
207719	जियास के.पी.	अब्दुल अजीस के. पी.	हादिया हाउस, चेलिया पी०ओ०, एदाक्कुलम (वाया), कोयिलडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	12999				
207720	जॉन मिथिला	पी.एफ. जेवियर	पल्लोक्कावीट्टिल, मारटिनपुरम, मारादु (एन), कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11509				

207721	जोबिधा अब्दुल पी.	हारीज पी.	कुडुकदन हाउस, वालम्बूर पी०ओ०, पट्टीक्कड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.06.2018	12567				
207722	जोबू सी. काल्द्वेल	आर. चेल्लाथुराई	11/181, एममाचो विलाई, नट्टालम, नट्टालम (पी०ओ०) कन्या कुमारी, तमिलनाडु 629165	बीएचएमएस	2009	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	22.12.2009	3381				
207723	जोफिन थॉमस	थॉमस एटोनी	मुक्केनथोताथिल हाउस, कारुवामन्नम वेस्ट पी०ओ०, मज्जेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.06.2019	13177				
207724	जॉन जे. वधिकुलम	जोशफ टी. वधिकुलम	वाधिकुलम हाउस, एश्वर्या लेन, थोप्पील, थिक्ककारा पी०ओ०, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11467				
207725	जोइसी एनजी	एनजी. नोरो सिंह	58/3, राजा धिनेन्द्र गली, मनिकताला, कोलकाता	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32495				
207726	जोजी जॉर्ज	के.पी. जॉर्ज	कुन्नाथकुडियिल हाउस, भूदानाम पी०ओ०, पुलपल्ली, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10848				
207727	जोली हेलेन वी.	वेनसन सी	314 (8/311), जयाविलासम, थचकोडे, कुट्टीचल, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2012	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11000				
207728	जोमल स्कारिया	ई.पी. स्कारिया	एलाजिमात्ताथिल (हाउस), चित्तारिककल पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12904				
207729	जोमी जॉन जोशफ	वी.एम. जोशफ	वेजामबारोरिल (हाउस), उप्पूथोडे पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.09.2018	12819				
207730	जोमी ए.एस.	अनिल कुमार के.	जोशना कॉटेज, ओजुकुपारा, वाट्टम्पारा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13417				
207731	जोशफ के.एम.	मनी जोशफ	कुरुमबाक्काट्टू हाउस, मुक्कुलम ईस्ट पी०ओ०, एलामकाडु टोप, कूटिक्कल वाया, जिला-कोट्टम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11278				
207732	जोशी प्रज्ञा	पवन कुमार जोशी	मार्फत प्राजल पारीक, 49, द्वारिक जगल लेन, उत्तरपारा, भद्रकाली, हुगली 712232	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32573				
207733	जोशी श्रेया कीर्तिकुमार	जोशी कीर्तिकुमार मधुसुदनभाई	'हरिहर निवास', हरिहर चौक, सदर, जीपीओ के पास, राजकोट, गुजरात-360001	बीएचएमएस	2019	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी	गुजरात	20.09.2019	जी-25672				
207734	जॉय सिनी	पी.टी. जॉय	हाउस न० XIII/29/6, मनिकादेवरम रोड, चियाराम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2014	गोवा यूनिवर्सिटी	केरल	12.12.2015	10968				
207735	जूबी एटोनी	एटोनी	सिस्टर ऑफ द डिस्टिट्यूट, सेट मेरी प्राविस चुनागामवेली, अल्वा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.07.2017	11967				

207736	जुलिया राजू	एम.सी. राजू	पूनथोद्गाथिल हाउस, कुरीक्काडू पी०ओ०, चोद्गानिककारा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12583				
207737	जुलिया विलफ्रेड	विलफ्रेड अमब्रास	जुलिया विला, चूवा पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	28.05.2019	13121				
207738	जूली एल्सा जेम्स	जेम्स जोशफ	माडुक्काकुजी (हाउस), कान्नीमाला पी०ओ०, एरुमेली, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11391				
207739	जूली मैथ्यू जे.	जिमी मैथ्यू	मारनाट्टु हाउस, करीमबा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12066				
207740	जुल्का गुरलीन	श्री सुरिंदर सिंह जुल्का	एच-32, स्ट्रीट नं. 9, न्यू महावीर नगर, नई दिल्ली -110018	बीएचएमएस	2013	गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, पंजाब	दिल्ली	10.02.2021	बीएचएसडी/5810				
207741	जुमैला यू.के.	उमर के.	चेम्बनाचलिल (हाउस), नाडाक्कल पी०ओ०, एरात्तुपेट्टा, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	31.03.2016	11196				
207742	जुमाना अब्दुल जलील चेम्पायिल	अब्दुल जलील सी	'जेम', पुथुरसेरी पराम्बा, पवनगड, पुथियानगडी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.04.2017	11842				
207743	जुमाना हसीन ए.जी.	गफरुद्दीन वी.ए.	थंगिल हाउस, मिनी अजूमूर्ति मगलम पी०ओ० के पास, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11519				
207744	जुमाना के.	हरसान	काम्माना हाउस, मेपायूर पी०ओ०, वाडाकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.03.2019	13087				
207745	जुमाना सिराजा ए.बी.	अब्दुल रजाक ए.बी.	कट्टीलथोडी (हाउस), चेलम्बरा पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12101				
207746	जुनैद रहमान ए.	मोहम्मद ए.	अरुवीट्टिल हाउस, अचिपिलाक्कल, कारुवाम्बुरम पी०ओ०, मजेरी, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.06.2019	13129				
207747	जुनैद पी.	जमाल पी.	'फौज' इडारसेरी पराम्बा, फ्लोरिकन रोड पी०ओ०, कारापारम्बा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.03.2019	13091				
207748	जुसना बिसी बी.के.	अब्दुलसामाद बी.के.	भगवथी काव्गल हाउस, चुल्लिपारा पी०ओ०, वालाक्कुलम (वाया), जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.11.2017	12313				
207749	जरटीना जॉन टी.	जॉनी टी.एम.	थेक्केपरम्बील हाउस, कूट्टुपुजा पी०ओ०, परात्ता, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.12.2016	11658				
207750	जरिस्टन जोसफ	जोशफ एम.पी.	माडारसेरी हाउस, कोल्लानूर लेन, लौरुपुरम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.12.2015	10972				

207751	जरिस्टन एम. स्टीफन	स्टीफन एमपी	मानावलन हाउस, माला पी0ओ0, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11958				
207752	जवानिता जॉनी	जॉनी पी.जी.	अचेरी हाउस, पुलियाकोदेकुन्नू, मारिकुन्नू पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.04.2019	13102				
207753	ज्योति के.पी.	सतीश के.पी.	स्वामी निवास, नेलकाला, विद्यानगर पी0ओ0, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12749				
207754	ज्योति टी.एन.	नारायणन के.	धोत्ताथिल हाउस, नेल्लियामपडम, कुनिरसरी पी0ओ0, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2013	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	09.06.2017	11894				
207755	ज्योतिस जोश	जोश हैसर	जॉनसी डाले, डीएमआर हाउस न0 1, कुटचेरी पी0ओ0, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12387				
207756	ज्योतिश्री ए.एस.	पी.जी. सदानदन	अयोध्या, वैकाप्रय पी0ओ0, वैकोम, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.11.2017	12304				
207757	ज्योति	श्री बिजेन्द्र सिंह	डी-50, यादव नगर, समयपुर दिल्ली-110042	बीएचएमएस	2018	प. बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक	दिल्ली	14.12.2020	बीएचएसडी/5793				
207758	कबीर खोदोकर मो0 अलतमस	रव. के.एम. अलारख	बी/50/एच/1, ब्राइट गली, कोलकाता-700017	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32657				
207759	कादीजा जैरिमन वी. एम.	इब्राहिम वी.एम.	वालापील मेपराम्बथ (हाउस), मगलम पी0ओ0, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13166				
207760	कादीजा यू.पी.	अबूबकर यू.पी.	उल्लात्तुपाराम्बन (हाउस), चुगाथरा पी0ओ0, वेल्लारामकून्नू, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.12.2016	11630				
207761	कादीजथ मिसबा एम.	मोइदीन कुही	मूसा महल, एल.पी. स्कूल के पास, माधुर पी0ओ0, माधुर, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	27.09.2017	12250				
207762	काजल बानू एम.ए.	अब्दुल खदर इरसा एस.	कनाकाकुन्नू वीडू, डिपो के पास, कुलाथुपुजा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11660				
207763	काजल गुलेरिया	श्री कुशाल सिंह	हाउस न0 4177, सेक्टर-46-डी, चण्डीगढ़	बीएचएमएस	23.01.2017	पजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	यू.टी. चण्डीगढ़	13.10.2020	265-ए				
207764	काला सोनाली	सर्जोय काला	दुर्गाचक उत्तर पल्ली, हल्दिया, पूर्वा मिदनापोर 721602	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32531				

207765	कल्पावल्ली कदाडा	एस रामानुज चजुला कदाडा	हाउस नं० ३-९-५१३/ए, रोड नं० २, मधुरा नगर, मसूराबाद, एल.बी. नगर, रगारेड्डी, टीएस-५०००६८	बीएचएमएस	२००७	डॉ० एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, आन्ध्र प्रदेश	तेलागना	१०.०९.२०१८	५१५/एच/२०१८	एम.डी. होम (ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन), १५.१०.२०१५, एमयूएचएस, नाशिक			
207766	कपूर मेधा	श्री वीरेन्द्र कपूर	४०१, फरश बाजार, शाहदरा दिल्ली-११००३२	बीएचएमएस	२०१९	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	०४.०९.२०२०	बीएचएसडी/५७२०				
207767	कर अंकिता	बिस्वाजीत कर	रामचंद्रपुर पश्चिम पारा, पो०ओ०-डायमण्ड हारबोर, जिला-साउथ २४ परगना ७४३३३१	बीएचएमएस	अक्टूबर-२०१९	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	१७.१०.२०१९	३२५६३				
207768	कर सचारी	दिलिप कुमार कर	गाव-जलालखबर, पो०ओ० व पु०स्टे०-कोताई, जिला-पूर्वा मेदिनीपुर ७२१४०१	बीएचएमएस	अप्रैल-२०१९	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	२९.०४.२०१९	३२५२२				
207769	कर्दम उबिका	श्री चमन लाल	बी-९६, अरविद नगर, खजूर वाली गली, घोडा, दिल्ली-११००५३	बीएचएमएस	२०१९	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	०४.०९.२०२०	बीएचएसडी/५७६४				
2077७०	कर्माकर अनिल	फातिक चंद्र कर्माकर	अमताला, बी.पी. रोड, पो०ओ०-कन्यानगर, साउथ २४ परगना ७४३३९८	बीएचएमएस	दिसम्बर-२०१९	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	०३.०१.२०२०	३२७९०				
2077७१	कर्माकर सरबनी	दीलिप कुमार कर्माकर	विद्यासागर पल्लो, पो०ओ०-झलझलिया, जिला-मालदा ७३२१०२	बीएचएमएस	अक्टूबर-२०१९	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	वेस्ट बंगाल	१७.१०.२०१९	३२६१६				
2077७२	कारमालिन राजा एम.	जी. मोहनदोस	दास भवन, एनीकुडी एस्टेट, दयमोक पी०ओ०, वादिपेरियार, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	२०१८	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	११.०७.२०१८	१२५९२				
2077७३	कार्तिक कृष्ण	गोपालाकृष्ण सी.	थेक्के चदुवाराथ, नेट्टीरसेरी पी०ओ०, मुक्कालुकारा, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	२०१८	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	केरल	३१.०८.२०१८	१२७६४				
2077७४	कार्तिका सी.आर.	रघुनाथन सी.एस.	सारथ इंदु विहार, बैक रोड, अलाथुर, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	२०१५	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	३१.०१.२०१६	११०६६				
2077७५	कार्तिका कृष्ण	राधाकृष्णा पिल्लई पी.	कृष्णालयम, ओडानावाट्टोम (पी०ओ०), पारुथियारा, कोट्टाराकारा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	२०१८	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	केरल	१५.०२.२०१९	१३०२८				
2077७६	कार्तिका एम.	जी. राजामोहन पिल्लई	स्मृति, ममता नगर-५८, रमनकुलगारा, कावानड पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	२०१९	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	१०.०६.२०१९	१३१४६				
2077७७	कार्तिका एस.एन.	आर. नीलकांत	'राम निवास', टीसी-२१/४४१, जेएनआरए बी-१५, नेडुमकोड रोड, कारामना पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	२०१७	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	१०.०७.२०१७	११९२२				

207778	कार्तिका सजीव	सजीव सी.पी.	चेरुचिलाम्पील (हाउस), मीनाचिल पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12713				
207779	करुणाकारा मूर्ति एस.	एम. सजीवी	इलामपुरायेदाथु हाउस, कुरिसुम्पुडु पी०ओ०, चगानाचेरी, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2005	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	14.08.2019	13281				
207780	कौर गुरकीरत	श्री सुखबीर सिंह पटल	ई-26/6, राजौरी गार्डन नई दिल्ली-110027	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5727				
207781	कौर राजनप्रीत	श्री गुरनाम सिंह	हाउस न० 3156ए, सेक्टर-39-डी, चण्डीगढ़	बीएचएमएस	06.03.2018	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	यू.टी. चण्डीगढ़	24.08.2020	264-ए				
207782	कौर सर्वलेन	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	ए-01, विदिशा अपार्टमेंट, प्लॉट न० 79 पडपडगज, आई.पी. एंक्वेटेशन, दिल्ली-92	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	13.08.2020	बीएचएसडी/5696				
207783	कौसर हेना	ख. मो० मोतियर रहमान असारी	19सी/2, तिलजाला शिबताला लेन, कोलकाता-700039	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32494				
207784	कौसर शाजिया तबरसुम	कौसर माजरी	18जे/2, टोपसिया रोड, कोलकाता-700039	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32658				
207785	कौशिक शीगुल	श्री सुनील कुमार कौशिक	हाउस न० 111-सी, पूथ कालन नगर रोहिणी, सेक्टर-23, दिल्ली-86	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	18.08.2020	बीएचएसडी/5700				
207786	कविता मैथ्यू	वी.ए. मैथ्यू	वेलारुम्कुजी (हाउस), मोनीपल्ली पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2017	12083				
207787	कविता मोहन	पी.एस. मोहनन	थेवालिल हाउस, साउथ नाडा, कोडुगालूर, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी	केरल	10.07.2017	11940				
207788	कविता पी	शिनू आर	203, हलदर अपार्टमेंट, 119 पचनानथला गली, रिशरा, हुगली-712248	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32579				
207789	काव्या ए.	एस. पदमाकुमार	पदमास, काल्लुम्पुडू, कायमकुलम पी०ओ०, जिला—अलाप्पुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13084				
207790	काव्या अजय	अजय कुमार के.	गायत्री, धजाम, चथनूर पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11917				
207791	काव्या दास ए.पी.	रामादसन ए.पी.	एरीपाराम्बथ (हाउस), नामिदा पी०ओ०, अम्बालापॉयिल, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12627				
207792	काव्या एम.	मधुसुदनन एम.	चैथराम (हाउस), बालूरसेरी एच.एस. के. पास, बालूरसेरी पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11358				
207793	काव्या मोहन	कनक मोहनन	हाउस न० 34/402 ए, कोलेदथ हाउस, कुन्ममन्नथ पाराम्बा, मधुरावानम रोड, सिविल स्टेशन पी.ओ., जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	29.11.2016	11601				

207794	काव्या प्रकाश	वीवी प्रकाश	श्रीवालयम, मुल्लाक्केरी, पानमाना पी०ओ०, चवारा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13046				
207795	काव्या धम्पी	टी धम्पीराज	कमलानिलायम, एरालूमडू पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12645				
207796	काव्यालक्ष्मी आर.	आर. राजागोपाल	पुलिवेलिल हाउस, वेलियाप्पल्ली पी०ओ०, अरुणापुरम वाया, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.09.2018	12856				
207797	कीर्धना आनंद	जयानंदन ओ.	किजाक्कोट हाउस, एस.एन. पुरम, पनानगड पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12682				
207798	कीर्धना बालन पी.बी.	बालन	पालाप्पाराम्बथ (हाउस), कीजारियूर पी०ओ०, कोयिलडी वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11393				
207799	कीर्धना आर.पी.	रविन्द्रन पी.के.	कीर्धनाम (हाउस), पेरुमलपुरम, थिक्कोडी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12874				
207800	कीर्धना टी.वी.	टी.के. विमल राज	धचामूचिकल (हाउस), विलयान्नूर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11659				
207801	कीर्धना	के. कृष्ण कुट्टी	श्रीवालयम (हाउस), एश्वर्या लेन, एस.आर.के. नगर पी०ओ०, ओट्टापलम, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	07.01.2017	11673				
207802	कीर्ति डी.एस.	दामोदरा बी.एम.	लावन्धा कृपा, पेरिंगडी, मंगलपाडी पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.07.2017	12011				
207803	कीर्ति के.वी.	अशोकन के.	किनात्तेरावालाप्पोल हाउस, थेयागाडू, पोन्नानी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12053				
207804	कीर्ति राजागोपालन	एम.वी. राजागोपालन	सौपणिका, पोर्टोर पी०ओ०, एम.जी. कावू (वाया), थिरूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	28.05.2019	13125				
207805	कीर्तिचद एस.एस.	सारथ चद्रन	एस.एस. भवन, वादिथदम, काक्कारामेले, काराकोनम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13404				
207806	कीर्ति पी.वी.	वेलायूधन पी.	पाराक्कूथ हाउस, अम्बाल्लूर नोर्थ, अलागप्पा नगर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12522				
207807	केनेथ एडरसन नॉनग्रेज	श्री के. मरबनियाग	नॉनाबाह बिन्धेर, मैरग, वेस्ट खारसी हिल्स	बी.एच.एम. एस.	01.05.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मैघालय	19.10.2020	487				
207808	केरदाजिगम्बेन रिताधियाग	श्री के.एल. मैरग	नॉनाखलाव, वेस्ट खारसी हिल्स	बी.एच.एम. एस.	21.10.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मैघालय	12.11.2020	494				

207809	खदीजा जिशा पी.पी.	मोहम्मद अली	पुथान पीडिकाक्कल (हाउस), कुन्नाप्पल्ली पी०ओ०, परिथलमन्ना (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11653				
207810	खदीजा जुसना कुरिक्कल	अब्दुल जम्बर के.	कुरिक्कल हाउस, कुट्टोर नोर्थ पी०ओ०, ए.आर. नागर (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.07.2018	12605				
207811	खादिम अजिजुल इरलाम	अतिकुल इरलाम खादीम	कौशल्या, पी०ओ०-खरागपुर, वेस्ट मिदनापोर 721301	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32708				
207812	खैरुनीरसा के.के.	सैयद मोहम्मद कोया धगल	कल्लू वीट्टिल (हाउस), पल्लीक्कल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.01.2017	11696				
207813	खैरुनिसा पी.	बशीर पी.	पालरा हाउस, बालनचेरी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12221				
207814	खान आसिफ	अफसर खान	गाव-रसूलपुरा, पोस्ट गमभीरा, तहसील-मालाराना डोगर, जिला-सवाई माधोपुर-राजस्थान	बीएचएमएस	2019	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	राजस्थान	20.11.2019	8560				
207815	खान अनुषा	श्री परवेज नसीर खान	161/50, तीसरा फ्लोर, शम्सी अपार्टमेंट, जोगाबाई मेन रोड, जामिया नगर ओखला, दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5773				
207816	खान अरशा	श्री नफीस खान	ई-103/2, अबुल फजल ऐन्क्लेव-II शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला नई दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5759				
207817	खान बुशारा	जैनुल अबादिन खान	पी०44/1, मतझील अवेन्यू, साउथ दुम दुम, नोर्थ 24 परगनासा 700074	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32777				
207818	खान फरहीन	श्री शरीफ खान	बी-6/17, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	18.12.2020	बीएचएसडी/5800				
207819	खान इमरान	श्री इसरार अली खान	सी-503, गली नंबर 12, श्री राम कॉलोनी राजीव नगर दिल्ली-110090	बीएचएमएस	2019	जीवाजी यूनिवर्सिटी	दिल्ली	19.01.2021	बीएचएसडी/5807				
207820	खान शाहनवाज	सलीम खान	35/179, ब्लॉक-35, त्रिलोक पुरी, दिल्ली-91	बीएचएमएस	2020	गुरु गोबिन्द सिंह इद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5654				
207821	खदाकर इसाबेला	इसाउद्दिन खडाकर	118 काजीपारा बिद्यावती, पी०ओ०-बिद्यावती, जिला-हुगली 712222	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32526				
207822	खन्ना सिमरन	श्री किशन खन्ना	10/78, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	21.08.2020	बीएचएसडी/5703				
207823	खरादे सुचिता श्रीमत	श्रीमथ बी खरादे	पत्नी टी.एन. कोटम्बे, विक्रम एनक्लेव (सोजीआरए), फ्लैट न० हल्दी-5, सेक्टर-18, हल्दिया टाउनशिप, पूर्व मेदिनीपुर-721607	बीएचएमएस	फरवरी-2008	एमयूएचएस, नाशिक	वेस्ट बंगाल	05.10.2015	30965				

207824	खातून आसिफा	मोहम्मद असलम	बी-19, डीडीए कॉलोनी, ख्याला विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5665			
207825	खातून अफसाना	अली हुसेन असासी	81/2, जया बिदी रोड, घुसुरी, पो0ओ0-बेलूर, हावडा 711107	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32707			
207826	खत्री प्रिती	श्री विजय कुमार	हाउस नं0 105, नई बरती, पाना मामुरपुर, नरैला, दिल्ली-110040	बीएचएमएस	2018	पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़	दिल्ली	03.09.2020	बीएचएसडी/5710			
207827	खातून फरजाना	मो0 फिरदौस आलम	54, पिखना दूसरी बाय लेन, तीसरा फ्लोर, पो0ओ0 व जिला-हावडा 711101	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32723			
207828	खातून निलताज	मो0 मैनुल हक	नेताजी हाई स्कूल के पास, गाव-गगापुर, पो0ओ0-भाबता, जिला-मुर्शिदाबाद 742134	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32611			
207829	खातून टोवहिदा	मो0 शेरफूल हक	भाबता, तेटलताला पारा, मुर्शिदाबाद 742134	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32620			
207830	खातून नादिजा	नियमातुल्ला शेख	खादिमपारा, गाव व पो0ओ0-महालदी, जिला-मुर्शिदाबाद 742136	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32609			
207831	खातून सलमा	साला उद्दीन मडल	गाव-बारा मल्लिक पार, पो0ओ0-बालितिकुरी, जिला-हावडा 711113	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32720			
207832	खेमराज	रतन लाल	आकाशवाणी कॉलोनी, क्वार्टर नं0 ए-10, बार्ड नं0 25, सूरतगढ़, श्रीगगानगर, राजस्थान-335804	बीएचएमएस	2019	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	राजस्थान	27.11.2019	8585			
207833	खिचि सुचेता	श्री राजिंदर खिचो	फ्लैट नं0 75, डीडीए फ्लैट्स, ज्वाला हेडी पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5738			
207834	खौलथ ई	मुस्तफा ई	एडाथोले हाउस, पुलारसेरी पो0ओ0, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12231			
207835	किर्तनिया अरिदम	गणपती कीर्तनिया	गाव-बिरखानाथपुर, पो0ओ0-हटबाहीरगाची, जिला-नादिया 741501	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32681			
207836	कुमारी मनो चौधरी	श्री जय प्रकाश सिंह	सी1-13 मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद	बीएचएमएस	14.09.2011	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	24.09.2013	एच033318			
207837	कुमारी नीलम ज्योति निमेश	श्री सी.बी. निमेश	3सी एण्ड डी चदन नगर बोडला रोड, शाहगज, आगरा	बीएचएमएस	14.09.2011	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	03.10.2013	एच033351			
207838	कुमारी प्रीति चिकारा	विजेन्द्र सिंह	गाव/पो0ओ0 शेरपुर लुहारा, तहसील-बारौत, बाघपत	बीएचएमएस	14.09.2011	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	28.10.2014	एच034165			

207839	कुमारी श्रुति पुडीर	कवर पाल सिंह	हाउस न० 791/23 रामपुरी, मुजफ्फरनगर	बीएचएमएस	14.09.2011	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	01.06.2018	एच037115			
207840	कोले जोयदीप	अमल कोले	बेनेपारा हटखोला, पो०ओ०-चदननगर, जिला-हुगली 712136	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32473			
207841	कोमल	श्री महेन्द्र	ई-94/ए. कोडली (नियर काम्यूनिटी हॉल) दिल्ली-110096	बीएचएमएस	2019	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5669			
207842	कोनाइ देवावर्ता	निर्मल मोनाइ	मधुनिया, अमरकुडु, मुर्शिदाबाद 742136	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32488			
207843	कोनार सौमेन	सुधन्वा कोनार	बिधानपल्ली, पो०ओ०-श्री पल्ली, घोष पारा, बुर्दवान 713103	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	14.01.2020	32791			
207844	कौलथ कुन्नाथ	खदर के	कुनाथ (हाउस), रदाथनी पी०ओ०, किजाक्केपुरम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11027			
207845	क्रिजा केसवन	केसवन	कृपा निलायम, तारूर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11534			
207846	कृपा जॉर्ज	जॉर्ज सी.के.	विट्टिलापुली (हाउस), पैक्स गली, नेल्लोक्कुन्नु, ईस्ट फोर्ट पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	30.12.2017	12369			
207847	कृष्णा प्रदीप कुमार	सी.जी. प्रदीप कुमार	गोपालायम, नोर्थ थमारापराभु, हाउस न० 1/1152, फोर्ट कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11448			
207848	कृष्णा एस.	मोहन के.	गार्डन रोज, एस.आर.पी. मार्केट पी०ओ०, कारुणगापल्ली, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11115			
207849	कृष्णा सुनील	सुनीलकुमार	धोपिनन हाउस, कारामुक्क, कडारसन काडवू पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.04.2016	11262			
207850	कृष्णाप्रिया सी.आर.	राधाकृष्णन नायर सी.टी.	चमापाराम्पील (हाउस), पथमुट्टेम पी०ओ०, चगनाचेरी, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	31.01.2017	11710			
207851	कृष्णाप्रिया एम.	मुरलीधरन पी.	आनदाभावनम, ईस्ट काडुगाल्लूर, यू.सी. कॉलेज पी०ओ०, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12139			
207852	कृष्णाप्रिया पी.डी.	दिलीप पी.वी.	पारायिल हाउस (कार्तिका), टी.बी.जक्शन, अगमली, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	09.11.2018	12926			
207853	कृष्णेन्दु पी.	पी.एम. कृष्णन कुट्टी	पाल्लिपाराम्बील (हाउस), अशांकापुरम पी०ओ०, कोडिकुथुमाला नीलाथोपू, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12124			

207854	कुलकर्णी अजली प्रलहादराव	प्रलहादराव	8, शिवकृपा अपार्टमेंट, एस न०-120, प्लॉट न० 19/बी, मॉडर्न कॉलोनी, पौड रोड, कोथरूड, पुणे-411038	बीएचएमएस	1998	डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी	महाराष्ट्र	28.01.1999	28044			
207855	कुलश्रेष्ठ हर्षिता	श्री हेमंत के कुलश्रेष्ठ	68, गुरु नानक मार्ग, केवल पार्क आजादपुर, दिल्ली-110033	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	31.07.2020	बीएचएसडी/5684			
207856	कुलसुम कानोज	शहीद अली खान	गाव-बरबाहाला, पो०ओ०-कोलाघाट, जिला-पूर्वा मेदिनिपुर 721134	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32476			
207857	कुमार अभिषेक	अरुण कुमार सुमन	गुलमहिया चक, पो०ओ०-सबलपुर, पटना, बिहार-800009	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33705			
207858	कुमार अनिल	राघेश्याम प्रसाद	108/4, जी.टी. रोड, हावडा-711106	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	20.06.2019	32545			
207859	कुमार अरुण	जीवलाल यादव	गाव-मुरियल, पो०ओ०-बामवदेव, पु०स्टे०-बाराचट्टी, जिला-गया, बिहार-824201	बीएचएमएस	2018	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	09.08.2018	32772			
207860	कुमार आशुतोष	श्री कमलेश कुमार	सी-274, पुल पहलादपुर, बदरपुर बॉर्डर, नई दिल्ली-110044	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5770			
207861	कुमार ब्रजेश	योगेन्द्र साहनी	गाव-चक्रोटितोर, पो०ओ०-बगरानीजमात, पु०स्टे०-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843125	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33683			
207862	कुमार दया शंकर	किमोषण प्रसाद गुप्ता	गाव-महम्मदपुर, पो०ओ०-भोराहा, पु०स्टे०-पानापुर, जिला-सारन (छपरा) 841424	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	23.09.2020	33745			
207863	कुमार द्रगेश	श्री प्रीतम सिंह	भवानी पुर गड्डो, पोस्ट-औरगाबाद, तहसील-चादपुर, बिजनौर	बीएचएमएस	30.06.2012	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	20.06.2013	एच०३२६७७			
207864	कुमार गुजन	जय मंगल ठाकुर	ग्राम-रेन बिशुनी, पो०ओ०-रेन शंकर, पु०स्टे०-रुन्नी सैदपुर, जिला-सीतामढ़ी, बिहार-843328	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	22.09.2020	33714			
207865	कुमार नरेन्द्र	राजेन्द्र प्रसाद	कन्हाई नगर, 3 न० बस स्टैंड, कौशल्या निवास, नवादा, बिहार-805110	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33669			
207866	कुमार राम लखन	सुदामा कुमार	माफत मनिशा अधिकारी, 9/10, मडल पारा बिहारी मडल रोड, एस०ओ०-हालतु, कोलकाता-700078	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32759			
207867	कुमार रूपेश	प्रेम कुमार	एंट एण्ड पोस्ट-पारिहारा, पु०स्टे०-बाखरी, जिला-बेगुसराय, बिहार-851225	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	03.09.2019	33139			
207868	कुमार सतोष	शोभी रजक	सकुनत कलन, पो०ओ० व पु०स्टे०-बिहार शरीफ, नालदा, बिहार	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	03.09.2019	33142			

207869	कुमार सत्येन्द्र	रव मुखलाल प्रसाद	गाव-धूम नगर, कचहरी टोला, पो0ओ0-धूम नगर, पु0रटे0-नौटन, जिला-वेरत चम्पारण, बिहार-845438	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33668			
207870	कुमार शैलेन्द्र	श्री शिव पूजन राम	राज आई क्लीनिक बस स्टैण्ड के पास मोहनगर, आजमगढ़	बीएचएमएस	04.12.2012	गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, पंजाब	उत्तर प्रदेश	06.09.2013	एच033216			
207871	कुमार सुधीर	श्री भोला राम	जनता क्लीनिक, गैझा रोड, भानगेल, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	बीएचएमएस	14.09.2011	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	01.04.2013	एच032480			
207872	कुमार सुमित	श्री प्रेम सिंह	ई-23, हरीजन बस्ती, ब्लॉक-ई, कोडली दिल्ली-110096	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5754			
207873	कुमार सुनील	दयाराम	ग्राम-बासपुर, पोस्ट-अडनपुर, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223102	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	उत्तर प्रदेश	01.11.2019	एच038803			
207874	कुमार तनिसा	श्री हरि बल्लभ कुमार	ए-156, वेवरस कॉलोनी, अशोक विहार, पेरा-IV, दिल्ली-110052	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5769			
207875	कुमार दुन्ना	श्री नगेन्द्र शर्मा	एंट-अम्बिका नगर, लक्ष्मण चौक, मोतिहारी	बीएचएमएस	2018	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	23.07.2018	32715			
207876	कुमार विकास	भरत ठाकुर	गाव-सिरसा बल्लो, पो0ओ0-सराय बॉक्स, जिला-छपरा, बिहार-841311	बीएचएमएस	2015	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	04.02.2016	31852			
207877	कुमार विक्रम	उमेश कुमार सिंह	एंट-गोशनगर, पो0ओ0-हासना, पु0रटे0-गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843103	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	03.09.2019	33092			
207878	कुमारी अजली	अवध किशोर सिंह	बजरगपुरी, नहर रोड, गुलजारबाग, पटना	बीएचएमएस	2018	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	19.07.2018	32701			
207879	कुमारी भावना	अभय कुमार सिंह	गाव-गगौर, पोस्ट-ओलापुर गगौर, जिला-खगारिया, बिहार-851204	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	03.09.2019	33136			
207880	कुमारी बिन्नी	बालमिकी प्रसाद	मार्फत उमायेर अहमद, गाव व पो0ओ0-हरहरी, जिला-मुर्शिदाबाद 742226	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32574			
207881	कुमारी चिन्तामणी	कुलबश सिंह	गाव-जमोदी टोला, पी0एस0-नदावा, पी0एस0-नटवर, जिला-रोहतास, बिहार-802218	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	27.09.2019	33280			
207882	कुमारी निभा	श्री मुकेश कुमार	हाउस न0 139ए, कटवारिया सराई हॉस खास, दिल्ली-110016	बीएचएमएस	2012	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	04.08.2020	बीएचएसडी/5687			
207883	कुमारी निधी	राकेश प्रसाद श्रीवारतव	वीकर सेक्शन-1/7, यशोदा देवी पथ, लोहिया नगर, ककरबाग, पटना-800020	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	24.09.2019	33239			

207884	कुमारी रिकी	रव. दीनदयाल प्रसाद	मार्फत शैलेन्द्र कुमार, पासवान चौक, गांधी नगर, जेहनाबाद, बिहार-804408	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	07.08.2019	32954				
207885	कुमारी रिकु	श्याम सुंदर प्रसाद	ग्राम व पोस्ट-पाटीरा वेस्ट टोला मोतीहरी, जिला-ई चम्पारण, पु०स्टे०-मुफसिल मोतीहरी, बिहार-845401	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	22.09.2020	33712				
207886	कुमारी रोशनी	चंद्रमनी सिंह	वार्ड न०-5, मियान टोली, खुरूपुर, पटना, बिहार-803202	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	13.08.2019	32986				
207887	कुमारी रूबी	शाहगीर्द माझी	एट एण्ड पोस्ट-तरवारा, पु०स्टे०-जीबी नगर, जिला-सीवान, बिहार-841506	बीएचएमएस	2017	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	11.02.2017	32050				
207888	कुमारी रूची	लक्ष्मी शंकर	सुपुत्री लक्ष्मी शंकर, एट-न्यू लाल मेडिकल स्टोर, हाउस न०-62, न्यू डिलिया, डेहरी ऑन सोनो, जिला-रोहतास, बिहार-821307	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33704				
207889	कुमारी सविता	रव. सहदेव पंडित	साफीपुर खुरूपुर, पटना, बिहार-803202	बीएचएमएस	2018	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	13.07.2018	32686				
207890	कुमारी सगीता	श्याम सुंदर प्रसाद	गाव-पतीरा वेस्ट टोला मोतिहारी, ई-चम्पारण, पो०ओ०-पतीरा, पु०स्टे०-मुफसिल मोतिहारी, बिहार-845401	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	22.09.2020	33713				
207891	कुमुद लता	जगदीश चंद्र सिंहा	गाव-विश्वानाथपुर, पो०ओ०-एफनी, पु०स्टे०-काशीचाक, जिला-नवादा	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	07.08.2019	32936				
207892	कुडु नबानिता	रामप्रसाद कुडु	गाव व पो०ओ०-बदनगज, जिला-हुगली 712122	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32635				
207893	कुडु सार्थक	सुजित कुडु	नारायणपुर एनबीएसटीसी बस स्टैण्ड बालूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर 733101	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	13.05.2019	32536				
207894	कुरुविला सेबरेटियन	वीडी सेबरेटियन	वाजुथनापिल्लई (हाउस), थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12229				
207895	कुसुमाम सुसान मनी	मनी अब्राहम	धमारारसोरिल (हाउस), चनानिक्काडू, पो०ओ०, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11234				
207896	लाचू एस. मोहन	मोहनन डी.	चारुविला वीडू, एदामुलक्कल पो०ओ०, आचल, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11238				
207897	लैलाबी पूक्कूथ	अब्दुल करीम पी.	पूक्कूथ (हाउस), पूलापीसे, ओराकम, मेलमूरी पो०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	10.05.2017	11877				
207898	लक्ष्मी ए. मेनोन	अनिलकुमार मेनोन	लक्ष्मी, पीकेआरए-41, पावामकुलगांरा रोड, थेक्कुमभगम, जिला-एर्णाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11494				

207899	लक्ष्मी मुरलीधरन पेराथरा	मुरलीधरन पी.	पेराथरा हाउस, पारियापुरम पी0ओ0, तानूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13162				
207900	लक्ष्मी आर. नायर	पी.यू. राधाकृष्णन	लक्ष्मीका, इलायु नगर, पाल्लूरुथी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11046				
207901	लक्ष्मी राज पी.आर.	के.वी.राजू	इधीवरम (हाउस), कॉलमपाराम्बू लेन, एलामाक्कारा पी0ओ0, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11094				
207902	लक्ष्मी पी.	पी.के. प्रकाशन	चैथराम (हाउस), माराडु पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11207				
207903	लक्ष्मी प्रिया ई.एस.	सुरेश बाबू ई.ए.	इरुमाथुरुथी (हाउस), वेल्लागल्लूर पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	06.03.2017	11775				
207904	लक्ष्मीप्रिया टी.एम.	मणि टी.के.	थेक्केदथ कालारिककल (हाउस), प्लॉट नं0 38, केएसएचबी कॉलोनी, साउथ चलाक्कुडी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.01.2018	12405				
207905	लालछदमा डैनियल	एच. थघलिरा (एल)	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01, पी0ओ0-सैनथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	30.05.2019	32542				
207906	लालदिगपुइट्ट रूथी	वालाल्लियाना	मार्फत असित कुमार डे, कोशलया, खरगपुर, जिला-वेस्ट मिदनापुर 721301	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32748				
207907	लाली आर.	रवि राज	लालू निलायम, पालियोडू, कोट्टाक्कल पी0ओ0, नेयात्तिनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11184				
207908	ललिता	श्री सुल्तान सिंह	हाउस नंबर जी-22/229जीएफ, ब्लॉक-जी, पॉकेट-22, रोहिणी, सेक्टर-7, दिल्ली-110085	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	05.01.2021	बीएचएसडी/5804				
207909	लालथसगा	सी लालफाकजुयला	मार्फत चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01, पी0ओ0-सैनथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32621				
207910	लाम्मीसा के.सी.	चेक्कू के.सी.	कुरुवाचालिल हाउस, कोक्कालूर पी0ओ0, बालूसेरी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	12.10.2018	12914				
207911	लानुमेला	रेडिन्थी	हाउस नं0 98, लेनगरिजन दिमापुर नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2019	श्रीमता शकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस गुवाहाटी असम	नागालैण्ड	09.10.2019	123				
207912	लासिमा हैदराली ए. पी.	हैदराली	चोलाक्कल हाउस, पडाक्कलोप्पाराम्बू, थिरुवली, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.01.2018	12434				
207913	लशकर साफीक अहमद	लोआकत अली लशकर	ग्राम-अमराबेरिया, पी0ओ0-घारिलबाती, जिला-साउथ 24 परगनास 743329	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32462				
207914	लथा थोमस	थोमस टी.टी.	थेक्केथेरुविल हाउस, चोक्कड पी0ओ0, निलम्बूर रोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12238				

207915	लावया एस. पिकी	सनल कुमार डी. वी.	शिवामया मंदिरम, टी के.एम.सी. पी०ओ०, कारीकोड, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11975				
207916	लाया पी. सुरेन्द्रन	सुरेन्द्रन	पुधुप्पाराम्बोल (हाउस), मालायमपडी पी०ओ०, केलकम, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	20.07.2018	12621				
207917	लयामोल पी.एल.	लालापन पी.एम.	पुधेनपुराक्कल, काट्टूर पी०ओ०, ओमानापुजा, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13034				
207918	लायना बक्कर	अबूबक्कर	वालीयावीट्टिल (हाउस), काल्लूर पी०ओ०, वडाक्ककड (वाया), जिला-थिरपुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2017	12276				
207919	लीना ए.खदर	के के अब्दुल खदर	कुम्मालिल कुट्टीकट्टील हाउस, दारुसलाम, कोलामगलम, बालचेरी पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11193				
207920	लेखा एम.एस.	श्रीकुमार एम.ए.	प्रसाथ हाउस, इडाथारा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	20.07.2019	13211				
207921	लक्ष्मी बी.वी.	भसी के.	चेम्पाकाम, नेडुगोडु, कीजारूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.07.2016	11373				
207922	लक्ष्मी देव एम.	वी. विश्वादेव	विलायिल मगलम, चिट्टायम, इचाविला, पेरिनड पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.08.2017	12074				
207923	लक्ष्मी एल.	पी. श्रीकुमारन नायर	मेलें कालाथट्टु, पुधन वीडु, आचल, कुलावरम्बु, थाल्याल, अरालुम्मुडू पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13174				
207924	लक्ष्मी आर.	वासुकुट्टन पिल्लई टी.सी.	कमलालायम, थमाल्लक्कल पी०ओ०, हरीपद, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2016	11556				
207925	लक्ष्मी एस.	प्रदीप कुमार पी. एन.	लक्ष्मी निवास, चेरुरसेरी भगोम, चवारा पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12423				
207926	लक्ष्मी थयागराजन	थयागराजन वी.	चिंधिरा, थजाथु वडाक्कू पी०ओ०, पट्टाझी (नोर्थ), इनाथ (वाया), जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12593				
207927	लक्ष्मी प्रिया पी.	प्रसन्ना कुमार के. जी.	प्रसन्ना विलासम, कुट्टूर पी०ओ०, थिरुवत्ला, जिला-पाथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	17.06.2015	10860				
207928	लैमिज के. बक्कर	अबूबक्कर के.एम.	कारुथालिल हाउस, नानामुकू पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.04.2017	11833				
207929	लेवाकी लगरतग	श्री आर. लयगदोह	सोहकिमफोर ईस्ट जैनतिया हिल्स	बी.एच.एम. एस.	14.05.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मैघालय	07.07.2020	480				

207930	लिया सुसान अब्राहम	टी अब्राहम विद्यायन	ए 2, विद्या भवन अपार्टमेंट, मानायिलकुलगारा, थिरुमुल्लावरम पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2018	12778				
207931	लियानसगजुआली गेरी	एच. लालदावगलियाना	शताब्दी नगर (इस्माईल) नेताजोनगर, आसनसोल, हीरापुर, जिला-बुर्दवान 713301	बीएचएमएस	माच-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32445				
207932	लिबी मेरी के.बी.	बेनावथूरा के.जी.	कट्टीपराम्पोल (हाउस), वेलकन्नी भवन, पारुमाला पी0ओ0, मान्नार वाया, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11017				
207933	लिबिन जोब	वी.जोब	11/169 ए(ओल्ड)/11/317 (न्यू), थुडियिल, चौरचिरा पी0ओ0, चगनाचेरी, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2018	12515				
207934	लिबिना सुगथान	सुगथान डी.	रोज विला, पुथुपाराम्बील पाडी, वाजमुट्टोम ईस्ट पी0ओ0, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11290				
207935	लियादिया मैरी जोश	जोशी थोमस वी.	वाथल्लूर हाउस, कुरुविलारसरी पी0ओ0, माला, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	31.01.2016	11052				
207936	लियादिया मर्लिनरोज एस.आर.	स्टैलसिगरोज जे. आर.	रोज हट, अनाक्काराकोनम, उरीयाकोड पी0ओ0, वेल्लानाड (वाया), जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12353				
207937	लियादिया टी.ए.	अबूबकर टी.पी.	धजथ हाउस, मानाथला, चवाक्कड पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.08.2017	12113				
207938	लिजी सी.ओ.	ओराफ सी.टी.	सेंट एन कॉन्वेंट, मुनामबम, पाल्लोपॉट पी0ओ0, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12899				
207939	लिजिन एल.आर.	लेनिन जी.	लेनिन भवन, मुरुनथल-बी, पेरिनाडू पी0ओ0, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	05.08.2017	12099				
207940	लिजिना पी.बी.	बालन टी.	लिजिना निवास, पाराप्पोइल, माट्टानूर पी0ओ0, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12747				
207941	लिनिया टी.बी.	बीरू बी.	धोप्पुकाडाविल (हाउस), नूचिमनड पी0ओ0, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	02.05.2016	11265				
207942	लिटू अब्राहम	अब्राहम पी.टी.	पुथुपाराम्बील, मानोमारुथुम्वल, नेरियामगलम पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	06.01.2018	12400				
207943	लिटू रानी स्कारिया	स्कारिया जॉर्ज	पुलिककाकुन्नेल (हाउस), माट्टुथावालम पी0ओ0, माट्टुथावालम, उप्पुथारा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.07.2019	13205				
207944	लौनू विलसन	विलसन के.टी.	कानानथनाथु (हाउस), पल्लोक्कुथु पी0ओ0, चुगाथारा, जिला-मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12687				

207945	तिरैथुग. बी खुवुग	वाई बिचमू खुवुग	हाउस न० 90 साकिटोन गाव बोखा, नागालैण्ड 797111	बीएचएमएस	2013	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	10.05.2018	105				
207946	लिया ई.एम.	प्रकारान ई.एम.	एलामना माराकदथ (हाउस), पथीरकावे पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11197				
207947	लोरेनेनी जेड जुगियो	जाबेथुग जुगियो	पोस्ट बॉक्स 80 एन.एस.टी कॉलोनी बोखा 797111 नागालैण्ड	बीएचएमएस	2013	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	13.11.2018	111				
207948	लोरेनी सी इजुग	चिचामो इजुग	हाउस न० 52 वुगोजू बोखा नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	01.05.2019	117				
207949	लवली	श्री राजेश कुमार	सी-122, समता एन्क्लेव, कुतुब विहार फेज-1, नई दिल्ली-110071	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	10.09.2020	बीएचएसडी/5779				
207950	लोवना एस.पी.	एस.आर. प्रेमा कुमार	वारुविलाकाथु पुथन वीडू, पुथनकुनम काट्टचलकुझी पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	15.04.2016	11225				
207951	लुलु एलिजाबेथ	टी.टी. फिलिप	थदाथिल (हाउस), कोट्टामाला पी०ओ०, नारक्किलाक्कड, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12233				
207952	लुलु कादीजा	अब्दुल कदर पी.	पडारथी हाउस, मानाथला, चवाक्कड पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.08.2016	11443				
207953	एम. अक्किलासूया	टी. मरियासुराई	555, मल्लिका अर्जुनम नगर, अरियाकुडी मैन रोड अरियाकुडी, कारैक्कुडी-सिवागगा, जिला-तमिलनाडु 630202	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	10.07.2018	6104				
207954	एम. गनाना प्रकाशम	मुथुकामू	मगत बिल्डिंग, बिल्डिंग न० 525, वार्ड-05, एस.पुरम, कुरिची गाव, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2006	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	07.03.2019	13066				
207955	माहेला रानिया पी.	मोइदोन कुडी पी.	पूक्कोदन हाउस, वाल्लुवाम्बराम पी०ओ०, जिला-मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12119				
207956	मानसी कृष्णाराज	राधाकृष्णन ए.के.	अराक्कल (हाउस), पौथनिकड, पौथनिकड पी०ओ०, कोथमगलम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.12.2017	12360				
207957	माबी जेम्स	जेम्स सी.बी.	होली ट्रिनिटी कोवेट, कोलाजी पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.07.2015	10871				
207958	माधुरी	श्री लाल बाबू प्रसाद	हाउस न० 128 बी, गली न० 7, डीसीएम कॉलोनी इब्राहिमपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-36	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5664				
207959	माधुरी मोहन	आई. मोहनाकुमार	मोहनम, हाउस न० 160, पेल्लेस नगर, थेवल्ली पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10847				

207960	महापात्रा शिल्पी	बरीद बरन महापात्रा	गाव-भगवानपुर, पो0ओ0-मगतामारो, जिला-पूर्वा मेदिनीपुर 721434	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32507				
207961	महारबन के.एम.	हायड्रेस मारटर	काक्कामूलाक्कल हाउस, पेरिम्बालम पी0ओ0, मुडुपरम्बा वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.10.2016	11550				
207962	महाता देवाशीष	विरिन महाता	गाव-नेघाटा, पो0ओ0-झारग्राम, जिला-झारग्राम 721507	बीएचएमएस	माच-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32482				
207963	महाता सौरव	सरत माहता	गाव व पो0ओ0-मणिकपारा, पु0स्टे0 व जिला-झारग्राम 721513	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32749				
207964	महेश मेनोन एन.टी.	गिरीश के.पी.	नदनम, कार्मेल स्कूल के पीछे, काल्दीम्पाडन, शोरानूर, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2019	13288				
207965	महेश पी.डी.	दिनेशन पी.डी.	पुन्नानिलकुन्नाथिल (हाउस), गुरुनाथनमन्नु पी0ओ0, मुदनपारा, सीथथोडे, जिला-पथनमथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12619				
207966	माहफूज हरसन के. वी.	जुबैर सी.पी.एम.	इम्बूस, 26/365, कुन्नीकोट्टू पाराम्बा, काल्लाई पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.08.2017	12076				
207967	माहिदा फरहाना ए.	अब्दुल जावद	वाद्यरसालम (हाउस), अजिकोड पी0ओ0, नेडुमगडू, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	29.11.2016	11611				
207968	महिमा सुरान जोशफ	जोशफ मैथ्यू	काबिथा, चेन्नैरकारा पी0ओ0, जिला-पाथनामथिल्ला, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2015	10928				
207969	माहजबीन पी.पी.	अब्दुल रहमान पी. पी.	वाप्पन कुलगारा पुरायिल (हाउस), चलिपाराम्बा, चेतम्बरा, पुल्लिपाराम्बा पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.11.2017	12300				
207970	माहौर प्रतिभा	श्री सुरेश चद्र माहौर	144, टाईप-III, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैट्स, कडकडडूमा, दिल्ली-92	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5753				
207971	माहरूफा के.एम.	अब्दुल करीम के. एम.	किलीयामान्नील हाउस, पाराक्कल, वाडाक्केमान्ना, कोडुर पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.12.2018	12988				
207972	माहशीना के.	अबू सी.	क्युडियिल (हाउस), मनिपुरम पी0ओ0, कोडुवल्ली, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	05.04.2016	11208				
207973	मैमूना जी के.	मोहम्मद सूसफ	अम्दाफ घर (हाउस), ईस्ट कादिरूर पी0ओ0, कादिरूर, थलारसीरी, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12236				
207974	मैती बिष्णु प्रसाद	हरीपद मैती	गाव-बरदाई, पो0ओ0-उपारजगतपुर, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर 721424	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32739				

207975	मैती त्रीषा	मैती सुवराता	गाव-शातिपुर, पो0ओ0-मेचदा, जिला-पूर्वा मेदिनीपुर 721137	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32485				
207976	मैती अनिमेश	अनिल मैती	गाव व पो0ओ0-केशियापाटा, जिला-वेस्ट मिदनापोर 721135	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32683				
207977	मैती निताइ चाद	कानाई लाल मैती	गाव-तालदा, पो0ओ0-चदकुरी, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर 721467	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.12.2019	32785				
207978	मैती रितुपर्णा	चदन मैती	गाव व पो0ओ0-खजुट्टी हावडा 711303	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32610				
207979	मैती सौम्या काता	सितिकथ मैती	गाव व पो0ओ0-बासूदेबेरिया, जिला-पूर्व मेदिनीपुर 721444	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32666				
207980	माजी सोमा	युनील माजी	गाव व पो0ओ0-फतेपुर, जिला-साउथ 24 परगनास 743513	बीएचएमएस	दिसम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	26.12.2019	32789				
207981	माजीदा बाथूल पी.	अब्दुल खदर पी.	पारायन कुजियिल (हाउस), काडुगापुरम पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12665				
207982	मजीदा ई	अब्दुल रजाक ई	मुसलियार काडी हाउस, बारापारा, पाराम्बोल पीडिका पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13033				
207983	मजुमदार शताब्दी	युशाता कुमार मजुमदार	गाव-राघवपुर, पो0ओ0-पपारा, जिला-नादिया 741402	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32630				
207984	मजुमदार दिव्या	सजीब मजुमदार	मार्फत कमल चक्रवर्ती, पार्ट न0 202, पानीहटी, नोर्थ 24 परगनास 700110	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32704				
207985	माजुमदार नबादिपा	समरजित माजुमदार	मार्फत अमरेश दत्ता, रामचद्रपुर, पानिहटी, सोदेपुर, नोर्थ 24 परगनास 700110	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32750				
207986	मजूमदार पूजा	तपन कान्ती मजूमदार	मार्फत चित्रा चट्टर्जी, ग्राम-लातुर 01 पो0ओ0-सैनथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32450				
207987	मालाकर पूर्वा	श्री पी.के. मालाकार	हाउस न0 ए-123, कुम्हार बस्ती, गॉव घरोली, दिल्ली-110096	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5715				
207988	मलीहा महमूद के.	महमूद अहमद	कूमाचेरी (हाउस), तिरुवनतपुरम पी0ओ0, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11621				
207989	मल्होत्रा साक्षी	श्री रमेश मल्होत्रा	15/105, गीता कॉलोनी, दिल्ली-31	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5719				

207990	मलिक शिवम	श्री ओम सिंह मलिक	ए-47, 48, जी.डी. कॉलोनी, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली-110096	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5712			
207991	मल्लिक गौरव	समीर कुमार मल्लिक	ब्रोजरग्राम सूरी, बाराबगान पचेरपल्ली, बीरभूम 731103	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32491			
207992	मालू प्रदीप	प्रदीप ई.टी.	इरुमाथारायिल (हाउस), इलाप्पारा पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12834			
207993	मानसी सी	विजयाकुमार सी.	चक्काचट्टील (हाउस), अथावनाड पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.01.2018	12413			
207994	मनाजिला पी.के.	मोइदीन कुट्टी पी.के.	पूलकदियिल हाउस, कारथुर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.02.2018	12476			
207995	मडल अनन्या	दीप्ती बिकाश मडल	गाव व पी०ओ०-पूर्व दक्षिण मोयना, पूर्व मेदिनीपुर 721629	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32698			
207996	मडल बिरेन्द्र कुमार	रव. अमीलाल मडल	गाव व पी०ओ०-बेलाही, पु०स्टे०-लाडनिया, जिला-मधुबनी, बिहार-847227	बीएचएमएस	2017	विनाबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	बिहार	01.10.2020	33871			
207997	मडल चितरजन	श्री भुधर मडल	हाउस नंबर-540, पार्केट-बी 2, जे.जे. कॉलोनी, मदन पुर, खादर नई दिल्ली-110076	बीएचएमएस	2018	भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार	दिल्ली	10.02.2021	बीएचएसडी/5809			
207998	मडल देवर्षी	सुनील कुमार मडल	अराबिदा नगर, गोरखारा, सोनारपुर, कोलकाता-700150	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32508			
207999	मडल मोरामी	बिकाश कुमार मडल	कल्याणी सिमता, वार्ड नं० 5, पी०ओ० व पु०स्टे०-कल्याणी, जिला-नादिया 741235	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32613			
208000	मडल पार्थ प्रतिम	प्रशाता कुमार मडल	पूर्वा बकिमपल्ली, मध्यम ग्राम-22, बरसात नोर्थ 24 परगनास 700129	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32654			
208001	मडल पार्थ प्रतीम	प्रशात कुमार मडल	पूर्वा बकिमपल्ली, मध्यमग्राम-22, बरसात, नोर्थ 24 परगनास 700129	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32654			
208002	मडल सुनिता	सतोष कुमार मडल	गाव व पी०ओ०-मानमाथनगर, साउथ 24 परगनास 743370	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32717			
208003	मनीषा जी	गुरुवायूराप्पन ए.	फ्लैट नं० क्वार्टर नं० 2/3, काप दूसरा बीएन, मुट्टीकुलगारा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.10.2016	11544			
208004	मनीषा सुदन पी.डी.	प्रेमासुदरन टी.	भ्रिकारथिका हाउस, अम्बालापडो, वडोर पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.12.2018	12974			

208005	मगला एस. मेनोन	पीएन शकरा मेनोन	अम्मा, धक्केमुदावाक्काट्टिल, कजीरामपल्लम रोड, अयानथोले पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.11.2018	12949			
208006	मगोत्र प्रियका	श्री मुल्क राज मगोत्रा	41ए, जी-ब्लॉक, गली नंबर-1, सोम बाजार रोड, राजा पुरी, नई दिल्ली-110059	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5766			
208007	मनीषा	श्री श्याम सुंदर	ए-44, बापु पार्क, कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली-110003	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5734			
208008	मनीषा	श्री महिपाल सिंह	107, सेक्टर-5, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5737			
208009	मजीमा ए.वी.	विजयन ए.एम.	मजीथ विहार, पुनाकुलागारा, कानूल पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10846			
208010	मजु मैथ्यू	के.यू. मथाई	कालाथुकल हाउस, कानीचर पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10843			
208011	मजुशा ए.	वेलायूधन एस.	मनोज भवन, केलेरवरम, कल्लोयूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11520			
208012	मजुशा एम.	मनोहरन एम.	मेलोपुराक्कादन काडी (एच), नेल्लोकोडे पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.12.2015	10975			
208013	मजुशा एस. मोहन	जे. मोहनन	धिरुवाथिरा, पारवाथीपुरम ग्रामाम, अत्तिगल पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11646			
208014	मन्ना तृशा	तपन मन्ना	31, सुकाता पार्क, पी०ओ०-आई.एस.आई, नोर्थ 24 परगनासा 700108	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32612			
208015	मानसो	श्री नुपेद्र भार्गव	कै-435 ए, स्ट्रीट नं० 12, महिपालपुर नई दिल्ली-110037	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5711			
208016	मसूर अली के.के.	अबूबक्कर के.के.	ओत्तार्थेगिल, ए.आर. नगर पी०ओ०, चेदापुराया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11288			
208017	मनु चंद्रन के.सी.	चंद्रन	कन्नानथारा हाउस, चेरानेल्लोर पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.02.2017	11752			
208018	मनु नारायणन एम.	मुरलीधरन एम.	मूथेदथ माना, मत्ताराक्कल पी०ओ०, थजेकोड वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11347			
208019	मनुजा मोहन	मोहनन टी.एन.	थाकिदियिल हाउस, अनिक्कड ईस्ट पी०ओ०, जिला कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10799			
208020	मार्गरेट मैरी जोश	जोश ए.पी.	अटोकरन हाउस, मारुदीशो रोड, कुरियाचिरा पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11139			

208021	मारिया जॉनसन	जॉनसन के पॉलोस	कुरिसुकल हाउस, फेक्टरी रोड, टेलीफोन एक्सचेंज, नॉर्थ कालामारसेरी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12732				
208022	मारिया बेनी	बेनी वी.वी.	वानीयामकाडू (हाउस), मानमथुरुथ, वारापुजा पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12714				
208023	मारिया के.आर.	राजू जोशफ	कावुगल वीडू, काल्लमूला, माम्बात्तुमूला पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11637				
208024	मारियम हमजा	हमजा पी.के.	नेडुमपाराम्बील हाउस, पालायूर, चवक्कड पी०ओ०, जिला-थिरपुर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.08.2016	11427				
208025	मारियम सना साहीर	सी के. मोहम्मद साहीर	काराकूट्टाथिल (हाउस), पेरुमपादापुर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2017	11786				
208026	मारियम जैनाब	पी.के. अशरफ	पाल्लीवीट्टिल (हाउस), मुडाक्कायम पी०ओ०, मुडाक्कायम, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.04.2016	11230				
208027	मारजाना एम.	एम. मोहम्मद रफी	दाहलिया (हाउस), 22nd मिल्स, मुल्लामपारा रोड, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.12.2017	12328				
208028	मारसीना अहमद	अहमद के पी.	शाहेरजाद हाउस, मॉकरी पी०ओ०, काक्कात्तिल (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	02.07.2015	10865				
208029	मारुफा मुबारसीरा	नवाब अली मोल्ला	गाव-साउथ बामुनिया, पी०ओ०-बी-चलताबरिया, जिला-साउथ 24 परगनास 743502	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32737				
208030	मैरी प्रिंसी पॉल	पॉल ए.जे.	अराट्टाकुलगारा हाउस, काट्टोर पी०ओ०, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12344				
208031	मैरी स्नेहा पी.आर.	पी.जे. राफल	पुथमपराम्बील हाउस, वारू वावयार रोड, मूलमकुझी, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.05.2017	11863				
208032	मरयम वजीहा	मोहम्मद अब्दुल मन्नान	सी-35, अबुल फजल एन्क्लेव, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-25	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5776				
208033	मशिदा के.	मोड्डुन्नी के.	कोजिककल (हाउस), कोजिचेना, वालाकुलम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	16.02.2016	11072				
208034	मैथ्यू जैकब	जैकब	कादुगामपराम्बील (हाउस), चेरियाकादवू, कान्नामली पी०ओ०, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.12.2016	11641				
208035	मौर्य सजय	श्री राजिंदर मौर्य	आर-838, रघुबीर नगर, नई दिल्ली-27	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5752				

208036	माया देवी एम.	मोहनन	मानू मादिराम, किदनायाम, कानीमेल, नोर्थ मयनागपल्ली पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2016	11552				
208037	माया गोकुलन	गोकुलन दामोदरन	माया, वेगारा पी०ओ०, पजायगडी, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2018	12633				
208038	माया पी.	पुष्पानगधन डी.	कालिका, कूनायिल, पारावूर पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13056				
208039	मो० शब्बीर अख्तर	मो० शामिम अख्तर	मोहल्ला—खलासी, पो०ओ०—पु०स्टे०—झाझा, जिला—जामुई, बिहार—811308	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33694				
208040	मेबनपयटन्नेन रानी	श्री एच.एफ. खोगसीट	पोहक्तेह नॉनथिम्माइ, शिलॉंग	बी.एच.एम. एस.	01.05.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	10.08.2020	482				
208041	मेबषिन्ना लयग्दोह मावलोग	श्री डब्ल्यू. लिंगदोह नॉन्गारग	मैरान्ग मिशन, वेस्ट खासी हिल्स	बी.एच.एम. एस.	22.10.2020	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कोलकाता	मेघालय	25.02.2021	507				
208042	मेदा रूद्र प्रसाद	भवानी प्रसाद मेदा	242/ए. एन.एस रोड, मल्लिकबगान, पो०ओ०—शेराफुली, जिला—हुगली 712223	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32678				
208043	मेधा एस.	सनलकुमार एन.	मालायुडे किजाक्केथिल, एलावुमथिट्टा पी०ओ०, जिला—पाथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11926				
208044	मीणा अलका	श्री राहिताश मीणा	490, फ्लैट नं० श्री आवास अपार्टमेंट, सैक्टर—18 बी, द्वारका नई दिल्ली—110078	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5746				
208045	मीणा अर्चना	जी.एस. मीणा	ए—302, डीडीए फ्लैट्स, ब्लॉक ए, टॉवर हाई अपार्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली—34	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	26.09.2019	बीएचएसडी/5594				
208046	मीणा गुलाब सिंह	जगदीश चंद्र मीणा	401, व्यक्तेश विहार, छोटा बागडदा, जिला—इंदौर, मध्य प्रदेश—452005	बीएचएमएस	2019	देवी अहिंसा यूनिवर्सिटी, इन्दौर	मध्य प्रदेश	10.10.2019	24947				
208047	मीनू मारिया मैथ्यू	पी.डी. मैथ्यू	पुथुरसेरी हाउस, कोथकुलगरा, नाराकल पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2018	12780				
208048	मीनू एन.बी.	बाबू एन.के.	नालियत हाउस, पनागड पी०ओ०, कोदुगल्लूर, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10800				
208049	मीनूकृष्णा एस.	टी. कृष्णाकुमार	कुनाथु मेले वीडू, बालियाकट्टाक्कल, वेनजारामुडू, पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.06.2018	12540				
208050	मीनूमाल वी.एम.	मोहनन वी.एन.	वेनोथाकिडियिल हाउस, मानीड पी०ओ०, पिरावोम, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13137				

208051	मीरा गोपी	गोपी वी.एन.	वात्पुरायिदाथिल, कोल्लाकादावु पी0ओ0, कोल्लाकादावु, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.08.2016	11406				
208052	मीरा के.के.	कृष्णन के.के.	काक्कात्तिल (हाउस), वादायम्पडो पी0ओ0, पुधेनकूज वाया, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11356				
208053	मीरा मोहन	एम.एस.एम. मोहन	केसावीयम, हरीपद पी0ओ0, काथिकापल्ली तालुक, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10936				
208054	मीरा रेघु	रेघु रमन	बोधी, कारुवल्लीकुन्नु, मूलकावु पी0ओ0, सुलतान बाधेरी, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13405				
208055	मीरा ससीद्रन	ससीद्रन के.	वाडाकेपुराक्कल, पुल्लनगडी पी0ओ0, चम्बाकुलम, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12150				
208056	मेघा जोषाफ	जोषाफ पी.एफ.	पारेक्काट्टिल हाउस, कोट्टापुम पी0ओ0, कोडुनगाल्लूर, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13037				
208057	मेघा के.ए.	अजया घोष के. वी.	कून्थ हाउस, नान्नामुक्कू पी0ओ0, चगारामकुलम, जिला-मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12674				
208058	मेघा धम्पी	धम्पी वी.एम.	पादथ हाउस, कडानाड पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12539				
208059	मेघा थैरेस बी.	बेजमिन	उल्लाट्टिल (हाउस), नेयास्सेरी पी0ओ0, कारोमानूर, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	06.12.2017	12326				
208060	मेहिथ वी.	ए.के. मुकुदम नायर	श्रीकृष्ण मंदिर (हाउस), चौलाडे पी0ओ0, जिला-मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10786				
208061	महमूद इफात	श्री महमूद हुसैन	हाउस नंबर 501 ब्लॉक डी जहागीर पुरी दिल्ली-110033	बीएचएमएस	2018	भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार	दिल्ली	05.03.2021	बीएचएसडी/5817				
208062	मेहता अवनी	श्री अनिल कुमार मेहता	ब्लॉक एमयू हाउस नं० 20-बी, एलआईजी फ्लैट्स पीतमपुरा, दिल्ली-110034	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5721				
208063	मेहता रचना जगदीप	जगदीप वी. मेहता	महिमा, रटार होम्स, एलाइड कॉलेज रोड, मानिस्सेरी, ओट्टापालम, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2004	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	केरल	06.05.2019	13109				
208064	मेकारू पारसाह	श्री आर. मुई पाकमा	पनालियार, जोवाई वेस्ट जेनतिया हिल्स	बीएच.एम. एस.	07.05.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मंगलालय	03.08.2020	481				
208065	मेलजू अब्राहम	अब्राहम माइकल	पूवाथनिककल हाउस, पूजर पी0ओ0, पानायिपारा, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12541				

208066	मेरिन एलेक्स	एलेक्स मैथ्यू	कथापल्लिल हाउस, अयरूर नोर्थ पी०ओ०, जिला-पथानामथिद्रा, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11128				
208067	मेरलीना जूलियट एम.	माइकल के.एस.	गीथम (हाउस), चल्म्पाटिल पाराम्बा, मारीकन्नू पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.08.2016	11401				
208068	मेलीमोल एटोनी	एटोनी	सजोस प्रोविशियल हाउस, नैल्लिककमपोइल, उल्लिककल पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12162				
208069	मेरित्ता जाचारिया	जाचारिया पी. पॉल	पल्लिककल हाउस, नाजरेथ नगर, एन.एन. 314, अगामाली, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11939				
208070	मेसेटशो-यू वेदश	नितसौलू वेदश	गाव-कामी पफुतसेरो फेक नागालैण्ड 797108	बीएचएमएस	2017	श्रीमता शंकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस गुवाहाटी असम	नागालैण्ड	07.03.2018	104				
208071	मिद्या रामजन अली	रफिक मिद्या	गाव व पी०ओ०-लोहाती, वाया-राजारहत, नोर्थ 24 परगनास 700135	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	14.01.2020	32792				
208072	मिथिला एम.सी	सकरन एम.सी	मूचिककाचलिल हाउस, चेरुमुत्तेम, वालियापराम्बा पी०ओ०, पुलिककल वाया, जिला-मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	21.03.2016	11161				
208073	मिधु इट्टियाचेन के.	इत्तियाचेन किनाटिगल	किनाट्टीनगल हाउस, कैज्ज, पट्टालाकिनार रोड, चियाराम पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	25.10.2017	12283				
208074	मिधु मैथ्यू	मैथ्यू वी.टी	वक्कापाराम्बोल (हाउस), मानथावाडी पी०ओ०, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11096				
208075	मिधु शाशिकुमार	शाशिकुमार पी. एस.	राधा निवास, वालारा पी०ओ०, आदिमाली, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.04.2017	11832				
208076	मिधुन जोश	जोश के.पी	कोनाट्टू हाउस, थोक्कूपास पी०ओ०, कुजोधनी, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12686				
208077	मिधुन माधवन	माधवन	पुलिककाक्कुन्नेल (हाउस), वानापपुरम पी०ओ०, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	16.11.2015	10958				
208078	मिधुन मोहन के.एम.	मोहनदास के.पी	किजाक्केपालाक्कथ (एच), कोनाथुकुन्नू पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11003				
208079	मिधुना टी.एस.	एस थिलाकाकुमार	गोकुलम, मामूडू, चदनाथोपे पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11968				
208080	मिलीमोल मारिया पुनूसै	पुनूसै सी.जे.	चलियाचन हाउस, 24 / 1056, वट्टामाक्कल, मुदामवली पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12799				

208081	मिन मैरी जोश	जोश वर्धस	थचिल (हाउस), ईस्ट चर्च के पास, एसीएन तीसरी गली, अगामली, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11078			
208082	मिनी शदाप	(स्व.) श्री जे. लामुरोन्ना	मूखैन, ईस्ट जैनतिया हिल्स	बीएचएम. एस.	27.04.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	11.01.2021	497			
208083	मिशा मोहन	एन. मोहनन	मिशा निवास हाउस, अम्बालाचल, कानीयामबेट्टा पी०ओ०, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12967			
208084	मिसी थसनीम एन. पी.	मोहम्मद अली एन. पी.	उम्माथास, वी.के. हाउस, मूडुविगल, चेट्टीपडी पी०ओ०, पाराप्पानागडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2017	11788			
208085	मीनू जयाराज	जयाराज सी.बी.	मिनुविका, पी.आर.आर.ए-52, एस.एन. नायर लेन, पोनोथ रोड, कालूर, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11283			
208086	मीनू मोल थोप्पिल	टी.पी. उन्नीकृष्णन	थोप्पिल हाउस, यूनिटी रोड, एलथूरूथ पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11129			
208087	मिनु पॉल	पोली के.पी.	कालापारम्बिल हाउस, सजू नगर, किफरा पार्क पी०ओ०, मुरिगुर वाडाक्कुमुरी, कोराट्टी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10901			
208088	मीनू सेबरेटयन	बी.एस. सेबरेटयन	थनिकामाट्टाथिल (हाउस), सकारामपडी पी०ओ०, पाडुप्पु, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.10.2018	12905			
208089	मीर उमर अहमद	मीर जुब्दातुल अरिफिन	गाव व पी०ओ०-हरहरी, पु०स्टे०-सागरदिघी, जिला-मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल-742226	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32644			
208090	मिशना लथीफ	एम. अब्दुल लथीफ	मूडम्बैल हाउस, थेक्कील पी०ओ०, चंगला, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	12.01.2018	12441			
208091	मिर्जा सददाम	मगलू मिर्जा	गाव व पी०ओ०-मालीग्राम, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर 721140	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32577			
208092	मिश्रा छावी	श्री चित्रा घर मिश्रा	जनता फ्लैट्स हाउस न० 10, ग्रुप-1 हारतसाल, उत्तम नगर- नई दिल्ली-59	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	31.07.2020	बीएचएसडी/5683			
208093	मिश्रा ललित मोहन	श्री पूरन मल मिश्रा	43/478/96-97, राधा नगर कॉलोनी सिकद्रा, आगरा	बीएचएमएस	08.09.2011	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	03.10.2013	एच033353			
208094	मिश्रा प्रमोद कुमार	दयाशकर मिश्रा	बाकेरगज, लाहौरिया सराय, दरभंगा	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	18.10.2019	33365			
208095	मिश्रा प्रतिमा	अर्जुन प्रसाद मिश्रा	14/569, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016	बीएचएमएस	2019	बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल	उत्तर प्रदेश	05.03.2020	एच-039004			

208096	मिश्रा रूबी	शिव चद्र मिश्रा	गाव व पो०ओ०-माल्या, जिला-साउथ 24 परगनास 743399	बीएचएमएस	नवम्बर-2012	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	वेस्ट बंगाल	20.06.2019	32547			
208097	मिश्रा शाता	श्री विवेकानन्द मिश्रा	आर.जेड-105, नेहरू गार्डन कॉलोनी, न्यू रोशन पुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043	बीएचएमएस	2019	डॉ० बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	17.08.2020	बीएचएसडी/5698			
208098	मिश्रा उत्तम	कनन मिश्रा	गाव-सौलन पो०ओ०-हटसरबेरिया, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर 721146	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32592			
208099	मिसिरिया ओ पी	हरसैनार ओ पी	ओडुपारायिल (एच), अनायूर पो०ओ०, पात्ताम्बी वाया, जिला-पालाक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10951			
208100	मिसना लिनार्द सी पी	सी पी. मोहम्मद	चेरुवाथु पोयिल (हाउस), उन्नीकुलम पो०ओ०, पूनूर, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12201			
208101	मिथा एटोनी	एटोनी के के	कालापरागम्बथ (हाउस), पूवाथुरसेरी पो०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12017			
208102	मिथुना के वी	मोहनदास ई पी	26/256-7ए, कोविल वीट्टिल के पास, कोम्मरी पो०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.07.2017	11912			
208103	मित्तल मनवी	श्री मदन मित्तल	ए-2/67 ए, ब्लॉक ए2, केशव पुरम दिल्ली-110035	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5717			
208104	मित्तू बीएस	भासी एन.	अनाकुझी कोड हाउस, वेल्लाराडा पो०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12394			
208105	मोएरेनला	नोकलेनुगासग	एच. नं.- 505 मोगसन उगमा बी-खेल मोकोकचुग 798601	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	21.02.2018	101			
208106	मोहम्मद रमीस साबू सी के	मोहम्मद हनीफा सी के	चेलाकोदन (हाउस), अगडीपुरम पो०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.04.2016	11232			
208107	मो० अलतमस रईस	मो० रईस	नागुनो चाक शॉप के पास, हाउस नं० 1559/40/ए, बदे नवाज़ नगर, यादव नगर के पास, नागपुर, महाराष्ट्र-440026	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	12.10.2019	33319			
208108	मोहम्मद फरील के	उम्रेर के	कारुप्पम वीटिल, काराप्योयिल, मरिक्कुन्नु पो०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.03.2017	11805			
208109	मोहम्मद इरशाद	अब्दुल मजीद	दारुल हुजा, नजाट्टारा जकशन, पाराम्बी मुक्कु के पास, वाडाक्कुमथाला ईस्ट पो०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.08.2019	13357			
208110	मोहम्मद इशाद पी	यूसफ पी	पापत वालाप्योल (हाउस), काचिनीक्कड, माक्कारापराम्बा पो०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12392			

208111	मोहम्मद नबील के. टी.	मोइदीनकोया के. टी.	हाउस नं० 9/136, हफसान हाउस, कुथुकाल्लू रोड, माथोड्टम, अराक्कीनार पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.09.2018	12827				
208112	मोहम्मद राजेब एम.	मोहम्मद बजुशा	पारुथी धोप्पू पुथेन वीडू, बालारामपुरम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13175				
208113	मोहम्मद शफीक एम. एम.	मोहम्मद एम.एम.	मुल्लानमडक्कल हाउस, कारकौदम कुन्नू पी०ओ०, अलानाल्लूर वाया, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12691				
208114	मोहता अदितो	बुद्धादेब मोहता	तेहाट्टा—नाडिया, पी०ओ०—तेहाट्टा, जिला—नाडिया 741160	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32688				
208115	मोहिला तशनीम	मो० अकबर अली मोल्ला	गाव—लौगची, पी०ओ०—घोषपुर, जिला—नोर्थ 24 परगनास 743502	बीएचएमएस	मार्च—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32496				
208116	मोहिधा पी राज	सी राजन	सूरज होम्स, व्यापारी भवन रोड, थिरुविलवामाला पी०ओ०, जिला—थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11074				
208117	मोल्ला जुथिका	बहारूल अमीन मोल्ला	गाव—कोलिया, पी०ओ०—नाबाग्राम सिकिपुर, जिला—हावडा 711315	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32661				
208118	मडल अमित कुमार	सुनील कुमार मडल	गाव—गोत्रा, पी०ओ०—घेतूगाची, जिला—नाडिया 741222	बीएचएमएस	मार्च—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	27.09.2019	32554				
208119	मडल आशाबुल	पीरबोक्स मडल	गाव—गौलदगा, पी०ओ०—कल्याणदाहा, जिला—नादिया 741123	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32650				
208120	मडल बिबेक	कालू मडल	गाव व पी०ओ०—सुतिया, जिला—नादिया 741103	बीएचएमएस	नवम्बर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32773				
208121	मडल विधिल कुमार	गनानेन्द्र नाथ मडल	पीजी होस्टल ऑफ नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ब्लॉक—जेसी, सेक्टर—III, सेल्ट लेक, कोलकाता—700098	बीएचएमएस	नवम्बर—2017	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32782				
208122	मडल हुसैन दिलवार	मानारूल हक	गाव—छतुमारा, पी०ओ०—श्यामनगर, जिला—मुर्शिदाबाद 741156	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32575				
208123	मडल महादेव	अरुण मडल	पीजी होस्टल ऑफ नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ब्लॉक—जेसी, सेक्टर—ए, सेल्ट लेक, कोलकाता—700098	बीएचएमएस	जनवरी—2017	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32783				
208124	मडल पल्लबी	बद्योमकेश मडल	गाव—दिहिमेदन मल्ला, पी०ओ०—दक्षिण गोबिदापुर, जिला—साउथ 24 परगनास 743353	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32721				
208125	मडल पायेल रॉय चौधरी	सुमन मडल	जोतभीम, मटगाचा, साउथ 24 परगनास 700059	बीएचएमएस	मार्च—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32527				

208126	मडल रिमी	सुशील कुमार मडल	गाव-कुचली, पो०ओ०-कं. गोपालपुर, जिला-बीरभूम 731204	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32614				
208127	मडल रिमी	आसित कुमार मडल	तोश हाउस के पास, जगाचा, जौआइपो कॉलोनी, हावडा-711112	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32567				
208128	मडल सागर	अब्दुर रौफ मडल	इस्वारिगाछा, पो०ओ०-बादुरिया, नोर्थ 24 परगनास 743401	बीएचएमएस	अगस्त-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32774				
208129	मडल सामप्रति	आनदा मडल	गाव-भागपुगा, पो०ओ०-दोस्तीपुर, जिला-साउथ 24 परगनास 743504	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32752				
208130	मडल सुमिता	सुभाष मडल	सोनारपुर नौपारा, राजपुर सोनारपुर, साउथ 24 परगनास 700150	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32738				
208131	मोडल तुहीन सुभ्रा	अतीश चन्द्रा मडल	गाव-मित्रापुर, पो०ओ०-कासातादगा, जिला-नाडिया 741257	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32486				
208132	मोगकोचोल्लेन चाग	चेचुबा	हाउस न० 150 टुइसग गाव टुइसग नागालेण्ड 798612	बीएचएमएस	2013	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालेण्ड	21.07.2020	132				
208133	मोनिका	श्री विरम सिंह	हाउस न० 605, पाना पछिया गाँव एव पोस्ट ऑफिस, छावला नई दिल्ली-110071	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5713				
208134	मोनिका	श्री धर्मानन्द	पी-72/4, काबुल लाईन, सदर बाजार, दिल्ली कैंट-110010	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5772				
208135	मोनिषा एम.एम.	ओ डी मनमाधकुमार	मनीष विहार, कुमारनकारी पी०ओ०, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.09.2018	12817				
208136	मानू साई सगीत वी.एस.	श्रीकुमार एम.	श्री सदन (एमसीआरए-46), नेल्लीमुक्कू, थिरुमुल्लावराम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2017	12080				
208137	मूमिना ए.जे.	अब्दुल खदर जैलानी पी.ए.	36/950, मूसारिपाराम्बा, थदाम्बात्तुथजाम, वेगेरी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12025				
208138	मून मिखिता बिन्दुसार	श्री बिन्दुसार शकर मून	बी२-202, टाइप-4, दिल्ली गर्वमेंट अधिकारी आवासीय परिसर, हीडरपुर रोड, शालीमार बाग, दिल्ली-110088	बीएचएमएस	2003	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस नासिक	दिल्ली	31.12.2020	बीएचएसडी/5803				
208139	मृदुला पी.एस.	सदीसन पी.एन.	पोनथ हाउस, सहाधरानगर, वेस्ट नजारकल पी०ओ०, व्यपिन, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.08.2018	12666				
208140	मृगाल प्रमाणिक काति	मुकुल कृष्ण प्रमाणिक	गाव-मोहनपुर, पो०ओ०-चक्रधन, जिला-पूर्वा मेदिनिपुर, वेस्ट बंगाल-721152	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32596				

208141	मृपालिनी	श्री अवधेश कुमार पराशर	बी-54, दूसरा फ्लोर, गली नं० 5 मडावली उनचेपर, दिल्ली-110092	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5725			
208142	मृदुला एल.एस.	ए. शानमुघदास	श्रीलक्ष्मी, धचिगल, अनियूर, चेम्पाचथी पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12659			
208143	मुबाशिरा सी.	अब्दुल खदर	सरीना, पायचेरी, विकास नगर, इरिडी पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11320			
208144	मुबाशिरा के.	मोहम्मद अब्दु रहमान	कोलाम्बोल (हाउस), पुन्नाथाला पी०ओ०, पुथनाथनी, चुगम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.07.2017	12059			
208145	मुबाशीरा पी.	मोहम्मद कुट्टी पी.	लेकव्यू (हाउस), मुट्टीचिरा, मून्नियूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.02.2017	11754			
208146	मुबीना मुखफा एम. के.	मुखफा एम. के.	मुरिगकोडन (हाउस), पूवाथनी, थजेकोडे पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11515			
208147	मुबीना पी.एन.	मुखफा पी.एन.	नारीक्कुथ हाउस, थोट्टियाम पारा, पुलिक्कल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12971			
208148	मुबिना सलीम	सलीम ए.	टीसी 49/1124, मलिक मजिल, कालोम्पनकुलम, मानाकोड पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2017	12084			
208149	मुफोदा ए.	मोहम्मदाली	अलाट्टिल थजाकुनी हाउस, अयानचेरी पी०ओ०, थिरुवाल्लूर (वाया), वटाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2017	12274			
208150	मुफोदा बेगम के.बी.	मोहम्मदाली के.बी.	वेल्लत हाउस, वेस्ट काडुगाल्लूर पी०ओ०, मुप्पाथडम वाया, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10937			
208151	मुफोदा सी.पी.	मुखफा एन.	अल-फलाह, इलायवूर मंदिर रोड, बादर मरिजद के पास, मुदायड पी०ओ०, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13461			
208152	मुफोदा मुस्ताज के. टी.	हमजा के.टी.	कूरी महल (हाउस), मुक्किलापीडिका, वालचेरी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2016	11156			
208153	मुफसिला के.के.	मोहम्मद कुट्टी के. के.	माफज, कारीपराम्ब, उगरापुरम पी०ओ०, अरीकोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.03.2019	13092			
208154	मुफसिना पी.	मोहम्मदाली पी.	पुथियोट्टिल हाउस, अजोलीमुक्कु, नाडुवानूर (वाया), कारुवानूर (पोस्ट), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13063			
208155	मोहम्मद गारसल सी.	अब्दुल गफूर सी.	आलिफ (हाउस), चेरियाकाटे, पालोराथजम, ओलावन्ना पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11336			

208156	मुहम्मद बशीर मधुविन नालाकथ	अब्दुल सलाम एम एन.	मेधुविन नालाकथ, थिरुवरुगडी पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	13.02.2017	11738				
208157	मोहम्मद निजर कामब्रान	अबू के.	कामब्रान (एच.ओ.), के.एम. वेस्ट पी0ओ0, ए.आर. नगर (बाया), वालाक्कुडा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.06.2019	13179				
208158	मोहम्मद अशरफ सी. एन.	नूरधीन कुट्टी	ओलिपील वाडाक्काथिल, कोट्टीयाम पी0ओ0, कोट्टीयाम, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.08.2019	13257				
208159	मोहम्मद बशीर के. एम.	मोहम्मद के.सी.	कालिगलाकाथ (हाउस), मुल्लुरकारा पी0ओ0, वाजाकोड, इदिराजी रोड (बाया), जिला-थिरयुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.08.2018	12763				
208160	मुहम्मद फरहान टी.	अब्बास टी.	थोत्तोली (हाउस), थिरुवरुगडी पी0ओ0, पेरिथलमन्ना, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11287				
208161	मोहम्मद फायिस सी. ए.	मोहम्मद अलियार सी.	चित्तेथुकुडी (हाउस), पायनाड पी0ओ0, कुट्टीपारा, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	21.04.2017	11846				
208162	मोहम्मद के.एस.	साईडालवी के.	कोट्टारथ सैयद, एडायूर पी0ओ0, पूकात्तिरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11314				
208163	मोहम्मद माहशूम पी.	अब्दुल रजाक पी.	पालायिल (हाउस), अथानिककल, वल्लोक्कुन्नू पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.03.2017	11820				
208164	मोहम्मद मिन्नाथुल्लाह	पी. मोहम्मद सदाकथुल्लाह	पोट्टालुगल हाउस, काप्पील पी0ओ0, बडोर वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	04.01.2018	12373				
208165	मोहम्मद रशीद के.	कुन्हाब्दुल्ला	पारायुल्लाथिल हाउस, चेरुवान्नूर पी0ओ0, मेप्पायूर (बाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	12.10.2018	12912				
208166	मुहम्मद सफ़ीर वी.	अबू रहीमान पी. वी.	विश्वास भवन, कॉलेज रोड, माट्टानूर, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	26.10.2015	10935				
208167	मोहम्मद शिजरा ए. के.	यूसुफ ए.के.	अनाक्काजहावन (हाउस), पोरूर पी0ओ0, अयानिकोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	30.12.2017	12370				
208168	मुहसिफा फाथिमा एम.टी.	हसन एम.टी.	मारकन (हाउस), कारुवामबुरम पी0ओ0, मजेरी, मंगलास्सेरी, जिला-मालापुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.10.2017	12262				
208169	मुहसिना बदरुद्दीन सी.	के. बदरुद्दीन	रायन, चना रोड, पोनानो, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10858				
208170	मुहसिना के.वी.	मोहम्मद कुट्टी के. वी.	कोट्टेला वालापिल (हाउस), अलकोड पी0ओ0, मथादम, चगारामकुलम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.12.2017	12367				

208171	मुहसिना के.वी.	अलावी के.वी.	कालाथिल हाउस, इरुमबुजी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12937				
208172	मुहसिना मुमताज	सलीम एम.	धुशरा (हाउस), अविताल्लूर पी०ओ०, नाडुवान्नूर (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.04.2017	11858				
208173	मुहसिना पी.	मोहम्मद	पुथियोट्टिन (हाउस), पालेरी टाउन पी०ओ०, कुट्टियडी वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.03.2017	11802				
208174	मुहसिना पुलिककाथोडी	साईडालवी पी.टी.	पुलिककाथोडी (हाउस), रदाथनी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.08.2018	12726				
208175	मुहसिना थरनीम टी.टी.	मोहम्मद	थोत्तीथिल मालाक्कल हाउस, चोलाक्कुडु, मिल्लोमपाडी, पारापुर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	11.06.2015	10826				
208176	मुखर्जी पान ओइद्रिला	मोलोय मुखर्जी	375, डी/3, बी.बी.डी. रोड, पो०ओ०-हिदमोट्टर, जिला-हुगली 712233	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32645				
208177	मुखर्जी रोम्पा	विश्वजीत मुखर्जी	ग्राम- पचरा, पी.ओ.-पचरा हट, जिला- बीरभूम 731133	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32457				
208178	मुखर्जी रितिका	गौरगा मुखर्जी	बी-137/5, कट्टप्पट्टर, खरिशा, पूबा मेदिनीपुर 721171	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32500				
208179	मुखर्जी सुरजना	प्रदीप कुमार मुखर्जी	पुरदर खान रोड, मल्लिकपुर, पो०ओ०-मालचा माहीनगर, बारुइपुर, साउथ 24 परगनास 700145	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32649				
208180	मल्लिक अहसान जमील	मो० अब्दुल अजिज मल्लिक	गाव-सिगजोर, पो०ओ०-भगवतीपुर, जिला-हुगली 712701	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32742				
208181	मुमिना ए. समाद	अब्दुल समाद ए.	धेनगुविला वीडू, टीसीएम को. के पास, इलाम्पाल्लूर, कुदारा पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.09.2018	12851				
208182	मूनीफा हुडा पी.	मूसा कुट्टी पी.	पट्टाथ हाउस, वेलुवागद पी०ओ०, वेट्टीक्काट्टिरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11132				
208183	मुनीर के.एम.	मोहम्मद के.एम.	कोरामगलथ हाउस, मेप्पाडम पी०ओ०, मामपड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.11.2018	12939				
208184	मुनीरा के.	उमर फारुक के.	कट्टुगल हाउस, चेम्बनकुन्नु, काक्कूथ, पेरिथलमन्ना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12106				
208185	मूनीसा मोहम्मद के.	मोहम्मद के.	मुहम्मद मजिल, कादूर पी०ओ०, वाडाक्केमना, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11110				

208186	मुशी चदा	अबु तहर मुशी	गाव व पी0ओ0-गोपालपुर, जिला-नोर्थ 24 परगनास 743445	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32719				
208187	मुशिदा टीपी	अब्दुल करीम	धचुपराम्बन (हाउस), कुन्गमल पोर्टो पी0ओ0, नारुक्कावू वाया, एदाक्कारा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11241				
208188	मुशिद एम.के.	अब्दुलखदर एम. के.	वक्कट रायन, पुल्लोप्पाराम्बा पी0ओ0, चेलेम्बरा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11339				
208189	मुशिदा बी.एस.	मुजीबू रहमान टी. पी.	शरीफ मजिल, पोस्ट ऑफिस के पास, माट्टूर पी0ओ0, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.07.2018	12637				
208190	मुस्फिरा महाली	एम. अब्दुल रशीद	49, द्वारिक जंगल लेन, उत्तरपारा कोटरुग, भद्रकाली, हुगली 712232	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32571				
208191	मुशीरा के.	कोयाकुट्टी के.	काजुगुम थोदन (हाउस), एलेयादथ पाराम्बा, फारुक कॉलेज पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11350				
208192	मुस्कान	श्री नन्द लाल	ए-542, चौखण्डी, जेजे कॉलोनी, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5714				
208193	मयाबेम् एन. जुनगियो	नरिसाओ जुगियो	टसोपो गाव	बीएचएमएस	2013	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बंगलोर कर्नाटक	नागालेण्ड	20.07.2020	131				
208194	नाज शगुपता	मो0 रेजौर रहमान	गाव व पी0ओ0-हरहरी, जिला-मुशिदाबाद 742226	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32576				
208195	नाबील यू.वी.	मोहम्मद के.वी.	यू.वी. हाउस, मात्तूल साउथ पी0ओ0, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास मात्तूल, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.08.2016	11400				
208196	नाबीला सी.के.	मोइदु सी.के.	नसीफ मजिल, कोडियुस पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2017	11789				
208197	नबीला टी.	अली टी.	धरायामपट्ट हाउस, अलाथियुर पी0ओ0, पचमपाडी, तिरूर-2, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11942				
208198	नादा राफथ के.	अब्दुरहीमान के.	नावरस हाउस, थुराक्कल पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11541				
208199	नादीदा टी.ए.	अब्दुल करीम	थोडियिल (हाउस), एडाथनात्तूकारा पी0ओ0, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.05.2017	11885				
208200	नाघ अलावी टी.पी.	अलावी टी.पी.	थत्तारुथोडी, पोडुवनीक्काविल हाउस, मत्ताथुर पी0ओ0, मुनामबथ, ओथुक्कुगल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10820				

208201	नाधा जिनान	मोहम्मद नजीब	कदन चथानारी हाउस, कोवूर, मेडिकल कॉलेज पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13073			
208202	नाधा मोहम्मद सदीक	पीपी मोहम्मद सदीक	“केज”, गवर्नमेंट एचक्यू हॉस्पिटल के पास, अयिक्कारा, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.11.2018	12956			
208203	नाधिरा पी.ए.	साईडालवी पी.ए.	पाथयात्ताराप्पोयिल, वनाथोडी, चेलूपदम, चेलम्बरा पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11740			
208204	नादिरा उम्मर	उम्मर	माम्मालियिल (हाउस), उम्माथुर, पाराक्काडावू पी०ओ०, नाडापुरम वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	06.03.2017	11774			
208205	नादिया अम्बाडी	नौशाद अम्बाडी	अम्बाडी (हाउस), कक्कड पी०ओ०, तिरुवागडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.02.2017	11760			
208206	नईमा के.टी	अब्दुल करीम के. टी	मदारी पनामकाविल हाउस, थेक्कुमबाद, पडाल्लूर, कादम्बोडे पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12942			
208207	नौमा रशीद	मोहम्मद रशीद	वालियावीटिल (हाउस), मादवना पी०ओ०, कोडुगाल्लूर, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.01.2018	12459			
208208	नफीसाथुनासीहा के. वी.	अब्दुलखदर ए./एस कुचीमोन के. वी.	पादिहारकम (हाउस), ए.के. रोड, पोन्नानी नागाराम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.08.2017	12187			
208209	नाफियाह एम.आर.	मोहम्मद रफोक	सीना, पुलिकालाकम, वी.के.के. मेनन रोड, काल्लाई पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13074			
208210	नागा साई किरन कोरलापति	के.एस.एन. रामानुजुलू	43-127-23(एफ4), केएल राव रोड, कृष्णा हॉटल सेंटर, न्यू अजिथ सिंह नगर, विजयावाडा (अर्बन), कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश-520015	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश	01.10.2019	8783/एच/2019			
208211	नाहाला पी.ए.	अब्दु पी.के.	पनाचिकुजी (हाउस), चेरुवैलिकुन्नु, मुडिककल पी०ओ०, पेरुमबावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12237			
208212	नाहीदा हामजा	हमजा इरमाईल	5/141, कोट्टामपारा थोत्तायिल, पीदिकाप्पाडी, इडायुर नोर्थ पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2015	10929			
208213	नाहीमा ए.पी.	अबूबक्कर ए.पी.	उमैथोडिका हाउस, वेस्ट चथाल्लूर पी०ओ०, एडावान्ना वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2017	12082			
208214	नाहीमा सी.पी.	नूरुदीन सी.पी.	चोलाप्पाराम्बोल (हाउस), अनामगड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.09.2017	12217			
208215	नाहिला ए.सी.	ए.सी. मोइदु	काराट्टायिल (हाउस), एरामगलम पी०ओ०, नाक्कोला, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	20.01.2017	11697			

208216	नाहिधा आर.	नजीर अहमद	रेजेसी, कृष्णापुरम, पेरुकुजी पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11596				
208217	नहजा जयश	एस.एम. जयश	लाल भवन, फ्लोवोटेल, अरागोत्तुकारा पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11464				
208218	नाहला पुलिककाथोडी	पीटी मम्मोक्कुट्टी	पुलिककाथोडी (हाउस), रदाथनी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.07.2017	12046				
208219	नैला अहमदुल्नी	अहमदुल्नी पी.के.	मुल्लेन मादाक्कल (हाउस), चिरायिल पी०ओ०, कोडोटी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	18.08.2016	11428				
208220	नायर बिपसा प्रसन्ना	प्रसन्ना कुमार	वी.पी. VIII/4, जनता भवन, पोट्टायिल, मालायिनकीजु पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2012	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	केरल	06.02.2019	13012				
208221	नायर दीपा विश्वाम्बरन	विश्वाम्बरन नायर	फ्लैट न० 9ए, ग्रैंड मीडोज, वीटीजे एनक्लेव, माराडु, कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2013	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	केरल	20.07.2018	12611				
208222	नाजा गफूर एन.के.	अब्दुल गफूर एन.के.	नाष्टिकाल्लिगल (हाउस), कोडियाथुर पी०ओ०, मुक्कम (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12544				
208223	नजीबा पी.	अबूबकर पी.	फेवरेट कॉटेज, रामनातुकारा पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2017	12192				
208224	नजीबा पी.वी.	सालमी पी.वी.	शकोला मजिल, कुरिककल रोड, नेडुवा पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.07.2016	11364				
208225	नाजील के. नौफल	नौफल एच.के.	मुसालियार हाउस, मन्नाचेरी पी०ओ०, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	06.08.2015	10904				
208226	नाजीमल एच	हैद्रोस बी.	नोवफेल निवास, कचीमूदू, पथा पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10792				
208227	नाजिया कल्लुगल	अहमद के.	काल्लुगल (हाउस), कक्कड पी०ओ०, तिरुगडी (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	17.01.2018	12457				
208228	नाजिया एम.	सैडालवी एम.	कोडाक्काट्टु पाराम्बोल (हाउस), कारिगनड, विलायूर पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	12.01.2018	12447				
208229	नाजिया एम.	मोहम्मद कुट्टी एम.	मुल्लाप्पली हाउस, पोमाला पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.12.2018	12960				
208230	नाजीया एन.जे.	नादीर शाह एम.	आयशा मजिल, कैंथुडू पी०ओ०, निलामेल, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11195				
208231	नाजला हसन सी.	हसायनार सी.	रहमथ मजिल, ओके मुरी पी०ओ०, वेगसा, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.04.2018	12491				
208232	नाजला के.पी.	कुन्ही मोहम्मद के.पी.	चुदावीत्तिल पुथियानालकाथ (हाउस), के० पुरम पी०ओ०, मूलक्कल, तानूर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	26.04.2016	11251				

208233	नाजला पी.पी.	अब्दु रहिमान पी.पी.	बुशरा 15/1756 ए. मातियेककल रोड, कुडुगल, कल्लाई पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.11.2017	12309				
208234	नजमा ए.एम.	मोहम्मद अली ए.वी.	कोलात्तुधोडियल हाउस, काहिरामुक्कु पी०ओ०, पॉनानी, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12898				
208235	नजमा सी.पी.	उरमान सी.पी.	चौरन पाराम्बोल, पल्लोपुरम पी०ओ०, पाताम्बी (वाया), जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.12.2018	12980				
208236	नमिता बेनोय	बेनोय पॉलोज	कोट्टाप्यालायिल (हाउस), कोथमगलम पी०ओ०, थकालम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12670				
208237	नमिथा के.एस.	साथयानाथन के.	हरिन्धनम (हाउस), सिसुमथिराम रोड, पेराम्बरा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सोलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12542				
208238	नमिथा एम.एन.	नजर एम.	एम.एन. अफजल मजिल, सौगरिथ नगर, ओल्ड काराकामदापम, नेमोम पी०ओ०, टी.सी.-46/134, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12543				
208239	नमिता सलीश	सतीशन भारकरन	कृष्णा कृपा, वीई-91, वेगूर, किदनगूर पी०ओ०, अगामाली, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.09.2016	11479				
208240	नम्रता पी.सी.	उदयाकुमार पी.सी.	नावोध्यम, चिराक्कारा पी०ओ०, थलारसेरी, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13352				
208241	नाम्सिया एन.	कुहाब्दुल्ला	नसीब मजिल, थरोपोयिल पी०ओ०, वाडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.04.2017	11835				
208242	नधा एस.एल.	संसिलाल ए.	वाल्लिकुडिल, अगाविला, वाक्कोम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12022				
208243	नदी मधुमिता	बिस्वानाथ नदी	गाव-बाबला, पी०ओ० व पु०स्टे०-गालसी, जिला-बुर्दवान 713406	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32651				
208244	नदिनी एम.	मोहन पी.	7/861, एरोल कुन्नुमल, काहीराम्जी, नोलेश्वरम, मुक्कम, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.12.2016	11625				
208245	नोरेम दीपा	एन. धनजय सिंह	माफ्त चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01, पी०ओ०-सैनथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32523				
208246	नाफिसाबेत मारपन	श्री के. बियम	लुमदैतखला, भोइरिमबोना, री भोई जिला	बीएचएमएस	14.05.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	07.07.2020	479				
208247	नारायण दिप्ती	डॉ. ललित नारायण	मदिरताला बेजबादुर घेरी, सागर, साउथ 24 परगनास, वाया-रुद्रा नगर 743373	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32454				

208248	नारायणा प्रकाश एस.	सिवाराजन	नारायणा नितायम, थोरापुरम, मन्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11730				
208249	नसीबा अब्दुल मजीद	अब्दुल मजीद के. एम.	रेनबो, मान्नाम पी०ओ०, नोर्थ पारावूर, जिला-एनाकुलम केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10985				
208250	नसीबा एम.	अली मादासेरी	धुम्बायिल (हाउस), पुथलम, एरियाकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	19.10.2017	12277				
208251	नसीबा टी.	मोहम्मद कुट्टी टी.	धरामल (हाउस), मुधुवाल्लूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	06.12.2017	12323				
208252	नसीफ टी.	धसीफ टी.	थोराप्पा (हाउस), वालियगडी, डाउन हिल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11181				
208253	नासीहा अहमद	अहमद अली	डारुलहन्द, चिना क्ले रोड, पी०ओ० पायगडी आर.एस., पायनगडी, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10896				
208254	नासीहा सी.के.	मोहम्मद अब्दुल गफूर सी.के.	“मालायथ कुजियिल” (हाउस), अराकुरुरसी, कालावथी रोड, मानारक्कड पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.01.2016	11053				
208255	नासीहा के.के.	अहमद कुट्टी सी. वी.	हसनार्थ हाउस, काक्कोत्तकुनियिल, चेरुप्पारम्बा पी०ओ०, धुवाक्कुन्नू (वाया), जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10899				
208256	नसीहा पी.	हामजा पी.	पूलाक्कोडन (एच), रदाथानी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	23.11.2015	10961				
208257	नासीहा टी.	अब्दुल अजीज टी.	थयिल (हाउस), चेरियम, मकदा, कूत्तिल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.03.2016	11172				
208258	नसीहा थासली के.	अब्दुल हमीद के.	मदम्बथ (हाउस), कूट्टिलगडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	19.10.2017	12278				
208259	नासीला के.एन.	नौशाद एम.के.	वाडाक्काथु पाराम्बील हाउस, मानाप्याट्टीपाराम्बू, सातवा क्रोस रोड, कालूर, कोची, जिला-एनाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.01.2018	12465				
208260	नसीला एम.	मोहम्मद बशोर एम.	रोज महल, फायर स्टेशन रोड, पेरिथलमन्ना, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	29.11.2016	11610				
208261	नासीदा मोल	अब्दू रौफ	पायाडी पुरायिल (हाउस), कुरुक्कोल परम्ब, वालावान्नूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.05.2017	11874				
208262	नासिहा के.	सिदीक के.	कोट्टायिल हाउस, पूवाचिना, रदाथानी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12715				
208263	नासिला सी.के.	मोहम्मदकुट्टी के.	नदीम मजिल, मार्केट रोड, निलेश्वर, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2015	10879				

208264	नसीमा सुलताना	मो0 कलीमुदीन	सुपुत्री मो0 कलीमुदी, पोस्ट/पु0स्टे0-दुमकम, मस्जिद गली दुधनीघाट, रसिकपुर के पास, दुमका, झारखण्ड-814101	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	12.10.2019	33325				
208265	नरकर परथा प्रतिम	शकर प्रसाद नरकर	गाव-कानेया (बासा), पो0ओ0-शमाकाता नगर, जिला-साउथ 24 परगनास 743395	बीएचएमएस	दिसम्बर-2014	बी.आर.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	वेस्ट बंगाल	13.02.2020	32795				
208266	नरकर सुपर्णा	दिबाकर नरकर	गाव-दक्षिण कलिकापुर, पो0ओ0-दक्षिण बरसात, साउथ 24 परगनास 743372	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32601				
208267	नसनीम सलीम	पी.एच. सलीम	पल्लीथोट्टुगल हाउस, क्रिस्ट कॉलेज के पास, इरिजालाकुडा पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.09.2017	12254				
208268	नसरीन ए.	उरमान ए.	नाट्टुकाल्लिगल हाउस, कोल्लेमचिना, पेरुवाल्लूर पोस्ट, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13088				
208269	नसरीन एम.	अब्दुल मजीद एम.	मन्नायिल (हाउस), चोलाक्कल, पयानड पी0ओ0, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.03.2017	11825				
208270	नसरीन ए.	अब्दुल लथीफ ए.	शाति महल, मारचरी पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.10.2019	13394				
208271	नसरीया पी.	अरसेन	पुल्लानी (हाउस), ओथुक्कुगल पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11978				
208272	नसवना एन.	निसामुधीन सी.के.	नारवनास, एचूर पी0ओ0, जिला-कानूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.01.2016	11056				
208273	नसवीहा फरसाना टी.	मोहम्मदाली टी.	पुल्लिल पीडिकायिल (हाउस), कोनोट पी0ओ0, कुन्नामगलम (बाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2017	12258				
208274	नौफेजा	एस. नाजिमुदीन	35/432, मुल्लथ हाउस, मैन रोड, ओलावाक्कोड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.06.2017	11892				
208275	नौशाद अफरीन	मो0 नौशाद अहमद	कुरैशी मोहल्ला रेलपार आसनरोल, पश्चिम बर्द्धमान 713302	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32443				
208276	नविता	श्री विजय कुमार	हाउस न0 321, बापरोला गॉव दिल्ली-110043	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5668				
208277	नावरिया कीर्ति	श्री गिरीश नावरिया	80/5683, रेघार पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5730				
208278	नव्या सी	उदयाकुमार सी	मथुरिमा, चोटानिककास (हाउस), मक्काडा पी0ओ0, काक्कोडी (बाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	09.01.2018	12424				

208279	नय्या के.एम.	के.के. मुरलीधरन	कालावम्पारा हाउस, पेलेस रोड, कन्नानकुलगारा, नोर्थ पारावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	27.06.2017	11905				
208280	नयना एम.	मुरलीधरन एम.ई.	“सारथी” पन्नीयानूर पी०ओ०, थलारसेरी (वाया), पराल, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.03.2019	13072				
208281	नयना एस. नायर	एम.एस. शाशिधरन	मेलथ हाउस, चोद्दनिक्कारा पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	05.01.2017	11672				
208282	नयना एस. थकापन	थकापन असारी डी.	मैलाथिल वीडु, थोक्कालाक्कुजी, पुल्लमपारा पी०ओ०, वेजारामुडू, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2016	11307				
208283	नयना वी.एस.	आर. वामादेवन	अनीश विहार, के.के. नगर, वाट्टापारा पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12093				
208284	नयना वी.एस.	पी.पी. शाजी	वैलियिल हाउस, पेरुमपाडामु रोड, पाल्लुरुथी, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13403				
208285	नायबन निलरतन	सुरथ चद्र नायबन	गाव-कालिकापुर, पी०ओ०-बोहलबेरिया, जिला-साउथ 24 परगनास 743399	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32509				
208286	नायक देबोपम	प्रणय चद्र नाईक	गाव-पानाछत्रा, पी०ओ०-चंगोल, जिला-पश्चिम मेदिनिपुर 721301	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32513				
208287	नाजरिन	श्री अलाउद्दीन खान	हाउस न० ए-14, किदवई नगर (ईस्ट) दिल्ली-110023	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5663				
208288	नेदाह मूफीदा कबोर	कबोर	केआरडब्ल्यूए 105-ए, निशान, कावाल्नूर लेन, वाट्टिपूरकावू, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12546				
208289	नीमा किरण	कृष्णा चौधरी	गाव-मोर इग्लिश, पु०स्टे०-मोकामा, जिला-पटना, बिहार-803302	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	07.08.2019	32952				
208290	नीहा फीजी	अब्दुल फीजी	सलमा, हाउस न० डी-7, वडाकेविला नगर, वडाकेविला पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2018	12781				
208291	नीमा पुरुशोत्तमन	डी पुरुशोत्तमन	नीथा निवास, वालामगलम नोर्थ, थुरावूर पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2017	11680				
208292	नीना सलीम वी.	सलीम वी.	सलीम निवास, पुडुपोन्नानी, पोन्नानी साउथ पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.02.2017	11745				
208293	नीनू सी इयपे	पी.सी. इयपे	बिन्नु भवन, पालामुक्कू, कन्नानाल्लूर पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11394				

208294	नीनू दयाल एम.वी.	विस्वेसवरा दयाल	6/108 सी. मानाथरा हाउस, मायीथरा पी०ओ०, पुथनामबालम, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12351				
208295	नीनू जी.एन.	नारायणन टी.के.	श्रीरामगम (हाउस), धिगापुरम पी०ओ०, थिक्कोडी (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	19.10.2017	12279				
208296	नीनू मोहन	मोहनन के.एन.	काडाविककाट्टु, कालेलिभगम पी०ओ०, कारुणागपली, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.03.2019	13067				
208297	नीनू नारायणन के.	नारायण पिल्लई आर.	पालाजी, पालामूडू, वेमबयाम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.01.2018	12404				
208298	नीनू रजिया के.पी.	इशक के.पी.	कोराथपुलिककाथोडियल हाउस, पालीप्पाडी, काजुथाल्लूर, कुट्टिपुरम पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	26.09.2018	12946				
208299	नीरजा एम.जे.	मधुसूथनन अरारी	उदयाविहार, गीताजली लेन, करियम, श्रीकारयम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12545				
208300	नीरजा मोहन	मोहनन सी.के.	काथिका (हाउस), थंजिपालम पी० ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.04.2016	11245				
208301	नीरजना सी.बी.	बैजू सी.एस.	चेरुथुरुथी (हाउस), चतुकुलम, अथांत पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.02.2018	12475				
208302	नीधू गोपी	गोपीकुट्टन के.आर.	कोक्काप्पल्लोयिल (हाउस), थोनाक्काडू पी०ओ०, चेरियानाडू, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10852				
208303	नीधू के.	सुकुमारन के.	काराक्काकाविल हाउस, पोल्लापोयिल, कोडाक्कड पी०ओ०, जिला—कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.01.2016	11011				
208304	नीधू के.एस.	सहादेवन ए.	किजक्केकलम (हाउस), कन्नमबरा पी०ओ०, अलाथूर, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11148				
208305	नीधू कृष्णन ए.यू.	उन्नीकृष्णन ए.	अदिमूलिथरायिल हाउस, पेरुमपिलाविल पाराम्बू, कन्नमथिक्कायू, पोन्नानी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11999				
208306	नीधू एम.	एम. भारकरन नायर	पायूरवालाप्पील (हाउस), काडावाल्लूर पी०ओ०, कुन्नामगलम (वाया), जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10857				
208307	नीधू मोहन एम.एम.	मोहना राज एम. एस.	माधवम, वालियाविला, काजीरामकुलम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11970				
208308	नीधू मोहन एस.	के. मोहनन पिल्लई	पादिनजारि विला वीडु, ईटीसी पी०ओ०, अम्बालापुरम, कोट्टाराकारा, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.08.2018	12766				
208309	नीधू पी.	अनदन	पोकलनचेरी (हाउस), कार्तिकाप्पल्लो पी०ओ०, विल्लियाप्पल्ली वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11145				

208310	नीधू पी. नारायणन	नारायणन	वैकुदम (हाउस), किजाक्कुम्मुरी पी०ओ०, काक्कोडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.03.2017	11785				
208311	नीधू पी.एम.	मनोहरन पी.जी.	पारागनात्तु (हाउस), एलावली नोर्थ पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11185				
208312	नीधू राज	राजन के. पम्पी	2/43, कालीक्कल, आर्याम्पल्लम, चित्तूर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11298				
208313	नीधू राज	राजू के.	सथा सदनम, के.एस. मगलम पी०ओ०, वैकोम, जिला-कोड्यम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	27.01.2017	11702				
208314	नीधू एस. साबू	साबू बी.एस.	विजया मडिराम, टीआरडब्ल्यूए 167, धमालम, थड्डानविला लेन, पूजापुरा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12556				
208315	नीधू एस. विजयन	विजया कुमार एम.	वी.एस. कॉटेज, कावुविला, पोविला, अरायूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.12.2016	11626				
208316	नीधू सुधाकरण	पी.के. सुधाकरण	पाप्पालिल हाउस, नजाशक्कल पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11203				
208317	नीधू टी.	ए. गोपालाकृष्णन	भावना, कुट्टीचिरा, टीकेएमसी पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.07.2015	10872				
208318	नीधू उन्नो	एम.उन्नो कृष्णन	श्री भवन, वाराम पी०ओ०, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.10.2015	10926				
208319	नीधू वी. सतीश	सतीशन के.सी.	थोट्टुगल, काक्काजोम पी०ओ०, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.06.2018	12572				
208320	नीधू वेन्गोपाल	वी.एस. वेन्गोपाल	बालारसेरी हाउस, एरानेतूर पी०ओ०, माजहुवचेरी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	16.11.2015	10955				
208321	नीधूलक्ष्मी वी.आर.	राजेन्द्रन नायर एस.एस.	सारदा विलासम, कुयिम्पिल, मिथिरमाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.08.2018	12765				
208322	नेगी निशात	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	ए-60, फेज-5, आर्य नगर, नई दिल्ली-110047	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	21.09.2020	बीएचएसडी/5782				
208323	नेहा बी.एम.	मुरली बी.ए.	61, दूसरा मेन तीसरा क्रोस, समृद्धि लेआउट, कुमारवामी लेआउट, दूसरा स्टेज, बैंगलोर साउथ, बैंगलोर-560111	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	कर्नाटक	09.07.2019	ए-13862				
208324	नेहा नाजैर वी.	प्रेमनजैर	जमीला निलायम, बालिपाराम्बील हाउस, पी०ओ० तालीकुलम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13410				
208325	नेजिला के.	नसर अली के.	कोडियाडन (हाउस), मायलापुरम, डाउन हिल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	15.04.2017	11838				

208326	नेलिवा डब्लू मोमिन	श्री पी.एम. मारक	नोकगितावे विलियमनगर, ईस्ट गारो हिल्स	बीएच.एम.एस.	12.05.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मैघालय	16.09.2020	484				
208327	नेरामा यू.	अब्दुल रजाक यू.	उजिनहालथ हाउस, मुक्कीलापीदिंका, पेनकान्नु पी०ओ०, वालचेरी जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.12.2017	12325				
208328	नेट्टा जोसेफ	जोसेफ के. थॉमस	कुजिपाराम्बोल (हाउस), अजाकम पी०ओ०, कारुकुट्टी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13345				
208329	निधा एम.टी.	अब्दुरहीम एम.टी.	कोट्टाक्कल हाउस, एरियाकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13032				
208330	निधीशा नौशाद	नौशाद एम.	टीसी 58/1325, पुथेन वीडु, पाचल्लूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2019	13295				
208331	निधि देहलवी	एस.के. देहलवी	3/101, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010	बीएचएमएस	2020	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	28.08.2020	एच०३९२१३				
208332	निधिकृष्णा एम.	एम.के. कृष्णकुट्टी	मामपारा (हाउस), किजक्कुमुरी पी०ओ०, पेरिगोल्तुकारा, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	06.10.2017	12260				
208333	निधिन के.	जयाप्रकाश के.	कुडालिलथोडी (हाउस), पारुडूर पी०ओ०, पल्लिपुरम, पत्ताम्बो, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11524				
208334	निधिना के.	सहादेवन के.	कोनोथ (हाउस), कुथिरावात्तम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11656				
208335	निधेश वी.एस.	सुरेन्द्रन	वेगमपराम्बिल (हाउस), थम्बालामन्ना पी०ओ०, तिरुवनम्बडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11143				
208336	निदमा ई.पी.	शौकताली ई.पी.	सलाफी हाउस, साउथ बाजार, कुट्टीपुरम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.04.2016	11214				
208337	निजिशा कृष्णन	ए.जी. कृष्णन	अम्बालाथिनल (हाउस), कजीकुजी पी०ओ०, थल्लाक्कानम, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11327				
208338	निकेश पी.एस.	सुधाकरन पी.के.	पुल्लारकट (हाउस), पुल्लुत पी०ओ०, नारायणमगलम, कोडुगल्लूर, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11511				
208339	निखिल आनंद एम. एस.	सदानंदन	पोत्तनकाविल (हाउस), कान्नादिपोयिल पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.12.2016	11642				
208340	निखिला के.एस.	शिधरन के.के.	कूत्थुम्कडी (हाउस), चुदा पी०ओ०, चेरुपुजा वाया, वयालाल, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.10.2016	11555				

208341	निखिला कृष्णन	गोपालाकृष्णन नायर आर.	सोपानाम, एलिप्पाकुलम पी०ओ०, पाल्लिकल (वाया), जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2015	10880				
208342	निखिता एस.	एस. शशिकुमार	प्रसादम, पल्ली गलौ, पूनथुरा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12624				
208343	निता के.जे.	जयाप्रकाश	कालावम्पारा हाउस, नयारामबलम पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11170				
208344	नितूफारा के.टी.	अब्बास अब्दु के. टी.	कोलोथोडी (हाउस), पूवाथनी, अलिपरम्बा पी०ओ०, अनामगड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.06.2017	11898				
208345	नीमा वर्धस	एन.जे. वर्धस	नजालियथ हाउस, मामला पी०ओ०, तिरुवकुलम (वाया), जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12523				
208346	निमी सी.बी. दास	वाई. क्रिस्टुदास	टी.सी. 11/1729, सीआरए एफ-17 (बी), चराचिरा, प्लामूडू, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11190				
208347	निमिशा कृष्णा डी. एस.	सुरेश कुमार के. एस.	सररवती भवन, पूजियूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.04.2019	13104				
208348	निमिथा सी.	मोहनन सी.	अथिरा, उल्लानाम पी०ओ०, पारापानगडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.04.2017	11850				
208349	निमिथा एम.पी.	मनोहरन एम.पी.	मालायमपराम्बथ हाउस, "श्रीलकम", अरियाल्लूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10994				
208350	निम्मी साधयान	एस. साधयान	निम्मी भवन, वेनीयूर, नेलीविला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13069				
208351	निम्मी जॉर्ज	जॉर्ज थोमस	पारापिल्लिल (हाउस), अडोरमाला पी०ओ०, कुडयाथोर, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.03.2017	11826				
208352	निमोन्की तग	श्री डब्ल्यू. लयरदोह	लॉथिम्मे, लूस्की लॉकलिटी वेस्ट जैनतिया हिल्स	बी.एच.एम. एस.	04.11.2020	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कोलकाता	मेघालय	11.01.2021	499				
208353	निनामा कोशलसिंह दोलतसिंह	निनामा दोलतसिंह बडाजी	एट एण्ड पोस्ट-किलवत, जिला-हाजीपुर, बिहार	बीएचएमएस	2015	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	01.12.2017	32495				
208354	निनू राजू थोट्टन	राजू थोट्टन	थोट्टन हाउस, कन्नापुरम, चेतुपुजा पी०ओ०, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10828				
208355	निरजा नाजीर	नजीर एस.	टी.सी. 1/881/8, कमलरा-79 (बी), मोरक लेन, कुमारपुरम, मेडिकल कॉलेज पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11644				

208356	निरजा आर.	के. राजेद्रन	निरजली, याक्कारा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12014				
208357	निर्मला एनो इपो	इपो वार्कय पी.	टीसी-13 / 1827 / 24, पोडिमाट्टाथिल, कोयिकल लेन, मेडिकल कॉलेज पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12790				
208358	निशा एस. कुमार	साशिकुमार पी.	पुथेवीडू (हाउस), कारापाराम्बा, पुलपत्ता पी०ओ०, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11338				
208359	निशाना मजीद एस.	अब्दुल मजीद एम.	टीसी 36 / 1420 (1), होम्यो क्लिनिक, एचडीएफसी बैंक के पास, वाट्टियूरकावू पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.02.2019	13016				
208360	निशाना वी.	इब्राहिम वी.	वेद्वालापिल हाउस, मन्नूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.06.2018	12507				
208361	निशकला पी.एस.	शकरानारायण भट्ट पी.एस.	पाट्टाजे हाउस, पेराडला पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2018	12604				
208362	निसरीना आर.के.	कुजीमोन आर.एम.	रायिमाराक्कर हाउस, काडावाल्लूर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2017	11829				
208363	निधा पी.एस.	पी.के. सोवान	प्रोधा सोधम, नेल्लियाडी रोड, कोल्लम पी०ओ०, कोयिलडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12102				
208364	निधा राज आर.जी.	राजागोपाल यू.के.	राजागीथम, 22दक मिल्स, मजेरी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11064				
208365	निथीना कृष्णन	ए.के. कृष्णन	श्रीवलसम (हाउस), मालेसामगलम पी०ओ०, थिरुविलवामाला वाया, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11107				
208366	निथिन आर.एम.	वी. राजाशेखरन नायर	पत्ताथनम, मजादिमूडू, पिरापनकोड पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.11.2016	11583				
208367	निथ्या जे.	जयाराज जे.	जे.पी.जे. स्टोर्स, कारापाराम्बा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11385				
208368	नित्या नाथ ए.	सोमानाथन एम.वी. ए.	गायत्री, ओलावात्तूर पी०ओ०, कोडोट्टी वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11114				
208369	निवेदिथा के.एस.	शिधरन के.जी.	कोवथ (हाउस), चेरुवल, पालाजी पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12196				
208370	निवेदिथा एम.एस.	मनोहरन पी.	मोथालय पजनकावे (हाउस), नट गली पी०ओ०, वटाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.07.2017	11909				
208371	निवेदिता आर.	नरेद्रन आर.	राम निवास, मावुगल, आनदाश्रम पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	09.01.2018	12428				

208372	निव्या ओसेफ पी.	ओसेफ पी.एल.	पुथूर हाउस, मंगलम, वाडाक्कनचेरी (रिलवे स्टेशन) पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	12.01.2018	12443				
208373	निव्या थाम्पी	टी थाम्पी राज	कमला निलायम, अरालूमूडू, अरालूमूडू पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	14.12.2015	10970				
208374	नियाधिशा के.ई.	इरमाईल के.ई.	कुलगरायिल हाउस, कुलारोखारा मंगलम पी०ओ०, वैकोम, जिला—कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	05.10.2016	11513				
208375	निजा एन.एस.	ए.के. नाजीर	एन.एस. निवास, मादाथरा, मादाथरा पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11133				
208376	नोलीबाबू के.एम.	बाबू के.एम.	किजाक्के मुथियेरी (हाउस), आरईसी (एनआईटी) (वाया), चूलूर पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	12.01.2018	12448				
208377	नूफा सफर	सफर वी.एम.एम.	पेरियावीडू, काडावालावू गली, तट्टामगलम पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12702				
208378	नूहा मोहम्मद टी.एम.	मोहम्मद टी.एस.	माथुमकाट्टील हाउस, मानारी पी०ओ०, पैपरा, मुवात्तुपुजा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	19.07.2017	12004				
208379	नूपरा एस.आर.	के. राजेन्द्र कुमार	इदिरा भवन, चम्बायिल रोड, नेयात्तिनकारा पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11461				
208380	नूफा शिफा	मोहम्मद अली	अक्कारा पीडिका (हाउस), कावकापाराथ, एडाक्कारा पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	16.06.2018	12519				
208381	नोटोजो नालेयू	विश्वेहोई नालेओ	जेड. खेल विरवेमा कोहिमा नागालैण्ड 797001	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	12.09.2018	107				
208382	नौबथ पी.	अब्दुरहिमान पूलाक्कोदन	पूलाक्कोदन हाउस, रादाथनी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12968				
208383	नौफल एम.	उग्मेर मगादन	मगादन (हाउस), कारूलाय पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.05.2018	12498				
208384	नौफी टी.के.	अब्दुरहमान टी.के.	पेजुमकातिल (हाउस), कोलाथोल, नाडुवत्तोम पी०ओ०, कुट्टीपुरम, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11018				
208385	नौफिया बी.एस.	बशीर आई.	नौफी निवास, कन्नोमल, पट्टाजी पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.06.2019	13130				
208386	नौफिमोल आर.	रहीम के.	कारिनजीरावेली, पुन्नापरा पी०ओ०, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12125				

208387	नौफिरा सी.पी.	नज़र बी	नाज़ 34/84 जी. कैंसली नगर, फ्लोरिकन रोड, कारापारम्बा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	12.08.2016	11417				
208388	नौफिया पी.एस.	सुलेमान पी.	पादिनजारकारा हाउस, अकालूर पी०ओ०, ओल्ड लक्कीदी, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10801				
208389	नौशिला एन.	मोहम्मद एन.	नाडुवचेरी (हाउस), वाडाक्कुमपुरम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.09.2018	12823				
208390	नूफला थसनी पी.	मोहम्मद पी.	पाराक्कल (हाउस), चेलाकोड, उरानगट्टिरी पी०ओ०, एरियाकोड (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12547				
208391	नुमीना के.टी.	हरसनकोया के.टी.	मिशकथ हाउस, अयानिल थजाम, थलिकुलगारा एल.पी. स्कूल के पास, मनकैव जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11640				
208392	नुरसरथ पी.	मोहम्मद	परी हाउस, हाजीयार पल्ली पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	19.10.2016	11570				
208393	ओर्निमा मारिया शाज	शाजू	चिराम्पाट्टु (हाउस), पुलपल्ली पी०ओ०, बीएसएनएल ऑफिस के पास, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2019	13212				
208394	पी.कविता	एम.के.के. पिल्लई	थचिरसोरिल हाउस, वाराविला पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इंटेग्रेटेड, अरुणाचल प्रदेश	केरल	13.02.2017	11726				
208395	पी.पी. शोमी	पी.पी. श्रीनिवारन	पडारा पाराम्बथ, श्रीनिलायम, पालाजी, जी.ए. कॉलेज, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13472				
208396	पी.एस. एश्वर्या	एन.ए. श्रीजिथ	फ्लैट न० 6एक्स, छठा फ्लोर, डीडी प्लेटिनम प्लेनट, टॉवर-3, पाईनलाईन रोड, काथरिकादावू, कालूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2014	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	केरल	21.06.2018	12534				
208397	पावुआ वानलालफकावमी	जोहमिगलियाना	मार्फत शुक्ला साव, गाव-लौतोर, 36 12 सैथिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	30.05.2019	32540				
208398	पडिगापती दरतागिरी	पी. दरतागिरी	फ्लैट न० 825, वार्ड न० XXXVIII, रोयल एनक्लेव अपार्टमेंट, फेक्ट रोड, चिगावानाम, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2006	डॉ० एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आंध्र प्रदेश	केरल	20.08.2019	13331				
208399	पदमाप्रिया पी.	पाजिनियाप्पन बी.एस.	वडाक्केपुरथ (हाउस), चेरूमकुलम, मन्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.04.2017	11847				
208400	पैक रथन्द्रा नाथ	कालीपाडा पैक	गाव-रतनेश्वरपुर, पी०ओ०-बाजार बेरिया, चादपुर (एम) (सीटी), जिला-साउथ 24 परगनास 743395	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32469				
208401	पाल अचिथ्या	खपन पाल	गाव-पुलिया दगा, पी०ओ०-मौला परमानदापुर, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर 721242	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32725				

208402	पाल नायनिका	प्रताप चद्र पाल	4, काशी मित्रा घाट गली, फ्लैट-ई, ब्लॉक-II, पो0ओ0-बागबाजार 700003	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32648				
208403	पाल पुनम	राम सुरत पाल	ग्राम- आदिसप्तग्राम, त्रिशबिधा, पो.ओ.-अदकोनगर, जिला-हुगली 712121	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32464				
208404	पाल सुभाश्री	सत्यानारायण पाल	रतनगज, पो0ओ0-सोनामुखी, जिला-बकुरा 722207	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32478				
208405	पल्लवी जयेद्रन	जयेद्रन के.	अशिवाद, कैथपदम, कुथिरावाट्टेम पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12414				
208406	पल्लवी आर. कृष्णा	राधाकृष्णन टी.पी	पदमाविलास, मायीथारा पी0ओ0, चेरथला, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11060				
208407	पामी दमगुयगलुग	रव. दिसियाग पामी	मार्फत रवाधीन दास, 107, रामचद्रपुर, पानिहटी, सोदेपुर, नोर्थ 24 परगनास 700110	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32743				
208408	पडा सूर्यप्रकाश	कमलेन्दु पडा	गाव-पूर्वा मेशगोते, पो0ओ0-झावा, जिला-पूर्वा मेदिनीपुर 721450	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32480				
208409	पाण्डेय जयनदन	रव. रामचद्र पाण्डेय	गाव-सुगिया, पो0ओ0-चौरावान, पु0स्टे0-सेखोपुर, सराय, जिला-शेखपुरा, बिहार-811103	बीएचएमएस	2010	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	29.04.2010	29057				
208410	पाण्डेय कमलेश	सुरेश पाण्डेय	50/3/1, जौ.टी. रोड, पिलखाना, हावडा-711101	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	20.06.2019	32546				
208411	पाण्डेय नीतू	श्री आदित्या प्रसाद पाण्डेय	एन 406 आशियाना, लखनऊ	बीएचएमएस	16.09.2003	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	उत्तर प्रदेश	30.09.2013	एच033331				
208412	पाण्डेय सुप्रिया	ओम प्रकाश पाण्डेय	इपीटी-51, सरोजनी नगर, पी एण्ड टी कॉलोनी, नई दिल्ली-110023	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	26.09.2019	बीएचएसडी/5592				
208413	पाण्डेय विकास कुमार	दिलीप कुमार पाण्डेय	एट-गुदरी बाजार, पो0ओ0 व पु0स्टे0-बगाहा-1, वेस्ट चम्पारन, बिहार-845101	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	13.08.2019	32974				
208414	पंडित सौम्याजित	समीत पंडित	8/1, लाल बिहारी बोस लेन, सालकिया, हावडा 711106	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32466				
208415	पनीकेरसेरी वेनिप्रिया अनिल	अनिल पी.जी.	पनीकेरसेरी (हाउस), बैंक सेटर के पास, मानालूर पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11276				
208416	पारिजा ए.	आनथन वी	थिरुथी (हाउस), थनीर, पाथल, किनारसेरी पी0ओ0, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12147				

208417	पार्वती सी.	डी. चद्रकुमार	धेजुस, मुदापुरम, चिरायिकिल, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11647				
208418	पार्वती सी. श्रीनिवास	श्रीनिवासन सी.	श्रीनिलायम, के.एस.ई.बी. सबरटेशन के पीछे, नाल्लालम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2017	11678				
208419	पार्वती एम. नायर	के. मुरलीधरन नायर	ब्लॉक न० 1359, नेडुमकदम पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12416				
208420	पार्वती एस.	राधाकृष्णन	विशुकनी, थोडुवे रोड, वारकाला, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	21.02.2017	11765				
208421	पार्वती एस.	श्रीवल्लभन एस.	वल्लाभस्सेरिल, पारुमाला, मन्गार पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12018				
208422	पार्वती शंकर ए.	एम. रविशंकर	अचुथ, वाडाकथारा, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.10.2016	11543				
208423	पार्वती वी.आर.	रगनाथन जे.सी.	वेजाक्काट्टु हाउस, चिगावानाम पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12127				
208424	परवीन राफत	स्व. असगर अली खान	36डी/1ई/2, टोपसिया रोड, तिलजला, साउथ 24 परगनास 700039	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32758				
208425	परवीन सुलताना	पी. खादिर मोहिउद्दीन	1-728, येम्मीगानूर, कुरनूल जिला, आन्ध्र प्रदेश	बीएचएमएस	1991	श्री वेकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश	22.02.1991	4843	एम.डी. होम (फिलोसॉफी), जनवरी-2003, डॉ० एन.टी. आर. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस			
208426	परवीन जिनत	साम्सुर रहमान	गाव व पी०ओ०-बारनिया, पु०स्टे०-पालाशी पारा, जिला-नादिया 741156	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32652				
208427	परवीन जयेदा	जाकीर हुसैन लरकर	गाव-साउथ मखलताला, पी०ओ०-बसरा, जिला-साउथ 24 परगनास 743363	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32726				
208428	परवीन सेलिना	असगर अली	गाव व पी०ओ०-गुशकारा, सघती पल्ली, जिला-पूर्वा बर्धमान 713128	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32598				
208429	परवीन सिदीकी के. एम.	अबूबकर	कारानाथ मट्टूमल काडी, चीकोडे पी०ओ०, चेरुवाझूर (बाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	16.12.2017	12337				
208430	पटेल ज्योत्सना	स्व. श्री दवाराम पटेल	एफ835, तीसरा फेज, सौतापुरा, जयपुर, राजस्थान-302022	बीएचएमएस	2019	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	राजस्थान	21.11.2019	8563				

208431	पटेल त्रिवेदानंद	त्रिभुवन सिंह	गाव-सिकधी, पो0ओ0-अखलासपुर, पु0स्टे0-भमूआ, जिला-कैमूर, बिहार-821101	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	17.09.2020	33682				
208432	पाटी सौमिक	नित्या गोपाल पाटी	गाव-हासिमपुर, पो0ओ0 व पु0स्टे0-कौशियरी, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर 721133	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32702				
208433	पात्रा मिलन	शकर पात्रा	गाव व पो0ओ0-बालीतिकुरी, कालीताला, जिला-हावडा 711113	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32524				
208434	पात्रा रश्मिता	श्री सुदर्शन पात्र	ए-690, सेक्टर-2, रोहिणी, अवतिका दिल्ली-110085	बीएचएमएस	2017	गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, पंजाब	दिल्ली	31.12.2020	बीएचएसडी/5801				
208435	पॉल मालय	महेश्वर पॉल	गाव व पो0ओ0-पूर्बा, जिला-बकुरा 722143	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32664				
208436	पॉल रूपन	खोकन पॉल	45, आर.बी. चटर्जी रोड, लाकुर्दी, बर्धमान, बुर्दवान (सरदार) 713102	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32711				
208437	पौल साज	सजल पॉल	मार्फत युधिरथोर हलदर, एन/243, बी.पी. टाउनशिप पचासायार, कोलकाता-700094	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32672				
208438	पायल सचान	श्री नगेन्द्र सिंह सचान	बी-ब्लॉक-103, बरार-6, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-203027	बीएचएमएस	2019	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	22.08.2019	एच-038622				
208439	पेरसारा लयने गतफोह	(स्व.) डॉ0 एम. धाम	लडथादलाबोह, जोवाई, वेस्ट जैनतिया हिल्स	बीएच.एम. एस.	27.04.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	11.01.2021	498				
208440	पेरटिन सुसु	नयोलेट पेरटिन	मार्फत अक्षय बिरवास, लाकुर्दी बकरपार, माहिरगली गोडा (पी), लाकुर्दी, बर्धमान 713102	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32714				
208441	परवीन शामेला	मो0 रीजुदीन	24ए, एकबालपुर लेन, दूसरा फ्लोर, फ्लैट न0 6, खिदिरपुर, कोलकाता 700023	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32744				
208442	फिलिपसन इयपे	इयपे के.वी.	पाडिनजारा कुजियेलिल (हाउस), पुत्तुमानूर, पुथेनक्रुज, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12397				
208443	फोड्डब मारिया थोमस	पी.ए. थोमस	पुथेन पल्ली हाउस, व्यथिरी पी0ओ0, जिला-वयानड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2016	11574				
208444	पिल्लई अम्बिली लक्ष्मण	बी लक्ष्मण पिल्लई	कालापुस पुथेन वीडू, 7/125, पूपानी रोड, पेरुमबावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2013	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11312				
208445	पिटोकाली चिशी	लहोखापू चिशी	हाउस न0 35 ओल्ड टाउन जुहेबोटो नागालैण्ड	बीएचएमएस	2013	डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी	नागालैण्ड	21.07.2020	133				

208446	पूजा	हनुमान प्रसाद	ग्राम अमरपुरा, धर्मशाला के पास, वार्ड नं० 2, तहसील-नारनौल, जिला-महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123023	बीएचएमएस	2020	प० बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, रोहतक	हरियाणा	13.10.2020	6536-ए			
208447	पूजा चंद्रशेखर	बी.एन. चंद्रशेखर	पूर्णा चंद्रिका, पेरूमपिल्ली पी०ओ०, मूलथुरुथी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.06.2018	12568			
208448	पूजा दास ए.	के.मोहनदास	मानापुजा दास भवन कुल्लुमाला पी०ओ०, मावेलिकारा, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12582			
208449	पूजा एम.के.	कुजुनी एम.के.	मगारामकोट्टील (हाउस), चूराकोडे, कल्लादिकोड पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11330			
208450	पूजा प्रकाश	आर. प्रकाश	हरी भवन, कुमारामगलम पी०ओ०, थोडुपुजा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.09.2018	12813			
208451	पूजा राजू	राजू टी.वी.	'ग्रार्थना', निदुमकड, निलेश्वर, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2018	12599			
208452	पूजा एस.	के.एन. सुरेश	कूवायिल (हाउस), साउथ वाजाकुलम, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.03.2018	12479			
208453	पूर्णिमा ई.	सुब्रह्मणियन ई.	चेरूमकुजी (हाउस), मुथुपराभा पी०ओ०, कोडोट्टी (वाया), मुडाक्कुलम, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.11.2017	12291			
208454	पूर्णिमा टी.पी.	प्रदीप कुमार आर.	थोप्पील हाउस, पल्लोपार्ट पी०ओ०, पल्लोपुरम, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	13.02.2017	11725			
208455	पूर्णिमा बी.आर.	रामाचंद्रन नायर	'सिमिलिया', नादुवथ, काराक्कामडपम, नेमोम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11153			
208456	पोपली चारू	श्री पवन कुमार पोपली	669, भाई परमानन्द कॉलोनी दिल्ली-110009	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5739			
208457	पॉलिन रेशमा एम. आर.	जोशेफ रॉय	मुक्कथ हाउस, काचेरिपडी, एन. पारावर पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.01.2019	12993			
208458	प्रभा देवी पी.एस.	पुष्पा कुमार पी.	थोड्याथिल वोडु, इराविपुरम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13052			
208459	प्रभु के.ए.	अयाप्पन के.सी.	कोलगासा (हाउस), थजेकोड पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12548			
208460	प्रभुदेव पी.एल.	प्रमन ए.	प्रमन निवारा, थोड्टिचिरा, कुराक्काडा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12178			

208461	प्रदीप कुमार आर. जी.	रविन्द्र आर.	विलायिल विलाकोम वीडू, पल्लम, पुल्लूविला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12646				
208462	प्रधान मोनिका	अदिकाडा प्रधान	टाईप-2 क्वार्टर न० 90, जी.सी.सी.ओ.आर.पी.एफ. कैम्पस, अमरावती, दुर्गापुर-014 बर्द्धमान 713214	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32780				
208463	प्रजापति निखिल	श्री डी.सी. प्रजापति	एस-11/3, पाडव नगर, दिल्ली-92	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	17.08.2020	बीएचएसडी/5699				
208464	प्रजिथा जी.	पी.प्रभाकरन	गान्धिया (हाउस), कोडिक्कुन्नु, पल्लीपुरम पी०ओ०, पात्ताम्बी, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.09.2015	10919				
208465	प्रकाश जय	श्री उमा शंकर	हाउस नंबर डी-228/2, गली नंबर 6, भजनपुरा, दिल्ली-110053	बीएचएमएस	2018	जीवाजी यूनिवर्सिटी	दिल्ली	10.02.2021	बीएचएसडी/5812				
208466	प्रकाश रवि	श्री रात्य नारायण सिंह	202, दूसरा फ्लोर, टाईप-IV, भगवान महावीर हॉस्पिटल, पीतमपुरा, दिल्ली-34	बीएचएमएस	1998	कलकत्ता यूनिवर्सिटी	दिल्ली	22.07.2020	बीएचएसडी/5680				
208467	प्रमाणिक मृनाल काति	मुकुल कृष्णा प्रमाणिक	गाव-मोहनपुर, पी०ओ०-चक्रधन, जिला-पूर्वा मदिनीपुर 721152	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32596				
208468	प्रमाणिक प्रतिमा	गुरुदास प्रमाणिक	98 एन/2, सुरेन सरकार रोड, कोलकाता-700010	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32581				
208469	प्रमाणिक सुमाशोष	गोपाल चंद्र प्रमाणिक	गाव-सतोषपुर, पी०ओ० व पु०स्टे०-कुलपी, जिला-साउथ 24 परगनास 743351	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32619				
208470	प्रनव सी.पी.	प्रमाराज सी.पी.	प्रणवम (हाउस), मोकरी पी०ओ०, पानूर (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11937				
208471	प्रनेश शंकर	श्री टी. शंकर	सैन्मग्राम, वेस्ट गारो हिल्स	बीएचएम. एस.	13.05.2020	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कोलकाता	मेघालय	18.01.2021	501				
208472	प्रसाद प्रिली	रामाश्रेय प्रसाद	आर.ए-2/एफ-1, वार्ड न 98, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास, रगापारा, पी.ओ.- बर्नपुर, जिला- पश्चिम बर्द्धमान 713325	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32456				
208473	प्रसाद प्रिली	रामाश्रेय प्रसाद	आर.ए-2/एफ-1, वार्ड न०-98, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास, रगापारा, पी०ओ०-बुर्नपुर, जिला-पश्चिम बर्द्धमान, वेस्ट बंगाल-713325	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32456				
208474	प्रसाद सौरभ सुमन	कैलाश प्रसाद	ग्राम-बिधान हाई स्कूल, पी०ओ०-बिधान, पु०स्टे०-बिधान, जिला-समरतीपुर, बिहार-848207	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	12.10.2019	33344				
208475	प्रसाथी आर.	एस. राजागोपाल	प्रसाथी, टी.सी. 6/2273, थिरुमाला पी०ओ०, वालियाविला, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	11.07.2016	11346				

208476	प्रसीदा बालाकृष्णन पी.	बालाकृष्णन पी.	पोक्कट हाउस, पाराप्पनागडी पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.04.2016	11243				
208477	प्रसीना पी.	रवि पी.	पुन्नास्सेरी (हाउस), वेट्टोम पी0ओ0, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.10.2016	11547				
208478	प्रसीथ ए.	प्रकाशन ए.	चेट्टीयामथोडिकायिल हाउस, चुडल पी0ओ0, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	19.03.2018	12482				
208479	पराशर पुजा	श्री सतीश कुमार	आर.जेड-ए-97, प्रेम नगर, नजफगढ़ नई दिल्ली-110043	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5673				
208480	प्रशोभ के पी.	प्रभाकरन एम.के.	चालिल पाराम्बथ हाउस, नेटदूर पी0ओ0, धलारसेरी, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.01.2018	12379				
208481	प्रतीक्षा एम.	मधुसूथनन	कुजिविला वीडू, वाक्कोम पी0ओ0, अत्तिगल, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	25.07.2016	11380				
208482	प्रथीश एन पी.	ए.बी. पुरुशन	ओट्टाथेनगिल थरायिल, मुट्टोम पी0ओ0, हरीपड, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	23.02.2017	11766				
208483	प्रतिभा एम.	एस.एस. मोहनन	कैथमुट्टोम, मुनिसिपल स्टैंडियम वार्ड, हेड पोस्ट ऑफिस पी0ओ0, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ0 एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11986				
208484	प्रतिभा पी.	प्रदीपकुमार एस. एल.	पी.पी. हाउस, चिराक्कानी, वेकोड पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.01.2019	12992				
208485	प्रतिभा प्रमाणिक	गुरुदास प्रमाणिक	98एन/2, सुरेन सरकार रोड, कोलकाता-700010	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32581				
208486	प्रवीन कुमार ई.आर.	ई.वी.राघवन	एलीयमबथ हाउस, पाक्कोम पी0ओ0, पुलपल्ली, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकेट यूनिवर्सिटी	केरल	31.01.2016	11058				
208487	प्रविथा थेरायिल सुनील कुमार	टी. सुनील कुमार	थेरायिल हाउस, मूक्कूथाला पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.10.2017	12265				
208488	प्रथि प्रभाकर	प्रभाकरण पिल्लई बी.	लक्ष्मी निलायम, केएनआरडब्ल्यूए-152, मैदामुक्कू, मानाकौड पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.01.2018	12406				
208489	प्रेम दीशाना प्रितम	के.पी. प्रेमकुमार	प्रेम प्रीथ, किजुन्ना पी0ओ0, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12421				
208490	प्रेम कुमार एस.	पी.एस.शिवाकुमार	4-3-1, साउथ गली, पालानीचेट्टोपट्टी थैनी, तमिलनाडु-625531	बीएचएमएस	2013	दा तमिलनाडु डॉ0 एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	24.05.2013	4530				

208491	प्रेमकुमार सी.	सुकुमारन सी.	अक्कलुचलिल हाउस, अली पी०ओ०, मुक्कम (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.11.2018	12944				
208492	प्रेरणा	श्री नरेन्द्र कुमार	आरजेड-बी०१/ए, फेस-II, प्रेम नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी०आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	10.09.2020	बीएचएसडी/5778				
208493	प्रेथी एलेक्साजेडर	एलेक्साजेडर मैथ्यू	पलाविला पुथन वीट्टु, कारावातूर पी०ओ०, पुनातूर, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2008	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	केरल	25.04.2015	10782				
208494	प्रिशा सी पी.	प्रेमराजन चेल्लाथन	प्रियका निवास, थेरुथ माडापुरा के पास, कक्कड पी०ओ०, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	19.11.2015	10959				
208495	प्रिस्टोन जी.	जे गुनामोनी	रोज विलासम, वेगनूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11008				
208496	प्रिया अब्राहम	अब्राहम के.टी.	कुरुथोलायिल (हाउस), पुथुप्पाडी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12199				
208497	प्रिया भानु	श्री हरिओम गुप्ता	आर.जेड-टी-15/230, दयाल पार्क, वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110046	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5677				
208498	प्रिया जोषाफ	जोषाफ के.सी.	कोट्टायिल हाउस, चिट्टारिककल पी०ओ०, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.09.2018	12833				
208499	प्रिया के.ए.	एटो के.ए.	काजीराधिगल हाउस, कुट्टानेल्लूर पी०ओ०, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	06.01.2018	12398				
208500	प्रिया लवली	गौरी शकर शर्मा	सुपुत्री गौरी शकर शर्मा, जैन मंदिर के पास, न्यू एरिया औरंगाबाद, बिहार-824101	बीएचएमएस	2018	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	09.08.2018	32777				
208501	प्रिया थियाम	थियाम अमुबा सिंह	मार्फत आरोबिन्दा सरकार, पुकुर पारा, कुन्डोला, बोरभूम 731234	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32447				
208502	प्रिया टितुस	टितुस थोमस वी. ए	कालारिकलायिल हाउस, कोडिकुथुमाला, अशोकापुरम, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.10.2017	12261				
208503	प्रिया वी.	राजेन्द्रन पी.वी.	वाप्पनथोडी (हाउस), थोहिपालम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	18.09.2017	12208				
208504	प्रियालक्ष्मी प्रकाश पी.	एस प्रेम प्रकाश	6/190, अक्काराकाट्टिल, वायानड रोड, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.12.2018	12982				
208505	प्रियका गनानादास	गनानादास जे.	जया निवास, टी सी 34/365, केजीआरए-45, अरापुरा जकशन, वाट्टीपूरकावू पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11125				

208506	प्रियका जे.	एन. कार्तिकेय	टी.सी. 50/101 (2), के.आर.डब्ल्यू-131, थरानिलायम, कीजाक्कडी लेन, कालाडी, कारामना पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.01.2018	12377				
208507	प्रियका जे.नायर	सी जयापालान नायर	नेलामबरी, वीपी-2, 1389, सानरा (ए-15), थनिनिराम, शकरन नायर रोड, वाट्टाविला, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11010				
208508	प्रियका कृष्णन	के.के. गोपालाकृष्णन	वैलक्काकाथोट्टु हाउस, पेरूमपादन्ना, नॉर्थ पारावूर पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.12.2018	12975				
208509	प्रियका राधाकृष्णन	पी. राधाकृष्णन	कुम्भारापिल्ली हाउस, अन्नानाड पी०ओ०, चलाकुडी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11475				
208510	प्रियका शाजी	पी.पी. शाजी	साबरमथी हाउस, वेलियानाडु पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11634				
208511	प्रियका विजयन	सी.के. विजयन	'सनेहा प्रिया', कोलाक्काट्टूचली पी०ओ०, चेलाम्बरा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.06.2018	12509				
208512	प्रियेश के.	गंगाधरन के.	गणेश भवन, पथेरपदम, कुन्नामगलम, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.11.2018	12929				
208513	पुन्ना मुकेश	राजू पुन्ना	हाउस न० 12-209, आदर्श नगर, आईडीपीएल कॉलोनी, कुतबुल्लापुर, रंगा रेड्डी 500037	बीएचएमएस	2017	डॉ० एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आन्ध्र प्रदेश	तेलांगना	05.01.2018	405/एच/2018				
208514	पुनया के.सी.	भास्करन एम.	कादावेचलिल (हाउस), चेरुवानूर पी०ओ०, मेप्पायूर (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	06.12.2017	12324				
208515	पुरकैत लबोनी	पकज पुरकैत	गाव-रामजीबपुर (के), पी०ओ०-घतेश्वर, साउथ 24 परगनास 743336	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32627				
208516	पुचल भाग्य विनीष	पुचल भ्रामरेश्वर राव	डी.न० 28-1-35/1, देवी चौक, राजहमुद्री, ईस्ट गोदावरी जिला आन्ध्र प्रदेश-533101	बीएचएमएस	2018	डॉ० एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	17.07.2018	8478/एच/2018				
208517	पुडुइला	लानुटेम्जेन	हाउस न० 37 ब्लॉक-2 यूनिटी गाव पाचवा माईल दिमापुर नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2020	श्रीमता शकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस गुवाहाटी असम	नागालैण्ड	27.01.2020	124				
208518	पयन्हुत्तग जपाग	श्री आर. बिद्या	न्यू मजाई, भोलागज, ईस्ट खासी हिल्स	बी.एच.एम. एस.	04.01.2021	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	18.01.2021	502				
208519	मिनत्वौत-आई-दिलाग रिन्नाखलेम	श्री एस. रयमबाई	वापुन्ग सकुर लाड रयम्बाई ईस्ट जैनतिया हिल्स	बी.एच.एम. एस.	01.01.2021	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	08.03.2021	508				
208520	काजी जफ़ीर अहमद	काजी नसीम अहमद	हाउस-50, ग्राम-सिकातीया, पोस्ट-खुरवासिया, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश-274703	बीएचएमएस	2012	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	महाराष्ट्र	05.02.2013	58302				

208521	आर. धाराकृष्णा	ए.एम. राधाकृष्णन नायर	माजावानूर (हाउस), कुदामालूर पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.09.2018	12815				
208522	आर. विष्णुकर्षन	पी. रवि	मुर्गिगाडियल, अथला, कोल्लनगाना, कालाकट्टा पी०ओ०, विद्यानगर (वाया), जिला—कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13305				
208523	आर.टी.शाजी कुमार	श्री रामा कृष्णन जी	प्रोपटी नंबर 28, उपरी जीएफ स्ट्रीट नंबर 1 रायपुर खुर्द एक्सटेशन दिल्ली-110068	बीएचएमएस	1994	मंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटक	दिल्ली	19.01.2021	बीएचएसडी/5808				
208524	राबीहा के.	जुबैर के.	कोजिककल हाउस, चेम्माड, तिरुवरुडी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	02.05.2016	11263				
208525	रचना सी	चद्रन के.एम.	कार्थिका, नट्टुकल पी०ओ०, चित्तूर, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11317				
208526	रचिता कुमार	पवन कुमार	ग्राम—मुबारकपुर कैम्प, तहसील—डेरा बरसी, जिला—एस.एस. नगर (मोहाली) पंजाब 140201	बीएचएमएस	2020	पंजाब यूनिवर्सिटी	पंजाब	06.07.2020	4346—ए				
208527	राधिका भट्ट वी. आर.	के.एन.राजन	वृंदावन, 749 सी/34, कन्नानथोदथ रोड, एडाप्पल्ली पी०ओ०, कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11167				
208528	राधिका मेगोन	आई. गोपीनाथन	कुट्टीक्कट माधोम, नाराक्कल पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12737				
208529	राधिका पी.	गोपालाकृष्णन पी.	पालामन्ना (हाउस), थिरुविजामकुन्नु पी०ओ०, अलानाल्लूर (वाया), जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.04.2017	11859				
208530	राघु राधाकृष्णन	टी.के. राधाकृष्णन	पाइनुमविलायिल नदनम, पाजाकुलम पी०ओ०, आडोर, जिला—पथनमथित्ता, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	08.06.2016	11299				
208531	रफा बासनी के.के.	कोयाकुट्टी	साबनी महल (कीपुरथ), थोट्टमुघम पी०ओ०, अत्वा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12241				
208532	रफीदा के.टी.	इसमाईल के.टी.	चिजू हाउस, इरुवेट्टी, थोडिलगडी पी०ओ०, एरियाकोड (वाया) जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.12.2017	12340				
208533	रफीक एफ.	फजिलुदीन बी.	शामना मजिल, कॉलेज बाई, चेम्मानथूर, पुनालूर, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.09.2017	12253				
208534	राफिया ए.	एम. अयूब जन	50/41 नोर्थ गली, पेशान लेन, लेन मेडु, सालेम जिला, तमिलनाडु-636006	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	19.02.2020	6757				
208535	राफिया एन.वी.	अब्दुल रहमान एन.वी.	नाचुवीट्टिल हाउस, कचिरामुक्कू पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.04.2016	11260				

208536	राफिया पी.आर.	रशीद पी.एम.	पेरोथ हाउस, कैपामगलम पी०ओ०, वाजियामबालम, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.01.2018	12374				
208537	राफसीना	मोहम्मद	वानारथ (हाउस), काक्कामवेल्लो, नाडापुरम पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	13.07.2017	11981				
208538	रागम आर.	जी. रवीन्द्रन	बी.आर. भवन, अदिचनल्लूर पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12754				
208539	रागेश वी.	विष्णु जी.	सारदा मारिराम, कायलवारथु वीडू, टेनरा-81, थवल्ली पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.08.2017	12073				
208540	रागथ बशीर के.	अब्दुल बशीर के.	किजिसैरी हाउस, उधारामपोयिल, पुल्लनगोड पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	09.03.2017	11790				
208541	रहमान अफ्रिदा	वालियूर रहमान	गाव व पी०ओ० व पु०स्टे०—कुशमडी, जिला—साउथ दिनाजपुर 733132	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32631				
208542	रहीमा के.	सैथलावी के.	कोट्टावकल (हाउस), वालियाकदम, कुमिली पी०ओ०, पीरुमाडे, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.02.2016	11100				
208543	रहमान एम.	मोहम्मद अब्दु रहमान एम.	मुडेकट्ट हाउस, कोट्ट, अलीचुवाडु, तिरूर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.03.2019	13075				
208544	रहमथ बीबी पी.	इम्बिकोया थगल	राहमथ मजिल, कारयावाट्टोम, मान्नारमाला पी०ओ०, पत्तोक्काडू वाया, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11652				
208545	राहना के.के.	अब्दु रहमान के. के.	कुन्मल कोट्टाथोडियल हाउस, चिरायिल पी०ओ०, कोडोटी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	13004				
208546	राहना एन.ए.	अबुबक्कर एन.के.	नालाकट हाउस, एरुमापट्टी पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.03.2017	11812				
208547	राहसीमा के.	सूपीकुट्टी	कोराचिकडियल, पेरुडे पी०ओ०, नदापुरम वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.07.2016	11305				
208548	राहुल आर.	एस. राजीव	बृदावनम, चेरुमूडू, वेल्लोमोन पी०ओ०, कुदरा, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11168				
208549	राय स्नेहा	श्री रमेश चन्द	ए-901, हैपी होम अपार्टमेंट्स, प्लॉट न० 12ए, सैक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5757				
208550	रैनु एन.एल.	एन.पी. लॉरेन्स	नादुविकुन्नाथ (हाउस), वल्लारपडोम पी०ओ०, पानंबुकाडु, कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11154				

208551	राज प्रक्ष ए.वी.	एस विद्या प्रकाश	अक्काराकालि हाउस, सिविल स्टेशन पी०ओ०, वयानाड रोड, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	30.08.2016	11456				
208552	राजालक्ष्मी ओ.यू.	ओ एन. उन्नी	थेक्कीन्नाम कुलगारा, पल्लूरुथी, कोची, जिला—एनाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11281				
208553	राजाराम एन.के.	नारायणन नायर के.	बालाकृष्णलायम, वेल्लामपुरम साउथ, करुड पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.03.2016	11182				
208554	राजाश्री नांबियार	पी. रावीन्द्रन	श्रीचिथम, थेक्कील पी०ओ०, वेगला वाया, जिला—कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	25.07.2016	11369				
208555	राजेश आर.एस.	राजारतनम पी.	रतना भवन, पलाकला, चेकल पी०ओ०, अमराविला, नेयात्तीनकारा, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11004				
208556	राजिला पी.	राधाकृष्णन ई.	प्रसन्नानिवास, पोल्ताकडा, हरीपुरम पी०ओ०, जिला—कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2018	12634				
208557	राजीमोल के.एस.	के.जी. सुरेश	काट्टाकालिल (हाउस), चथुरगापापा पी०ओ०, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11121				
208558	राजिशा के.आर.	के. रामाचद्रन	कुन्नाथ हाउस, मूथेदम पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10841				
208559	राजीश पी.	राधाकृष्णन सी.एम.	पोनामबिली हाउस, मनियत पी०ओ०, त्रिकारीपुर वाया, जिला—कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	18.02.2016	11099				
208560	राजिशा रामाचद्रन	रामाचद्रन वी.	वडाक्करथ हाउस, वडाक्कुमबाड, चेरुवाथुर पी०ओ०, जिला—कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11938				
208561	रजनैश कुमार राजा	केशो महतो	ग्राम—मीरबिधा, पोस्ट—चाकवे, पु०स्टे०—वारिसालीगज, जिला—नवादाह, बिहार—805130	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	03.09.2019	33140				
208562	राजपाल शिखा	प्रेम कुमार राजपाल	एफ—19/2 शाम नगर, ख्याला रोड, नई दिल्ली—110018	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	03.06.2019	बीएचएसडी/5518				
208563	राजपुरोहित मीनाक्षी	मधार सिंह राजपुरोहित	1/6, वार्ड न० 26, आवरी माला कच्ची बरती, उदयपुर, राजस्थान—313001	बीएचएमएस	2019	जनार्दन राय नागर राजस्थान डी०डू यूनिवर्सिटी, राजस्थान	राजस्थान	09.07.2019	8462				
208564	राजुला एन.	अब्दुल लथीफ	नारगोली (हाउस), किनालूर पी०ओ०, बालूससेरी वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11622				
208565	राजो पी.	नाम्बूथोडियिल राघवन	लक्ष्मी निवास (एच), पाथिरियाल पी०ओ०, मजेरी वाया, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10989				

208566	राखी राज	राजकुमार बी	नावामालिका, वेल्तापल्ली, नारुवामूडू पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	25.07.2016	11379				
208567	रालत लाधगलियाना	रोसगजुयला रालत	माफत चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01. पी०ओ०—सेनथिया, जिला—बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अप्रैल—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	30.05.2019	32541				
208568	राम चंद लाल सी पी	प्यारेलाल टी सी	चंद्र विहार (हाउस), पूथोन्ना पी०ओ०, उदयमपेरूर, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.06.2018	12566				
208569	रमीस ए. रहमान सी के.	अब्दुरहीमान सी के.	प्रथीक्षा (हाउस), थोदानूर पी०ओ०, वडाकारा वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	31.01.2016	11059				
208570	रामगोपाल	हरवीर	गाव व पोस्ट—बाटी, जिला—मथुरा, उत्तर प्रदेश—281004	बीएचएमएस	2019	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	05.12.2019	एच०३८८८५१				
208571	रमिशा रमेश एम.पी	रमेश कुमार पी	सुक्रीथम (एच), कुतिमाकूल, थिरुवगड पी०ओ०, थालारसेरी, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10940				
208572	रमीज इब्राहिम	इब्राहिम पी टी	थिरिक्कोट्टु थोदिकायिल हाउस, मावूर पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11331				
208573	रामलाथुल शना	यूसुफ अब्दुल्ला	अल—बुधारा हाउस, पैवालिके पी०ओ०, उम्पला, जिला—कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2018	12777				
208574	रामसीना एम.वी	रायिकुट्टी एम.वी	मोयालथ वालापील (हाउस), पोलपाक्कारा पी०ओ०, पोथनूर, कालाडी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12382				
208575	राणा अभिजीत	बिमल प्रसाद राणा	पटनाबाजार, पी०ओ०—मिदनापोर, जिला—पश्चिम मेदिनीपुर 721101	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32639				
208576	रसी ए.	अब्दुल रहमान एम.	रेशमी मजिल, मालाक्कल पी०ओ०, माडावूर, पाल्लिकल, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12791				
208577	रनीस वी.ए.	नजर वी.के.	वडक्कुमपुरथ हाउस, एडवनाकड पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11061				
208578	रानी चेरियन	चेरियन	मादुक्काकुडी (हाउस), पल्लीकुन्नू पी०ओ०, कालपेट्टा, जिला—वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12745				
208579	रजौनी के. राजन	के. राजन	रजनी हाउस, कुथाप्पडी टैपल रोड, थम्मानाम पी०ओ०, कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11502				
208580	रजुशा ए.	राजन ए.	अबुहिक्काट्टु पारम्बील, वजाक्कड, चेरुवायूर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12809				

208581	रजुशा वी.	रामाचद्रन वी.	वाजदन हाउस, कारुलाई पी०ओ०, निलांबूर रोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.09.2017	12252				
208582	राशा ई.सी.	अब्दुल करीम ई. सी.	पराम्बोल हाउस, मुचाकुलम, कूट्टिलगडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12883				
208583	रशीख मुन्तास पी.	साईडालवी	पाराम्मल हाउस, वालियारा पी०ओ०, वेगारा वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10998				
208584	रशीदा सी.	अब्दुल अजीज	चेलत्त (हाउस), निरामारुथुर पी०ओ०, तिरुर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11065				
208585	रशिदा के.	हाशिम के.	कुट्टियील (हाउस), मुचुकुन् पी०ओ०, कोयिलडी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	केरल	03.09.2018	12783				
208586	राशिधा पी.के.	अब्दुल रशीद	पाराक्काडन (हाउस), चेरुमानू, एडावान्ना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12028				
208587	रसिना फरसथ के. पी.	अब्दुल मजीद के. पी.	समीना मजिल, वायलकुडिरसरी, कोडिनात्तुमुक्कु, ओलावन्ना पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	18.08.2015	10905				
208588	रसिया एस.	एम. अब्दुल सथार	रियास मजिल, कुराकोड, नेडुमगड पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	केरल	05.10.2018	12868				
208589	रारलीफा एन.	फिरोज एन.	नावाथ (हाउस), पुराक्कड पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	केरल	05.08.2017	12103				
208590	ररिमता ई.	शकरानारायणन ई.	एलादथ हाउस, एलाद पी०ओ०, चेरुकारा वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12705				
208591	रस्तोगी रस्तुति	श्री राजीव रस्तोगी	ए-703, स्वामी दयानंद अपार्टमेंट, फ्लॉट नंबर 5, सेक्टर-6, द्वारका, नई दिल्ली-110075	बीएचएमएस	2019	डॉ० एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	दिल्ली	14.12.2020	बीएचएसडी/5791				
208592	राठी शीतल	श्री सुनील राठी	हाउस न० 335, ग्राउड फ्लोर, परमानन्द कॉलोनी, मुखर्जी नगर के पास, दिल्ली-110009	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5743				
208593	राठीर दीपक	श्री अमृत लाल राठीर	जे. बी-2/9, 10 वेलकम सीलमपुर फेज-III, दिल्ली-110053	बीएचएमएस	2018	बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल	दिल्ली	22.10.2020	बीएचएसडी/5788				
208594	राडू एन. रवि	रविन्द्रन एन.	नारुकुन्नाथ अरथ भवन, मलिका, अम्बालावायल पी०ओ०, नेमेनी, अम्बालावायल, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12735				
208595	रौजा	श्री मुन्ना	हाउस न० 1148, बुरियल, यू टी चण्डीगढ़	बीएचएमएस	06.02.2019	पजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	यू टी चण्डीगढ़	21.07.2020	263-ए				

208596	रवीना रवीन्द्रन टी	रविन्द्रन धरिप्पाला	शांति निलायम हाउस, मान्नाथिपोयिल पी०ओ०, पूक्कूड उम्पादम, अमरामबालम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12947				
208597	रवि प्रकाश	बुदो लाल	गाव व पोस्ट व पु०स्टे०-नागरनौरा, जिला-नालदा, बिहार-801305	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	03.09.2019	33137				
208598	रावत वैशाली	श्री लखपत सिंह रावत	सी-1/79-बी, केशव पुरम, लॉरेस रोड, नई दिल्ली-110035	बीएचएमएस	2019	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5662				
208599	रायना पी.पी.	अली पी.पी.	पदिनजारापल्ला (हाउस), पयानादम पी०ओ०, मन्नारक्कड कॉलेज (वाया), जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12648				
208600	राजीना सलाम ए.	एम. अब्दुल सलाम	धदाथिल हाउस, एमवीआरए (ए-33), वाट्टियूरकावू पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12390				
208601	रेबा चेरुवोथ	राघवन सी.	चेरुवोथ (हाउस), विल्लियापल्ली पी०ओ०, वाटाकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	17.01.2017	11685				
208602	रेबाडलिनै सियागसाइ	श्री एस. रोमबाई	वपुन्नासकुर पोस्ट लाइमबाई ईस्ट जैनतिया हिल्स	बीएचएमएस	18.08.2020	श्रीमन्ता शकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, असम	मैघालय	22.09.2020	485				
208603	रीना	श्री ओम हरि	ए-93, शिव एन्क्लेव, विकास नगर उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	18.12.2020	बीएचएसडी/5798				
208604	रीनिज इमैनुएल	मैथ्यू	अयकरामाट्टम (हाउस), चेरुकाट्टूर पी०ओ०, पानमाराम, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2018	12606				
208605	रेशमा पी.	परमेश्वरन पी.	पानाक्कल (हाउस), पूक्कोट्टूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कातीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10988				
208606	रीथू एम.आर.	रविन्द्रन	मदाथिपाराभिल हाउस, मत्ताथुर पी०ओ०, इधुपदम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	05.04.2016	11210				
208607	रेहाना लोहिधक्षण	लोहिधक्षण	नेडुमपुल्ली हाउस, अलागाप्पा नगर, काल्त्तूर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.11.2018	12927				
208608	रहमान शबनम	श्री एस.एम. रहमान	9-ए, गौतम नगर, नई दिल्ली-49	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5771				
208609	रेजा थरीफ के.	हामजा कुनाथ	कुनाथ हाउस, चेरियम, कूत्तिल पी०ओ०, मकाडा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11037				
208610	रेजुला थयालागथ	थयालागथ अब्दुल रहमान	आयशा मजिल हाउस, नाडापुरम रोड, माडापल्ली कॉलेज पी०ओ०, वाटाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	15.02.2019	13021				

208611	रेखा आई	पुरुषोत्तमन आई	श्रीरागम (हाउस), पथापीरियम पी०ओ०, कारुवमपुरम (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12695				
208612	रेखा के.आर.	के.बी. राजेन्द्रन	कोथापराम्बू निकथ, पट्टानाकड पी०ओ०, चेरथाला, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12716				
208613	रेमिमा धर	श्री एस. लमारे	चियाहरूफी, ईस्ट जैनातिया हिल्स	बीएचएम. एस.	21.10.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मेघालय	11.11.2020	493				
208614	रेमिशा टी.	मोहनन टी.	मादाथुम कदियिल हाउस, पानूर पी०ओ०, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11632				
208615	रेमया बी.एस.	बालाकृष्णन	वारुविलाकाथु वीडू, मगलाथुकोनम, कट्टाचलकुजी पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.03.2017	11827				
208616	रेमया दास पी.	के.पी.रामादास	पुन्नाक्काट्टु पाराम्बू, कुमारापुरम, एजुपुन्ना पी०ओ०, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11236				
208617	रेमया के.बी.	के.पी. बाबू	सौराभ्यम, कूलिपाराम्बोल (हाउस), निरामारुथुर पी०ओ०, तिरूर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12347				
208618	रेमया आर.	वीज्योतिरभास	जे.आर. निवास, जनथा रोड, चेम्पाज़थो पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11915				
208619	रेमया आर.आर.	के. राजन अचारी	रेजनी रेमया, अम्बालामुक्कू, वामानापुरम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2016	11308				
208620	रेमया राज पी.आर.	राज कुमार पी.	सोवरेमया, मलायम पी०ओ०, तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11735				
208621	रेमया एस.	टी. सेलन	एस.एस.निवास, पुथेनकनम, कट्टाचलकुजी पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.03.2017	11824				
208622	रेमया वघेस	एम.टी. वघेस	अडोरेशन कोवेट, साउथ कालामारसेरी, थिक्काकारा नोर्थ (पाट), राजागिरी, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.07.2017	11985				
208623	रेनजिमा पी. मैथ्यू	मैथ्यू	पालाट्टू (हाउस), चित्ताखिकल पी०ओ०, जिला—कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12750				
208624	रजोत आर.	टी.एन. राधाकृष्णन नायर	सेविधम, शक्ति नगर—66, टी.के.एम.सी पी०ओ०, कारीकोडू, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	19.10.2016	11564				
208625	रेणुका एम.वी.	वेणुगोपाल एम. एस.	मुथलम चिरा हाउस, चेलाक्कोड पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11527				

208626	रेन्या के बी	बाबू के पी	हर्षम, रागी पब्लिक स्कूल के पास, चोरोड पी०ओ०, वाडाकारा, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13287				
208627	रेशा मुदोदन	मोहम्मद अशरफ एम	निजामुद्दीन मजिल, वेस्ट पथानापुरम, किजुपरम्बा पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.03.2017	11813				
208628	रेशमा ए. रहीम	अब्दुल रहीम काट्टू	फाथिमा मजिल, फायर स्टेशन रोड, पोन्नानी साउथ पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12591				
208629	रेशमा बी.आर.	रेमानन एस.	टी.सी. 31/1036, चद्रमथी निलायम, (एवीआरए 11-0), पेट्टाह, पेट्टाह पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.01.2018	12427				
208630	रेशमा दास	ए.जी. हरिदास	पलाथनाथु हाउस, पूवाथुरुथ पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.08.2018	12761				
208631	रेशमा फसल	मोहम्मद फसल हक	वाडाकी वीटिल, आमरा-79, काक्कनड पी०ओ०, कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.02.2017	11741				
208632	रेशमा जोश	जोश वी. थॉमस	उषा भवन (हाउस) पुलिकुन्नू पी०ओ०, जिला—अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13139				
208633	रेशमा के.ए.	मोहनन पी.सी.	मोहनम, केरल वाटर ऑथोरिटी के पास, थिकुलम, तिरुरागडी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	10.12.2015	10965				
208634	रेशमा के.जे.	जॉनसन के.सी.	थाडिक्करन हाउस, थालोर पी०ओ०, जिला—थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10819				
208635	रेशमा के.पी.	रामाकृष्णन के.पी.	कन्नीपुथिल लक्ष्म वीडू, पराम्बा पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.03.2016	11189				
208636	रेशमा के.एस.	साथयन के.एन.	पेरुम्बापराम्बील (हाउस), कादुगामगलम पी०ओ०, थिरुवकुलम, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.04.2017	11840				
208637	रेशमा के.एस.	सुदेवन के.के.	कोन्नायथ हाउस, वेल्लारोड, मनकारा पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12104				
208638	रेशमा कुमारी रॉय आमत्या	प्रफुल्ल कुमार शर्मा	वार्ड न०-07, घुआबै, धैयावा, भागलपुर, बिहार-813204	बीएचएमएस	2017	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	20.03.2017	32192				
208639	रेशमा एम.	ई.के. मधुसुदनन	मधुरिमा, सूर्या नगर, अकाथेथारा, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.06.2019	13182				
208640	रेशमा एम. नायर	एम.वी. मुरलीधरन नायर	आनदम, मुरियामगलम, मामला पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	30.11.2016	11613				
208641	रेशमा एम. आर.	के.के. मुरलीधरन	कैलासम (हाउस), तिरुवचूर पी०ओ०, जिला—कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	08.02.2017	11718				

208642	रेशमा एम.आर.	रवीन्द्रन एम.एस.	महेश्वरम (हाउस), वातियाट्टिपरम्बु, पुथुकुडी, मजेरो पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.07.2017	11911			
208643	रेशमा नदानन	एम.के. नदानन	मेलामकुञ्जियिल (हाउस), मोनापिल्ली (कारा), पुधेनकूज पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.03.2016	11175			
208644	रेशमा पी.	सुरेश पी.	पुथुमाना (हाउस), थचिगनादम पी०ओ०, पट्टीक्कड वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.04.2017	11844			
208645	रेशमा पी. गुप्ता	हरीहरण	श्री येसोध (हाउस), चल्लीक्कल कोगड पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.12.2017	12335			
208646	रेशमा राधाकृष्णन	एन.राधाकृष्णन	श्रीवलसम, पुधनथारा, चित्तीलामचेरी पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10785			
208647	रेशमा रूद्रन पी.एम.	रूद्रन नामबूदिरि पी.एम.	पारामल माना हाउस, वेस्ट नाडा, काडावाल्लूर पी०ओ०, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.05.2019	13115			
208648	रेशमा शशिधरन पी.	शशिधरन पी.	नाम्बोडिमन्नु निलम, वाडाकेवायल, कन्नादिककल, वेगेरी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10895			
208649	रेशमा श्रीजिथ	श्रीजिथ कुमार डी	गीताजली, सिवापुरम, पाराकुन्नू पी०ओ०, नावैकुलम, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11960			
208650	रेशमा थेरेसा जोश	के.के.जोश	कायलाथोडियिल हाउस, मूदाक्कोल्ली पी०ओ०, सुलतान बाधेरी, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.08.2015	10898			
208651	रेशमा वी.	विजयन सी.	गीताजली, थयकाडू, पिराप्पकोड पी०ओ०, वेजारामूडू, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.10.2016	11540			
208652	रेशमा वी.एस. मोहन	विजया मोहन टी. सी.	चद्रोदयम, पोगिल, मुल्लुविला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11962			
208653	रेशम एम.	चित्राकरण एम.	माननथराविल (हाउस), मालापराम्बा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	25.10.2017	12284			
208654	रश्मि पी.	शशिधरन पी.ए.	रिमथा निवास, मालायाम्मा पी०ओ०, एनआईटी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	02.07.2015	10862			
208655	रश्मि वी.आर.	वी.एस. रवीन्द्रन	वालियाकुलाधिकल हाउस, मन्नाम पी०ओ०, मक्कानाई, नोर्थ पारावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10815			
208656	रश्मि जे.	एस. आनदानारायणन	नारायनीयम बीएन-87, पोनुमूडू, मेडिकल कॉलेज, पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10948			

208657	रेवन बी.एल.	बसवाराज पी लामबुनावर	श्री रामनगर, मुचिथल, जेआईएमएस हॉस्पिटल, पालामुकुला पोस्ट, रगारेडुडी, तेलंगाना-509325	बीएचएमएस	2005	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	कर्नाटक	22.08.2005	ए-8454			
208658	रेवती रवि कुमार	रवि कुमार टी.	पेरुम्बुलाविल हाउस, त्रिथला पीओओ, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13185			
208659	रेवथी रविन्द्रन एन.	रविन्द्रन एन.	नाम्मीली हाउस, कोदनड, विद्यामदम, त्रिथाला जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12688			
208660	रेवथी टी.आर.	टी.के. राजेद्र कुमार	धुरुथिपल्लिल इल्लोम, पुलियानूर पीओओ, पाला, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11590			
208661	रेवथी जे.	अनिल कुमार एम.	रेवथी, थेगोलिल वीडू, थिरुमुल्लावरम पीओओ, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11163			
208662	रेवथी के.वी.	विश्वाम्बरन के.के.	कोचू पोलायिल, पोलीथाई पीओओ, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11063			
208663	रेवथी रमेश के.	रमेश पी.	पार्वती हाउस, बेलीकोट, अजानूर पीओओ, काहानगड, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.09.2018	12835			
208664	रेवथी टी.एच.	हरीदास टी.सी.	थडियगट्टील हाउस, चवाक्कड पीओओ, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.11.2016	11584			
208665	रेया टी.	दामोदरन टी.	श्री रागम (एच), पान्नीयूरकुलम पथीराकावू पीओओ, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.07.2015	10887			
208666	रंजिमोल आर.एच.	अब्दुल रहोम	वायाल्लिल पुथन वीडू, किलिकोल्लूर पीओओ, यूनिवर्सल नगर 98, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.11.2017	12296			
208667	रिया रॉय	रॉय थॉमस ए.	अक्कानाथ हाउस, अलगड पीओओ, अत्वा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल	केरल	17.12.2018	12985			
208668	रिफना गफूर	अब्दुल गफूर के.ए.	कदमबोट हाउस, केएसआरए-62 ए, कालूर, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.01.2018	12466			
208669	रिहाजन्मी सुसन्नी	श्री बाई. पडे	अपर, चुटवाखु, वेस्ट जैनतिया हिल्स	बी.एच.एम.एस.	16.02.2021	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	19.03.2021	510			
208670	रिजा मागा	मागा तेरी	गर्लस हॉस्टल, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जीसी-ब्लॉक, सेक्टर-III, साल्ट लेक, कोलकाता-700106	बीएचएमएस	जुलाई-2008	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	वेस्ट बंगाल	04.01.2016	30970			
208671	रिलाफा वी.एम.	मोहम्मद	वट्टापिल्लील हाउस, मादावना पीओओ, इरियाड, कोडुगल्लूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.05.2017	11866			

208672	रिमशोना रशीद एस.	एस.अब्दुल रशीद	सूर्या मजिल, थेकिकोड रोड, पेरिथलमन्ना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	06.07.2017	11913				
208673	रिना सी.पी.	कुहाहम्मद के.	हलाम, थायिब मजिल (हाउस), कोरोथ रोड, अजियूर पी०ओ०, वडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	29.06.2017	11907				
208674	रिसी मुसना पी.	मुस्तफा पारोकोट	पारोकोट हाउस, कारियावाट्टोम, मान्नारमाला पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.12.2016	11633				
208675	रिनी एस. राजू	राजू बी.	काला निवास, पोवरासमिदी रोड, थलायल, अरालूमूडे पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12393				
208676	रिनी वार्धस	वार्धस	जैमाथा अडोरेशन प्रोविशियल हाउस, मारियापुरम पी०ओ०, कुथिराकाल्लू, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.10.2016	11530				
208677	रिनिशाह सी.एस.	सी.ए. शौकत अली	कोलपारांबील हाउस, कत्तूर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2013	डॉ० एनटी.आर. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आंध्र प्रदेश	केरल	05.10.2016	11516				
208678	रिजू पी.	बाबाकुट्टी पी.	पनानगुरम्मल (हाउस), कोनोट पी०ओ०, कुन्नामगलम, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.07.2017	11966				
208679	रिक्मोल आर.आर.	रवीन्द्रन जी.	पी.के.जी. निवास, चानी, कजीरामकुलम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.09.2018	12821				
208680	रिसा एम. जोषा	जोषा एम.जे.	मुडोतिककल हाउस, वायात्तुपारांबा पी०ओ०, वेल्लड, नाडुविल (वाया), जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.07.2015	10875				
208681	रिसिया एम.	अब्दु रहीम मुदाक्कोदन	मुदाक्कोडन हाउस, कौरामकुडू, कूतिलगडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.05.2017	11888				
208682	रिसी अली पी.	अली पी.	पल्लीयाली हाउस, डिपो निलम्बूर के पास, निलम्बूर आर.एस., जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12164				
208683	रिन् रशीद एन.सी.	रशीद एन.सी.	अम्बालापुसयिल (हाउस), कान्नादिककल, वेगेरी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	17.09.2018	12838				
208684	रिशाद एन.एम.	मोहम्मद एन.	नीलगदान (हाउस), मायलडी, इराहिमगड पी०ओ०, निलम्बूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.08.2017	12111				
208685	रिशाना रशीद	रशीद पी.एम.	चलुम्कदाथिल हाउस, थेक्काट्टुकारा पी०ओ०, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13025				
208686	रिथिक रविन्द्रन	रविन्द्रन के.	रोहिनी, पचल्लूर पी०ओ०, टी.सी. 68/1165, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.12.2017	12327				

208687	रिया	तरसीम लाल	1340/1, प्रेम वालेचा रेजीडेंस के पास, धाना बाजार, जलालाबाद (वेस्ट), जिला-फजिल्का, पंजाब-152024	बीएचएमएस	2019	गुरू रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब, होशियारपुर	पंजाब	12.07.2019	4234-ए			
208688	रिया राजन	राजन टी.पी.	कुजिककाट्टूर, साचिवांधामापुरम, पी०ओ० कुरिची, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.09.2017	12214			
208689	रिजवा शिरिन के.	मोहम्मद बशीर के.	कुवाप्पाराम्बोल हाउस, थेक्कूमूरी पी०ओ०, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.11.2017	12318			
208690	रिजवान अब्दुल रशीद टी.टी.	अब्दुराशीद टी.टी.	रिजवान टॉवर, तिरुरागडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12206			
208691	रोहिनी ए.	सुधाकरन के.	चैथराम, पाचाट्टिरी पी०ओ०, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2019	13214			
208692	रोहित पी.एस.	साथयान के.	श्री विलासमादिराम, मुल्लूविला पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11980			
208693	रोहित पी.सी.	रमनकुट्टी	के.वी. हाउस, कूरारा पी०ओ०, चम्पद वाया, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11092			
208694	रोहन रेहान सबीर	सादेकुल इस्लाम	गाव-माथुरी, पी०ओ०-धलहारा, जिला-पूर्वा मेदिनीपुर 721636	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32479			
208695	रोनी फरकसान लयग्दोह	श्री एस सगरियाग	नॉनस्टोन वेस्ट खारसी हिल्स	बीएच.एम. एस.	22.04.2020	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बेगलोर	मेघालय	01.07.2020	477			
208696	रूपा सुकुमार	के.ए. सुकुमारन	नादाक्कल हाउस, आरूर पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	26.07.2017	12041			
208697	रूपा वी.वी.	वेलायुधन वी.एन.	वैलाप्पल्ली हाउस, एडाथिरुथी पी०ओ०, जिला-थिरुसूर, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	16.11.2015	10957			
208698	रोजमैरी जोशाफ एम.	जोसेफ एम.जे.	मुथलाकुन्नियिल (हाउस), पुलिकुरुम्बा पी०ओ०, नाडुविल (वाया), जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13260			
208699	रोशिन एम. बशीर	बशीर	कादाथिल पराम्बोल (हाउस), केपुजा पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2017	12079			
208700	रोशामिन बशीर	के.एस. मोहम्मद बशीर	कैथपोलायिल, सिविल स्टेशन वार्ड, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.07.2016	11302			
208701	रोशनी के.	मोहन के.	श्री सरावना माथुका नगर, हाउस नं० 22, उलियाकोविल पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11293			
208702	रोशनी के.पी.	कुन्हान के.पी.	काट्टूपुथूर हाउस, नोर्थ बेयपोर, थाम्बो रोड, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12158			

208703	रोसिलीन जॉन	जॉन मथाई	पत्तीवाडाकेथिल एजल कॉटेज, किजाक्केकारा, कोट्टराकारा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.04.2017	11834				
208704	रोरामीन थॉमस	के.जे. थॉमस	कुरिकेल्मकाट्टु (हाउस), नेल्लिकुट्टी पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13286				
208705	रोरामी वर्घस	वर्घस पी.वी.	एम.एस.जे. निर्मला प्रोविशियलेट, एरुमाथला पी०ओ०, चुनागमवेली, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2018	12632				
208706	रोशनी के. सनी	सनी के.जे.	कुट्टिककादन हाउस, नाट्टिका पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.09.2018	12840				
208707	रोवेना जुही ए.एल.	एड्वोस एम. फर्नांडेज	बोउ-गैन-विली, कारीचल, काजुवूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2019	13292				
208708	रॉय प्रबोेर कुमार	जोगेन सीएच. रॉय	श्री नगर कॉलोनी, दाबग्राम, भक्तिनगर, जिला-जलपाईगुडी 734015	बीएचएमएस	जनवरी-2015	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.01.2015	30892				
208709	रॉय शालिनी	समीर कुमार रॉय	सुपुत्री समीर कुमार रॉय, गाव व पो०ओ०-पायेर, जिला-बीरभूम, पिन-731214	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32465				
208710	रॉय सौमिक रूद्र	सुबोेर रूद्र रॉय	1 काली चरण घोष रोड, बारानगर, सिधे, नोर्थ 24 परगनास 700050	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32762				
208711	रॉय उषाश्री	हीरालाल रॉय	8/3, एस.के. देब रोड, पहली बाय लेन, बालाजी अपार्टमेंट, पी०ओ०-श्रीभूमि, जिला-नोर्थ 24 परगनास 700048	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32481				
208712	रॉयचौधरी देवरपन	डॉ. आशोष कुमार रोएचौधरी	14/2, फकीर पारा रोड, बेहाला, कोलकाता-700034	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32463				
208713	रुबीना ए.सी.	अन्दुल्ला ए.सी.	अरीक्कट्ट चोलाथोडुविल (हाउस), पेरुवाल्तूर पी०ओ०, कोडोट्टी (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12105				
208714	रुबीना के.पी.	इब्रायी के.पी.	कोवुपुरथ (एच), अवादुक्का पो.ओ., पेरुवानामुञ्जी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	10.04.2015	10778				
208715	रुबीना एम.	एम.एम. थाहा	रसीम मजिल, कारुकोन, आचल पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12587				
208716	रुबीना मुमताज पी. ए.	अबुबक्कर पारायिल	पारायिल हाउस, यूडीएमए पी०ओ०, जिला-कासारागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12167				
208717	रुबिनामोल वी.ए.	वी.ए. आरसीस	वानियापुरायिल (हाउस), एडावेट्टी पी०ओ०, थोडुपुञ्जा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.10.2017	12272				

208718	रुबी अमीना टी.के.	अबूबकर टी.के.	फजर (हाउस), इरावानूर पी०ओ०, नारिकुनी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13193			
208719	रुगमा उदयान	उदयाकुमार वी. आर.	वाजाथरा (हाउस), पनामबुकड, वाल्लारपदम पी०ओ०, जिला-एनांकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.09.2018	12825			
208720	रुकसीना एम.सी.	अब्दुल रहमान एम.सी.	कोयापराम्बथ (हाउस), माडावूर पी०ओ०, नारिकुनी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	13.02.2017	11743			
208721	रुक्षना ए.	अब्दुल रहीम एन.	फहाद मजिल, मानाप्यादम पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12235			
208722	रुमाना वी.पी.	आमीर अली वी. पी.	अरहम (हाउस), किनारसेरी, पोक्कुन्नू पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.11.2017	12307			
208723	रुशदी सी.टी.	अब्दुस्सलाम सी. टी.	चक्कीगल थोडिका (हाउस), वट्टापारम्बू, थिरुवली पी०ओ०, मजेरी (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	22.01.2018	12462			
208724	एस. अम्मू	एल. साजन	काविताजिकम, थक्केविला पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.07.2017	12013			
208725	एस. अमरुता	जी. ससिकुमार	सोपणिका, नाराकरसेरी पारम्बा, पुथियागडी, पावागड पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.10.2018	12866			
208726	एस. निथ्या	आर.एम. सिवनाथन	8/5, भारतीया गली, कावरी लेन, धर्मापुरी-636702	बीएचएमएस	2010	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	06.12.2010	3790			
208727	एस. सध्या	एन. सुदरम	प्लॉट न० 10, बालाजी नगर पहला, विरुगमबक्कम, चैन्नई-600092	बीएचएमएस	2009	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	तमिलनाडु	22.10.2009	3296			
208728	सबीरा पी.	हुरीन	पिचमानिल हाउस, किजुपराम्बा पोस्ट, एरोकोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	04.05.2015	10797			
208729	साबिथा टी.के.	सफरुल्ला टी.के. वी.	थोत्तुमगलका मेन्ना कारुप्पम वीडू, कुट्टीक्कड, पोन्नानी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11665			
208730	सबना के.पी.	साईडालवी के.पी.	शेरी महल, पुत्तक्कड, फेरोके पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	30.07.2015	10889			
208731	सचिन फिलिप ओम्मेन	प्रसाद ओम्मेन जॉर्ज	पुलिमूलील थाम्पी कॉटेज, अलायामान पी०ओ०, आचल, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	25.07.2016	11377			
208732	सदफ परी	मोहम्मद हुसैन परी	परी हाउस, मगल्लुपुलम, कोडुर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालोक्ट यूनिवर्सिटी	केरल	31.01.2016	11067			
208733	सादाकथुल्ला धाहीर ई.के.	अब्दुल रशीद ई.के.	एरिकुन्नान हाउस, नारुकाग्रा पी०ओ०, मजेरी वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11635			

208734	सादिख अली बी.	वीरानकुट्टी बेगलथ	बेगलथ (हाउस), कूराड पी०ओ०, धनीरी, वानियाम्बलम वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11081				
208735	सादिखा बी.पी.	कुहीमोहम्मद	वाट्टापाराम्बोल (हाउस), क्लारी साउथ, एडारिकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.11.2017	12306				
208736	सादिक आईबीएन कासीम टी.	मोहम्मद कासीम के.बी.ओ.	तिरुथोल (हाउस), मुरियाजिककल, पारावन्ना पो.ओ., जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	19.10.2016	11562				
208737	सदीक सी.	अबूबक्कर सी.	चलापाराम्बोल (हाउस), पट्टीक्कड पी०ओ०, रेलवे स्टेशन के पास, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12549				
208738	सईद धलायत नाज़िया	मौलाली	62, बी एट्रोलीकर नगर, 1 सोलोपुर, सोलापुर-413003	बीएचएमएस	2014	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	महाराष्ट्र	20.04.2019	70880				
208739	सईद पी.एस.	सिद्धिकी	पदिजारेवीट्टिल हाउस, कदमकुलम पी०ओ०, मेथला, कोदुगल्लूर, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.10.2016	11548				
208740	सफा इशक पूक्काट्टिल	मोहम्मद इशक पूक्काट्टिल	पूक्काट्टिल हाउस, कोट्टाक्कल, पुथुर, कोट्टाक्कल पुथुर पी०ओ०, ओथुक्कुगल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13400				
208741	सफा पी.टी.	अब्दुल हमीद पी. टी.	पनाथोडी हाउस, वालियाकुन्नु पी०ओ०, बालचेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11091				
208742	सफर अहमद टी.टी.	सिद्धिक टी.टी.	थचारुपाडिककल थजाथ, माथिगल हाउस, अचनमबालम, कान्नामगलम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.12.2018	12983				
208743	सफाशिरिन टी.	मोहम्मद कोया थोयलिल	थोयलिल हाउस, पिलाथरा, कादमपुजा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.12.2016	11629				
208744	सफोदा यासमीन बी.	उनीनकुट्टी बी.	वाडाक्केथोडी (हाउस), काट्टिलारसेरी, काडुगापुरम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12798				
208745	सफोका एस.	अब्दुल रहमान एस.	सराम्बिककल हाउस, करीमपुजा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	11.06.2015	10825				
208746	सफोरा	यूसुफ	पट्टोथ (हाउस), करनथुर पी०ओ०, कुन्नामगलम, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2017	11839				
208747	सफना के.	साईडालबी	कादावथ (हाउस), पालाथिगल, पथरागडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11289				
208748	साफनू एन.जे.	नाज़रुदीन एस.	पल्लोविलाकाथु वीडू, मार्केट जकशन, साथिविला, नेमोम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	06.07.2015	10878				

208749	साफूरा रहमान सी. के.	अब्दुरहमान सी. के.	राहथ महल, चैनिक्कल, वाल्लुवमब्रम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	25.04.2015	10783				
208750	साधी के. शाजी	शाजी के.पी.	किल्लिकुलगारा हाउस, कूलिमुट्टन पी०ओ०, पोक्लाई, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.10.2017	12280				
208751	साहा अर्पिता	अर्जुन कुमार साहा	मार्फत सीमा दत्ता, 81, रामचंद्रपुर रोड, रामचंद्रपुर प्ले ग्राउंड, पानीहटी, नोर्थ 24 परगनास 700110	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	13.05.2019	32534				
208752	साहा काथकाली	तपस रजन साहा	मार्फत सजल पॉल, 1एफ-5/1, बागुइती राजारहत-गोपालपुर, अश्विनीनगर, नोर्थ 24 परगनास 700159	बीएचएमएस	जून-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	03.07.2019	32549				
208753	साहा राजदीप	सनातन साहा	मार्फत नबानिता कुडु, गाव व पी०ओ०-बदनगज, जिला-हुगली 712122	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32637				
208754	साहा समाद्रिता	प्रिया रजन साहा	43, अश्विनी दत्ता रोड, न्यू बराकपोर, जिला-नोर्थ 24 परगनास 700131	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32586				
208755	चौधरी देबाजन	चिह्ना रजन साहा	137, प्रफुल्लानगर, बेलघोरिया, कम्परहटी, जिला-नोर्थ 24 परगनास 700056	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32583				
208756	साहा तमोघना	रामाप्रसाद साहा	गाव-सादपुर, पी०ओ०-मासलदापुर, जिला-नोर्थ 24 परगनास 743289	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32634				
208757	साहला एन.एम.	मोहम्मद बशीर एन.एम.	क्यूडिगिल (हाउस), एलेट्टिल, पन्नीकोट्टूर पी०ओ०, कोडुवल्ली (वाया), नारीक्कुनी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.06.2017	11899				
208758	साहदिया पी.	पी. अब्दुरसामद	पाराक्कुडिल (हाउस), अथिरुमदा, कालपाकचेरी पी०ओ०, तिरूर वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11324				
208759	साहदिया पी.	जफर पी.	पुथानगडी (हाउस), कारिनकाल्लथनी, थजेकोड पी०ओ०, पेरिथलमन्ना (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2018	12575				
208760	साहिला शैम शाम सी.एन.	हैदर पी.	अल-साफा हाउस, काडिपाराम्बथ लेन, एआईएमएस पी०ओ०, कोचिन, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	02.07.2015	10867				
208761	साहला आई.	अब्दुरसलाम आई.	इल्लिककल हाउस, पडिक्कड, पडिक्कड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12972				
208762	साहला के.के.	कुजुमोहम्मद	कारायिल, कुम्बनकाल्लु, थोडुपुजा ईस्ट पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.01.2019	12991				
208763	साहला एम.	अब्दुल सलाम एम.	मानाक्काथोडी हाउस, अमायूर पी०ओ०, पात्ताम्बी, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10853				

208764	साहला पी.	बशीर पी.	मस्कान, थरिप्पनम पाराम्बू, जयतिरोड, नाल्लालम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13027				
208765	साहला एस.एम.	मोहम्मद शेरीफ एस.ए.	सौर्यम पाराबोल (हाउस), माराथकुन्नु, एकाक्कड पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	22.01.2018	12460				
208766	साहला शेरिन टी.	मामू टी.	जन्मथ हाउस, मादमकालिकोथ पाराम्बा, पदिनहात्तुम्पूरी पी०ओ०, काक्कोडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	12.10.2018	12916				
208767	साहना जन के.ए.	के.ए. अब्दुल जलील	धुदिल (हाउस), वदनाम पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	29.11.2016	11605				
208768	साहु भारती स्वराज	रमेश साहु	मार्फत सुमित्रा रॉय, कौशल्या, खरगपुर, वेस्ट मिदनापुर 721301	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32760				
208769	सैफुनीसा एस.	सालावूदीन	शेमीर मजिल, वेचेम्पू पी०ओ०, पुनालूर, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	09.01.2018	12429				
208770	सैनी मानसी	श्री ओम प्रकाश सैनी	एफ-336, मदर डेयरी के नजदीक, वीर बाजार रोड, कृष्ण विहार, दिल्ली-86	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	18.12.2020	बीएचएसडी/5796				
208771	सायरा फाथिमा हमीद	पी.एस. अब्दुल हमीद	शेरिन मजिल, एनएलआरए-240, नौराजी लेन, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12386				
208772	सायरा थोमस	एम.पी. थोमस	पयन्नुमडिल (रत्नास फेक्ट्री के पास), कून्नाम पी०ओ०, मावेलिकारा, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2001	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे	केरल	09.08.2018	12718				
208773	सेशा के.आर.	पुरुषोत्तम पी.वी.	पुथियावोडु, कोट्टाराथुम्पारा, अजिकोडे, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12733				
208774	साजा पी.	अब्दुल जलील पुनाक्कथ	'साफलम', काप्पील, चेरूर, वेगारा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11977				
208775	सजल साजिद पी. पी.	साजिद	पुथुपदन हाउस, चेरुमन्नु, एदावन्ना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11101				
208776	साजीदुररहमान सी.	अबूबक्कर सी.	चेलापराम्बोल (हाउस), रेलेवे गेट के पास, पाल्तीक्कड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11039				
208777	साजीमोल के.	सेधुमाधवन के.	कारीपराम्बोल (हाउस), काल्तीपदम पी०ओ०, शोरानूर, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	24.11.2017	12320				
208778	साजिरा पी.पी.	यूसफ पी.पी.	बैथुल साफा, चक्कोरिक्काडु पराम्बु, अराक्कीनार पी०ओ०, माथोत्तम, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	07.03.2017	11779				

208779	साजिथा आर.एस.	शेखरन पी.	टी.सी. 55 / 1228, रिमथा भवन, चेरियाथैकूतम, नीरामोनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2013	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11477				
208780	राज्जाद नसीर	मोहम्मद नसीर एम.बी.	नसीबा, रेलवे स्टेशन के पास, पयानगडी आर.एस. पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12672				
208781	सजना ए.	साईडालवी अक्काराक्कादन	अक्काराक्कादन हाउस, चेम्ब्रसरी पी०ओ०, पदिकड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10810				
208782	सजना जलील	जलील के.के.	कारथते पराम्बील हाउस, हाउस न० 43 / 54-ए, अयाप्पनकावू, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.11.2016	11575				
208783	सकीरा टी.एम.	मोइदीनकोया	फथह मजिल, हाउस न० 33 / 1153 बी, मारीकुन्नू पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.07.2016	11365				
208784	साकीया सी.एम.	अब्दुल करीम	मिशाकथ (हाउस), पुथुर पी०ओ०, वटाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.11.2017	12302				
208785	सलाफीना ई.	साईडालवी ई.	ई पी. हाउस, पथपेरियम, एडावना पी०ओ०, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	25.04.2019	13108				
208786	सलाहुद्दीन एम.पी.	हरसन कुट्टी एम.पी.	अराशोरी मूलायिल (हाउस), ओमानूर पी०ओ०, चेरुवायूर वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	14.03.2017	11804				
208787	सलीम एन.	सुलैमान एन.	नीलगोदन, कोदारसरी, वाल्लुवागड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.04.2016	11229				
208788	सालिहा के.टी.	अब्दुलजलील के.टी.	कूरात्तु थोडियिल हाउस, आरफा नगर, अत्तूर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11639				
208789	सालिहा पी.	इसमाईल पी.	पुथन पीडिकायिल (हाउस), अलाथियूर पी०ओ०, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13161				
208790	सालिहा शबनम पी.ए.	अब्दुल समाद पी.ए.	नालाकट, बिरिमल्लाह मजिल, अनगडी, कदलुदी नागरम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	31.01.2016	11068				
208791	सालिक महक	श्री मनेश कुमार सालिक	सी-13, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर-4 नई दिल्ली-110024	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5724				
208792	सलीमा ए.एस.	एम.एस.अहद सलीम	कूट्टुपारुथी (हाउस), चुगम, कोडोडो पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.11.2016	11580				
208793	सलमा सी.के.	अहमद रशीद सी.के.	कुयिलन कुन्नू हाउस, मोनगम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	12.10.2018	12915				

208794	सलमा शाहदा एम.	यूसफ के.एम.	के.एम. हाउस, नीचल के पास, यू.पी. स्कूल, कन्नूर सिटी पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12163				
208795	सलमान सी.पी.	अलावी सी.पी.	चेरिपुरथ हाउस, पालोड पी०ओ०, मन्नारक्कड (बाया), जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13081				
208796	सालवा साईद ई.	सैधालवी ई.	एराकाडवाथ हाउस, चोलोमकुन्नू, कुन्नापल्ली पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	केरल	10.11.2017	12301				
208797	सलवाकलीम	कालीमुल्लाह	कदनालिल (हाउस), कोट्टापल्ली पी०ओ०, विल्लियापल्ली बाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस, कर्नाटक	केरल	26.11.2016	11585				
208798	सलिनैसी पी. खारकोगोर	श्री एच. पथाव	लैतजेम, अपर शिलॉंग, ईस्ट खासी हिल्स	बी.एच.एम. एस.	12.08.2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	17.02.2021	504				
208799	समादर पायेली	दिनेश चन्द्रा समादर	काग्या, नोर्थ 24 परगनास 743193	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32458				
208800	समल अविनाश	अजीत समल	गाव व पी०ओ०-दुरदुरी, जिला-अलीपुरदौर (जलपैगुरी) 736206	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32641				
208801	समन्दर सदफ	श्री शकील जमाली	165-बी-2, पहला फ्लोर, हाडी अपार्टमेंट जोगाबाई, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5745				
208802	सामता प्रोमिसा	प्रोकश चद्र सामता	अजोध्या काशीपुर, हुगली 712410	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32515				
208803	सामता रिया	सुब्रता सामता	इचापुर सीलदगा, सत्रगाबाबी, हावडा-711104	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32512				
208804	सामता सानका	सक्ती पाडा सामता	गाव व पी०ओ०-हेलन, पु०स्टे०-खनाकुल, जिला-हुगली, 712412	बीएचएमएस	दिसम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	वेस्ट बंगाल	25.02.2020	32797				
208805	शम्भु एस.	सोमन पिल्लई	सम्भू निवास, एडवानारसेरी, मयनागापल्ली पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11095				
208806	सामीहा करीमकुरायिल	मोहम्मदाली के.के.	करीमकुरायिल हाउस, थोजुवानूर पी०ओ०, वालाचेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.11.2019	13458				
208807	समोहा पी.	अब्दुल रावूफ पी.	दारुल फना (हाउस), पुलिक्कल पी०ओ०, पेरियेम्बालम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	केरल	03.01.2018	12372				
208808	समोना पी.एस.	सिद्धिकी पी.एम.	पाडिनजारवीट्टल हाउस, कादमकुलम पी०ओ०, मेथला, कोट्टुनगाल्लूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12882				

208809	समुद्रा एम. अली	मोहम्मद अली	अभिमुद्रा भवन, चैतिवेलिकाक्कम, थोडनकुलगारा वार्ड, अवलुकुनु पी.ओ., जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.04.2017	11843				
208810	सैमुल आर. जोहन	आर.एस. राजन	ग्राम-पौडासवाई, पी०ओ०-लाहौरियारासय, जिला-दरभंगा	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	10.02.2020	33585				
208811	सामुई सुसोवन	नबा कुमार सामुई	1/1/4, कासुदिया दूसरा बाय लेन, शिबपुर बैली जगाछ, सत्रगाची, हावडा-711104	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32565				
208812	सना पी.	अब्दुल मजीद पी.	पाराथोदुविल हाउस, कोडाकल पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	30.11.2016	11616				
208813	सनम मोहम्मद एम.	मोहम्मद वाहिद एम.	सद्रम, कीचेरी पापीनिरसेरी पी०ओ०, पापीनिरसेरी एस.ओ., जिला-कान्पुर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.04.2019	13106				
208814	सनम मुदारसीर	अब्दुल मन्ान	गाव-आजाद पल्ली, पी०ओ० व पु०रटे०-चवल, जिला-मालदा 732123	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32490				
208815	सनाथ वी.एस.	विजया कुमार पी.	श्यामस हाउस, वैकुदम (बाया), बालूरसेरी पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2018	12484				
208816	सैसी एस.एस.	शिबू धोमस	एजल हाउस, उचक्कडा, वेगनूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11076				
208817	सदीप	पालेराम	ग्राम-रामनगर, तहसील-साफ़ीदीन, जिला-जिद 126112	बीएचएमएस	2020	पी० बी०डी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, रोहतक	हरियाणा	12.01.2021	6566-ए				
208818	सद्रा एम. अजीथ	पी. अजीथ कुमार	थिरुवोनम (हाउस), एनाथु पी०ओ०, एनाथु, जिला-पथानामथिस्ता, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11085				
208819	साद्रा टी.एस.	टी.डी. सनल कुमार	धचारा (हाउस), नेडुपुरम पी०ओ०, थिरुवाल्ला, जिला-पथानामथिस्ता, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13350				
208820	साफ़ुई अयान	दुलाल साफ़ुई	गाव-विवेकानंद पल्ली (बेलियादगां), पी०ओ०-दक्षिण बरसात, जिला-साउथ 24 परगनास 743372	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32516				
208821	सगीत एस.	सुरेश टी.	पुल्लाक्कील हाउस, पाल्लारिमगलम, पी०ओ०, मावेलिककार, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	26.07.2017	12040				
208822	सजना एस.	ससिकुमार वी.	ससि निवास, कोय्यमाराक्कड, काजीकोड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12065				
208823	सजय कुमार सरोज	राम सुमेर सरोज	गाव-पुरे निरजन, पोस्ट-वारोकला, तहसील-पट्टी, जिला-प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230405	बीएचएमएस	2020	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	28.08.2020	एच०३९२२६				

208824	सजीव के.पी.	के.पी. मोहन दास	किजाक्के पुराक्कल, 'कार्तिका', काराकली पारम्बू, मानूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12615				
208825	राजू सतीश	आर. सधोसन	पाडान्नायिल, काल्लोक्काडु, अरात्तुपुजा, साउथ पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13060				
208826	शकरानारायणन पी.	मुरलीधरन बी. नायर	हाउस न० 17, आईटीआई कॉलोनी, कुप्पीयोदे, मारुथरोड पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11042				
208827	समोज एम.	मोहनन आर.	वानियान हाउस, पुथुरक्कारा, अयानथोले पी०ओ०, जिला-थिरपुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.05.2019	13112				
208828	सधी प्रिया ए.यू.	एस. अजया कुमार	सन्धा भवन, टीसी 5/1171/1, पेरुरकाडा, पेरुरकाडा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13150				
208829	सारान्या ए.एस.	श्रीकुमारन नायर बी.	सारायाश्री रेलवे स्टेशन रोड, नेयाट्टिनकारा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.01.2018	12378				
208830	साराया चद्रन पी.के.	चद्रकलाधरन नायर बी.के.	कोच्चुराक्कल, चेम्पड पी०ओ०, चेम्पड, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	18.02.2016	11098				
208831	साराया दास एस.	एस.के. क्रिस्टुदास	एस.डी. कॉटेज, मेले नाचियारविलाकम, अरुमानूर, पूवार पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2017	11787				
208832	साराया एम.एम.	मनिकटन नायर बी.	पदमा विलासम, वाराट्टयाम, कुन्नाथुकल पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11919				
208833	सारान्या एम.पी.	सुरेन्द्रन एम. पी.	मदाप्पाराम्बथ पुथान पुरायिल (हाउस), कोलाड गली, चोमबाला पी०ओ०, वाडाकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12806				
208834	सारान्या मोहन	सांसि मोहनन	धयिलपदान्नायिल (हाउस), थलाकुलाथुर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	28.01.2017	11708				
208835	सारान्या मोल एन.	नारायणन बी.	नवरत्न हाउस, इरिगोल पी०ओ०, पट्टाल, पेरुमबावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.02.2017	11712				
208836	सारान्या नाम्बियर एस.	ससीनद्रन पी.के.	थक्केकोतेरी हाउस, पाथियाराकारा पी०ओ०, वाडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11341				
208837	सारान्या पी.ए.	श्रीकुमार बी.	साराया भवन, मुडियूरकोनम पी०ओ०, पडालम, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.04.2017	11851				
208838	साराया एस. कुमार	पी. शाशि कुमार	अनामिका, एकेजी जकशन, एलामादु पी०ओ०, अयूर, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.03.2018	12483				

208839	साराया एस. नायर	शिधरन	सारानयालायम, कोट्टथला पी०ओ०, कोट्टाराक्कारा, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.05.2017	11869				
208840	सरान्या सथन	के.टी. चदन	कालापोजिल, पुन्नापरा पी०ओ०, जिला—अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12842				
208841	सारथ यू.बी	भुवनेन्द्रन पिल्लई के.आर.	उशुसा हाउस, थक्कुमुरी पी०ओ०, तिरु, जिला—मलापुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13058				
208842	सरदार अनिमेश सिंग	जैयदेव सिंह सरदार	गाव—बाटीकारा, पो०ओ०—सालुइपहारी, जिला—बकुरा 722136	बीएचएमएस	मार्च—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.04.2019	32503				
208843	सरदार चद्र	दिनेश चद्र सरकार	गाव—अखराबेरिया, पो०ओ०—चादिपुर, जिला—साउथ 24 परगनास 743399	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32653				
208844	सारन रुमा	विमल सारेण	गाव—बबघा, पो०ओ०—सालबोनी, जिला—पुरुलिया 723143	बीएचएमएस	मार्च—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32467				
208845	सारिगा एन.के.	सुरेश कुमार एन.के.	थोडीपालिल (हाउस), कोरुथ रोड पी०ओ०, अजियूर, वाडाकारा, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11987				
208846	सारिगा रॉय वी.	वी.एस. रॉय	व्यलोपिल्ली हाउस, चेरुर पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.08.2018	12727				
208847	सारिका एस. पिल्लई	पी. सिवाराजन पिल्लई	पूवनाविला, कुरुमडल, पारावूर पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10805				
208848	सरकार अब्दुल वाहब	अलताब हुसैन सरकार	गाव—छोटो झिला, पो०ओ० सिगी मारी मदनकुरा, जिला—कूच बहार 736135	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32615				
208849	सरकार बटी	रामचरण सरकार	मार्फत सजय सिहा, कोलोनेलगोला, मिदनापोर, वेस्ट मिदनापोर 721101	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32599				
208850	सरकार बिपलब	बिस्वाजीत सरकार	गाव—झरखली, पो०ओ०—झरखली बाजार, जिला—साउथ 24 परगनास 743312	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32670				
208851	सरकार बिधान	बिधान चद्र सरकार	मार्फत रजौत प्रसाद इरमाईल, शताब्दी नगर, असनसोल, बर्धमान 713301	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32763				
208852	सरकार दुर्गा	सुनिल चद्र सरकार	गाव—देवगाव, पो०ओ०—माजलिशपुर, जिला—उत्तर दिनाजपुर 733209	बीएचएमएस	मार्च—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32525				
208853	सरकार कौस्तव	आसिस कुमार सरकार	गाव—चद्रपुर, पो०ओ० व पु०स्टे०—बागनान, जिला—हावडा 711303	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32712				
208854	सरकार मृनाल	अरविन्दा सरकार	गाव व पो०ओ०—दिघलग्राम, मध्यपारा, नाडिया 741257	बीएचएमएस	अक्टूबर—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	24.10.2019	32638				

208855	सरकार पायेल	प्रदीप सरकार	गाव-करीमपुर, पो०ओ०-ओयरी, जिला-पूर्वा बर्धमान 713142	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32597				
208856	सरकार सुबनामोय	स्व रवपन सरकार	गाव-सिलबारी हट, पो०ओ०-सोनापुर, जिला-अलीपुरदौर 736204	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32530				
208857	सरकार तपन कुमार	स्व नागेन्द्र नाथ सरकार	फ्लैट नं० 407, मायफेयर ब्लूम, 155, डॉ० बी.सी. रॉय रोड, दक्षिण जगदल, कोलकाता-700151	डीएचएमएस	जुलाई-1986	यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार	वेस्ट बंगाल	24.01.2018	31993				
208858	सारथी कन्हैया पार्थ	श्री राजीव पार्थ सारथी	हाउस ई 23, हरिजन बस्ती, कोडली दिल्ली-110096	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	01.10.2020	बीएचएसडी/5786				
208859	शतामषा भौमिक	श्री दुलाल चंद्र भौमिक	सुपुत्री श्री दुलाल चंद्र भौमिक, वार्ड नं० 21, मास्टर पारा, टाउन प्रतापगढ़, त्रिपुरा वेस्ट 799001	बीएचएमएस	2016	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	त्रिपुरा	03.03.2017	355/17				
208860	सत्या प्रकाश पी.	एस प्रेम प्रकाश	6/190, अक्काराकत्तिल, वायनाड रोड, नाडक्कावू पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	26.11.2016	11593				
208861	सत्याकृष्णा पी.के.	केदारनाथ पी.एस.	पाडीरसेरिल हाउस, एडाक्कारा पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13467				
208862	सत्याथी अजीत कुमार	महेन्द्र प्रसाद चौरसिया	गाव-खेमचंद बिद्या, पो०ओ०-कंताकी, पु०स्टे०-देव, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824216	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	30.01.2020	33536				
208863	सौम्या राजन	राजन	पाजयिदम (हाउस), राजामुडी पी०ओ०, पाथिनाराम्कडम, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	14.07.2016	11352				
208864	सावद के.	सैदु के.	कार्लिल थोडियल, मूजिककल, चेलावूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	09.07.2018	12574				
208865	सक्सेना हर्षिका	श्री रामबीर सक्सेना	डो-354, पहला फ्लोर, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	बीएचएमएस	2019	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	31.07.2020	बीएचएसडी/5686				
208866	सक्सेना सबौरा	अजय कुमार सक्सेना	एन-11, गांधी नगर, रेलवे क्रॉसिंग के पास, पडाव, न्वालियर, मध्य प्रदेश	बीएचएमएस	2005	जीवाजी यूनिवर्सिटी, न्वालियर	मध्य प्रदेश	02.03.2021	26107				
208867	सयाना ए.के.	नानू	एडाक्कुदियाताविदा (हाउस), पुथूर पी०ओ०, पानूर वाया, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11041				
208868	सईदा	मजूर आलम असारि	मोहल्ला चाक अब्दुल, वाहीद माजौलिया रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001	बीएचएमएस	2018	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	18.06.2018	32615				
208869	सायिद के.ए.	अबूबक्कर	कोम्पारा (हाउस), वलाड पी०ओ०, थलापुजा वाया, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	27.06.2017	11902				

208870	सायूज्या सनन	सनाधनन डी	रोहिणी, थेक्केविला पी०ओ०, पुधेनाडा नगर-22, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11127			
208871	सोबा रानी टी. सग्मा	श्री एस. रभा	कुसीमकोलगर, विलियमनगर ईस्ट गारो हिल्स	बीएचएमएस	18.08.2020	श्रीमन्ता शकरादेवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, असम	मेघालय	28.09.2020	486			
208872	सौना ऐन मैथ्यू	टी एस. मथाई	थट्टारसरिल नेडियाकालायिल, किदानगन्नूर पी०ओ०, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.10.2017	12271			
208873	सौना के.एस	चद्रन	कोलोथुपाराम्बोल (हाउस), सुलथान बाधेरी पी०ओ०, कयपेचेरी, बायपास रोड, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	24.05.2016	11275			
208874	सौना नसीम के.ए	अब्दुल करीम के.	साथी हाउस, पुन्नास्सेरी पी०ओ०, नारिकुनी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	02.07.2015	10868			
208875	शीतल पी.एस	पी.एन. शशि	पारापराम्बोल हाउस, कोनाथुकुन्नू पी०ओ०, मुकुदापुरम, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.10.2019	13395			
208876	शेख रूस्तम	मोसाराफ शेख	गाव-शियलमारा, पी०ओ०-राधरघाट, जिला-मुर्शिदाबाद 742187	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32471			
208877	सेलमा असासी	असासी एम.	शिने डेल, मुदाक्कल ईस्ट, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11463			
208878	सेलमा वघेसे	वाकैय वघेसे	अलवेनिया प्रोविशियल हाउस, चलाकुडी पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12166			
208879	सेलमथ पी.टी.	साईडालवी पी.टी.	पानगाट्टू थोडियिल (हाउस), पेरुमुदियूर पी०ओ०, पाट्टम्बी वाया, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	18.04.2016	11227			
208880	सेमोरा वी.ए	अब्दुल नाजर	वैसयान (हाउस), नारागापट्टा, मनारक्कड पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12897			
208881	सेन प्रिम	मधुसुदन सेन	गाव-सिद्धेश्वर ताला, बार्ड न० 10, पी०ओ० व पु०स्टे०-सोनामुखी, जिला-बकुरा 722207	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32741			
208882	सेन सौमयोजित	अरिजित सेन	बेजिखली रोड, कृष्णानगर-1, नादिया 741101	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32569			
208883	सेनचौधरी सोलखी	जिबन सेनचौधरी	माफ्त चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01, पी०ओ०-सेनधिया, जिला-बीरभूम 731234	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32731			
208884	सेनगुप्ता देबाशिस	स्व. अमुल्या सेनगुप्ता	51/1, कैलाश पडित लेन, पी०ओ०-न्यू अलीपुर, साउथ 24 परगनासा 700053	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32768			

208885	सेनगुप्ता श्रेया	दुलाल सेनगुप्ता	इद्र प्रथम अपार्टमेंट बीएल-5, जी-2, 24एम बी रोड, कालाबगान, नोर्थ दुम दुम, बिराती 700051	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32692				
208886	सेनगुप्ता श्रेयसी	सुदीप्ता सेनगुप्ता	शक्तिनगर, पो0ओ0-खरिया, जिला-जलपैगुरी 735101	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32757				
208887	सेनगुप्ता सुभागनिता	सुभाशीष सेनगुप्ता	गाव व पो0ओ0-मदारिहत, अश्विनी नगर, वार्ड नं0 1, जिला-अलीपुरदौर 735220	बीएचएमएस	अप्रैल-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	29.04.2019	32521				
208888	सेरीना शरीफ	सी ए.मोहम्मद शरीफ	अल्लानूर हाउस, थलायूलापाराम्बू पो.ओ., जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10824				
208889	सेरेने जॉय	ओ एस. जॉय	ओलीयापुरम हाउस, जेएन-165, ई कॉलोनी के पास, अकामाली पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.01.2016	11014				
208890	सेरिन पीटर	के.ए. पीटर	काजीराधिकल हाउस, मार्केट रोड, त्रिपुनिथुरा पी0ओ0, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12589				
208891	सेथुलक्ष्मी के.पी.	प्रेमन के.आर.	कुरुमबूर हाउस, इलावल्ली साउथ पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12174				
208892	शा आज़िम	रासुल बोक्स शा	गाव-झरुबती, पी0ओ0-गोडा अनादा, जिला-पूबा बंधमान 713122	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32659				
208893	शबा शाहुल थारायिल	शाहुल हमीद थारायिल	जैनु महल, इडाक्कापराम्बा, कन्नामगलम पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	09.06.2017	11890				
208894	शबाना	अब्दुल रहमान एम.एम.	मुट्टिपालाथिगल हाउस, पेरुमपिलावू पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	28.05.2019	13122				
208895	शबाना ए.	अब्दुल रशीद ए.	मचियाथिल नूर हाउस, जाक्कारिया वार्ड बाजार पी0ओ0, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11624				
208896	शबाना बी.	बदरुदीन	शबाना मजिल, कुम्मिल पी0ओ0, कोट्टाराक्कारा, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11173				
208897	शबाना एस.	शाजहान एम.	शाहिना मजिल, पाथिरिक्कल पी0ओ0, पाथनापुरम, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10952				
208898	शबाना टी.ए.	मोहम्मद अशरफ टी.एस.	बैथुल हागुडु, 6/144, कुट्टीयिल वायल, बेयपोर, अराक्कीनार पी0ओ0, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	07.03.2017	11777				
208899	शबीबा कुरुनियान	अहमद कुट्टी	अरुकात्तिल हाउस, मत्ताथुर पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	30.11.2016	11617				
208900	शबीना ए.आर.	अब्दुल रशीद	2/245 ए. दारुल कज, आगनवाडी रोड, आडोर पालम, काडाचिरा पी0ओ0, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	08.08.2017	12114				

208901	शबीरा शिरीन	बशीर थायिल	थाय्यील हाउस, वी के रोड, अथोली, कोगानूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.07.2017	12003				
208902	शबना के.	अशरफ के.	अलीगल हाउस, जिथारथु पल्ली रोड, अनाम्पडी, पोन्नानी साउथ, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	15.12.2016	11620				
208903	शबना के.के.	मोड्डु	कालायम कुलथ (हाउस), अयानचेरी पी०ओ०, वडाकारा (तालुक), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	09.06.2017	11891				
208904	शबना करानन	जुबैर करानन	करानन हाउस, वेल्लिलाक्कड रोड, तिरुगडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.04.2016	11198				
208905	शबना एन.	पी. निजामुदीन	निशाद मजिल, डॉ० एस.एच. नगर-209, थत्तामाला पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11595				
208906	शबना वी.	मोहम्मद अशरफ	वेकेल्लिल (हाउस), पूनथ पी०ओ०, नाडुवान्नूर (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.07.2017	12044				
208907	शबनम सिधोक	एम. सिधोक	टी.सी. 25/609, पी.आर.ए. टी-50, टैकरोड, पुलिमुडु, जी.पी. ओ., जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.12.2019	13477				
208908	शादिया फोबिन पी.	अब्दुल नसीर पी.	अभयम हाउस, पुन्नारसेरी पी०ओ०, नारीक्कुनी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.12.2018	12966				
208909	शादिया पी.	अब्दुल मजीद पी.	पाराक्कल (हाउस), नूराडी, वाडाक्केमान्ना, कोडुर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11111				
208910	शादिया युसुफ वी. पी.	मोहम्मद अबु युसुफ वी.पी.	वेल्लापुली हाउस, अरियूर पी०ओ०, मन्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2019	13061				
208911	शफना एम.पी.	अकबर अली एम. पी.	पुथियेदथ हाउस, नेल्लीपाराम्बा, निलम्बूर रोड, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2018	12600				
208912	शफना पी.के.	पी.एल. कुजुमोहम्मद	पादापाराम्बथ हाउस, कैपामगलम बौच, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10855				
208913	शफरीना के.पी.	अब्दुल अजीज के. पी.	पालोथ पाराम्बा, कुट्टीथील थजाम, पोक्कुन्नु पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2017	12193				
208914	शाह रिकी कुमारी	मोला शाह	बेसारा होम्यो क्लिनिक, मेन रोड, बिहार-802101	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	23.11.2019	33455				
208915	शहदिया टी.	कुहाम्मद	थियाराम्बथ (हाउस), विलियाम्पल्ली पी०ओ०, वाडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2018	12584				

208916	शहला एम.	अरसन कोया एम.	मुडोली हाउस, नाल्लालम पी०ओ०, जयधि रोड, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10996				
208917	शहना ए.	हामजा ए.	अलूकल (हाउस), तिरुुर रोड, कुट्टीपुरम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	25.07.2016	11372				
208918	शहाना ए यू	शाहुल हमीद ए यू	कोल्लेथ कारुवालापिल हाउस, काल्लारमगलम पी०ओ०, कदमपुजा (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	केरल	10.05.2019	13117				
208919	शहाना हरीस	हारिस सी	मीनस मजिल, मूरीक्कारा पी०ओ०, काक्कोडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	08.05.2019	13111				
208920	शहना के.	सुलैमान के.	कावुथियोट्टील (हाउस), चुडापुरम, कोडुवल्ली पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11323				
208921	शहना के.के.	कुजुमोहम्मद के. वी.	मादारसरी हाउस, आर.एस. रोड, तुळूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11186				
208922	शहना पी.टी.	अब्दुस्सलाम पी.टी.	मगात्तुथोडी (हाउस), कुनियिल, किजुपारम्बा पी०ओ०, एरियाकोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11587				
208923	शहना टी.पी.	मूसाकोया टी.पी.	साति, बैथुल्हम, कुट्टीयिलपडी, तिरुवनूर पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिस	केरल	20.02.2018	12474				
208924	शहना वी.	हरसान वी.	शहना मजिल, वेल्थेन कदन (हाउस), रिप्पान पी०ओ०, मेप्पाडी, जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12021				
208925	शहरबन एस.डी.	ए.के. दारवेश	वाडाक्के धरायिल, पोनाड पी०ओ०, जिला-अलाप्पुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	28.05.2019	13124				
208926	शहरशना के.पी.	अम्माद	कोमट (हाउस), चलापुरम, नाडापुरम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	16.11.2015	10956				
208927	शाहीबा पी.के.	अब्दुल्ला पी.के.	सौभाग्य (हाउस), पुल्लूनी, मगलम पी०ओ०, तिरुुर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11296				
208928	शाहीका एम.	अरसन कोया एम.	मुडोली हाउस, नाल्लालम पी०ओ०, जयधि रोड, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10986				
208929	शाहीन आरिफा	श्री सोहेल अहमद	आई-8, हाजी कॉलोनी, गफ्फार मजिल ऐक्टेशन-II जामिया नगर, ओखला, दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5741				
208930	शाहिदा एम.	मोहम्मद इद्रेस एम.	मुदारसरी, अराफा (एच), कोञ्जीचेना, वालाकोलम पी.ओ., जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	10.04.2015	10777				

208931	शाहिला जलालुद्दीन	जलालुद्दीन	शाहला मजिल, पाडाकास्साला, पूवार पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.11.2019	13449				
208932	शाहीना बी.बी.	मोइदीन	बालारा वोटिल हाउस, वाल्लियड पी०ओ०, विल्लयापल्ली वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.03.2016	11174				
208933	शाहीर के.	अब्दुल खादीर के.	कुडिल हाउस, कोरगध, तिरुूर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11103				
208934	शाहला सी.एच.	अब्दुससमाद सी. एच.	चेरायाकुथ (हाउस), कादुनगूथ, कूडिलगडी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	20.09.2017	12213				
208935	शाहला यू.	मोहम्मद अली बी.	अल-नूर, पापीनिरसेरी वेस्ट पी०ओ०, पापीनिरसेरी, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13465				
208936	शाहना के.	शाहुल हमीद के.	निशा मजिल, कल्लमपारा पी०ओ०, पेरुमुघम, फेरोक, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11151				
208937	शाहना एन.एस.	नजीब ए.	नजीब बिल्डिंग, अयिरूर पी०ओ०, वरकाला, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.06.2018	12520				
208938	शहनास एन.	ए.एम. नुजुमुदीन	नारस प्लाविला-5, नेल्लोमूडू, कुलाथुपुजा पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11412				
208939	शाहजादी सयादा उजमा	रव. मो० जफिरुद्दीन	16, निल माधब सेन लेन, चित्तरजन अवेन्चू, सार्कल अवेन्चू, कोलकाता-700073	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32746				
208940	शैबिना वी.ए.	अब्दुलकरीम	वैल्लिकुलम (हाउस), कूराचुन्दू पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12122				
208941	शेख रोजमौन अलमगीर	शेख अलमगीर ए. गफूर	201, मैत्री कॉम्प्लेक्स, टीडीसी बैंक के पास, ऐट/पोस्ट-कुदुस, पलघर-421312	बीएचएमएस	2015	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	महाराष्ट्र	03.09.2015	62614				
208942	शायमा एम.	अब्दुससमाद एम.	मोयिककल (हाउस), अथानिककल, कराड पी०ओ०, वानियमबालम, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.01.2018	12426				
208943	शैमा एस.	शामसुदीन एस.	सीलथ (हाउस), इलिककाडु, इडाक्कारा पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12896				
208944	शकीबा पी.एन.	अब्दुलवाहब पी. एन.	कोजिरसेरी हाउस, अडियूरकून्नु, वालियापाराम्बा पी०ओ०, पुलिककल जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	30.12.2017	12364				
208945	शकील खलुद	श्री शकील अहमद	एन-3, अबुल फजल एन्कलेव, ओखला नई दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	18.12.2020	बीएचएसडी/5794				

208946	शकीरा पी.के.	अब्दुल सलाम पी.के.	पाट्टारकादावन (हाउस), हाजियारपल्ली पी०ओ०, कोलमान्ना, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.04.2016	11215			
208947	शकीरा एस.	शकमीरन एम.	टीसी 88/1293, बेथुल नूर, गाधीनगर, पुथनपालम, वल्लाकाडावु, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.10.2018	12869			
208948	शलीका के.एस.	शरीफ के.	अराक्कल वेद्वथ हाउस, पेरारकम पी०ओ०, चवाक्कड, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.06.2018	12513			
208949	शालिनी प्रिया	श्री विश्वास कुमार	फ्लैट नंबर 15-डी, डीडीए फ्लैट, हर्ष अपार्टमेंट, सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5765			
208950	सामा पी.	असैनार पी.	पक्कारथ (हाउस), मगोड पी०ओ०, चेरप्पुलास्सेरी वाया, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11733			
208951	समीमा एन.	साईडाल्वी एन.	नहेलियाथोडी हाउस, नाट्टामगलम, चुडमबाट्टा पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	13001			
208952	समीमा पी.	अबूबक्कर पी.	पूकुथ हाउस, पुल्लिप्पाराम्बा पी०ओ०, चेलम्बरा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10829			
208953	समीमा वी.के.	वी.पी. कामारुदीन	सुहैर मजिल, चक्कामकडम पी०ओ०, पालुवाई (वाया), जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2019	13290			
208954	समीमा ई.पी.	अबूबक्कर	एडापेट्टी (हाउस), एडाचेरी पी०ओ०, वडाकारा (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12243			
208955	समीमा पी.	अली पी.	कूमानकाल्लिगल (एच), वालामगलम, ओलामाथिल पी०ओ०, मोगम वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	14.12.2015	10979			
208956	समीर एस.	सैनुदीन पी.	अशिन हाउस, देवारविला, पाराससाला, पाराससाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12608			
208957	समीरा बेगम के.पी.	कुहीपोक्कर के.	कुन्नुम पुरायिल (हाउस), किजाक्कोथ पी०ओ०, कोडुवल्ली, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	01.02.2016	11069			
208958	समीरा एम.के.	मोहम्मद एम.के.	मूचिकूत्ताथिल (हाउस), त्रिक्कादीरी पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	14.07.2016	11355			
208959	समीना परवीन ई.	मोहम्मद मसूर ई.	मुल्लान (हाउस), कालिकावु पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11147			
208960	शामला बेगम सी.के.	मोहम्मद हसन हाजी सी.के.	काराप्याकुन्नु (हाउस), ओमानूर पी०ओ०, चेकोडे, कोडोट्टी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	13.01.2016	11015			

208961	शामला एडालोली	अलावी ई.	एडालोली (हाउस), कसलाक्कून्, पडिक्कड रोड, मजेरी कॉलेज पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.12.2017	12358				
208962	शामला एस.	सैनुदीन	एस.एस.मजिल, एडिनाडु साउथ, कट्टीलकाडावू पी०ओ०, कारुनागपल्ली, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.07.2017	12036				
208963	शामलीना सी.के.	हरसन कुट्टी सी.के.	चुल्लोकुलावन (एच), अम्बालाक्कादावू पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.12.2015	10973				
208964	शामली पी.	यूसुफ अली पी.	नानमा (एच), पूलाक्कल (एच), पयानगडी, तिरु पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11727				
208965	शामना एम.	एम.अब्दुल हमीद	मगाडाक्कुन्नियिल हाउस, अलानाल्लूर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.12.2018	12977				
208966	शामना मत्ताकथ	चेक्कूपा एम.	वेलूथदथ (हाउस), मरिक्कुन् पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2010	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	27.01.2017	11699				
208967	शामना एन.	अशरफ पी.पी.	शाहला निवास (हाउस), काय्यथ रोड, सूर्या कुलम के पास, धलारसेरी पी०ओ०, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	11.10.2018	12910				
208968	शामना नजीब पी.	एन. नजीब	मोधी निवास, ओ.जी. रोड, थिरुवनूर नाडा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.07.2016	11301				
208969	शामना पी.के.	अब्दुल सलाम	पाराक्कोमबथ (हाउस), नोचट पी०ओ०, नाडुवान्नूर, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.08.2017	12071				
208970	शामना यू.के.	हुरेन यू.के.	एम.एस. महल (हाउस), पन्निकोट्टूर पी०ओ०, कोडूवल्ली (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.04.2017	11830				
208971	शामना वी.	अब्दु रहिमान वी.	वलाथिल हाउस, पालापेट्टा, एडवन्ना (वाया), पानीपारा (पोस्ट), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.03.2019	13089				
208972	शमसीरा एम.	मूसा एम.	मगदा हाउस, थेनाला पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.03.2018	12481				
208973	शामसिया के.टी.	अब्दुल रजाक के.टी.	शामसी मजिल, पल्लीकाडी, काल्लाई पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.09.2018	12859				
208974	शाना फाथिमा एम.	उम्मेर कोया एम.	मूदेनथराम्ल (हाउस), कारुवाथिरुथी पी०ओ०, फेरोक, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.03.2016	11177				
208975	शाना फाथिमा एस.	ए.अब्दुल नजर	81/18, बैथुल मजौद, पी.पी.एम. जकशन, अयिगमाम, पाराससाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.01.2017	11698				
208976	शाना के.	उन्नीमुहयिद्दीन के.	हिल यू हाउस, एलायूर, इरुवेट्टी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10806				

208977	शना के.वी.पी.	सैदू के.वी.पी.	चेरिया थोड्याथिल, थंगल रोड, कुट्टीचिरा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12097				
208978	शना पी.रहमान	मोहम्मद अब्दुल रहमान	कोट्टनगोडन हाउस, कारुलाई पी0ओ0, निलम्बूर, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	13005				
208979	शना परवीन एम.पी.	इब्राहिम	पोथिलिल (हाउस), इयड पी0ओ0, उन्नीकुलम (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	26.04.2017	11854				
208980	शना परवीन टी.	कुहीदु मास्टर टी.	थाय्यील हाउस, तिरुविजामकुन्नु पी0ओ0, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	26.07.2017	12042				
208981	शनीबा पी.ए.	अब्दुलरशीद पी.एस.	पूथोक्कील हाउस, इट्टूमाना, कारुवनूर पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.08.2018	12667				
208982	शानोन पी.एस.	सुभाष पी.एस.	पूक्कोट्टिल हाउस, पेराकोम पी0ओ0, गुरुवायूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	गोवा यूनिवर्सिटी	केरल	10.04.2019	13100				
208983	शानूजा सी.	सी. उरमान	चेमबन (हाउस), कारकोदमकुन्नु पी0ओ0, अलानाल्लूर (वाया), जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	10.05.2017	11876				
208984	शानू एम.	के.एम.ए. मानाफ	नेस्ट, बृदावन गार्डन, मोडोल्स कॉलोनी, बीपीएल जकशन, कूटुपाथा, चद्रनगर पी0ओ0, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12830				
208985	शरण एलिजाबेथ जॉर्ज	शिबू जी. चेरियन	किशारा, पीआरए-37, पोलायाथोडु, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11006				
208986	शरथ कुमार पी.	हरिदसन पी.	पारोल (हाउस), अरियाल्लूर पी0ओ0, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	31.01.2016	11057				
208987	शरी के.एस.	ए. सीवान	किजाक्कचलिल (हाउस), पेरिचकुट्टी पी0ओ0, चेम्पाकापारा, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11073				
208988	शर्मा अभय रामकिशोर	रामकिशोर शर्मा	इन्दुमती हॉस्पिटल के पास, शिवाजी नगर, सिलौड, जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431112	बीएचएमएस	2020	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इन्दौर	मध्य प्रदेश	05.08.2020	25518				
208989	शर्मा अमित	मिश्री लाल शर्मा	हाउस न0-857, गुप्ता पेट्रोल पम्प के पीछे, अलीनगर, मुघलचुक, जिला-चदौली, उत्तर प्रदेश-232101	बीएचएमएस	2013	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	06.08.2013	एच033086				
208990	शर्मा अरूण	श्री कैलाश चद	हाउस न0 371, वार्ड न0 4, आर्य समाज मंदिर के पास, फिरोजपुर झिरका, नुह-122104	बीएचएमएस	04.01.2018	डॉ0 एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	हरियाणा	04.01.2018	6372-ए				
208991	शर्मा अविष्का	श्री सुशील शर्मा	डी-49, सरस्वती गार्डन नजदीक कोर्ट नगर, नई दिल्ली-110015	बीएचएमएस	2018	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	05.01.2021	बीएचएसडी / 5805				
208992	शर्मा देविका	श्री भूषण दत्त शर्मा	116-ए, कमला नगर, शक्ति नगर चौक के पास, दिल्ली-110007	बीएचएमएस	2019	होमियोपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर	दिल्ली	21.07.2020	बीएचएसडी / 5679				

208993	शर्मा गौरव	जगदीश शर्मा	गाव व पोस्ट-राटौटी, लहसील-बाह, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश-283113	बीएचएमएस	2019	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	05.12.2019	एच038849			
208994	शर्मा हिमाशु	श्री अनिल शर्मा	ए-1/24, बुध विहार फेज-1, दिल्ली-110086	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	04.08.2020	बीएचएसडी/5690			
208995	शर्मा हिमाशु	श्री दिनेश शर्मा	126-तीसरा फ्लोर, वीनस अपार्टमेंट इंदर एन्क्लेव, रोहतक रोड, नई दिल्ली-110087	बीएचएमएस	2017	भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार	दिल्ली	05.03.2021	बीएचएसडी/5816			
208996	शर्मा लोकेन्द्र	श्री ईश्वर शर्मा	जेबी-4/16, वेलकम, सीलमपुर-III दिल्ली-110053	बीएचएमएस	2018	भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार	दिल्ली	14.12.2020	बीएचएसडी/5790			
208997	शर्मा मनीष	श्री उमा शर्कर	ई-7/332, नेहरू विहार, दिल्ली-94	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5651			
208998	शर्मा मोहित	श्री राजेन्द्र कुमार	33-एक्स, चित्रगुप्त रोड, पहाडगज नई दिल्ली-110055	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5678			
208999	शर्मा प्रज्ञा	विपिन कुमार शर्मा	आर जेड-654/9, गली न0-18जे, साध नगर, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045	बीएचएमएस	2020	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, जयपुर	दिल्ली	27.07.2020	बीएचएसडी/5681			
209000	शर्मा राजेश कुमार	बचन शर्मा	ग्राम-बरजी, पोस्ट-नयेपुर, चौमुहानी, थाना- फुलपुर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221207	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	उत्तर प्रदेश	15.01.2020	एच-038929			
209001	शर्मा लीला	सादिक	माधथ (हाउस), कुमनकोड, नाडापुरम पी0ओ0, वाडाकारा (वाय), जिला-काडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13473			
209002	शरमिनास ए.पी.	मोहम्मद अशरफ एम.पी.	'दाज', चक्कारापारा, अझिकोड पी0ओ0, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.03.2017	11819			
209003	शर्मा टी.आर.	एम. मोहम्मद रशीद	शर्मा मजिल, वेल्लूरकौनम, मचा पी0ओ0, नेडुमगडु, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12564			
209004	शरोन एल्जा साम	साम जॉन	एत्तीमूत्तिल (हाउस), कुम्पलाम्पोइका पी0ओ0, जिला-पथनामथित्ता, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	01.07.2016	11304			
209005	श्रेय कृष्णा बी.एस.	एम. बालाकृष्णन	'सुमी विला', सुनरा-15 बी, पठान रोड जकशन, पेथाह, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10798			
209006	शशिथा डी.एस.	शकरा	चुडिरान (हाउस), वेगड पी0ओ0, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.07.2017	12061			
209007	शाव प्रदीप	रव. अशोक शाव	गाव-जगलपुर, पी0ओ0-अरगोरी, जिला-हावडा 711302	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32753			

209008	श्रीका जमाल	जमाल मुखफा	वारिकापुलक्कड (हाउस), साउथ बाजार वाया, कुट्टीपुरम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.06.2017	11897				
209009	शीना बशीरा पी.	मोहम्मद बशीर पोन्थोडिल	पून्थोडिल (हाउस), ओलीपुजा, इदायात्तुर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12207				
209010	शीना विसेट	विसेट जोशफ	ओराम्पानियल हाउस, काल्लाडिकोडे पी०ओ०, मन्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.01.2016	11023				
209011	श्रीनामोल कुरुविला	एम.सी. कुरुविला	माराम्पील हाउस, अमालागिरी पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12420				
209012	रानी शीतल	श्री विजय पाल	वी.पी.ओ. निलोटी(19), तहसील-बहादुरगढ, जिला-झज्जर, हरियाणा-124404	बीएचएमएस	2019	प० बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, रोहतक	हरियाणा	09.10.2019	6481-ए				
209013	शीतल ई.एस.	ई.एन. शिवाशकरन	इडाथिपाराम्बोल हाउस, अनामनाडा पी०ओ०, पालीरसेरी, चालाकुडी (वाया), जिला-थिरुचुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12203				
209014	शेफीरा के.	सिराजुद्दीन के.ए.	काल्लुपुराक्कल हाउस, इडाप्पल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.08.2019	13360				
209015	शेहना एस.	सैनुल्लाबदीन	फसना मजिल, आरफा नगर-69, परटायिल पांडिनजाट्टायिल, एराविपुरम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.07.2017	12051				
209016	शेहना एस.एस.	सिराजुद्दीन ए.	ए.पी.के. मजिल, सलामथ नगर 10, किलिकोल्लूर, काल्लुम्थजाम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.02.2019	13011				
209017	शेख आसिफ अहमद	खदम अली शेख	गाव-गोलपुकुर मडलपारा, पी०ओ०-बारुडपुर, जिला-साउथ 24 परगनास 700144	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32668				
209018	शेडे सचिता चद्रशेखर	चद्रशेखर नेमाजी शेडे	हाउस न० बी-1/2, बॉम्बे डाइग कॉलोनी (वेस्ट), चम्भाली, मोहोपाडा, खालापूर, रायगढ-410222	बीएचएमएस	2016	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	महाराष्ट्र	19.12.2016	64773				
209019	शेनीफा पी. के.	हनीफा पी. के.	व्हाइट हाउस, चेम्पनकडावू, डाउन हिल पी०ओ०, जिला-मल्लपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.12.2018	12962				
209020	शरबीन सुलताना पी.	कुहीमोहम्मद पचायी	पचायी (हाउस), चेरुमुक्कु पी०ओ०, तिरुरगडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11452				
209021	शेरिजा ए.के.	अब्दुल लथीफ ए. के.	अनाक्कायी (हाउस), जनथप्पाडी, निलम्बूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	14.03.2017	11801				
209022	शेरीन जैकब	पी.एम. जैकब	पनाक्कल हाउस, मारारीकुलम नोर्थ पी०ओ०, एस.एल. पुरम, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10823				
209023	शेरिन पी. जेम्स	जेम्स पी.पी.	पुतिक्कल हाउस, चेराय पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12091				

209024	शेरिन एस बाबू	पी.आर. बाबू	सथवानाम, पावाथियनविला, पारासाला पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11925				
209025	शेरिन शहनास पी. के.	कुहिमोहम्मद	पुलायक्कालाथिल, कारकोदमकुन्नू पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12736				
209026	शेरिन शाजू	शाजू पी.ए.	पोराथुर पानोक्करन (हाउस), पुल्लानीक्कड, वाडाक्कचेरी (आर. एस.) पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12690				
209027	शिबिला फ़ैबिन पी.	मोहम्मद हनीफ़ पी.	पुलक्कल हाउस, पानगागारा, रामपुरम पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.02.2018	12470				
209028	शिबिला नुफली के. पी.	यूसुफ़ मेहराली के. पी.	पुथन वीटिल हाउस, मोरायूर पी०ओ०, हाई स्कूल पाडी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13024				
209029	शिबिला वी. के.	केट वी. के.	वडक्कुमपुरथ (हाउस), ओचथुरथ पी०ओ०, स्पिन, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.03.2016	11155				
209030	शिबिन पट्टाक्का पुथुकुडी	विजयन पी.	विजय भवन, मूरियाड पी०ओ०, कुथुपराम्बा, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	21.11.2018	12951				
209031	शिबिना के.	वीरनकुट्टी के.	एचिकुन्नुम्मल (हाउस), मेहानियम पी०ओ०, पेराम्बरा वाया, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11038				
209032	शिबला टी. के.	अब्दुसलाम टी.एम.	कानागत्तु कालाथिल (हाउस), वेलीमुक्कू साउथ पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	31.01.2016	11044				
209033	शिबना गफ़ूर टी.	अब्दुल गफ़ूर टी.	थोराकथ हाउस, थोडिनाटाक्कारा, मामपद पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.09.2018	12824				
209034	शिफ़ा बशीर	पी. के. बशीर	पुथन वीटिल (हाउस), नूर उल मजीद, काजीराम्पल्ली पी०ओ०, काजीराम्पल्ली, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12664				
209035	शिफ़ा के.	मोहम्मद कादरी	वालियाट्टु (हाउस), मेलमुरी पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	11.10.2018	12911				
209036	शिफ़ा परवीन के.	मोइदीन कुट्टी	कोडाक्काट्ट (हाउस), कोडिही पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.05.2018	12497				
209037	शिफ़ा रजाक	अब्दुल रजाक के. सी	रिदम, विरुप्पील (हाउस), अनाप्पारा, कुन्नामगलम पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.09.2018	12814				
209038	शिफ़ाना कबीर	कबीर ए.	थैपराम्बोल हाउस, अलीरसेरी वार्ड, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12418				
209039	शिफ़ाना मजीद टी. टी.	अब्दुल मजीद टी. टी.	थोडिनागल थोडिका (हाउस), वानीयाम्बलम पी०ओ०, कुड्डियल, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11191				

209040	शिफाना के.पी	उमर के.पी	कोट्टारापाराश्रील (हाउस), वेल्थीयाचेरी पी०ओ०, मेलातोर वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11315				
209041	शिहद अहमद	सिद्धिकी हसन बी.	बाथरी हाउस, पचायथुम्पडी, कारुलाई पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	29.07.2017	12049				
209042	शिहानाथ के.	अब्दुल्ला के.	कोझिशेरी (हाउस), कोमबम, कोटाक्कड पी०ओ०, मान्नारक्कड (वाया), जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.10.2018	12921				
209043	शिजी बाबू	बाबू सी.वी.	चथियाथ (हाउस), माय्यान्, एम.सी.एम. यू.पी. स्कूल, वडाकारा, विल्लियाप्पाली, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11933				
209044	शिजी जी.वी.	जॉर्ज स्टेफनसन	शिजी भवन, मुल्लिलावुविला, कुदायल पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11411				
209045	शिजी के.टी.	पचनकुट्टी के.टी.	कावुगालथोडी (एच), अरिपरा पी०ओ०, अगडीप्पुरम वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10987				
209046	शिजिन शाहु	ई. शाहुदीन	शिजिन शा मजिल, उदयथारा नगर, हाउस नं० 28, एराविपुरम पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11179				
209047	शिलजा सी. चेरियन	चेरियन	चेम्पाकारा (हाउस), चेल्लियमपाराम्बा पी०ओ०, केलाकम वाया, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11291				
209048	शिल्पा के. काथिकेयन	काथिकेयन के.वी.	कावुगल (हाउस), अरमाबी कॉलेज के पास, पी.वेम्बालूर पी०ओ०, कोडुगलूर, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.01.2016	11029				
209049	शिल्पा के. नाथ	गोपीनाथ के.वी.	कावालाथिल हाउस, कारापुजा पी०ओ०, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2017	12078				
209050	शिल्पा एम.	माधवन नाम्बूथिरी एम.	थलावानाट्टू इल्लम, नगमबाडोम, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12614				
209051	शिल्पा पी.	सिवारमन पी.	पदिजारेथिल (हाउस), कुलाप्पाडोम, कुमेरपुथुर पी०ओ०, मान्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12831				
209052	शिल्पा प्रसाद	जयाप्रसाद के.एस.	कृष्णा, पी.आर.ए-36(2), टीसी-49/66(1), कमलेश्वरम, मानाकोड पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11916				
209053	शिल्पा एस.	कैमल एन.एस.	विशाखम, पानावल्ली पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलाप्पुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.09.2018	12857				
209054	शिल्पा शाहु पी.एस.	शाजू पी.ए.	पजयाकत हाउस, एडावनाकड पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12673				
209055	शिल्पा सिवान	सदा सिवान पिल्लई	मिधुला कॉटेज-2बी, रकायलाईन कानोपी, नादाकाबू पी०ओ०, वदिपेट्टा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	29.07.2017	12048				

209056	शिमा मोहन	मोहनन पी.के.	पोलास्सेरी (हाउस), चेत्रपिन्नी पी०ओ० (17), जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	25.10.2017	12285				
209057	शिमाना टी	अब्दु टी	थोनिक्कारा हाउस, थंघिगनादम पी०ओ०, पट्टीक्कड वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	21.03.2017	11815				
209058	शिसी जॉसफ	जॉसफ एम.जे.	मम्बाल्लीथडाथिल हाउस, अजियान्नूर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.06.2019	13165				
209059	शिसी पी.टी.	मोहम्मदाली पी.टी.	वेत्थेदाथ काडी (हाउस), नाल्लूर (वाया), फेरोके पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	02.07.2015	10861				
209060	शाइन सेमुअल सी	सेमुअल सी.एस.	चीरन हाउस, वेस्ट मगड पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	12000				
209061	शिनी कुरियन	पी.जे. कुरियन	श्री प्रोविशियल हाउस, थोडियिल पी०ओ०, पेरावूर, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.07.2015	10877				
209062	शिसा रहमथ के.एन.	नजर के.ए.	कुरुदमपाराम्बील (हाउस), इल्लाथुलने वेस्ट, एडावनाकड, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.11.2017	12315				
209063	शिनु जोश	जोशफ सी.जे.	लिटल फ्लोवर कॉन्वेंट, मानापुरम पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	03.10.2019	13402				
209064	शिरिन एम.टी.	हामजा एम.	मनकाराथोदिका (हाउस), पुल्लेगोडे पी०ओ०, सरामबिक्काल्लूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	04.08.2018	12699				
209065	शिरिन मोहम्मद अली उममालिल	मोहम्मद अली	'अल-नूर', पाप्पिनिरसेरी वेस्ट पी०ओ०, एराबिक कॉलेज के पास, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	06.04.2016	11212				
209066	शिरिन	सीथी वारिककापुलक्कल	मुडोथोडी हाउस, मावडीयूर, वाडाक्कुमपुरम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.12.2017	12368				
209067	शिरिन फाबी एम.	मूसा मेक्कुनाथ	फाबीस (एच), मोडाकाल्लूर पी०ओ०, अथोली वाया, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	10.12.2015	10962				
209068	शिवानी	श्री विजय कुमार	सी-4, एमसीडी फ्लेट्स, पदम नगर, दिल्ली-110007	बीएचएमएस	2017	प. बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी रोहलक	दिल्ली	15.09.2020	बीएचएसडी/5780				
209069	श्रीमती कल्पना पाठक	विपिन कुमार पाण्डेय	गाव कोल्हुवा लाकडा, पोस्ट-उतरावल, जिला-सत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश-272175	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	उत्तर प्रदेश	23.10.2019	एच038768				
209070	शोभाना एम. नामबियार	मोहन चद्रन	'कावेरी', पाल्लेना, निलेश्वर पी०ओ०, होसादुर्ग, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.09.2015	10916				

209071	श्रीका ई.	अली अकबर इरुमबन	चोलाक्कलकुडिल, अमायूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.04.2018	12494				
209072	श्रेया एन. पट्टियार	नरेश वी. पट्टियार	"स्पेरिगफिल्ड", आर.जी. पाई रोड, चेरलाल साउथ, मत्तनचेरी पी०ओ०, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	25.07.2016	11370				
209073	श्रेया पी.	कुमारन पी.	पालेरी थजे कुनियिल (हाउस), एलागोडे पी०ओ०, पानूर, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11036				
209074	शिजी शाहमा पी.	काम्पूनी पी.	पोट्टायिल (हाउस), अमापोयिल, वेल्लायूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.01.2017	11677				
209075	शुक्ला ऋचा	राजेश कुमार शुक्ला	594, कुमार निकेतन आदर्श नगर उन्नाव, उत्तर प्रदेश-209801	बीएचएमएस	2019	जीवाजी यूनिवर्सिटी, न्वालियर	उत्तर प्रदेश	01.11.2019	एच०३८८०१				
209076	शुक्ला शिवाकी	श्री अरुण कुमार शुक्ल	एल-29/10ए, स्ट्रीट नंबर 8, जय प्रकाश नगर, 4 वा पुरता, दिल्ली-110053	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5768				
209077	श्वेता मारियम लिट्टी	तिट्टी डेनियल	मुदाक्कल हाउस, अदिचनाल्लूर पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	28.01.2017	11709				
209078	श्यामा प्रताप	प्रथापचंद्रन एन. एस	धेय्यानाथु मडोम, ईस्ट गेट, वैकाम पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	19.08.2019	13300				
209079	शयबी पी.टी.	पी.टी. थॉमस	डीएसएच.जे. कॉन्वेंट, माल्लूसरी पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2019	13306				
209080	सिबी राज वी.सी.	जे. विजयाराज	अरुण निवास, टी.सी. 18/1430, दास नगर, अरामदा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11137				
209081	सिबिन आर.ए.	रामामद्रन जी.	आनदा भवन, एधिकला, काक्कोट्टुकोनम, चेरुवाराकोनम, पारारसाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11627				
209082	सिबिया के.एस.	एस. कुमारादास	ग्रीन व्यू बेथेल, मुट्टाकौड पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11399				
209083	सिद्धाबधिना उमा देवी	सिद्धाबधिना मधु सुधाना राव	डीन०-23-11-4/7, एफ न० 204, साई सोथे मेशन, श्री राम नगर, राजामहेद्रवनम (यू), ईस्ट गोदावरी, जिला-आन्ध्र प्रदेश	बीएचएमएस	2018	डॉ० एन.टी.आर. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	17.07.2018	8483/एच/2018				
209084	सिद्धीकी शाजिया	मोहम्मद सलीम	एफ-7/बी-4, ब्लॉक-एफ, दिलशाद कॉलोनी,	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	27.08.2020	बीएचएसडी/5707				
209085	सिधी राज एस.	राजाप्पन एम.जी.	सूया, पी.एच.ई.डी रोड, इराहियालम, सिविल स्टेशन पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13187				
209086	सिजी एस.	जी. स्टीफन	रोजहाउस, डीआरए-37, कोल्लाविला, मोरक लेन, केशवदासपुरम, पाट्टोम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12239				

209087	शिल्पा एम.एस.	सहादेवन एम.के.	स्नेहाशिलपम, मारियापदम, एलावाम्पदम पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	06.12.2017	12322			
209088	शिल्पा पी. शाशिधरन	शाशिधरन पी.सी.	पुनाक्काथाराथिल हाउस, काजुविलगू, मथिलाकम पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11043			
209089	शिल्पा शकर पी.के.	शकरन पी.के.	पाराप्पम काट्टील (हाउस), नाडुवान्नूर पी०ओ०, कोयिलडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	26.05.2017	11889			
209090	शिल्पा ससि एम.के.	शिधरन	चिन्कुट्टी वीडू, पेरुवात्तूर पी०ओ०, कोयिलडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12100			
209091	शिल्पा टी.के.	वेणुगोपालन टी.के.	थेक्कीनकाट्टिल हाउस, चुल्लीयूडे पी०ओ०, पुक्कोत्तुमपादम, जिला-मालापुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.09.2018	12782			
209092	शिल्पा उन्नी	के.जी. उन्नीकृष्णन	धाराम्मल हाउस, एस.के. मंदिर के पास, हेड पोस्ट ऑफिस, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12954			
209093	सिमो मैथ्यू काप्पाडाक्कामडाथिल	मैथ्यू पॉल	काप्पाडाक्कामादाथिल, कोट्टेक्कुलम, कोरेन्चिरा पी०ओ०, किजाक्केनचेरी, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.06.2019	13153			
209094	सिमो पी. इरमाईल	इरमाईल पी.सी.	पायम्पल्लील हाउस, एडायिरिक्कापुजा पी०ओ०, कागाज़, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10838			
209095	सिमो एस. अरादन	साजी अरादन	अरात्तु गलिली, कोडविला पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.01.2018	12432			
209096	सिमो एस. जॉय	जे.एम. जॉय	जॉय भवन, टी.सी. 4/2310, अलाथरा, श्रीकारियम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12146			
209097	सिमिहनीफा आर.	हनोफा ए.एम.	टी.सी. 5/1107, जी.जी.एच.एस.एस. के सामने, पेरुरकाडा, पेरुरकाडा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2016	11321			
209098	सिमरन	श्री सुखदर्शन कुमार	डी-38, राजय एन्क्लेव, राजा पुरी रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5661			
209099	सिधेस मोहम्मद पी.के.	मोहम्मद पी.के.	पेरुक्कुन्नियील हाउस, चेतूर, कोडूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.11.2016	11588			
209100	सिधी पूजा	अजय कुमार दास	160/6, रेलवे क्वार्टर, बेलियाघाटा रोड, कोलकाता-700015	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	28.11.2019	32765			
209101	सिधु कुमारी	ससि कुमार	टी.सी. 2/507, माडाथुविला वीडू, मेडिकल कॉलेज, पी.टी. चाकू नगर के पास, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.11.2018	12936			

209102	सिधु वीएस	जी.वी. नायर	अरवाथी, पाजयार, ईस्ट काल्लाडा पीओओ, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.06.2018	12506			
209103	सिंह अभिजीत कुमार	चंद्रदीप सिंह	आनंद नगर, रोड नं० 02, गोबरसाही, पोस्ट-खबरा, पु०स्टे०-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843146	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	30.08.2019	33064			
209104	सिंह आशना	श्री एस.वी. सिंह	फ्लैट नं० 119, राष्ट्रपति भवन अपार्टमेंट्स, फ्लॉट-3, सेक्टर-10, द्वारका नई दिल्ली-110075	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5728			
209105	सिंह देवेन्द्र	श्री जवाहर लाल	जीएफ-1, फ्लॉट नं० 318, ज्ञान खण्ड 1, इन्द्रा पुरम, गाजियाबाद	बीएचएमएस	14.09.2011	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	28.05.2013	एच032600			
209106	सिंह दिशा	दशरथ सिंह	मार्फत तारक नाथ हलदर, कृष्णापुर, मुर्शिदाबाद 742185	बीएचएमएस	अक्टूबर-2018	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	22.07.2019	32551			
209107	सिंह गजेन्द्र	राम किशन	वीपीओ-उज्जिना, तहसील व जिला-नूह मेवात, हरियाणा-122107	बीएचएमएस	2019	जीवाजी यूनिवर्सिटी, न्वालियर	हरियाणा	09.06.2020	6514-ए			
209108	सिंह कनिका	श्री इंदर जीत सिंह	1/6879, आजाद गली नंबर 5, ईस्ट रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32	बीएचएमएस	2019	डॉ० एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	दिल्ली	14.12.2020	बीएचएसडी/5792			
209109	सिंह करनजीत	डॉ० सुरिंदर सिंह राजपूत	8/19, टॉप फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली-110008	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	11.08.2020	बीएचएसडी/5689			
209110	सिंह कवलदीप	श्री गोरचरण सिंह	ई-2/88, दूसरा फ्लोर, सेक्टर-11, रोहिणी दिल्ली-110088	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5675			
209111	सिंह कोमल	श्री दलीप सिंह	बी-528, अवतिका, सेक्टर-1, रोहिणी दिल्ली-110085	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	08.01.2021	बीएचएसडी/5806			
209112	सिंह मनदीप	श्री ठाकुर दास	गाव-मलहेला विजय पोस्ट कुडोल, आगरा	बीएचएमएस	16.11.2012	गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, पंजाब	उत्तर प्रदेश	04.10.2013	एच033372			
209113	सिंह मनीष चंद्र	राम समुद्र सिंह	हाउस नं०-428, शिवाजी नगर (महुसुघरपुर), पो०ओ०-शिवपुरी नई कोलोन, जिला-गोरखपुर 273016	बीएचएमएस	2010	भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पुणे	उत्तर प्रदेश	30.08.2010	एच030320			
209114	सिंह नोरेम गोपेश्वर	नोरेम लोमबी सिंह	237/एल, मानिकताला मेन रोड, एस.ओ.-ककुरगाची, कोलकाता-700054	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32697			
209115	सिंह ओमवीर	श्री राजपाल सिंह	ई-85, नेहरू विहार, नियर तिमारपुर दिल्ली-110054	डीएचएमएस	1984	राजस्थान बोर्ड	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5667			
209116	सिंह पूजा	श्री अशोक कुमार	फ्लैट ए/6, आर.जेड-437, राज नगर-1, यादव निवास, पालम कोलोनी, नई दिल्ली-45	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	31.07.2020	बीएचएसडी/5685			
209117	सिंह प्रिया	श्री सोहन सिंह	फ्लैट नं० 270, गंगोत्री अपार्टमेंट्स सेक्टर-12, पॉकेट-1, द्वारका, नई दिल्ली-110078	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5756			

209118	सिंह प्रियका	धर्मेन्द्र सिंह	सुपुत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह, म०न०-69, ग्राम-बीबीपुर, पोस्ट-गुलजारगज, थाना-सिकरारा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222135	बीएचएमएस	2018	बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल	उत्तर प्रदेश	03.06.2019	एच038340			
209119	सिंह राहुल	अचल सिंह	15/101सी, एम पी. पुरा ताजगज आगरा उत्तर प्रदेश-282001	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	20.05.2019	एच038293			
209120	सिंह राजतिलक कुमार	कैलू यादव	तेतरिया खुर्द, पो०ओ०-पु०स्टे०-बाराचट्टी, गया, बिहार-824201	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	30.08.2019	33080			
209121	सिंह रिषीकान्ता कोन्थोजम	कोन्थोजम जीतन सिंह	मार्फत अरिन्दम सरबाधिकारी, 1760, प्राणतीक, पल्लो, कसबा, कोलकाता-700042	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32453			
209122	सिंह सुदीप्ति	सुरेन्द्र पाल सिंह	महाराज नगर, केकेआर स्कूल के पास, लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश-262701	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	27.06.2019	एच038522			
209123	सिंह सुरेन्द्र	ओम प्रकाश सिंह	669, बृज विहार कॉलोनी, नदगाव रोड, कोसी कला, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281403	बीएचएमएस	2020	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	13.08.2020	एच039128			
209124	सिंह विजय	श्री शशि कात सिंह	हाउस न० ई-20, फेस-1, कुतुब विहार, दिल्ली-110071	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5671			
209125	सिध एश्वर्या	सजय सिध	कोलोनैलगोला, मिदनापोर, वेस्ट मिदनापोर 721101	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32593			
209126	सिध देबोज्योति	तरुन कुमार सिध	नरोत्तमपुर, काहला, मालदाह 732205	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32647			
209127	सिध कनक काति	महोम चद्र सिध	गाव व पो०ओ०-बसर, जिला-साउथ 24 परगनास 743374	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32595			
209128	सिधा कनक काति	माहिम चद्र सिधा	गाव एण्ड पो०ओ०-बसर, पु०स्टे०-घोलहत, जिला-साउथ 24 परगनास, वेस्ट बंगाल-743374	बीएचएमएस	2019	दा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32595			
209129	सिहा अबानिदरा	अजोय कुमार सिहा	मंगलपुर, बालूरघाट, पो०ओ०-बेलताला पार्क, जिला-दक्षिण दिनाजपुर 733103	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32674			
209130	सिन्हा काकोली	पारीताश सिन्हा	ग्राम-गोपालपुर, पी.ओ.-भोपालपुर, जिला-उत्तर दिनाजपुर 733143	बीएचएमएस	मार्च-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32461			
209131	सिहा कारुनमय	द्विपेन्द्र नारायण सिहा	नेताजी पल्ली, पो०ओ० व पु०स्टे०-इरलामपुर, जिला-उत्तर दिनाजपुर 733202	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32679			
209132	सिनी के वी	सुब्रहमयन	कोलाथुम पुरथ वायालिल (हाउस), पनानगड पी०ओ०, बालूरसरी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.06.2017	11896			

209133	सिनी एन.	नादी पी	नेचीकोडुपोयिल (हाउस), थिक्कलगाडे पी0ओ0, मजेरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11082				
209134	सिनी एन.एन.	ए. नजीमुद्दीन	सुबह, टीसी 75/633, पेट्टाह, अनायारा पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12794				
209135	सिजू पी.	सुरेन्द्रन पी.	कैपारा हाउस, अविनिरसेरी पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.06.2017	11900				
209136	सिसिया एम.एस.	सिद्धिकी एम.ए.	माथियादथ हाउस, पल्लोपोट पी0ओ0, जिला-एनाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12893				
209137	सिन् वी.पी.	देवादसन वी.पी.	वेल्लुथेदाथू पाराम्बील (हाउस), वैरानकोड पी0ओ0, थिरुनावाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12132				
209138	सिरज वी.ए.	अब्दुलरजाक	वालियाकथ, मगलम आरएस वाडाक्कनचेरी पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.06.2019	13156				
209139	सिसिरा एम.ए.	एम.वी. अर्जुनन	मानायिल (हाउस), थैक्कड पी0ओ0, गुरुवायूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.07.2017	12031				
209140	सितारा फातिमा चेरूकोपाधियलिल	टी. अब्दुल मजीदखान अरारी	किजाक्कोथिल हाउस, मारीयाथुरुथु पी0ओ0, जिला-कोड्डयम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11964				
209141	रिंधारा प्रवीन	अब्दुल आसिस कोरुथ	परवीन, मुट्टुगल वेस्ट पी0ओ0, चोरोडे, वाडाकरा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2015	10884				
209142	सिथरथन आर.	रामलिंगम	वजाचिरा हाउस, सच्चिवाथामापुरम पी.ओ., कुरिचो, कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	1971	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2019	13283				
209143	सिथराथुल मुथाहा पी.वी.	पी.वी. मोहम्मद	सुकून हाउस, एन.एस.एस. कॉलेज रोड, मजेरी कॉलेज पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12346				
209144	सिवा सागर	मोहन दास के.जी.	कोचुकालीकल थरायिल, चगनकुलगारा, वाब्बाकावू पी0ओ0, कंएनपीवाई, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.08.2019	13356				
209145	शिवाप्रिया सी.बी.	भारथन के.टी.	यावानिका (हाउस), मक्काडा पी0ओ0, काक्कोडी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ0 एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.01.2017	11688				
209146	शिवाप्रिया जी. कामथ	एस. गोपाला कृष्णा कामथ	जेएसयू, निवास, आजाद रोड, अलूवा, जिला-एनाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11119				
209147	एसके. आलम चंद	जजमान एसके.	गाव व पी0ओ0-चदनपुर, जिला-नादिया 741162	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32587				

209148	स्मृति आर.	एम. राधाकृष्णन	कल्लनकोडे कलाम, एन.एस.एस. कॉलेज, नेम्मारा पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11045				
209149	स्मृति एस.	सुरेन्द्रन के.	श्रीसेलम (हाउस), विलायिल पी०ओ०, कुजिमन्ना (वाया), जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12550				
209150	स्नेहा	श्री सुरेश कुमार	हाउस नंबर 159, पना मामरपुर, नरैला, दिल्ली—110040	बीएचएमएस	2018	पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़	दिल्ली	15.09.2020	बीएचएसडी/5781				
209151	स्नेहा सी	सोमन चेमबोट्टोडियिल	चेम्बोट्टोडोडी (हाउस), वारागोडे, डाउनहिल पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12877				
209152	स्नेहा जॉर्ज	पी.जे. जॉर्ज	रेलवे क्वार्टर्स न० 140 बी, क्यू.एस. रोड के पास, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	15.05.2017	11878				
209153	स्नेहा जैकब के.	के.पी. जैकब	कोट्टाक्करन हाउस, कोराट्टी ईस्ट पी०ओ०, चिरगारा, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.05.2019	13114				
209154	स्नेहा जेम्स पी.जे.	जेम्स पी.जे.	पुथियापाराम्बोल हाउस, थिक्कालूर पी०ओ०, थचम्पारा, मन्नारक्कड, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	27.09.2017	12255				
209155	स्नेहा जयाप्रकाश	जयाप्रकाशन सी	स्नेहा ज्योति (हाउस), केकोट्टुवायल रोड, मालापारम्बा पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	16.06.2018	12514				
209156	स्नेहा जोशफ	जोशफ आगरटोन	नाडुविलेदथु, नाराकाक्कानम, नाराकाक्कानाम पी०ओ०, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12552				
209157	स्नेहा पी. मारटिन	मारटिन पी.वी.	पालक्कापिल्लिल, एसानादम, नोर्थ फोर्ट गेट, त्रिपुनिथुरा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.01.2016	11022				
209158	स्नेहा प्रदीपन	प्रदीपन के.एम.	सोपापिका, चक्याली रोड, अलिकीजिल, माम्बा पी०ओ०, जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.08.2016	11387				
209159	स्नेहा एस.	आर. श्रीकुमार	शिथु निवास, कान्नाथ लेन, कार्तियानी मंदिर रोड, अयानथोले, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.10.2019	13393				
209160	स्नेहा एस.कुमार	ससिकुमार टी.एस.	धजाथेथिल (हाउस), नीलमपेरूर पी०ओ०, कुरिची, जिला—कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.11.2016	11581				
209161	स्नेहा एस.एस.	बी. सुरेन्द्रन नायर	थेरिककल हाउस, विलावरकल, मालायिकिल पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11180				
209162	स्नेहा सेथु	सेथु पी.सी.	पाथयापुराकल (हाउस), नेडुगड, नायाराम्बालम पी०ओ०, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.06.2019	13157				

209163	रुनेहा सुरेश	सुरेश अदावन	कैलासम (सौराभम), अयाप्पनकावू, पिरायिरी पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.05.2017	11872				
209164	रुनीजा एन.	सुरेसन पी.ए.	जयालायम, उन्नीसवा मिल, चवास्सेरी पी०ओ०, माट्टानूर, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.08.2018	12748				
209165	सोलिया एन.सी.	चद्रन एन.	पुथुवल विलाक्कुथु वीडू, सारथमथाला यू.पी.एस. के पास, नेयात्तिनकारा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2016	11318				
209166	सोना रौफ	मोहम्मद अब्दुल रौफ	पुनिलथ हाउस, वचाकल एडावनकड पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.05.2016	11272				
209167	सोनी अभिषेक कुमार	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	जी-10/71, सैक्टर-15, रोहिणी दिल्ली-110089	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5749				
209168	सोनिया एम.	मोहम्मद एम.	नेस्ट, टी.सी. रोड, तिरुवरगडी पी०ओ०, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.09.2018	12853				
209169	सूरज सी सुरेश	सुरेश सी.के.	चोराट्टिल हाउस, ओल्लूकारा, पारावाट्टामी, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.12.2018	12984				
209170	सूरज सी.सी.	चद्रन सी.	चौरामकुन्नाथ (हाउस), थेकारा पी०ओ०, मन्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11286				
209171	सूरज के. पानिककर	कमलारानन पानिककर	18/326 (18/348), मगलारसॉरिल, पोनाकम, मावेलीक्कारा, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.08.2018	12762				
209172	सूरज के.वी.	के.वी. कुडीकन्नन	सूरज निवास, किनानूर रोड, चयोंथ पी०ओ०, निलेश्वर, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	26.10.2015	10931				
209173	सूरज एस.एस.	सतोषकुमार बी.	कालाथिकल (हाउस), नाट्टेरी पी०ओ०, कोयिलडी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12685				
209174	सूरज टी.यू.	उन्नीकृष्णन टी. जी.	धरायिल हाउस, पेराम्बरा पी०ओ०, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11729				
209175	सूर्या एस.के.	सुरेन्द्रन नायर पी.	501, सूर्या, कोचुट्टुकोनम, मारियापुरम पी०ओ०, चैनकल (पार्ट), जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12585				
209176	सोफिया जोशफ	जोशफ	जैमाथा अडोरेशन प्रोविशियल हाउस, मारियापुरम पी०ओ०, कुथिराकाल्लू, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.10.2016	11531				
209177	सौदा बीवी टी.	कोया हाजी टी.	चूलिकुलावन हाउस, कालिकावु पी०ओ०, पुट्टामन्ना, जिला-मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11135				

209178	सौधा बीवी के.के.	अब्दुल्ला के.	कोलगाराकाडी (हाउस), वैलारसरी पी0ओ0, एनआईटी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12879				
209179	सौम्या के.एम.	के.एम. मोहम्मद बशीर	कोल्लमपाराम्बोल हाउस, मालापल्लीपुरम पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.09.2018	12852				
209180	सौम्या ए.	गोपालाकृष्णन ए.	कारीक्कम पराम्बोल हाउस, वालीकुन्नू पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.10.2018	12870				
209181	सौम्या चक्कारायन	सुरेशन सी.	नक्षत्र, कपिलेपीदिका, अजिकोड साउथ पी0ओ0, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11332				
209182	सौम्या गोपाल	के. गोपालाकृष्णा पिल्लई	गोपाश्री, पुनुकोनूर, पेरुम्पूजा पी0ओ0, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2015	10802				
209183	सौम्या कृष्णन	लीला कृष्णन	समीक्ष भवन, जी.एन. कावू, एलामकोडे पी0ओ0, अत्तिगल, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10938				
209184	सौम्या पी.एस.	सुदरन पी.	सौम्या निवास, थिरूरकड पी0ओ0, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.05.2017	11881				
209185	सौम्या पीटर	पीटर पी.पी.	साक्रेंड हार्ट प्रॉविशियल हाउस, क्लारापुरम, अलूवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2016	11470				
209186	सौम्या टी.आर.	धुलसीधरन पिल्लई	धुशारा, एराम नोर्थ, चधननूर पी0ओ0, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10788				
209187	सौम्या एन.पी.	प्रदीप एन.	नारानगपाराम्बोल हाउस, एस.एन.एस. रोड, वडुक्कारा पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.09.2018	12826				
209188	श्रीदेवी ए.जे.	अशोककुमार बी.	विसखम, हारबोर रोड, विजिजम पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	27.12.2017	12345				
209189	श्रीदेवी एम.ओ.	मुथयान चेदियार ए.	मुथाया भवन, वानीगर गली, बालारामपुरम पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.01.2018	12412				
209190	श्रीदेवी वेनूगोपाल	वेनूगोपाल भारकर	कोगल्लिल हाउस, वतानापल्ली पी0ओ0, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10835				
209191	श्रीगोवरी एल.के.	वी.कृष्णाकुमार	वासुदेवम, जेपीएचएसएस के पास, ओट्टाशेखरामगलम पी0ओ0, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12092				
209192	श्रीहरि के.एम.	श्रीनिवासन के.एम.	कैकालत हाउस, वैलारसरी पी0ओ0, एनआईटी (वाया), चूलूर, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	24.09.2018	12844				
209193	श्रीजा एम.	श्रीनिवासन एम.	गोकुलम (हाउस), 14/189-बी, सिमेंटी रोड, चुल्लिककल, थोप्पुम्पडी पी0ओ0, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	09.03.2017	11791				

209194	श्रीजी मोल के.एस.	के.वी. श्रीधरन	कृष्णमुल्लिल (हाउस), नेडुमकदोम पी०ओ०, मिनोरसिटी, जिला—इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12647				
209195	श्रीजिर्मोल एम.आर.	राजन एम.के.	मेलडो (हाउस), ओल्लूर पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.08.2017	12072				
209196	श्रीजिथरा टी केयान	कार्तिकेयन	पूरम हाउस, मूल्लूर, मूल्लूर पी०ओ०, विजिजम, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12563				
209197	श्रीकुट्टी आर.	एस. शशिधरन	पेरूर, पादिनजाट्टाथिल वीडू, नेडियाविला, कुन्नाथूर ईस्ट पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2019	13207				
209198	श्रीलक्ष्मी के.	के.के. रेमानन	वाल्लयारपदम हाउस, नाजेरथ रोड, अलूवा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	09.01.2018	12431				
209199	श्रीलक्ष्मी के.	पी. सुरेन्द्रन	श्रीकृष्णा हाउस, पुन्नाप्पाला पी०ओ०, वडोर, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.09.2018	12803				
209200	श्रीलक्ष्मी एल.एस.	एन. शशिधरन नायर	सिवास्दनम, टी.सी 31/1246 (2), अवरा-60, पेट्टा पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11460				
209201	श्रीलक्ष्मी एम.जी.	गोपालाकृष्णन एम. आर.	मानेली (हाउस), पाराक्काडावू पी०ओ०, कुरुमास्सेरी (वाया), जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.06.2018	12565				
209202	श्रीलक्ष्मी एन.एस.	नादुमुरी सुरेश बाबू	नादुमुरी हाउस, च्चेदथ पाराम्बू, लोकामलेश्वरम, कोडुगल्लूर, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	21.06.2018	12551				
209203	श्रीलक्ष्मी पी.	सुधाकरन ई.एम.	श्रीवलसम, कुट्टीमुडा, पूक्कोत्तुमान्ना पी०ओ०, चुगाथारा वाया, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2016	11558				
209204	श्रीलक्ष्मी टी.पी.	टी.पी. रामाचन्द्रन	आश्रम (हाउस), अरायकारा, पूक्कोट्टूर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.06.2017	11904				
209205	श्रीलक्ष्मी एस.आर.	श्रीकुमार जी.	अनुपमा, वालिकुन्नु, मुक्कुडिल पी०ओ०, वेजारामूडू, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12793				
209206	श्रीलक्ष्मी वी.	वेनुगोपालन के.	विपाचिका, पुचिरिमिल, चोरोड पी०ओ०, बटाकारा, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11941				
209207	श्रीलक्ष्मी जे.एस.	वी. जयाचन्द्रन नायर	अम्बिका निवास, मुक्कामपालामूडू, वेमबायम पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12943				
209208	श्रीलक्ष्मी एस.	के. गोपाकुमार	टी.सी 19/347 (1), मेलाथिल वीडू, वाट्टाविला, तिरुमाला पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13141				
209209	श्रीलक्ष्मी एस.आर.	रामदास चौधरी बी.	वृदावन, पिदराम, पेरूकावू पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12661				

209210	श्रीलक्ष्मी टी.आर.	रजन टी.के.	थेवेलियल हाउस, मुहम्मदा पी०ओ०, जिला—अलापुज़ा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11976				
209211	श्रीलक्ष्मी वी.एस.	आर. विजयन	आर.वी. गार्डन, ओयूर पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.01.2016	11009				
209212	श्रीनाथ पी.डी.	देवादास पी.वी.	पेरिंगोथारा (हाउस), कोथपाराम्बू पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.08.2016	11405				
209213	श्रीप्रिया एम.एस.	श्रीकुमार एम.ए.	प्रसनाथ हाउस, इडाथारा पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	14.08.2019	13279				
209214	श्रीप्रिया एस.	श्रीवलसन के.वी.	अजता, निटुमब्रोम, चोकली पी०ओ०, थलास्सेरी, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2018	12623				
209215	श्रीप्रिया एस.एल.	के. साधयन	श्रीनिलायम, मारायामुट्टोम पी०ओ०, पेरुमकाडविला, नेयाट्टिकारा, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13409				
209216	श्रीराजी आर.नायर	एम.के. राजू	श्रीमादिराम, चिट्टाट्टिनकारा, किजुविलम पी०ओ०, अट्टिगल, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12662				
209217	श्रीशमा के.एस.	श्रीधरन के.पी.	श्रीसदन (हाउस), कैथक्कल, चेनोली पी०ओ०, पेराम्बा (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.08.2019	13265				
209218	श्रीशाना एन.एम.	नारायणन एन.एम.	अमृथम (हाउस), चोलम बायल, बटाकारा पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12182				
209219	श्रीसोम एस.	श्रीकुमारन नायर के.	श्रीलकम (हाउस), वेट्टामपल्ली, इरिचयम पी०ओ०, नेडूमगड, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	08.02.2017	11719				
209220	श्रुति जी.पी.	जी.पी. रमेश	रिमथम, मादाथनकडी कावू के पास, जयती रोड, चलाड पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11342				
209221	श्रुति कृष्णा	कृष्णा मूर्ति पी.	वृदावनम (हाउस), 1/1699-ए, बी.जी. रोड, वैरिथल्ल पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11396				
209222	श्रुति लक्ष्मणन सी.	लक्ष्मणन चिरायिल	श्रुति लयाम, पारियाराम पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.12.2017	12359				
209223	श्रुति लेख एस.एस.	श्रीधरन के.	कैलोथ (हाउस), थडोराम्पारा (पोस्ट), कायान्ना (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13194				
209224	श्रुति एम.	शकर बाबू एम. के.	मुट्टाथ, मयिलवालाप्पोल, कारिवेल्लूर पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	18.06.2019	13160				

209225	श्रुति एम. मोहन	मोहनन एम.यू.	मूडनचेरियिल हाउस, सूर्या नगर, चद्र नगर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2016	11559				
209226	श्रुति मोहन	मोहनन टी.आर.	नन्दनम, थानियामपुरम रोड, किञ्जिरसरी, कुञ्जिम्बना पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.04.2016	11244				
209227	श्रुति नायर एस.	टी. सुकुमारन नायर	कडावाथ, चेंगमानाड पी०ओ०, अत्वा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11927				
209228	श्रुति पी.	सोमन पी.	मघाथिल हाउस, पुडुकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11297				
209229	श्रुति राज पी.	के.जी. राजन	पारयथ, दूसरा फ्लोर, मानियाट्टुकुडी बिल्डिंग, चंगमपुजा नगर पी०ओ०, कालामारसरी, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.07.2015	10876				
209230	श्रुति एस. आनंद	सदानंदन ए.	श्रुति (हाउस), पाप्पिनीपारा पी०ओ०, मजेरी कॉलेज (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12247				
209231	श्रुति सुकुमारन टी.	सुकुमारन टी.	थत्तारामबथ हाउस, पचत्तिरी पी०ओ०, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11097				
209232	श्रुति थैक्केपल्लीक्कुड	बालाकृष्णन टी.पी.	नेचिपराम्बोल (हाउस), चेम्बाक्कातुर पी०ओ०, एरियाकोड, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12878				
209233	श्रुति वी.	गोवधामन वी.	लक्ष्मी सदानाम, थवाक्कारा रोड, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	13.02.2017	11722				
209234	श्रुति दास	पी.के. विष्णु दास	कारुनानिलायम, काडाक्कारापल्ली पी०ओ०, थैक्कल, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13039				
209235	श्रुति जी.एस.	गोपालाकृष्णन पिल्लई	फ्लैट न० 215, एलएफ-2, ब्लॉक न०-4, वृदावन गार्डन, पोर्टोम, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12175				
209236	श्रुति के. शाजी	के.वी. शाजी	कूट्टाप्पादिककल हाउस, अयारकुन्नम पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2018	12663				
209237	श्रुति एम.	माधवन नायर एस.	थूरुथुक्कुडी हाउस, वालायचिरगारा पी०ओ०, पेरुमबावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12123				
209238	श्रुति आर. दिनेशन	दिनेशन पिल्लई जी.	माधवा निवास, रविमर्मा लेन, बी.एच.एस.एस. के पास अत्तीगल पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11668				
209239	श्रुति रामाचंद्रन	रामाचंद्रन ए.आर.	अकामाला हाउस, कानीपायूर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12887				

209240	श्रुधि श्रीकुमार	श्रीकुमार	सिवायलम (हाउस), उमायानाल्लूर पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	05.10.2016	11521			
209241	श्रुति सुरान जॉन	जॉन अब्राहम	कारुकापुल्लो हाउस, काथरिकाडावू, मार्बल मेशन रोड, मारबेल मेशन के पास, कालूर, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	18.09.2017	12209			
209242	स्टेली मैथ्यू	सी सी मथाई	चारिवुकलायिल मारुजुरट विला, एराविपेरूर पी०ओ०, थिरुवल्ला, जिला—पाथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	26.09.2015	10924			
209243	स्टेफी अन्ना वर्घस	सायरस वर्घस	फ्लैट न० 1डी, ए सी गोल्ड, सेंट जेम्स रोड, ब्यत्तिला, कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11340			
209244	स्टेफी पिटर	जी पिटर	क्रिस्ट विला, ई टी सी पी०ओ०, कोट्टाराकारा, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.08.2019	13347			
209245	स्टेफी एन जॉर्ज	जॉर्ज कुट्टी वी जे	वाजापिलाथु हाउस, वाडाररिकारा पी०ओ०, जिला—पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	28.05.2019	13123			
209246	स्टेफी एम राज	विलसन राज एम. डब्ल्यू	मारुतीक्कल हाउस, वेल्लानीक्कारा पी०ओ०, जिला—थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11047			
209247	स्टेफी एस एल	सत्यनेसन पी	रोज विला, पजाया उचाक्काडा, काक्काविला पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11457			
209248	स्टिनिया जॉर्ज	जॉर्ज कुरियन के	किदागयिल हाउस, थेल्लाकोम पी०ओ०, जिला—कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.08.2018	12641			
209249	सुबेर अली पी	मुहम्मद बशीर पी	पालोली हाउस, अलीपाराम्बा पी०ओ०, अनामगद वाया, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11284			
209250	सुचिना एस एस	सुधाकुमार सी	श्रुथीलायम, पेयक्कावुविला, वालियाकालुगु, पारन्दोडे पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11446			
209251	सुचित्रा कृष्णा एस	शिघरन टी एम	आरागू (हाउस), कुट्टोथ पी०ओ०, मीप्पायूर (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	23.08.2017	12186			
209252	सुचित्रा उन्नीकृष्णन	उन्नीकृष्णन के पी	थेक्कीगल हाउस, कृष्णेयु, कुन्नुमपुरम, कालपथी पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12683			
209253	सुचित्रा आर नायक	जी रमेश नायक	गोश्री मथाम, एरूर पी०ओ०, त्रिपुनिथुरा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	02.05.2016	11266			
209254	सुदेशना सी पी	एम वी प्रभाकरन	मोथले माविला वीडू, एलायावूर, वराम पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.01.2018	12419			
209255	सुधा	श्री रामानन्द	फ्लैट न. 74, पाकेट-12, सेक्टर-21 रोहिणी, दिल्ली-110086	बीएचएमएस	1977	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	दिल्ली	18.03.2021	बीएचएसडी / 5820			

209256	सुधीश एम.	मुरुगन के.	पालक्कल थदम (हाउस), चक्कुलम, साउथ पारावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	04.10.2016	11510				
209257	सुकैजा पी.	मोहम्मद शरीफ आर.	सुमायास, कोटोलिप्रम, पाट्टानूर पी०ओ०, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.09.2018	12858				
209258	सुकैला एन.	अबूबाक्कर एन.	नेल्लीप्पाकुदन हाउस, विलायिल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	29.06.2019	13178				
209259	सुहा शबजन	पी शबजन	दिलनूर, किजाक्के नायारु कुलगारा, मायानड पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13195				
209260	सुहेल साइमा	श्री अजमेरी सुहेल	एम-11, स्ट्रीट 6/6, जोगबाई ऐक्टेडन जामिया नगर, नई दिल्ली-110025	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5729				
209261	सुहाना सी.	अन्दुरहीमान सी.	सुहाना मजिल, कोजाक्कोट्टूर, एरियाकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.12.2016	11650				
209262	सुहाना के पी.	नूरुदीन कालीयत पाराम्बिल	नूरजास, कुञ्जिकडी पाराम्ब, पचायत बिल्डिंग के पास, नाल्लालम पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11166				
209263	सुहानी उरमान पुलथ पुधनाथ	उरमान पुलथ पुधनाथ	कात्तुगल हाउस, अवात्कुन्नु वार्ड, थयाम्पल्ली पी०ओ०, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.12.2016	11651				
209264	सुहूरुथाम पी.	प्रकाश टी.डी.	“अमृथाम”, शक्ति नगर-30, कारीकोड, टी.के.एम.सी. पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11449				
209265	सुजिशा धरानीक्काविल	बालासुब्रह्मनियन डी के.	धरानिक्काविल हाउस, चेरूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11657				
209266	सुजिशा सी के.	सुब्रमनियन सी के.	चेल्लोक्काट्टिल (हाउस), पारियापुरम पी०ओ०, स्कूलपाडी तानूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.07.2017	12020				
209267	सुजित पी. सोमन	सोमाशेखरन पी. सी.	पुलिककाजाथू हाउस, चेन्नामकारी ईस्ट पी०ओ०, कावालम, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	27.06.2017	11901				
209268	सुजिथ राज पी.वी.	वेलामुधन पी.	चिथिरा निवास, एरानहिकोडे पी०ओ०, एडावान्ना, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	02.07.2015	10864				
209269	सुकैना अब्दुल्ला	एम.पी.के. अब्दुल्ला	महामपुरथ (हाउस), कोट्टापल्ली पी०ओ०, विलियापल्ली (वाया), वाडाकरा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.04.2018	12489				
209270	सुकन्या अनिलकुमार	एस अनिलकुमार	पुधेनपुरायिल, प्रगथी नगर-59, किलोकल्लूर पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	19.10.2016	11571				

209271	सुकृथा विजय	के. विजया कुमार	सुकृथम हाउस, मलपरागम्ब पी०ओ०, पारोपडी, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11631			
209272	सुलभ जी.	वी. गोविंदराज	राज भवन, 13/21, मोनेरट्टी लेन, अलूवा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	14.08.2019	13280			
209273	सुलफथ चेंगोदन	अब्दुल सलीम	सलीम मजिल, मोगम पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	05.04.2016	11209			
209274	सुलताना फैजा	श्री हबीब अहमद	फ्लैट नं० 8, सीआरआईएस ऑफिसर्स फ्लैट्स एस.जे.जे. एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5660			
209275	सुमाथा एस.	सुरेन्द्रन जी.बी.	IX/440, हरिराम, चेंनोथुपारागंबील, किजाक्कुमपुरम, चेंनदामगलम, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12553			
209276	सुमैग्या मुरतफा अजामपीडिकाथिल	ए.पी. मुरतफा	कारिपायी विला पी०ओ०, थजेचोव्वा, काप्पड, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.12.2018	12978			
209277	सौम्या अफनान आरीक्कन	अब्बास अली अरीक्कन	चेम्बेक्कड (हाउस), एडाक्कापाराम्बा, कन्नामगलम पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11194			
209278	सुमैग्या बी.	बशीर	कालाथिल हाउस, एडाक्कड पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	25.10.2017	12287			
209279	सुमैग्या ई.	हरान कोया	सुरूर हाउस, पट्टीरुथी नीलम, कुट्टीक्काट्टूर पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	03.02.2018	12467			
209280	सुमैग्या के.एन.	के.एच. नजर	मदाथिल (हाउस), इचूर, कोझिपिल्ली पी०ओ०, कोथामगलम, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.01.2018	12463			
209281	सुमैग्या के.पी.	अब्दुल अजीज के. पी.	जबीर मजिल, अल्लुगल पाराम्बू, विद्यारगडी पी०ओ०, रामनाट्टुकारा, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.06.2018	12518			
209282	सुमैग्या मजीद	एम.एम. मजीद	नोर्थ मालायम वीडू, रेलवे स्टेशन रोड, एडाप्पल्ली पी०ओ०, कोचिन, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10817			
209283	सुमैग्या मोहम्मद	मोहम्मद एस.पी.	नीलजनम, इराप्पील, थोलिकोड पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	21.02.2017	11764			
209284	सुमैग्या एन.	अलाविकुट्टी एन.	वालियापुथुर हाउस, पुथुर पल्लीक्कल पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.09.2017	12224			
209285	सुमैग्या पी.	अब्दुस्सलाम पी.	पूनाथोटाथिल हाउस, जेट्टीएस स्कूल के पास, कारुवाम्बरा वेस्ट पी०ओ०, मजेरी, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.06.2018	12511			

209286	सुमैया पी.	कुट्टी मोहम्मद	पारागोदथ (हाउस), चिनाक्कल, वेगारा, बालियोरा पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.10.2019	13411				
209287	सुमैया एस.	सिराजुद्दीन एम.	मुनीर मजिल बालावुपाचा, बालावुपाचा पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13145				
209288	सुमिथ टी.एम.	मोहम्मद टी.	धारायिल हाउस, कोक्कुर पी०ओ०, पालाकोडे स्टॉप, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10818				
209289	सुमिया एस. चद्रन	के चद्रन	सुजा निवास, अदिमाली पी०ओ०, जिला-इडुक्की, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11309				
209290	सुनदा कुमारी के एस.	सुरेशकुमार	कालारिककल (हाउस), थोन्नूरकारा पी०ओ०, चेलाक्कारा, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12138				
209291	सुदरम पी बाला	रव एस. पालानीसामी	सोनारपुर, पी०ओ०-धसियारा, कोलकाता-700150	बीएचएमएस	अप्रैल-1993	बी.बी.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	वेस्ट बंगाल	17.09.2019	32553				
209292	सुनीरा के.	सुबेर के.	पी.टी हाउस, कुडुगल, काल्लाई पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	कालोकट यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2018	12512				
209293	सुनीरा पल्लीपाराम्बन	मोइदीन कुट्टी पी. पी.	पल्लीपाराम्बन (हाउस), ओलाकारा पी०ओ०, तिरुगडी, पकापूरकुन्नाथ, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.12.2016	11669				
209294	सुगतीबेन अमलारी	इम्डोंग अमरौ	हाउस न० 36-ए पुलिस पोस्ट के पास खेरमहल दिमापुर 797112	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	26.06.2019	119				
209295	सुनील रमेशभाई धुमर	रमेशभाई सावजीभाई धुमर	'शिव' मारुती नगर-1, गली न० 2 कॉर्नर, शांति पेन के पीछे, कुवादवा रोड, राजकोट, गुजरात-360003	बीएचएमएस	2019	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी	गुजरात	20.08.2019	जी-25191				
209296	सुनिशा वी.	कुन्हीक्कणन पी.	वाडाक्केनी (हाउस), फारुक कॉलेज पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.10.2018	12876				
209297	सुनुबिया पी.	बी.पी. रॉफ	रलेनमूर, स्वराज प्लायवुड रोड, पापीनिस्सेरी, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	11.07.2016	11333				
209298	सुरभि सी.एस.	सी.एम. श्याम कुमार	चथमेल तिरुवपाडियिल सूर्या निवास, चेरियानड पी०ओ०, चैनगन्नूर तालूक, जिला-अलापुजा, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.03.2019	13078				
209299	सुरभि लोनिन	लोनिन वर्धस	पुलियापनाथुदाथिल (हाउस), थलादिल कालाथूर पी०ओ०, वैम्पल्ली, इट्टुमानूर, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2016	11311				
209300	सूरिया एस. पिल्लई	के सुरेन्द्रन पिल्लई	थिरुवोनम, वदाक्कोविला पी०ओ०, श्री विलासम नगर-142, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.03.2016	11169				

209301	सुरमी आई.	इकबाल एस.	इल्लुविला वीडू, थजुथाला पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12941				
209302	सूर्य जोश	जोश ए.एस.	मानिमातायिल हाउस, कूमबारा बाजार पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	02.03.2016	11142				
209303	सूर्य के. पाई	के.वी. कुमारपाई	पार्वती मादिराम, मुरुथल—बी. पेरिनाड पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.11.2017	12303				
209304	सूर्य के. सुरान	सुरेन्द्रन के.के.	कालाश्री, पुथुरसेरी भगाम, वायला पी०ओ०, पाराकोड (वाया), अंडोर, जिला—पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2013	गोवा यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2018	12493				
209305	सूर्य एम.पी	सुब्रमनियन वी.	मेक्कालाम्पट्टा हाउस, चेम्बराक्काटूर पी०ओ०, एरियाकोड, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2018	12580				
209306	सूर्य नारायण यदामुरी	यदामुरी रतनाजी राव	हाउस न० 2-172, एपीएसपी क्वार्टर्स के सामने, अजानेया नगर, काकीनदा, आन्ध्र प्रदेश-533005	बीएचएमएस	2002	डॉ० एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	13.11.2002	5965				
209307	सूर्य टी.पी	पकजाक्षन बी.	थोप्पील (हाउस), विरुप्पाला, थकाझी पी०ओ०, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	20.04.2016	11240				
209308	सूर्य थोमस	थोमस एम.जे.	मारोत्तोपाराम्बोल (हाउस), उलौक्कल पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11360				
209309	सूर्य वी.सी	के.राजन	'अक्षरा', माचेरी, मोवेन्चेरी पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2016	11146				
209310	सुशी र्लेडी कुरबाह	श्री जे.पी. सुन्न	करेत मावशाटोन, मरबिषु, ईस्ट खासी हिल्स	बी.एच.एम. एस.	04.01.2021	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक बैंगलोर	मेघालय	27.01.2021	503				
209311	सुरिसा सुरेश	सुरेशकुमार आर.	रिषु भवन, कादाक्कावूर पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12597				
209312	सुभिता वी.	गंगाधरन के.	श्रीसेलाम, अयिथाराममन्नम पी०ओ०, कुथुपराम्बा (वाया), जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12891				
209313	सुधि सुनील	सुनीकुमार ए.जी.	अल्लुकुञ्जियिल हाउस, ईवूर नोर्थ, चेम्पड पी०ओ०, जिला—अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12130				
209314	स्वामी तुषार	श्री विजय पाल स्वामी	ई-19, वेस्ट ज्योति नगर, स्ट्रीट न० 1, शाहदरा, दिल्ली-110094	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	13.08.2020	बीएचएसडी/5697				
209315	स्वरूप जे.एम.	जी. जेम्स	जे.एम.एस. निवास, ओदिकुडी, कचमपाञ्जिजी पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11395				

209316	स्वाति के.	चिदनकुट्टी सी.	“स्वाति”, आरएनआरए डी-26, मावुगल, आनदासरा मी०ओ०, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	17.08.2018	12742				
209317	स्वाति मोहन एम.	मोहनन एम.	मोहनम (हाउस), पदिहाट्टोम कांजुवल, निलेश्वर पी०ओ०, जिला-कासरागोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	02.09.2017	12188				
209318	स्वाति सतीश	एम. सतीश	“एश्वर्या”, पूवादन गेट के पास, वाटाकारा-3, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.07.2017	11931				
209319	स्वाति टी. सिद्धानंदन	सिद्धानंदन टी.	धदाथिल हाउस, वेल्लोपाराम्बा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	23.03.2019	13076				
209320	स्वातिशा पी.	कुमारन पी.	पराक्कडी (हाउस), चेलम्बरा पी०ओ०, इडिमुञ्जिकल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	22.04.2016	11247				
209321	स्वाति कृष्णा पी.एस.	दामोदरन ई.	इल्लाथ (हाउस), कार्तिकापल्ली पी०ओ०, विल्लीयापाल्ल (वाया), वाडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13186				
209322	स्वाति पी.बी.	बी.एस. प्रसन्ना कुमार	अधिककाडू वीडू, सरायु नगर-147, वालाथुगल पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12389				
209323	स्वाति एस. वसन्थन	के. वसन्थन	मानापुस्राथु वीडू, नाडुवाथुचरी, चावरा साउथ पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12792				
209324	स्वाति एस.एल.	सतीशकुमार एस.	अष्टमी, थिरुपरम, कचमपाञ्जिरी पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.04.2018	12492				
209325	स्वाती सदानंदन	सदानंदन टी.के.	धडासरी हाउस, नालूकेट्टू पी०ओ०, पालामूरी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12946				
209326	स्वाति वी.सी.	जयाराम वी.सी.	वेलूथेमाना चौराककुजी, पदिहात्तुमूरी पी०ओ०, कृत्तिलगडी वाया, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11122				
209327	स्वेथा चद्रन के.	के.के. चद्रन	किजाक्के कारात्तु (एच), नामान्दा पी०ओ०, बालूरसेरी, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	28.04.2015	10791				
209328	श्वेता दिनेश	के.आर.दिनेश	कान्गोलिल हाउस, 29/1096, जनथा रोड, लेन-5, ब्यत्तिला, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	29.11.2016	11602				
209329	श्वेता सुथान	सुथान ए.ए.	अधिककविल हाउस, पुथेनथूडू, कारुवानूर पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	13.08.2018	12721				
209330	स्यामिली एस.टी.	शशि	येरटी भवन, अनुपमा जकशन, पेरुगुजी पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10944				

209331	तबरसुम	श्री यासीन खान	एफ-123, स्ट्रीट नं०-5, चाद बाग करावल नगर, दिल्ली-110094	बीएचएमएस	2019	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5655			
209332	तामकीन रूमशा	सैयद मोहम्मद शदफुदीन	17, दामजेन लेन, कोलकाता 700073	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32686			
209333	तानिया फ़ैजल	फ़ैजल के.ई.	कोविलकथ हाउस, केएमपी नगर, राजागिरी वल्ली पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	07.01.2017	11674			
209334	तारीक एम.	जुबैर मानाथोदी	मानाथोडी हाउस, अधिककड, एराहिमगाडू पी०ओ०, निलम्बूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11077			
209335	टेफ़ी एन वर्घेस	वर्घेस पी. थॉमस	आलायम, ईस्ट गेट ऑफ़ बी.एच. हाई स्कूल, पुथियाकावू पी०ओ०, मावेलिकारा, जिला-अलाप्पुझा, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	03.06.2019	13132			
209336	तेमजेरबा पोगेन	टसुकजेम पोगेनेर	मार्फ़त रोगसेनलेम्ला पोगेन नागालेण्ड होटेल लिमिटेड, एनआईडीसी बिल्डिंग आईडीसी हाउस, दिमापुर 797112	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालेण्ड	15.03.2019	115			
209337	थानी शाजी	शाजी एस.	कोल्लमपाराम्बील हाउस, उलावैपू पी०ओ०, चेरथाला, जिला-अलाप्पुजा, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11948			
209338	थदाथिल जयाश्री भारकरन	टी.के. भारकरन	थदाथिल हाउस, पारालम पी०ओ०, वेगिनीस्सेरी, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.08.2017	12160			
209339	थाहिला	पल्लीपुरथ मोहम्मद अली	पल्लीपुरथ (हाउस), कारा पी०ओ०, काथियालम, एडाविलगू, कोडुगाल्लूर, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	21.07.2017	12030			
209340	थाहिरा सिद्धिक	मोहम्मद इस्माईल	थाहीर मस्जिद क्वार्टर्स, स्टेशन रोड, पायगडी रेलवे स्टेशन, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.10.2016	11557			
209341	थाहसीन के.टी.	उरमान के.टी.	कालाथिल थोदुविल हाउस, निरामारुथुर पी०ओ०, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	30.04.2016	11255			
209342	ताहसीन एस.	जेड एस. जिराजुदीन	मादम्बिस्सेरिल, मथादम, अलकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12950			
209343	थजुधीन अली ई.के.	अशरफ	इरिक्कुन्म हाउस, पंटरकुलम, नारुकारा पी०ओ०, मजरी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12617			
209344	थसीम पी.के.	मुनीरुधीन पी.के.	पुलियाकोडन काडी (हाउस), पराम्बील पी०ओ०, चेरुवाट्टा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसिस	केरल	16.09.2017	12204			
209345	थारा पी.पी.	अब्दुल नजीर पी.पी.	पाजया पुथन वीट्टिल, वेष्टोम पी०ओ०, तिरूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	24.05.2016	11292			

209346	तसलीमा बशीर	ई. बशीर कुट्टी	तसलीम मजिल, वाडाक्केमुक्कू, कान्नाल्लूर पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13054				
209347	थसलीमा जलोल	अब्दुल जलोल	थसलीमा मजिल, नजारानीली, एलाचियाम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12577				
209348	थसलीमा पी.पी.	पारीद	पुलिमूट्टील (हाउस), कुजिवेलिपाडी, एडाथाला पी०ओ०, अलुवा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11992				
209349	थरिलन ए.	अब्दुल अजीज ए.	अयूर भवन, कुरुचियिल पी०ओ०, थलास्सेरी, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.12.2016	11623				
209350	थसनीम ए.के.	अब्दु रहमान	एलाक्कारा हाउस, मूधेदम पी०ओ०, चेमानथिट्टा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.10.2018	12885				
209351	थसनीम एम.	कुहलन कुट्टी एम.	मोइदीन काटा कथ हाउस, चधम्पाडी, तिरुवगडी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11295				
209352	थसनीम पी.ए.	अब्दुल जलोल पी. ए.	पेजुम्थाराक्कल (हाउस), कोगड पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	08.08.2017	12131				
209353	तासनीम एस.	एम. शिहाब	चेट्टी वेलिककागम, थोडन कुलगासा वाई, अवालूकुन्नू पी०ओ०, जिला-अलापुझा, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	14.11.2018	12932				
209354	थासनीम टी.	एस. अशरफ	अक्कारायिल हाउस, विकास नगर, श्रीकारियम पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	08.11.2019	13448				
209355	थसनी के.	मोहम्मद शरीफ	कुरुनियन (हाउस), ओथुक्कुगल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11972				
209356	थसनीम टी.सी.	अशरफ टी.सी.	चेरामबाथियिल हाउस, एरामगलम पी०ओ०, थजाथेल पाडी (पेट्रोल पम्प के सामने), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	17.09.2018	12832				
209357	थजकिया हनन एस.	जलालुद्दीन एस.	रसामपिक्कल (हाउस), मेपादाम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	कालीकट यूनिवर्सिटी	केरल	11.03.2016	11158				
209358	थाजनीम जैनाब	के.एम. अब्दुल हमीद	नाडाक्कापाराम्बोल हाउस, पूवाथुरसेरी पी०ओ०, जिला-थिरसुर, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.08.2015	10906				
209359	थेजा बी.	भारकरन ए.पी.	प्रथीक्षा, विलाकोट्टूर पी०ओ०, थ्रिप्पागोट्टूर, थलास्सेरी, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.07.2019	13219				
209360	थेजेमायी कृष्णाप्रिया के०	सोमाशेखर के.	मजाक्कल हाउस, कारुलाय पी०ओ०, निलाम्बूर रेलवे स्टेशन, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2013	डॉ० एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, आंध्र प्रदेश	केरल	13.01.2016	10999				
209361	थॉमसन सन्नी	सन्नी थॉमस	पाडिकुन्नेल हाउस, कुरुमुल्लूर पी०ओ०, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.03.2019	13047				

209362	थॉफिक के टी	मोइदीन	कूट्टीपुराथोडी (हाउस), पुनाथला पी०ओ०, वेत्तीचीरा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11019			
209363	थोयोबा नसरान पी.	साइडालवी पी.	थेक्केथालाक्कल (हाउस), पूक्कूत्तूर पी०ओ०, पिलाक्कल, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	22.12.2015	10980			
209364	थुलसी जी	गुमबन	लक्ष्मी निवास हाउस, नाक्कुपाथी ओरू, कावुदिककल पी०ओ०, अगली बाया, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	31.01.2019	12998			
209365	थुशरा आर.	राजन जी	उल्लाट्टाक्कलकलाम, इथनूर पी०ओ०, कोडुवायूर, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	28.12.2017	12361			
209366	थुशरा टी.	थुलसी एटोनी	अभी निवास, पेरायम, मुलावना पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12154			
209367	टिफनी बाबू	वर्धस बाबू	पेल्लोरसेरी हाउस, मन्नामपेट्टा, वाराक्कारा पी०ओ०, जिला-थिरुसुर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12708			
209368	तिडु एस.	साथयापाल टी.पी.	अपार्टमेंट, पारयापुरम जामा मरिजद के पास, पुथनानगडी पी०ओ०, अगडीपुरम, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	08.05.2019	13116			
209369	टिनो जी केरन	एस गनानादास सामुयल	कमला भवन, मारुथराथाला लेन, नेमोम पी०ओ०, जिला-तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम जी आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.02.2019	13020			
209370	टिडूमोल जॉन	के.वी. जॉन	बेथनी कोवेट, थिरुमूलापुरम पी०ओ०, थिरुवाल्ला, जिला-पथनामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	10.11.2017	12298			
209371	तिशा जॉर्ज अनाथनाथ	ए.एम. जॉर्ज	बेथानी प्रोविशियल हाउस, सुलतान बाथेरी पी०ओ०, चौरल (रोड), जिला-वायानड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	16.09.2015	10917			
209372	तिवारी अरुण कुमार	सुरेन्द्र तिवारी	फ्लैट-2, ब्लॉक-जे, केसोकुज, 42, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024	बीएचएमएस	मार्च-2010	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	वेस्ट बंगाल	02.09.2015	30964			
209373	टोली टी.	टोनिहो	हाउस न० 144, वार्ड न० 6 न्यू कॉलोनी जुहेबोटो नागालैण्ड 798620	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	03.06.2019	118			
209374	टोलिवी एच येपथो	हेटोशे वाई येपथो	हाउस न० 15 लहोथावी गाव दिमापुर नागालैण्ड	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	15.02.2020	127			
209375	टोम एलेक्जेडर	एलेक्जेडर	एडाचेरी (हाउस), चित्तारिककल पी०ओ०, जिला-कासरगोड, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	14.07.2016	11357			
209376	तोमर नवनीत	श्री वी.एस. तोमर	हाउस नंबर बी-47, स्ट्रीट नंबर-5, मोहन पार्क नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032	बीएचएमएस	2017	जीवाजी यूनिवर्सिटी	दिल्ली	29.09.2020	बीएचएसडी/5785			

209377	तोमर सचिन	श्री हरवीर सिंह	गाव/पोस्ट-बिजरोल, पट्टी-बोधातिया, बाघपत	बीएचएमएस	2011	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	उत्तर प्रदेश	18.03.2013	एच032448			
209378	टोग्रम ओमंगा	टोग्रम बिजेन सिंह	मिश्रा कॉलोनी, हाउस न० 25 इरमाईल, आसनसोल, जिला-बुर्दवान 713301	बीएचएमएस	माच-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	02.04.2019	32446			
209379	त्रिसा जोश	जोश सेबरेटयन	पल्लीवाथुककल (हाउस), पालाक्कायम पी०ओ०, जिला-पालाक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2019	13302			
209380	त्रिपाठी अवशेष	गोविन्द नाथ त्रिपाठी	पुत्र गोविन्द नाथ त्रिपाठी, गाव/पोस्ट-साहरोज, जिला-माउ, उत्तर प्रदेश-275305	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	उत्तर प्रदेश	23.10.2019	एच038765			
209381	त्रिपाठी जुलका कुमारी	ओंकार नाथ त्रिपाठी	14/एच, स्ट्रैची रोड, लिलुआ, रेलवे कॉलोनी, हावडा-711204	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32570			
209382	त्यागी इषिता	देवेन्द्र कुमार त्यागी	आई-297, शारत्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004	बीएचएमएस	2020	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	25.08.2020	एच039177			
209383	उबोदियात शने	श्री तालिब हुसेन	ई-6 आर.आर. कॉलोनी वसधुरा रोड, त्रिलोकपुरी, गेट नंबर 7, 15 ब्लॉक के पास, दिल्ली-110091	बीएचएमएस	2017	भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार	दिल्ली	02.03.2021	बीएचएसडी/5814			
209384	उज्ज्वला	एम.एस. जहीर अहमद	डोर न० 14/803, कारमबाकड रोड, थरावाथुपडी, पिरायिरी, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2012	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	20.07.2018	12607			
209385	उमा के.एम.	के.एम. मोहनन नांबूथिरिप्पद	कावुगल मगलसरीरी माना, श्याम धाम, एलाकूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.04.2016	11220			
209386	उमा एस. प्रकाश	सिवाप्रकाश आर.	शिवाशक्ति, अम्बट्टू मंदिर रोड, एस.एच. माउंट पी०ओ०, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	05.08.2017	12107			
209387	उमाशकर	शकरा पिल्लई एन.	गगोत्री, सूरानद पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	06.02.2019	13010			
209388	उमलॉग हाइरिवलिन एम. मायलीम	के धीरेन्द्रो रामरीज	मार्फत जितन कुडु, मालीर बगन, राजगज, पी०ओ०-नूतनगज, बर्धमान 713102	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	08.11.2019	32677			
209389	उम्मेर मसूद सी.वी.	मुहम्मदाली सी.वी.	चोजिवालापील हाउस, मसूर मजिल, तावानूर पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11990			
209390	उम्मु हबीबा पी.	अब्दुल करीम पी.	माट्टाथ (हाउस), कोडिहो पी०ओ०, थिरुगराडी (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12795			
209391	उम्मु हबीबा टी.पी.	अब्दुल मजीद टी. पी.	थेवेर पाराम्बोल, काल्लिगल कालपाकचेरी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	02.06.2018	12504			
209392	उम्मुहबीबा पी.	मुहम्मद पी.	पाजिथारा (हाउस), निलम्बुर (आर.एस), मुथौरि, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	24.05.2016	11294			

209393	उम्हरीना वी.	मोहम्मद वी.	वेमूल्ली (हाउस), एडायट्टूर पी०ओ०, मेलात्तूर (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.08.2017	12143			
209394	उम्मूल खेराथ के.	कुहीमोहम्मद के.	करत कालाथिगल (हाउस), पोक्कोट्टूर पी०ओ०, पल्लीपडी, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	16.01.2018	12454			
209395	उनेस टी	अलीकुट्टी टी	धचाराम कुन्नाथ (हाउस), उल्लानूर, थिथला पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11728			
209396	उनिस टी	मोहम्मद टी	धोरन, मुक्काट्टा, चेम्ब्रसेरी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	01.09.2016	11468			
209397	यूनिथन स्वाति श्रीकातन	बी श्रीकातन उन्नीथन	पनामकाडी हाउस, कारानी पी०ओ०, मीनानगडी, जिला-वायनाड, केरल	बीएचएमएस	2012	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी	केरल	06.04.2018	12486			
209398	उन्नीकृष्णन के.आर.	के रामेसन पिल्लई	कोयुकालीकल (हाउस), पाराकोड पी०ओ०, आडोर, जिला-पठानामथिट्टा, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	08.02.2017	11717			
209399	उन्नीमाया आर.	रविद्रन एन.पी	कूलिकडी (हाउस), पराम्बरा पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	28.01.2017	11707			
209400	उन्नीमाया एस.	एस सजीव	न्यू भारत विला, यूआर-117, उप्पालम रोड, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.11.2018	12948			
209401	उपाध्याय मानसी	प्रदीप कुमार उपाध्याय	1/74, विराज खण्ड, गोमती नगर, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010	बीएचएमएस	2020	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	उत्तर प्रदेश	25.08.2020	एच०३९१७६			
209402	उपाध्याय सृष्टि	श्री एल.के. उपाध्याय	4-सौ, पॉकेट-बी, मयूर विहार, फेज-2, दिल्ली-110091	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5775			
209403	उसिलथ बान आर.	एम. जहागीर	नाडुथोत्तम पुथेन वीडू, इचिविला, पारासाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	14.07.2016	11351			
209404	उथरा नारायण	जी पी नारायण पिल्लई	जीपीआरएम-24, पाप्पानामकोड पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11517			
209405	वैसाख वी.एस. नायर	विजयाकुमारन नायर एस.	थुशराम, एसकेआरए 71ए, श्रीकृष्णापुरम, मालायिनकील जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.04.2018	12488			
209406	वैशाली	श्री अशोक कुमार	हाउस न०-831, सेक्टर-5, आर.के. पुरम नई दिल्ली-110022	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5676			
209407	वैष्णा वी पी	बालन वी पी	देवी निलायम, अजियूर पी०ओ०, वाडाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.01.2018	12376			

209408	वैष्णवी टी.जी. नायर	शिविक्रमन नायर जी.	गीता भवन, पोगुमम्बू, कूवालास्सेरी पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.09.2017	12245			
209409	वैष्णवी टी.के.	बैबोदास	धनिकुञ्जियिल हाउस, नमिडा पी०ओ०, जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.12.2018	12973			
209410	वैष्णु टी.जी.नायर	शिविक्रमन नायर जी.	गीथा भवन, मारानाल्लूर, कूवालास्सेरी पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	01.07.2016	11303			
209411	वदना कर्ण	ब्रिज बिहारी प्रसाद	जेल रोड, शास्त्री नगर, पी०ओ० व पु०स्टे०—रामपुर, जिला—गया, बिहार—823001	बीएचएमएस	2020	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	14.10.2020	34011			
209412	वदना श्रीनिवास गागुली	श्रीनिवास के.	काला, पोन्नीयम वेस्ट पी०ओ०, थलास्सेरी (वाया), जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2016	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13470			
209413	वानी वर्धस वी.	वर्धस एटोनी	वालियापारागंबील हाउस, थोटाक्काटुकारा पी०ओ०, अलूवा, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.02.2019	13019			
209414	वनलालहरिती जुडी	श्री लालरोटलुगा	60ए, तीसरा फ्लोर, हुमायुंपुर सफदरजग एन्क्लेव, नई दिल्ली—110029	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	18.12.2020	बीएचएसडी/5797			
209415	वारदा वी.सी.	देवाप्रकाश वी.सी.	अविकीक्काट्टु माना, वालापुरम पी०ओ०, पुलामथोले, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11105			
209416	वारना मैथ्यू	टी.जे. मैथ्यू	धूमपुकल हाउस, नेल्लोपारा पी०ओ०, अलाकोडे, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	04.08.2018	12693			
209417	वर्षा	श्री श्रीकृष्ण महतो	सी—43, स्ट्रीट नं० 12, ईस्ट सागरपुर नई दिल्ली—110046	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5659			
209418	वर्षा	श्री रणेश कुमार	ए—24, ऋषि नगर, रानी बाग दिल्ली—110034	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5672			
209419	वर्षा बालाकृष्णन ए.	बालाकृष्णन ए.	“कविला” (हाउस), ओलावात्तूर पी०ओ०, कोडोटी वाया, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.08.2017	12077			
209420	वार्ते लालरिदिकी	वनरामन्धका	ओल्ड बोर्डेओ गोली, कोशल्या मोरे, पी०ओ०—खरागपुर 721301	बीएचएमएस	अप्रैल—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	11.04.2019	32492			
209421	वरुन सी.एस.	जी. श्रीधरन नायर	चद्रिका भवन, एराप्पुकुजी, कुदाप्पनाकुन्नू पी०ओ०, जिला—तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	25.05.2015	10807			
209422	वरुण वासुदेव के. एम.	के.एम. वासुदेवन नामबूथिरिप्पद	कारुमाराम्पाता माना, अम्बालापपडी, वाडोर पी०ओ०, जिला—मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.10.2016	11529			

209423	वशिष्ठ मोनिका	मजेश कुमार	मार्फत प्राजल पारीक, 49, द्वारिक जगल लेन, उत्तरपारा, भद्रकाली, हुगली 712232	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	17.10.2019	32572				
209424	वासिम सिहास एम.	मोहम्मद कुट्टी एम.	मूक्कुमल (हाउस), कन्नामगलम पी०ओ०, प्चोलामाडू, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	02.06.2018	12505				
209425	वीना दास	ए.के. देवदास	5/542, सौपार्थिका, पयाम्बरा पी०ओ०, कुन्नामगलम (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	16.06.2015	10831				
209426	वीना मधुसूदनन	ए. मधुसूदनन	प्रियम (हाउस), पिनासायी पी०ओ०, थलारसेरी, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	01.09.2018	12779				
209427	वीना मोहन पी.आर.	एम. राजा मोहन	थिरुवनम, कुञ्जिजाविला वीडू, पलामुट्टूक्काडा पी०ओ०, नेयाट्टिनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.09.2018	12796				
209428	वीना सतोष	सतोष बाबू एम.	'वैष्णवम', वाटर टैक रोड, मेलेचूवा पी०ओ०, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	17.08.2018	12746				
209429	विनीता जोश	पी.एम. जोश	पुलिमूडिल हाउस, तिरुवकुलम पी०ओ०, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.06.2019	13144				
209430	वर्मा अनुभव	श्री सजय वर्मा	सी-489/ए, स्ट्रीट न० 24, भजनपुरा दिल्ली-110053	बीएचएमएस	2019	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	दिल्ली	06.07.2020	बीएचएसडी/5657				
209431	वर्मा तुषार	श्री राज कुमार वर्मा	ए-78/01, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-95	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	10.09.2020	बीएचएसडी/5777				
209432	विबिन एफ.लायान्स	फ्रांसिस लायस	विनोद भवन, पोञ्जियूर, पोञ्जियूर पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12391				
209433	विधु कृष्णन टी.आर.	रमन नाम्बूथिरी एन.	थलायत्तुमपल्ली माना, एलामबाकापिल्ली पी०ओ०, एमुरी, पेरुमबावूर, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11062				
209434	विधुला टी.के.	टी.के. विजयन	थेक्कीनकाल्तील (हाउस), चुल्लीयोडे पी०ओ०, पूक्कोत्तुमपादम, निलाम्बूर, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11028				
209435	विद्या जे.एस.	के.जयामदन	वृदावनम, कडाला, कडाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.08.2016	11386				
209436	विद्यामोल सी.एस.	सतोष कुमार सी. के.	चिराप्पाट्टू (हाउस), चोड्डानिककारा पी०ओ०, चोड्डानिककारा, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	17.08.2018	12729				
209437	विद्या एम.	सुब्रमनियम एम.	मेलोथिल (एच), इरुम्बुजी पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	केरल यूनिवर्सिटी	केरल	12.11.2015	10949				

209438	विद्या एम.	मुरली मोहनन ए. वी.	21/514, बानसुरी (हाउस), बालेकड, नूचुप्पिल्ली पी०ओ०, पुडुप्पारियम, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.06.2019	13158				
209439	विद्या एम.टी.	एम.टी. गोपालाकृष्णन	एम.टी. हाउस, इरिम्बिलीयम पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	19.08.2017	12172				
209440	विद्या वी.	जी. विजयन पिल्लई	विद्या निवास, पुनुक्कान्नूर, पेरुमपुजा पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11969				
209441	विद्या वी.	वासुदेवन ए.पी.	अयानिककाडू पुलिककाथोडी हाउस, अथावनाड पी०ओ०, थिरुनावया (वाया), जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	21.06.2018	12554				
209442	विद्या वी.आर.	रामाचंद्रन वी.	लावया (हाउस), कुमारामुथुर पी०ओ०, मान्नारक्कड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	31.01.2016	11040				
209443	विद्यामोल विश्वमभरन	विश्वामभरन जी. सी.	गणपती पलाक्कल हाउस, वालायन चिरगारा पी०ओ०, पुलियमबिल्ली, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	29.01.2019	12995				
209444	विजया राजा सिद्धा एस.	विजयन पिल्लई आर.	कोचुवीटले विलायिल, वेगारा थोडियूर (एन) पी०ओ०, करुपागपल्ली, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.04.2017	11831				
209445	विजयालक्ष्मी वी.जी.	वेनूगोपालन नायर आर.	लक्ष्मी भवन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जकशन के पास, पेरुमकादाविला पी०ओ०, नेयाट्टिनकारा, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	11.07.2018	12596				
209446	विजयन आरती एस.	एम. विजयन	'राघवरामम' एम.आर.ए-65, मनिक्ताश्वरम (पी०ओ०), विट्टियूरकावू, त्रिवद्रम-695013	बीएचएमएस	2020	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	25.09.2020	13644				
209447	विजिशा विसेट	विसेट ई.ए.	सेराफिक प्रोविशियल हाउस, वेस्ट फोर्ट रोड, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.04.2016	11258				
209448	विजिथा वी.	विजयन के.	वीनिलायम हाउस, रोडविला, चेरियावेलिनेलूर पी०ओ०, ओयूर, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	03.08.2017	12089				
209449	विकास रजन कर्ण	सुधीर कुमार कर्ण	मोहल्ला-दिलावरपुर, पोस्ट-मिल्कोचाक, दरभंगा, बिहार-846009	बीएचएमएस	2017	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	10.04.2017	32230				
209450	विमल शर्मा	पी.एन. हरिशर्मा	पाराचिककाट्टु इल्लाम, मारनगत्तुपिल्ली पी०ओ०, अडूर, जिला-कोट्टयम, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	18.02.2016	11120				
209451	विमालम्बिका जॉर्ज	जॉर्ज के.यू.	कोट्टयिल हाउस, पुत्तद, नाथमकुनी पी०ओ०, मेप्पाडी वाया, जिला-वायनड, केरल	बीएचएमएस	2015	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	25.07.2016	11368				
209452	विम्बल सी.वी.	विजयाकुमार के.	थराम्बाकम, रुरसेलपुरम पी०ओ०, बलरामपुरम, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.09.2018	12767				

209453	विनया सी.वी.	वासू	चलिल (हाउस), वैक्कीलारसेरी पी०ओ०, वडाकारा (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.04.2017	11856				
209454	विनया के. सुरेश	के. सुरेश बाबू	बिभूती, मूरिगेरी पी०ओ०, अजाराकाडी (वाया), जिला—कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	15.02.2019	13015				
209455	विशी मैरी कुरुविला	ई.एस. कुरुविला	इदेलायपराम्बोल (हाउस), पुडुप्पाडी पी०ओ०, थमारारसेरी (वाया), जिला—कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	01.10.2018	12861				
209456	विशी जोशफ	जोशफ देवासिया	इडाचेरी हाउस, कादम्बुर पी०ओ०, ओट्टापलाम, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	15.02.2019	13014				
209457	विद्या विश्वानाथन	विश्वानाथन टी. ओ.	राम निवास, चेरी कम्पनी रोड, वेलम, मायिल पी०ओ०, जिला—कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	10.08.2017	12156				
209458	विदुजा वी.सी.	विश्वानाथन पी.	चद्रोदायम, धमानिककारा, कल्लाडिप्पाता पी०ओ०, पात्ताम्बी (वाया), जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	17.01.2017	11686				
209459	विनीश वी. कुमार	एस. वसथ कुमार	थिरुवाथिरा, दया भवन हॉस्टल के पीछे, थिरुक्काकारा पी०ओ०, कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2015	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	03.06.2015	10816				
209460	विनीथ एस. नायर	सुकुमारन एम.के.	वाडाक्कोनेदथ लक्ष्मी भवन, कुट्टीक्कात्तुकारा पी०ओ०, इलूर, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	04.08.2018	12698				
209461	विनीता वी.	विनयन एम.	विनीता भवन, इडामोन 34, इडामोन पी०ओ०, पुनालूर, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	29.06.2019	13191				
209462	विनिथा जी.	कृष्णनकुट्टी सी.	विनीथ भवन, धाजम साउथ, चथनूर पी०ओ०, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.04.2016	11217				
209463	विनिता वी.एस.	जी. विजया कुमार	वेला मनाल, पुरायिडोम, पट्टाथनाम, जिला—कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2019	13035				
209464	विनिथा विजयन	एस. विजयन	25/52 पावोडी पाराम्बू, नीलिककाडु, थथामगलम पी०ओ०, जिला—पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	26.04.2017	11853				
209465	विनिया रोज के.जे.	के.जी. जोशफ	कोमारोथ हाउस, एलामाकारा पी०ओ०, कोची, जिला—एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2014	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	30.08.2016	11450				
209466	विपिन दास एस.एम.	जी. साथयादास	पूर्णापी, काक्कामुकल, काट्टाकाडा पी०ओ०, जिला—तिरुवनंतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	13002				
209467	विपिन देवादास	ई.एन. देवादास	श्रीसेलम (हाउस), वाडापुरम पी०ओ०, मामपड, निलम्बूर, जिला—मलप्पुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	23.12.2016	11628				

209468	विपू चद्रन एम.	चद्रन एम.	मान्थोडी (एच), धाचम्पारा पी०ओ०, पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2015	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	26.10.2015	10934				
209469	विशिका वाई विशी	पी. येवेटो विशी	हाउस न० 96 निहटो गाव दिमापुर नागालैण्ड	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	05.03.2020	129				
209470	विष्णु हरि कुमार ए. एम.	हरि कुमार ए.एम.	एवरशाईन, राजीव गांधी इंडस्ट्रीयल एस्टेट रोड, मायथानी वाया, चदाक्कुनू पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2019	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	19.08.2019	13289				
209471	विष्णु जे.यू.	जयाकुमार के.	मुलायरा थलाक्कल पुथेन वीडू, मुलायरा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	18.02.2016	11109				
209472	विष्णु प्रिया पी.के.	शूजा सनिन	पुथुक्कुडी हाउस, एडाक्कुलम पी०ओ०, कोयिलडी (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	29.01.2019	12997				
209473	विष्णु आर.जे.	रघुवरन ए.	गोविधम, टी.सी. 6/1145, पानाचिविला वीडू, केरा-66, काजीरामपारा, कजीरामपारा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12388				
209474	विष्णु राज एम.एन.	नरेन्द्रन एम.के.	21/938, पाल्लुरुथी साउथ कोयिन, इडाकोवी गाव ऑफिस के पास, सारथा मंदिर रोड, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	31.08.2019	13362				
209475	विष्णु एस.	सुकुमारन पी.	विष्णु निवास, आर्यापाल्लम रोड, चित्तुर पी०ओ०, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2019	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.08.2019	13358				
209476	विष्णुदास टी.एम.	मोहनादास टी.एस.	धुदाथिल (हाउस), एडाक्कुनम पी०ओ०, पाराथोडू, काजीरामपल्ली, जिला-कोट्टायम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.01.2016	11024				
209477	विष्णुमाया वी.एस.	सूर्याकुमार	वेल्लनगल (हाउस), पेरावूर पी०ओ०, तिरुवनतपुरम, जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2017	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	05.05.2017	11867				
209478	विश्वकर्मा राम शकर	श्री बौद्ध राम विश्वकर्मा	एक्स-95, भारत विहार, गली नंबर 3, प्रेम नगर-ए, किरारी, सुलेमान नगर, दिल्ली-110086	बीएचएमएस	2018	भोमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार	दिल्ली	14.12.2020	बीएचएसडी/5789				
209479	विरमाया टी.के.	बालाकृष्णन	धुवाक्कुन्मल (हाउस), धुवाक्कुनू पी०ओ०, पानूर (वाया), जिला-कन्नूर, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	20.07.2018	12628				
209480	विरमाया विजयाकुमार	विजयाकुमार जी.	बिद्युविहार, पेरायम, उमायानाल्लूर पी०ओ०, जिला-कोल्लम, केरल	बीएचएमएस	2018	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	05.02.2019	13009				
209481	विरिमथ रलोरी एस. वी.	हेत्री रिमथ कुमार	रलोरी भवन, वाजुथोर (थोजुक्कल), नेयात्तिनकारा पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2015	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	31.01.2016	11035				
209482	विश्वा गायत्री वी.जे.	विश्वा देव पी.	कैलास, ओट्टुक्कुजी, विलापिलसाला पी०ओ०, जिला-तिरुवनतपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	10.07.2017	11928				

209483	विवेक पानीकर	सोमासुंदरन ई	पट्टाक्कील (हाउस), ओमाचपुझा पी०ओ०, कारिगपारा, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	18.04.2016	11231				
209484	वृदा मोहन	मोहनन	वृदावन कोक्कापिल्लो पी०ओ०, तिरुवनकुलम (वाया), कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	19.08.2017	12168				
209485	वृदा वी.वी.	वासुदेवन वी.वी.	वेदूकट्टू वालाम्पील (हाउस), थिथला पी०ओ०, कन्नानूर, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, सेलम, तमिलनाडु	केरल	11.07.2016	11325				
209486	वैष्णव बी. चंद्रन	जिनाचंद्रन	मालाकोयिलोथ (हाउस), पुथुप्पनम पी०ओ०, वाटाकारा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	06.01.2018	12384				
209487	वाडेकर यशोधन प्रफुल्ल	प्रफुल्ल वाडेकर	मार्फत चैतन्या प्रसुती गृह खजाची भवन के पीछे, सराफा लेन, बाजार वार्ड, चद्रपुर-442401	बीएचएमएस	2008	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	महाराष्ट्र	24.02.2009	47774				
209488	वाफा जैनाब	मोहम्मद सादीक काथडी	सिमफोनी, थिरुवागड, थलारसेरी, जिला-कान्नूर, केरल	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कर्नाटक	केरल	20.11.2019	13464				
209489	वफाह ए.टी.	मोहम्मद अशरफ ए.टी.	कालाथिगल हाउस, चक्कारिकाडु पाराम्बा, अरावकीनार पी०ओ०, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	04.12.2018	12961				
209490	वधाना सुरेखा गुरुलिगप्पा	गुरुलिगप्पा वधाना	शिवाजी नगर, पथ न० 2, अष्टविनायक रोड, लातूर-413531	बीएचएमएस	2000	डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी	महाराष्ट्र	20.10.2001	32246				
209491	वाजीहा मरियम पी. पी.	मुजफर अहमद पी.पी.	स्नेहा नगर-2, ओबी रोड, आर्ट कॉलेज पी०ओ०, मौनचदा, जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	23.11.2017	12317				
209492	वापागजेला जमीर	आई टोशी जमीर	सिगनल अगामी बोस्टी दिमापुर नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	10.04.2019	116				
209493	वसीम मो० तौरिफ जमाल	मोहिउद्दीन गैने	दादपुर, कादमबगाची, शासन, नोर्थ 24 परगनास 700125	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	05.12.2019	32772				
209494	वोहिदुज्जामन	मो० सामसुज्जामन	गाव व पी०ओ०-शेख पारा, जिला-मुशिदाबाद 742308	बीएचएमएस	मई-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	23.05.2019	32537				
209495	वाई लिपाथुग ओवुग	डब्ल्यू याथशियो ओवुग	हाउस न० 5 सेरेनिटी कॉटेज कयोग कॉलोनी सेवक गेट 3 दिमापुर नागालैण्ड 797112	बीएचएमएस	2019	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	15.02.2020	125				
209496	यादव कोमल	ब्रह्म प्रकाश यादव	हाउस न० 128, आदर्श नगर, रेलवे क्वार्टर के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123029	बीएचएमएस	2019	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, जयपुर	हरियाणा	19.08.2019	6459-ए				
209497	यादव मोहित	श्याम लाल यादव	622 जेल रोड, कप्तान का पुरवा, रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229001	बीएचएमएस	2019	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	उत्तर प्रदेश	31.10.2019	एच०३८७९०				

209498	यादव नीरू	श्री देशराज यादव	582, गली न०-01, माधली विहार, दिल्ली रोड, रेवाड़ी	बीएचएमएस	08.06.2016	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, जयपुर	हरियाणा	09.05.2017	6330-ए				
209499	यादव राकेश कुमार	अमर चद	वीपीओ-8 एसएचपीडी, तहसील-सूरतगढ, जिला-श्री गगानगर, राजस्थान-335804	बीएचएमएस	2019	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर	राजस्थान	27.11.2019	8584				
209500	यादव शिखा	श्री कॅलाश चद	हाउस न० 76, स्ट्रीट 111, सगम विहार धरमपुरा ऐक्टेसन, नजफगढ नई दिल्ली-110043	बीएचएमएस	2019	दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली	04.09.2020	बीएचएसडी/5716				
209501	यादव शिव	अमरनाथ यादव	सकरा, रामपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222203	बीएचएमएस	2018	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	बिहार	04.10.2018	32823				
209502	यालकर प्रितेश विकास	यालकर विकास शकरराव	81/शिवाजी नगर, जलगाव रोड, कमल हॉस्पिटल के पास, जामनेर, जिला-जलगाव, महाराष्ट्र-424206	बीएचएमएस	2010	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, नाशिक	महाराष्ट्र	11.04.2011	53948				
209503	यारिसा पी.के.	अब्दुल जमाल पी.के.	चेराथोडी (हाउस), अलुगल, पुलिककल पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	17.08.2018	12728				
209504	यारमोन एम	अब्बास एम	मेलथिल (हाउस), अमायूर पी०ओ०, पाट्टाम्बो, जिला-पालक्कड, केरल	बीएचएमएस	2016	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.02.2017	11731				
209505	येरमोन रिप्पा	मोसरफ हुसैन मल्लिक	गाव-पश्चिम पारा (पूबे), पी०ओ०-घुलगोरी, जिला-हावडा 711302	बीएचएमएस	अक्टूबर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	31.10.2019	32667				
209506	यूसुफ शकीर वक़ायिल	हारुन रशीद	मामबत्ता (हाउस), क्लारी साउथ, एडारिकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2017	दा तमिलनाडु डॉ० एम.जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई	केरल	13.07.2017	11991				
209507	यूसुफ केनात	मो० जलालुद्दीन	150/ए, लिटोन गली, कोलकाता-700014	बीएचएमएस	नवम्बर-2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	19.11.2019	32745				
209508	जदिका सईद पी.एस.	सईद अहमद	हाउस न० 13/184 डी, पल्लाक्कल (हाउस), के.सी. रोड, मट्टनचेरी पी०ओ०, कोची, जिला-एर्नाकुलम, केरल	बीएचएमएस	2016	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी	केरल	11.05.2016	11269				
209509	जैदी सारा	श्री जफर अब्बास	जे-3/100ए, जे-एक्टेसन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	बीएचएमएस	2019	डॉ० बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	दिल्ली	13.08.2020	बीएचएसडी/5695				
209510	जाके तुरब फातमा	मो० मुखतार जाके	19/सी, कटोफेर लेन, कोलकाता-700014	बीएचएमएस	फरवरी-2020	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	13.02.2020	32794				
209511	जाकिया अब्दुल्ला एफ.एम.	कुन्हाबुल्ला	शाहेरजाद (हाउस), मोकेरी पी०ओ०, काक्काट्टील (वाया), जिला-कोडिकोड, केरल	बीएचएमएस	2017	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	15.02.2018	12469				
209512	जौनथ जौहरा पी.	इस्माईल हाजी	नूर महल, मुदामपराम्बा, पुलियाकोड पी०ओ०, जिला-मलपुरम, केरल	बीएचएमएस	2018	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	केरल	07.08.2018	12717				

209513	जहोखोडुइयु	मेशुसायी टेटसेओ	न्यू मिनिस्टर हिल्स, कोहिमा वियार्ड स्कूल के पास, नागालैण्ड 797001	बीएचएमएस	2018	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस बैंगलोर कर्नाटक	नागालैण्ड	06.02.2019	112			
209514	जोते जोसगजला जैरी	जे लालडाजगलियाना	माफत चित्रा चटर्जी, गाव लोतोर 01. पो0ओ0—सेनधिया, जिला—बीरभूम 731234	बीएचएमएस	अप्रैल—2019	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस	वेस्ट बंगाल	30.05.2019	32543			
209515	शर्मा बिरेन्द्र	स्व. श्री टी.आर. शर्मा	49—बी, यूना एनक्लेव, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली—110091	डीएचएमएस	25.10.1984	काउंसिल ऑफ होम्यो. पंजाब	दिल्ली	28.05.2020	बीएचएसडी/5656	बीएचएमएस (ग्रेडिड) —2013 काउंसिल ऑफ होम्यो. पंजाब		

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

No.13-32/2021-CCH/XXVI-CRH.— The Central Council of Homoeopathy in pursuance of clause (a) of sub-section (1), and (2) of Section 21 and sub-section (2) of Section 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) maintains a Register known as the Central Register of Homoeopathy. Part -I of said Register is being published in the Gazette of India for general information

From S.No.1 to 20243, 20244 to 33097, 33098 to 37359, 37360 to 39961, 39962 to 45989, 45990 to 49450, 49451 to 61693, 61694 to 66678, 66679 to 72135, 72136 to 86959, 86960 to 100446, 100447 to 115139, 115140 to 129438, 129439 to 145398, 145399 to 147514, 147515 to 158079, 158080 to 164994, 164995 to 174034, 174035 to 186006, 186007 to 198702, 198703 to 204732 and 204733 to 206349 included in Part-I of Central Register of Homoeopathy published in the Gazette of India, Part-III, Section 4 dated January 2, 1993; October 9, 2004; May 26, 2007; November 15, 2008; August 8, 2009; April 24, 2010; April 16, 2011; March 3, 2012, August 24, 2013, February 22, 2014, October 4, 2014, May 25, 2015, August, 19, 2017, March 17, 2018, August 21, 2018, January 09, 2019, March 5, 2019, August 2, 2019, November 19, 2019, July 22, 2020, October 28, 2020 and March 25, 2021 respectively.

Dr. KUMAR VIVEKANAND, Registrar

[ADVT.-III/4/Exyt./119/2021-22]

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

S.No.	Name	Father's/ Husband's Name	Address a) Residential b) Professional	Qualification a) General b) Medical	Dates on which qualifications were obtained	Name of institution from which registerable Qualification were obtained	State in which Registered and the authority granting the State Registration	Date of Registration in State Register	Registration number given in the State Register	Additional medical qualification with date if obtaining and name of authority granting the qualification	Date and reason(s) for removal from the Central Register, if any	Remarks (Direct Registration No.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206350	A. Abhimanu	N. Anirudhan	Janaki Nivas', 739/02, Lal Bhahadoor Street, Karnaki Nagar, Vadakkanthara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.09.2018	12784			
206351	Aarcha Surendran	Surendran K.T.D.	Karayil Thekkutt House, Edamuttam P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	11.07.2016	11344			
206352	Aathira Raveendran	P.V. Raveendran	"Deepam", Panniyannur P.O., Paral (Via), Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12652			
206353	Aathira V. Nair	S. Vijayakumaran Nair	Athira, TC 13/1568/4, Kalakaumudi Road, Kumarapuram Medical College P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.03.2019	13096			
206354	Abdul Auwal	Abdul Salim	Palamootil House, Valara P.O., Irumpupalam, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka, Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	03.12.2018	12959			
206355	Abdullah S.	Shihabudeen	Baithul Rahuma, Umayanalloor P.O., Near H.K.M. College, Kallukuzhi, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13192			
206356	Abdussamad A.P.	Mammudu	Ambayapully (House), Kuruka P.O., Kallingalparamba, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11988			
206357	Abeeda M.K.	Moideen Koya	"Al-Kamar" House, Konotte P.O., Kunnamangalam Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11328			
206358	Abhay Krishanan A.J.	B.S. Anil Kumar	Sreekrishna, TNRA-10, Telenagar, Pappanamcode P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12935			
206359	Abhaya V.P.	Muraleedharan V.P.	Vadayanveedu, Parayakad P.O., Thuravoor, Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12151			

206360	Abhija Ramachandran P.	Ramachandran Nair V.	Puliyinkeezhu Veedu, Mulloor P.O., Via Vizhinjam, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.05.2019	13113			
206361	Abhijith G.S.	Gopakumar R.	T.C. 15/1642, ETN-81, Sarada Bhavan Vazhuthacaud, Minchin Road, Thycaud P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12642			
206362	Abhijith P.R.	Ravi P.R.	Pullutti Parambil House, Mulamkunnathu Kavu P.O., Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	12.10.2018	12917			
206363	Abhijith Ranjan S.	Sreeranjana G.S.	"Sai Mandir", Kamukincode, Kodangavila P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12430			
206364	Abhijith Sai Sankar R.S.	P.R. Sisir	Sankara Vilas, 671, Vellnad, Changa, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11984			
206365	Abhijith V.	Achuthan V.K.	Vengassery House, Arakurussi, Mannarkkad P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.08.2017	12115			
206366	Abhijith V.S.	Valsalan K.	Chinchu Nivas, Kariyara, Payattuvara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10794			
206367	Abhilash M.P.	Asokan M.P.	Mayyon Purayil (H), Karuvanpoyil P.O., Koduvally (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10784			
206368	Abhira E.H.	Hareendran B.	Earathuvila (H), Puzhamkunnu, Kaitthapoyil P.O., Thamarassery (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2019	13204			
206369	Abhiram R.	Radharamanan Pillai D.	Akshara Nivas, Pakalkuri P.O., Pallickal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11118			
206370	Abhirami P.V.	Rajan N.P.	Palakkeel Valappil House, Kunnaru, Pattuvam P.O., Taliparamba, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12697			
206371	Abhirami S.	Sathya Raju R.	Vinod Bhavan, Venkavila, Pazhakutty P.O., Nedumangad, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12649			
206372	Abhishek	Vijay Bahadur Singh	Baishali Para, Ichapur Nawabganj, North 24 Parganas, PIN-743144	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32640			
206373	Abid Rahman K.	Aboobacker K.	Kummali House, Melangadi P.O., Kondotty (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.08.2017	12075			
206374	Abida Mohamed Moideen K.V.	Mohamed Moideen	Kadassheri Valappil (H), Koodasheripara, Kurumbathur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11020			
206375	Abin K. George	George K.J.	Kulathumpattu (H), Kanichar P.O., Kanichar, Kelakam Via, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.04.2017	11849			

206376	Abin P. Johns	P.A. Johnson	Pullumattathil (House), Changaleeri P.O., Mammarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	22.01.2018	12461			
206377	Abini Mariya Jose	Jose V.P.	Vadakkanchery (H), Eravimangalam P.O., M.G. Road, Prince Lane, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	25.06.2019	13176			
206378	Abiya B. Pokkattu	Baby George	Pokkattu House, Kuzhoor, Airapuram P.O., Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12242			
206379	Abnajabin K.V.	Abduljabbar K.V.	Jabin House, Alungal, Pulikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	30.12.2017	12362			
206380	Aboobacker Sidhique K.	Ummer Kondadan	Kondadan House, Kuttiyil, Vaniyambalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.07.2018	12635			
206381	Aby B. Abraham	Baby Abraham	Bethel (House), Green Valley Villa, Paingarappilly P.O., Thuruthikkara, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2018	12773			
206382	Abymon George	George Thomas	Kizhakkayil (House), Vallikadavu P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	27.09.2017	12249			
206383	Acharyya Pradip Kumar	Lt. Nikhil Ranjan Acharyya	Vill. & P.O.-Birulia, Distt.-Purba Medinipur 721650	BHMS	Jan.-1996	University of Calcutta	West Bengal	03.02.2017	31494			
206384	Adarsa E.K.	Balan E.	Prasadam, Thayyullathil (House), Kunnatheru, Nanminda P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12159			
206385	Adeeba Thahseen M.C.	Bava M.C.	Almas House, Muthukurussi, Elad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.08.2018	12668			
206386	Adeebuzaman P.V.	Ahammad P.V.	Poovalappil (House), Eranhimangad P.O., Nilambur (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.08.2017	12142			
206387	Adhikary Sanjay	Nimai Chandra Adhikary	Vill-Majherat,P.O-Aryapara, Dist-South 24 Parganas, Pin-743377	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32769			
206388	Adhrsh J.	Jayachandran K.	Adhrsh Nivas (H), Panniperunthala, Kuttipalam P.O., Poozarikudam, Chittur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13407			
206389	Adhya Tanushree	Gopal Chandra Adhya	C/o. Papiya Rani Shaw, 30, Swamibag Road (Mandal Park) 20 Khardaha, North 24 Parganas, PIN-743178	BHMS	Jan.-2020	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	07.02.2020	32793			
206390	Adila Shirin P.	Abdul Salam P.	Pallath House, Kulukkallur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12408			
206391	Adithya Asok N.P.	Asokan M.	Arathi (House), Kizhur P.O., Payyoli (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12800			

206392	Aditi	Sharda Tiwari	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O.- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32751				
206393	Adwoidha Raj E.	Rajan E.	Aryavartham House, Kizhakumpuram P.O., Mannur (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12205				
206394	Afeeda P.	Kunhabdulla	Pulayanandi, Ayanchery P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12884				
206395	Afeefa P.K.	Muhamed P.K.	Penakkalathil (House), Irumbuchola, A.R. Nagar P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12801				
206396	Afila N.	Abdul Latheef	Narikkotte (H), Ayancheri P.O., Ponmeri Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.02.2017	11757				
206397	Afiya Alloor	Marakkar Alloor	Alloor (H), Pattarkulam, Narukara P.O., Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10995				
206398	Afra K.M.	Muhamed Ashraf K.M.	K.M. House, Pachattiri P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.09.2018	12822				
206399	Afra M. Ashraf	Muhammed Ashraf	Poonthottam Poyil (House), Valiyakandam Paramba, Marikkunnu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12872				
206400	Afra T.	Akbar T.	Dream Valley', Adivaram, Muliyan Paramba, Farook College P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.10.2018	12862				
206401	Afrusannasny A.M.	Hamzakoya K.I.	Achammada House, Kalpeni Island, Distt.-U.T. of Lakshadweep, Lakshadweep	BHMS	2018	The West Bengal University of Health Sciences	Kerala	25.10.2018	12920				
206402	Afsath Kuttiiyil	Moidu	Kuttiiyil (H), Katameri P.O., Villiappally Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.03.2016	11176				
206403	Aftab Sk.	Sk. Aslam	Vill+P.O.-Bonhooghly (Nalgora Hat), Dist-Kolkata, PIN-700103	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32472				
206404	Afzal Abdul Azeez	Abdul Azeez I.	Puthenpurail, Venga P.O., Sasthamcotta, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11636				
206405	Agarwal Vandana	Anuj Kumar Garg	44-A, Ground Floor, Sector-30-33, I.P. Colony, Distt.-Faridabad	BHMS	1996	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Haryana	05.04.2017	6326-A				
206406	Agarwala Bijay Laxmi	Chandra Shekhar Agarwala	C/o. Hanuman Shai Diwan, Puran Hat, Bumpur, Mandir Road, Asansol, Bardhaman, PIN-713325	BHMS	Sept.-2003	University of Burdwan	West Bengal	05.12.2019	32771				
206407	Aggarwal Ayushi	Sh. Kapil Aggarwal	269, Kucha Ghasi Ram Chandni Chowk, Delhi-110006	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5723				
206408	Aggarwal Prekshi	Sh. Rajesh Aggarwal	D-11/25, Sector-8, Rohini, Delhi-85	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5650				

206409	Agila P.V.	Anil Kumar P.	Puleekkandi (House), Irinave P.O., Cherukunnu (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	07.09.2015	10909			
206410	Agnal Shobika B.M.	J. Benedict	Angel House, Kalluvettankuzhi, Venganoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.12.2018	12981			
206411	Agnes Bonita Rubin K.	K.S. Rubin	Kuttiapurath House, Kannamaly P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12169			
206412	Agnus Jomy	Jomy George	Vadayattukuzhy (H), Elanji P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11080			
206413	Agrawal Sneha Ashokkumar	Agrawal Ashokkumar Narayanlal	3, Shrikrishna Apartment, Sarvesh Co-op Housing Society Area, Punjab Colony, Nashik Road, Nashik-422101	BHMS	2012	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra	06.10.2012	57666			
206414	Ahad Sufi Aquib UI	Sufi Abdul Halim	Malgudampatti, Memari, Bardhaman (East), PIN-713146	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32671			
206415	Ahamed Safik	Farid Ahamed	C/o. Amar Nath Dutta, Ramchadrapur, Sodepur, Panihati, North 24 Parganas, PIN-700110	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.12.2019	32784			
206416	Ahammed Mir Umayer	Mir Zubdatul Arefin	Vill+P.O.-Harhari, Dist-Murshidabad, PIN-742226	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32644			
206417	Ahmad Md. Arshad	Md. Nooruddin Ahmad	At-Pewandi, P.O. &P.S.-Chenari, Distt.-Rohtas, Bihar-821104	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	07.01.2020	33545			
206418	Ahmad Niyas M.P.	Abdul Gafoor M.P.	Madathiparambath (House), Vazhakkad P.O., Mundumuzhy, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12110			
206419	Ahmad Safia	Mr. Furquan Ahmad	F-111, Abul Fazal Enclave, Thokar No. 4, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	21.08.2020	BHSD/5705			
206420	Ahmed Madiha	Mr. Ahmed Mian	2555/56, Sarak Prem Narayan Churiwalan, Delhi-110006	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5747			
206421	Ahmed Tasneem	Sarifuddin Ahmed	Kusum Villa, Mirchak Battali (West) Dist-Malda, PIN-732101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32646			
206422	Ahsan K.A.	Ashraf K.S.	Keepurath House, Valara P.O., Irumpupalam, Adimaly, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2018	12609			
206423	Aienla .M. Imchen	I. Mayang Imchen	H. No - 99 Artang Ward Mokochung 798601	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	06.03.2019	114			
206424	Ainamshisha Kharlyngdoh	Shri D. Snaitang	Nonglang, Mawkyrwat, South West Khasi Hills	BHMS	27.04.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	11.01.2021	496			

206425	Aisha Bismi Saheed	K.K. Saheed	Karukappadath Puthen Veedu, Garden House, Eriyad P.O., Kodungallur, Distt.-Thirissur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	15.09.2017	12194			
206426	Aiswarya A.	Kannan A.	Mootheni Parambil House, Chemrakkattoor P.O., Areacode (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	30.03.2019	13095			
206427	Aiswarya B.	R. Harikumar	PRA-3, 'Aiswarya', Puravoorakonam, Karakulam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12528			
206428	Aiswarya Benny	Benny Augustine	Kochuparambil (H), Muthalakodam P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13267			
206429	Aiswarya Devi K. Chandran	Chandran K.D.	Kombukkara, Alpara P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.04.2016	11235			
206430	Aiswarya K.	Raghavan K.	Kudukkil (H), Iringavoor P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	17.01.2017	11689			
206431	Aiswarya K.	Viswanadhan K.	Aswathi Nivas, Camp Road, Areacode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12629			
206432	Aiswarya K.	Kuttamani R.	Maniyanthara, Odayanchal, Padimaruth P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.08.2019	13343			
206433	Aiswarya Lakshmi M. Nair	K.S. Muraheedharan Nair	Pranavam (House), Puthuppally P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12802			
206434	Aiswarya M.	Surendren M.	Malayil (House), Makkada P.O. Cherukulam, Kakkodi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12133			
206435	Aiswarya M. Nair	G.S. Vinod	T.C. 50/1453 (6), Sreegopalam, Thaliyal, Karamana, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12246			
206436	Aiswarya Mohanan	Mohanan	Kadackalkizhakkethil (House), Vellathooval P.O., Vellathooval, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2018	12588			
206437	Aiswarya S.	T.S. Sambasivan	Sreesylam, Kodukulanji P.O., Chengannur, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.07.2015	10870			
206438	Aiswarya S. Nair	K. Sivadas	Sankalpam, Paruvasserry P.O., Kannambra (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.04.2018	12487			
206439	Aiswarya V.	Raghavan V.	'Sreepadam', Kadirur P.O., Kakkara, Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11026			
206440	Aiswarya M.B.	Madhusoodhanan G.	Beena Bhavan, Thazhamel, Anchal, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13140			
206441	Ajana Rajan	J.S. Rajan	Nakshathra, Appattuvila, Thirupuram P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12006			

206442	Ajaydev H.A.	Ashok Kumar H.V.	Ambika's Alamipally, Kanhangad P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	24.08.2019	13339			
206443	Ajeeba K.	Muhammed K.	Koorikkadan House, Edathanattukara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11655			
206444	Ajeena Sha	Mohammed Sha P.A.	Adivettil Malayil, Muthoor P.O., Thiruvalla, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	19.10.2016	11567			
206445	Ajin K.	Devadasan K.	Kunnath (House), Kannanthodi, Poovathikkal P.O., Areacode (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13168			
206446	Ajith Kumar C.S.	Chandran L.	C.S. Bhavan, Perumthottam, Mulluvila P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12385			
206447	Ajmal P.	Abdul Majeed P.C.	Kulangara Kandi (H), Puthur Pallikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11313			
206448	Ajmal S.	Saifuddeen M.	Jayiz Mahal, Chattanchal, Pallathinkal, Thekkil P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11945			
206449	Ajmi Mahamood E.V.	Mahamood	Keerankai (House), Muyippho P.O., Meppayur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.08.2017	12161			
206450	Ajmi Mol A.R.	S. Abdul Razak	Manaluvila Veedu, Chenthapoore, Decent Junction P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12841			
206451	Akhil A.R.	Radhakrishnan	Attam Kattil (House), Koodaranhi P.O., Veetipara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	16.06.2018	12517			
206452	Akhil Harikrishna C.S.	Surendran K.	Cavil Sankar Kripa, Oottara, Kollengode, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11744			
206453	Akhil Krishnan R.	K. Radhakrishnan Nair	Krishna Sree, Venganoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.02.2017	11753			
206454	Akhil Raj P.	Rajan P.	Periyal House, Kinanoor P.O., Parappa (Via), Birikulam, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2017	12081			
206455	Akhil S.S.	Shaji M.	TC 68/1090, Kesavamangalam, KNRA-257, 4th Milestone, Pachalloor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	12.12.2015	10969			
206456	Akhil Varghese K.J.	Jude K.V.	2/700, Kollanassery House, C.P. Thode, Pullupalam Road, Fort Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	03.10.2019	13419			
206457	Akhila Asokan	Asokan	Chirayil Puthen Veedu, Chathinamkulam, Chandanathope P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	28.05.2019	13126			

206458	Akhila G. Nath	V.S. Gopinathan Achary	Akhila Nivas (Vettiyil), V.M. Road, Mannarkkad P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11316			
206459	Akhila George P.	George J. Pankiyath	Pankiyath House, Ochanthuruth P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12234			
206460	Akhila K. Chandran	K. Chandran	Aswathi Nivas (H), Camp Road, Areacode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.05.2017	11886			
206461	Akhila K. Sasi	Sasi E.K.	Edayamthadathil (House), Kallara (North) P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.09.2018	12771			
206462	Akhila K. Zidic	K.M. Zidic	Karakunnel (House), Edavetty P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2018	12594			
206463	Akhila K.P.	Madhavan K.P.	Kottuvadiyan Parambil (House), Kalikavu P.O., Ambalakkunnu, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	30.12.2017	12365			
206464	Akhila Kuttappan	K.V. Kuttappan	Kuruttu House, NRA House No.-43, Nedupuzha P.O., Panammukku, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13041			
206465	Akhila Nadh S.	G. Reghunadhan Pillai	Akhillas, Edavattom, Vellimon P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11033			
206466	Akhila P.S.	Sajeev P.M.	Pezhakkamattathil House, Kalamboor, Enanalloor P.O., Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13149			
206467	Akhila Suresh P.	P.K. Suresh Kumar	Pulikkottil (House), Kottappady, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12047			
206468	Akhila Varghese	N.J. Varghese	Nellissery House, Government College Road, Nadathara P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12970			
206469	Akhilesh	Ratiram	H.No.-72/102, V.P.O.-Bhuapur, Faridabad, Haryana-121101	BHMS	2019	Delhi University	Haryana	23.12.2019	6497-A			
206470	Akhtar Javed	Mr. Jainual Haque	R-121, Joga Bai Ext. Batla House Okhla Delhi-110025	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	03.03.2021	BHSD/5815			
206471	Akhtar Samim	Md. Afsar Ali	Vill-Hossainabad Diara P.O-Uttarlakshmipur, Dist-Malda, PIN-732207	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32578			
206472	Akshara M.	Muralidharan P.	Puthiyaduth Pavithram, Thycattussery P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.09.2018	12849			
206473	Akshay P.	Mohandas P.	Pallikkuth (House), Kolaparamba P.O., Eriyad, Pandikkad, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12009			

206474	Akshaya K.P.	Manoj Kumar K.P.	Thattarkandy House, Florican Hill, Malaparamba P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.09.2017	12215			
206475	Akshaya Moon P.K.	Upendran P.K.	Amrutham (House), Parampath Thazhath, Koodathum Poyil Kakkodi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.11.2017	12311			
206476	Akshaya P.	Aruldas J.	Sajin Nivas, Muduveettuvilakam, Maruthathoor, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11974			
206477	Akshaya Prakash	E.K. Jayaprakash	Malayil House, Malakunnam P.O., Changanaserry, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10851			
206478	Akshayaraj K.S.	Sathayarajan C.	Krishna Nivas, Karinjilipallam, Chittur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12680			
206479	Akshima K.S.	Shibu K.K.	Kuttathara (House), Ochanthuruth P.O., Vypin, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12622			
206480	Alaka M. Ajay	R. Ajaya Kumar	Alakapuri, Chathankonam, Kallara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.11.2017	12292			
206481	Alam Ansari Afsana Khatoon Mahammed	Md. Imran Ansari	31/2, Dr. H. K. Chatterjee Lane, Ghusuri, Howrah-711107	BHMS	Feb-2011	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	West Bengal	17.10.2019	32555			
206482	Aleena George	George Mathew	Vadakkencherial (House), Nadavayal P.O., Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12811			
206483	Aleena Jose	Jose Prakash A.V.	Glen Villa, Thekkemuri, Two Road, East Kallada P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Calicut University	Kerala	10.01.2018	12438			
206484	Aleena Roy	Roy Martin	"Koodaram", M.M. Paramba P.O., Unnikulam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13266			
206485	Aleena S.J.	Stephen K.	Plavila Veedu, Mulluvila P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13077			
206486	Aleena Thomas	Thomas K.K.	Kattackal (HSE), Chittarikkal P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.08.2019	13354			
206487	Aleesha M. Subeer	K.S. Subeer	Kollamparambil, Pallickachira P.O., Paippad, Changanacherry, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10840			
206488	Alfina M.M.	M.A. Muhammedkutty	Paliyath House, Karikode, Thodupuzha East P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13351			
206489	Alfiya Ali	T.K. Ali	Thekkemolath (House), Enanalloor P.O., West Punnamattom, Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13469			

206490	Alfiyakhan F.	Firozkhan	Mavis Villa, Mundayil, Varkala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11410			
206491	Ali Md. Farman	Late Md. Eshaque Ali	Prantik, Panchanan Tala, Chaltia, Berhampore, Murshidabad, PIN- 742407	BHMS	Oct.-2019	B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur	West Bengal	08.11.2019	32676			
206492	Ali Sk. Swaif	Sk. Rashid Ali	Vill-Gangesnagar, P.O-Sahabazar, Dist-Hooghly, PIN-712402	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32562			
206493	Alina Ashraf	Asharaf	Jannath, Near Ladies Hostel, T.K.M. College P.O., Karicode, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.09.2018	12812			
206494	Alisha Ann Tom	Tom George	Plathottam (House), Kottamuri, Athirampuzha P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12532			
206495	Alivi V. Chishi	V. Vikheho Chishi	H. No- 176 Lake View Village Purana Bazaar. Dimapur 797116	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	13.02.2019	113			
206496	Alka P. Aravindakshan	P. Aravindakshan	"Sree Nilayam", K.S.H.B. Colony P.O., Malaparamba, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.01.2018	12450			
206497	Alka R. Nadakkal	Rajan George	Malayil House, Poonthanam Road, Thiruvankulam P.O., Distt.- Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.05.2015	10812			
206498	Allan J. Lal	P. Jayalal	"Eden", Pullannivila, Thundathil P.O., Kariyavattom, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11645			
206499	Alphy Mathew	Mathew E.T.	Elavakkunnel (H), Kelakam P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.08.2016	11403			
206500	Alsa Bhaskaran K.K.	Bhaskaran K.K.	Kannachi Kandy, Naduvannur P.O., Koyilandi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.01.2017	11675			
206501	Althaf E.M.	Mohamed Eckbal H.	Fajar Manzil, Punnathala, Thirumullavaram P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.05.2017	11864			
206502	Amal Chandra P.	Chandra Bhanu P.P.	Panakkal House, R.M.V. Road, Elamakkara, Cochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2019	13199			
206503	Amal Roy	K.S. Roy	Kallanickal House, Anaviratty P.O., Irutukanam, Adimaly, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12694			
206504	Amala B.S.	K. Bharatha Kumar	Arun Nivas, Manchamcodu, Neyyadam P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13190			
206505	Amala Cyriac	Cyriac Joseph	Vadakel (House), Thekkenada, Vaikom P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11944			
206506	Amala Jayakumar Pannakkal	Jayakumar M. Pannakkal	"Manasi", M.S. Baburaj Road, Kallai P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.10.2018	12864			

206507	Amala Mathai	Mathai K.J.	Kudumthanam Kuzhiyil (House), Rajapuram P.O., Kallar, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	29.07.2017	12063			
206508	Amalshamol K.S.	K.K. Shanmukhan	Karumbakandy House, Kolakkad P.O., Atholi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.06.2015	10822			
206509	Amanna Mohammed Ashraf	Paradan Muhammed Ashraf	Elambilatte House, Vatampoyil Road, West Kallai, Kallai P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	06.04.2016	11213			
206510	Amathunnaseer C.	P. Abdul Basheer	Mahdi Mahal', China Clay Road, Payangadi Railway Station P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10983			
206511	Ameer Shah T.S.	Shahul Hameed T.M.	Thalakkattu House, Thottakkattukara P.O., Near Mangalapuzha Bridge, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.02.2017	11756			
206512	Amina M.	Nissar G.	Darussalam, Alukadu, Near S.M. Lock, Poonthura P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	25.10.2018	12922			
206513	Amina M.B.	Mohamed Basheer A.	Niama', Opp. Ejaba Masjid, Neerkunnam, Vandanam P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.04.2016	11257			
206514	Amina Nazim	A. Nazim	Chittanikkarayil House, Kallumthazham, Kilikolloor P.O., Royal Nagar, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11402			
206515	Amina S.	Salim M.K.	Puthuval Puthen Veedu, Amaravila, Amaravila P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11462			
206516	Amirfa M.	Abdulla M.	Marhaba House, Mubarak Road, Koyilandy P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13022			
206517	Amjith Naisam	Naisamudheen	Amara, Kannanalloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13050			
206518	Amlah O.K.	Khalid O.K.	Olakkot House, Kaipamangalam P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12678			
206519	Amrita Vasudev	Vasudevan M.P.	Sreehari House, Kovilakamkundu North, Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.09.2018	12854			
206520	Amritha K.	V. Kumaran	Vannathichal, Periyar P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.09.2015	10922			
206521	Amrithasree K.C.	Damodaran T.	Anjaneyam, Makreri P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13471			
206522	Amrutha C.D.	Dharman C.P.	Challiyil House, Elankunnapuzha P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	14.12.2015	10977			

206523	Amrutha C.M.	Sajeendran C.M.	Devikas (House), Atholikkavu, Atholi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.09.2018	12768			
206524	Amrutha Krishnan P.	P.P. Radhakrishnan	Velloor Vayal, Bellikoth, Ajanur P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11935			
206525	Amrutha M.	Sudhakaran M.	"Thushara", Balathuruthi, Kadalundi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11001			
206526	Amrutha M.	Prasad M.	Moothedath (House), Govt. Arts and Science College P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	27.09.2017	12257			
206527	Amrutha Muralidharan	K. Muralidharan	"Pranavam", 38/1851 A. Edavazhipurathu Paramba, Edakkad P.O., Kunduparamba, District-Kozhikode, Kerala	BHMS	2013	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.04.2015	10773			
206528	Amrutha N. Jayan	A.N. Jayan	Nirmallyam House, Bye Pass Road, Near EEC Market P.O., Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13148			
206529	Amrutha Sabu	Sabu K.K.	Kollickaparambil (House), South Vazhakulam P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12029			
206530	Amrutha Sadasivan P.	Sadasivan Paikadan	Paikadan (House), Kurumbathur P.O., Thirunnavaya (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.06.2018	12570			
206531	Amrutha Sasidharan	K.K. Sasidharan	Krishna Vilasam, Mambattumoola P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.01.2018	12403			
206532	Amrutha V.	Ashokan V.	C.V.R. Bhavanam, Chalingal, Hariapuram P.O., Anandhashram (Via), Kanhangad, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13294			
206533	Amrutha V.P.	Sudhakaran V.P.	Veluthedath Parambil, Ezhur Road, Tirur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12417			
206534	Amruthamol K.S.	Sasi K.N.	Kaniyamkudiyil, Keerithodu P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11106			
206535	Anagha Ashok	Ashokan M.	Kalharal, Near Kanninada Bridge, Thodannur P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.04.2016	11248			
206536	Anagha Babu A.	Babu A.V.	Adiyiruthil (H), Edavilangu P.O., Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11204			
206537	Anagha M.	Ambadi P.	Thankayam, Trikarrur P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	09.10.2017	12264			
206538	Anagha Raghavan	P.K. Raghavan	Lakshmi Homoco Clinic, Tirur Road, Tanur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12836			

206539	Anaghadas	B. Krishnadas	Sree Moolam, Thodiyoor P.O., Karunagapally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2018	12456			
206540	Anand K.S.	Sankaran Nampoothiri K.	Karimpethu Madom, Kadapra, Niranam P.O., Thiruvalla, Distt.- Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13143			
206541	Anand Krishna	Radhakrishanan K.	"Hill House", Chathamangalam P.O., NIT Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11361			
206542	Ananthakrishnan V.A.	S. Asokkumar	Velimparambil Puthen Veedu, Zilla Court Ward, Thathampally P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11947			
206543	Ananya Sunil	Sunil Kumar P.	Anugrah' (House), Guruvayurappan College P.O., Pokkunnu, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12752			
206544	Anarkha Ajith	Ajith Kumar S.	Puthenpurayil House, Kizhakkakara, Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13147			
206545	Anaswara K.G.	Kurisumuthu A.	K.G. Bhavan, Arayoor, Arayoor P.O., Amaravila Via, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11445			
206546	Anaswara M. Sreedhar	Sreedhar	Moozhisseriyil House, Vellooni P.O., Kelakam, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.06.2015	10827			
206547	Anchitha A.	Chandran P.	Anjali Aiswarya Gardens, Panavila, Balaramapuram, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2019	13200			
206548	Anchu K.S.	K.G. Kesava Pillai	Sree Nilayam, Nedum Kodu, Inchivila (Via), Parassala P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The West Bengal University of Health Sciences	Kerala	16.01.2018	12453			
206549	Anchu S. Thomas	M. Thomas	Kadayivila Veedu, Nalloorvattom, Plamootukkada P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11447			
206550	Ancy C.M.	E.B. Chandrababu	Peace Cottage, Nellimoodu P.O., Kanjiramkulam, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12128			
206551	Ancy George	George M.V.	Malamburath House, Chathari, Vymeethi Road, CRA-46, Tripunithura P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2018	12581			
206552	Ancy Maria M.E.	M.A. Inasu	Manjaly House, R. Mangalam, Kannambra P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	03.10.2019	13418			

206553	Ancy P.A.	Antony P.K.	Perekkadan (House), Chengaloor P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12094			
206554	Ancy Paul	Paul	Navajyothi Provincialate, Olarikkara, Pullazhy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.10.2016	11553			
206555	Ancy V.N.	Varghese T.	Ancy Mandiram, Manaluvila, Kunnathukal, Karakonam P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.04.2016	11246			
206556	Aneena Sunnichan	Sunnichan	Essomparambil (House), Kanhiradukkom P.O., Anandasaramam (Via), Distt.- Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12738			
206557	Anees T.V.	Abdulla M.	Mumthas Manzil, Keechery P.O., Mattanur (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12530			
206558	Aneesa C.	Moossa	Vazhayil House, Akode P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.03.2017	11808			
206559	Aneesa E.A.	E.H. Abdul Kareem	Karakkuzhy (House), Thottumugham P.O., Kuttamassery, Aluva, Distt.- Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.08.2018	12669			
206560	Aneesh Mohan	Mohan K.	"Jay" (H), Muthappankavu Road, Eravimangalam P.O., Cherukara Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	21.03.2016	11160			
206561	Aneesh N.S.	Surendran	Nijaralappel (House), Koomanthode P.O., Marotichuvadu, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.07.2018	12636			
206562	Angel Johnson	Johnson A.L.	Anchery (H), Near A.K.G. Mandir, Cheverambalam P.O., Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10997			
206563	Angel Joseph	Baby A.J.	Edappatt (House), Kalladikode P.O., Chungam, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.06.2018	12503			
206564	Angitha Pavithran	Pavithran	Vathukkal Parambath (H), Vattoli P.O., Kakkattil (Via), Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.05.2017	11865			
206565	Anika Rosel C.	Rosel Babu C.L.	Chungath House, Pattikad P.O., Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13406			
206566	Anila John	John T.J.	Naduthadathil (House), Thachampara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12524			
206567	Anila Jose T.	Jose T.J.	Thalakkottur House, Nhamanghat P.O., Near Anjoor Road, Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.10.2016	11546			
206568	Anila Mohanan	Mohanan K.K.	Mundakkal House, Olimkadavu P.O., Ponkandam, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	20.07.2019	13213			

206569	Anila P.	Anandan P.K.	Anjanam (House), Mundayam Paramba P.O., Payam (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12095			
206570	Anila Priya S.	Indirakshan	Anila Bhavanam, Murunthal B. (Kuppana), Perinad P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13043			
206571	Anila Rajam T.R.	Thankarajan K.	Varuvilakathu Veedu, Aithiyoor, Balaramapuram, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11178			
206572	Anila T. Abraham	Abraham T.S.	Thuruthichira House, Wadakanchery R.S. P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11539			
206573	Anila Vijayan	K.K. Vijayan	Kizhakke Kizhiyana (H), Edakulam P.O., Koyilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11522			
206574	Anima Prakash	Prakash Kumar K.	"Kaippurath" House, Vellangeri P.O., G.A. College, Palazhi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12052			
206575	Anis Ahamad	Rasul Ansari	S.K.H. Medical College, Vidya Nagar (West) Beed, Maharashtra-431122	BHMS	2015	University of Gauhati	Bihar	26.12.2020	34225			
206576	Anisha Dharmaraj K.P.	Dharmaraj K.P.	Kannampurath (House), Parappanangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12350			
206577	Anisha Kurian	Kurian Mathew	Thombikottu (House), Kulaparachal P.O., Kuruvilacity, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12137			
206578	Anisha P.	Anilkumar P.	Sankara, Puthusseri, Kadalundi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	12.10.2018	12913			
206579	Anisha P.S.	Sudharsanan P.	Perunkulangara (House), Peruvemba P.O., Distt. Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12704			
206580	Anit Kurian	Kurian	Vadakkal House, Poonjar Thekkekara P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12889			
206581	Anita Sunny	Sunny Augustine	Edinjapuzhackal (House), Kodumpidy P.O., Elivaly, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.08.2018	12759			
206582	Anjali A.	Ashokan M.K.	Maithani Paramba (House), Kuthuparamba P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.01.2018	12449			
206583	Anjali A.	Anil Kumar S.R.	Anish Cottage (House), Thrikkalangodu P.O., Karikkadu (Via), Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12620			
206584	Anjali A.M.	Valsan A.M.	Sreelakam, Athazhakunnumal, Nanminda, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12744			
206585	Anjali James	A.James	Edattu House, Venmony P.O., Varickamuthan, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12938			

206586	Anjali Jayaraj	Jayarajan U.	"Aswathi", Madappally College P.O., Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	13.04.2016	11221			
206587	Anjali K.V.	Mohanam K.V.	Kizhakkevarappurath Kandy (H), Kottur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.07.2016	11376			
206588	Anjali Krishna S.	B. Krishnankutty Nair	Sreemoolam, Njarakkattuvila, Nedumparambu P.O., Attingal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.04.2018	12490			
206589	Anjali M. George	George	Anjali Bhavan (H), Movvar P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	14.12.2015	10974			
206590	Anjali Manayil	Anil Kumar V.	Thulasi, Manekkara, Panniannur P.O., Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.01.2016	11012			
206591	Anjali R. Krishnan	K. Radhakrishnan Nair	Puliyanthanam (House), Vazhappally P.O., Changanacherry, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12598			
206592	Anjali Ravendran K.	Ravendran Nair K.	Kompilad (House), Thuruthiyad P.O., Balussery (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12173			
206593	Anjali S. Manoj	Manoj K.K.	Sharaveetil (House), Koomanthode P.O., Karikkottakary, Payam (Via), Iritty, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.10.2017	12288			
206594	Anjali T.V.	Viswanathan T.P.	Thazhissery House, Thamarayur P.O., Kottapadi Via, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.08.2016	11389			
206595	Anjali Vikraman	G.T. Vikraman Pillai	Thadathil Puthen Veedu, Pazhakulam P.O., Adoor, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	04.05.2015	10796			
206596	Anjaly K.A.	R. Kalyana Sundaram	Uthradam, T.C. 21/677, Pmbnra-47, Pallithanam Road, Neduncaud, Karamana P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	16.11.2015	10954			
206597	Anjaly R. Nair	K.M. Ravindran Nair	Kollaka, Attarikom, Omalloor P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12120			
206598	Anjaly Ramesh	T.R. Ramesh Babu	Ayyappa Kripa (House), Thrichattukulam P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11921			
206599	Anjana A.R.	Radhakrishna Pillai P.M.	Krishnalayam, Kottukkal P.O., Anchal, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2017	11679			
206600	Anjana B.	Balakrishnan T.P.	Krishna Layam', Villyappalli P.O., Vadakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12709			
206601	Anjana K.	Chandran K.	Kadasseri House, Chettippadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12086			

206602	Anjana M.K.	Rajan M.K.	Elenthentavida (House), Kadavathur P.O., Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12529			
206603	Anjana P.	Balasubrahmannian P.	Pezhungattil (H), J.N. Road, Perintalmanna, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2016	11310			
206604	Anjana S.	M.S. Biju Kumar	Sudish Bhavan, Ooruttambalam Ooruttambalam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12612			
206605	Anjana S. Mohan	Mohanan K.	Dalawamadom, Krishnapuram P.O., Kayamkulam, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11326			
206606	Anjana Santhosh	Santhosh Kumar K.V.	Kothamangalath (House), Cherthala P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11952			
206607	Anjana V. Kumar	P.R. Bijukumar	Manimandiram (H), Chingavanam P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13142			
206608	Anjani Krishna T.K.	Unnikrishnan T.	Kalarickal House, Kodannur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.03.2017	11818			
206609	Anjitha C. Chandran	C.G. Chandran	Cheruvallippady (House), Komanad P.O., Munippara, Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.09.2018	12816			
206610	Anjitha P.	Rajagopalan P.	Pozhayil House, Naduvath P.O., Wandoor, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.08.2017	12141			
206611	Anjitha P.M.	Sukumaran P.	Deepakam (House), Muttill P.O., Kalpetta (Via), Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13460			
206612	Anju A.P.	Sureshkumar A.P.	Adathil Purayil (House), Paingottupuram, Kunnamangalam, P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12157			
206613	Anju A.S.	Sreekumaran Nair	Mekkesoolamkuzhi Veedu, Ottasekharamangalam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11953			
206614	Anju Aravind P.T.	Aravindakshan P.	Pattaruthodiyil (House), Pulikkal P.O., Periyambalam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12176			
206615	Anju Cherian	Cherian Joseph	Urumbumkuzhiyil (H), Kanjirapuzha P.O., Mannarkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11149			
206616	Anju Das C.	Haridasan C.	Vrindavanam Cherully (House), Mankada P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	04.08.2018	12681			
206617	Anju E.R.	Rarichan	Elampurayidathil (House), Pazhayarikandom P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.06.2018	12557			

206618	Anju George	George N.J.	Naduthadathil (H), Thachampara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13304			
206619	Anju Jogy	Jogy	Pynadath House, 6/1063 A, Safa Building, Head Post Office, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13415			
206620	Anju K.N.	K.M. Narayanan Unni	Kanjirakkattu Madom, Pakkil P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	28.01.2017	11706			
206621	Anju K.V.	Chandran K.V.	Kongasseri Valappil, Arun Cottage, Kaladi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2015	10881			
206622	Anju Krishna	M.S. Vasu	Ayamkudiyil (H), Attapallem P.O., Attapallem, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.04.2016	11261			
206623	Anju M.G.	Gangadharan Nair M.	Benoor (House), Perumbala P.O., Kalanad Via, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.10.2016	11528			
206624	Anju M.S.	C.V. Madhusoodana Varrier	Chengala Variam, Ramanthali P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12558			
206625	Anju Mary George	Varghese	Vellackakudiyil House, Rajakumary (N) P.O., Rajakumary, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10894			
206626	Anju P.	Damodharan P.	Sreenilayam House, Makkarapparamba P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10837			
206627	Anju P.	Vinodkumar P.	Pindiyyath House, Perinjnam P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.05.2017	11870			
206628	Anju P.	Appukkuttan E.	Parambil House, Vaidiarangadi P.O., Ramanattukara (Via), Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.10.2018	12865			
206629	Anju Prabhakaran T.	Prabhakaran T.K.	Thevailil House, Methala P.O., Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12639			
206630	Anju Ratheesh P.	Ratheesh Kumar P.	Parakkulangara (House), Kolakkad P.O., Atholi (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12843			
206631	Anju S.	Sivasankaran K.	Anjanam', Nannamukku P.O., Changaramkulam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12057			
206632	Anju S. Nair	B. Somarajan Nair	Sheela Sadanam, Enathu P.O., Distt.- Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12807			
206633	Anju Sivaram	Sivaraman O.	Ombalamurickal House, Nenmeni, Sulthan Bathery, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10833			
206634	Anju T.	Devadas T.	Thempatty House, Kappil P.O., Wandoor (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.05.2017	11868			
206635	Anju Thuruthivayalil	Gopalan T.V.	Thuruthivayalil (House), Maniyur P.O., Payyoli (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12710			

206636	Anju V. Lawrence	Lawrence S.	Green View, Vadakkemavungal, Thirupuram P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13083			
206637	Anju V.N.	Chandran V.N.	Valiyadammal (H), Naduvathur P.O., Koyilandy Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11388			
206638	Anju Wilson C.	Wilson Kuriyan C.	Cheruvathoor (House), Field Nagar, Kunnamkulam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12019			
206639	Anjuli P.M.	Madhavan T.	Maala Nivas, Vallikunnam P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11508			
206640	Anjupriya R.	Ramachandran C.H.	Archana (H), Chorode P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.10.2016	11532			
206641	Ankhita K. Nair	Unnirajan A.	Thusharam, Puthiyakandam, Near Muthappanar Kavvu, Padannakkad P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13463			
206642	Ankita Priya	Parmanand Prasad	Postal Park, Jawahar Colony, Road No. 2, Patna, Bihar-800001	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33706			
206643	Ann Maria George	George Thomas	Vadakumukalayil (H), Kanjirathanam P.O., Manjoor (Via), Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2019	13215			
206644	Ann Mary Sojan	Sojan Kuriakose	Eluvalumkal (House), Kaliyar P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12595			
206645	Ann Mathews	Mathews Joseph	Erumala House, Panipra P.O., Kothamangalam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11914			
206646	Ann Meeliya	Jose M.V.	Madathil House, Eramalloor P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13171			
206647	Ann Shilpa Joy	Joy T. Thomas	Akshitha House, D.P.O. Road, Near M.S.P.L.P.S., Malappuram P.O., Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11525			
206648	Annie A.	Abdul Rahman Kunju	Kaleekkal House, Pada North, TNRA-56, Karunagappally P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10803			
206649	Anoop C.	Chellappan N.	Anu Bhavan, Kazhakkunnu, Chullimanoor P.O., Nedumangad, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.07.2018	12573			
206650	Anoop K.S.	Sasidharan	Kiliyanthara House, Edamuttam P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13031			
206651	Anoop Krishnan	Appukkuttan Nair P.	Palathinkal House, North Aryad P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11951			
206652	Anoosha Hashmi V.H.	V.K. Mohamed Hashim	Vadakkeveetil House, Edavanakad P.O., Illathupadi Lane, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11929			

206653	Ansar Md. Faruk Bin	Ansar Ali	Vill+P.O-Itachuna,Dist-Hooghly, PIN-712147	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32502			
206654	Ansari Md. Arquam	Md. Manzoor Alam	H/No. 45/4 B.L.No. 22, Barai Para, P.O-R.L.B. Lane, Jagatdal, North 24 Parganas, PIN-743194	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32694			
206655	Anseena A.	Anzari M.	Thanuvellil, Changankulangara, Vavvakavu P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.05.2018	12496			
206656	Ansha Parveen Kummalil Thazhathethil	Ali K.T.	Kummalil Thazhathethil (House), Kanhippura, Karippol P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13468			
206657	Anshira Thasneem V.	Ahammedkutty V.	Vadakiniedath (House), Kalppally, Mavoor P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	17.08.2018	12739			
206658	Anshya James	P.P. James	Pulimoottil House, Near N.S.S. School, South Chalakudy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11116			
206659	Ansi Muhammed P.	Muhammed P.	Palekodan House, Neerad, Muthuvallur P.O., Kondotty, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka, Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.02.2019	13008			
206660	Ansiya A.	Anzar	Chanthanamoodu Veedu, Pukayila Pandakashala, Thamarakulam, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12653			
206661	Ansu Susan Abraham	K.A. Abraham	Kannukuzhiyil (House), Collectorate P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.12.2017	12334			
206662	Anu A.A.	A.G. Anil Kumar	8/286 F, Prabha Apartment, Silk Street, Beach P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12671			
206663	Anu Anto	M.V. Antony	Alvernia Provincial House, Chalakudy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12165			
206664	Anu Jacob	Chacko Mathew	Poovakkulam (House), Koruthodu P.O., Kuttikayam, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	21.07.2017	12032			
206665	Anu John	John P.A.	Parappanakode Puthenpura, Pathirikode P.O., Melattur Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.01.2016	11048			
206666	Anu K. Kumar	Anil Kumar K.B.	Kallolil House, Anthinadu P.O., Pala, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	19.10.2016	11568			
206667	Anu Luke	Luka Mathew	Parathanath (H), Urooteri, Thadikkadavu P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13296			
206668	Anu Maria Antony	P.V. Antony	Panavelil (H), Poomkavu, Pathirappally P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	13.06.2017	11895			
206669	Anu Mariam John	John Kurian	Pallikunnel House, Channanikadu P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12755			

206670	Anu Mathew	K.J. Mathew	Karippamattom (H), Kongandoor P.O., Distt.- Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10946			
206671	Anu Mohan	G.S. Mohan	Anju Villa, Near LPGS, Varkala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12244			
206672	Anu P.	Purushothaman K.	Melekottayathu House, Field Nagar, Kolazhy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12675			
206673	Anu P.A.	P.K. Andavan	Poovathin Parambil House, Paruthipully P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12098			
206674	Anu Paul V.	Paul V.V.	Vithayathil House, Koratty East P.O., Thirumudikkunnu, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.12.2018	12958			
206675	Anu S.	Suresh Babu R.	Anjali Nivas, Peroor Lane, N.F. Gate, Tripunithura, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.08.2018	12722			
206676	Anuja Babu	Babu T.G.	Sreevilasam (House), Panapuzha P.O., Paravoor, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12804			
206677	Anuja C.S.	Radhakrishnan Nair S.	Thottapura Veedu, Kudayal P.O., Vellarada (Via), Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12088			
206678	Anuja John	John Daniel	Mavila Villa, Nallila P.O., Distt.- Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.04.2019	13101			
206679	Anuja Unnikrishnan	Unnikrishnan V.K.	Chithira, Muthukulam South P.O., Muthukulam, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.06.2019	13131			
206680	Anula S.R.	Raveendranathan K.	Illath (H), Vakayad P.O., Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.07.2016	11375			
206681	Anumol Alias	Alias P.P.	Paramelil (H), Chemmanadu, Varikoli P.O., Puthencruz, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13172			
206682	Anumol Johnson	Johnson Joseph	Palamkunnel (House), Kanhiradukkam P.O., Anandasaram (Via), Distt.- Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2018	12602			
206683	Anumol P.G.	E.K. Gopi	Puthenpurackal (House), Koovakkandom P.O., Methotty, Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12640			
206684	Anupam Jyoti	Pramod Kumar	Gali No. 8. Ghana Colony, Ramkrishna Nagar, Patna 800027	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	27.09.2019	33272			
206685	Anupama	Sh. Krishan Pal Singh	H. No. 5015-A, Gali no. 04, Kaushik Puri, Old Seelampur, Delhi-110031	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/ 5740			
206686	Anupama Jayathilakan	Jayathilakan C.	Chandroth House, Elayavoor, Thaze Chovva, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13462			
206687	Anupama K.C.	Balaraman K.C.	Cheroramanni, Konott P.O., Kunnamangalam Via, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.04.2016	11242			

206688	Anupama K.P.	Gopinadhan Nair K.P.	Arun Nivas, Ambalappadi, Wandoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11032			
206689	Anupama Kumari	Radhey Shyam Sah	"Shyam Niwas", Vivekanand Pally, Near Sur Engg Works, Ismaile West Asansol, PIN-713301	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32455			
206690	Anupama M.G.	Mohan Kumar M.	Mohanam, T.C. 55/1059, Apra A21, Kalady, Karamana P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13414			
206691	Anupama M.S.	Sudhakaran M.R.	Manattuparambil House, Nayarambalam P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11282			
206692	Anupama P.V.	P.V. Sasidharan	"Anuyuktha Nivas", Kanhira, Thottada P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12901			
206693	Anupama S.	Sasidaran Nair G.	Ambadi, Mannakkal Thirupuram P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11188			
206694	Anupama S.B.	K. Sudhakaran	Aneesh Bhavan, Thekkummoodu, Tholicodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10842			
206695	Anupama V.P.	Padmanabhan V.	"Anupama" (H), Mangalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	30.04.2016	11259			
206696	Anupama V.P.	Prabhakaran V.K.	Vaikkathodi (H), Koorad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.06.2017	11893			
206697	Anupama Varghese V.	S. Varghese	Dreamland, Ambalathara Purayidam, Neeravil, Perinad P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12140			
206698	Anuprasad K.K.	Soman Nair	Prasoonam (House), Koorikkunnummal, Kannadipoyil P.O., Balussery (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2017	12190			
206699	Anupriya S. Krishnan	K.C. Radhakrishnan	Kanottichalil (House), Kottur P.O., Naduvannur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.12.2017	12331			
206700	Anupriya V.	Subramanyan	Vallamkulam (H), Kottiyor P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11152			
206701	Anuraj J.V.	G. Jayaraj	Raj Bhavan, Manthara, Mampazhakkara, Perumpazhuthoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.11.2016	11591			
206702	Anurenj A.R.	Ajayakumar Pillai K.	Thiruvonam, Chemmakad P.O., Perinad, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11140			

206703	Anurejini A.S.	Anilkumar D.	Anila Bhavan, Anchumaramkala, Vellarada P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12559			
206704	Anusha Ashraf	Ashraf K.O.	Kaihapola Puthen Veedu, Power House Ward, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12352			
206705	Anusha K. George	George K.S.	Kurunnappillil (H), Thattekadu P.O., Palamattom, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13170			
206706	Anusha Mariyam T.	Thahir A.A.	Heera Cottage, Alamcode P.O., Attingal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.02.2019	13045			
206707	Anusha Roy	K.J. Roy	Kochuparambil House, Palankara P.O., Nilambur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12701			
206708	Anusha U.B.	V.K. Balachandran	Usha Malari, Kannaravila, Nellimood P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11055			
206709	Anusha Vijayan	Vijayan A.K.	Ayyanchira House, Vattanathra P.O., Alagappa Nagar Via, Kavallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11117			
206710	Anushka Subash	Sebastian	Valiamangalam (House), Kalathukadavu, Thalappalam, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12756			
206711	Anushree M.	Sugathan M.	Mepparambath (House), Karakaliparambu, Mannur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13164			
206712	Anusmitha Mousimi	Krishna K.	Smitharag, Mundakanam, Puthige P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2018	12631			
206713	Anusree G.S.	C.K. Gopi	Gopika (House), Purakkatiri, Thalakulathur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	22.09.2016	11481			
206714	Anusree K.K.	Mohanan	Kandothu Kulagara (House), Erravattur P.O., Perambra (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12618			
206715	Anusree R.S.	Raghavan N.P.	Neelamparambil House, Valliayi, Pathayakunnu P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13262			
206716	Anusree S. Chandran	K.V. Chandrasekharan	Kottakkal (House), Pulikurumba P.O., Naduvil (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11932			
206717	Anusree S.N.	Narayanan	Koroth (H), Avala P.O., Meppayoor Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.02.2017	11761			
206718	Anusree V.S.	C.H. Surendran	Chundakkatt (House), Kottur P.O., Naduvannur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.01.2018	12375			
206719	Anusruthi K.A.	Aravindhakshan	Kalen Kolumbu Kalam, Peruvemba P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11995			

206720	Anwar Ashif	Jamaludin Ansari	At&Post-Samahuta, P.S.-Kachwan, Distt.-Rohtas, Bihar-821309	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33695			
206721	Anzia A.S.	Ashraf Haji M.	Zalika, Pulippara, Nedumangad P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	09.10.2017	12263			
206722	Anzia Azeez	N. Abdul Azis	Anjildvila Purayidom, Patharickal P.O., Pathanapuram, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.05.2017	11873			
206723	Aochuba Pongen	Limalemba	H. No-25 Tzusapang Mokokchung Nagaland 798601	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	25.09.2019	122			
206724	Aparna Aneesh	Aneesh P.R.	Panangayil (House), Kothaparambu P.O., Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12526			
206725	Aparna Babu	Babu P.V.	Athira Gardens, Kudavechoor P.O., Vaikom, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10790			
206726	Aparna C.K.	Radhakrishnan C.K.	Devikripa' Thaliyadath Parambu, Westhill P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.05.2019	13110			
206727	Aparna Gopi	Gopi K.K.	Kalakkattu (H), Moolamattom P.O., Moolamattom, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11201			
206728	Aparna N.K.	Rajeevan C.K.	Mangot (House), Areekalhazhe, Kollam P.O., Quilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	09.10.2018	12907			
206729	Aparna P.	Mukundan P.	Anugraha, Parakkott, Kannankara P.O., Chelannur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.09.2018	12769			
206730	Aparna Paleri	Venugopal M.P.	Vaishnavam House, Thalichalam, Elambachi P.O., South Trikaripur, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.12.2016	11649			
206731	Aparna Prakash	Jaya Prakash	Kunnathu House, Peringara P.O., Thiruvalla, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11961			
206732	Aparna S.	V.B. Sreenivasan	Souparnika, Mangaram, Konni P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.04.2016	11249			
206733	Aparna S. Kunnummel	Sasidharan K.R.	Kunnummel Parambil, Thathampally P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10839			
206734	Aparna Sudheendran	Sudheendran A.S.	Aparna', T.C. 30/970 (2), C. Keshavan Road, Pettah P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2016	11560			
206735	Aparnaraj A.	Rajan K.K.	Aparna (H), Chenoly P.O., Perambra (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.04.2017	11857			

206736	Apoorva R.S.	V.K. Radhakrishnan	Jai Villa, Karamoodu, Kallayam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2019	13218			
206737	Appu Varghese	Varghese P.E.	Padayattil (House), Angamaly, Kidangoor P.O., Thuravoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11920			
206738	Apurva	Rajender Parsad	VPO-Badopal, Distt.-Fatehabad, Haryana-125048	BHMS	2020	Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak	Haryana	18.09.2020	6533-A			
206739	Ara Arshi	Arif Azimi	84/4, Narkeldanga North Road, P.O+P.S-Narkeldanga, PIN-700011	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32558			
206740	Ara Roshan	Shamshad Alam	Z-3/103/B, Dr. A.K. Road, P.O-Badartala, Kolkata-700044	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32778			
206741	Aranya Murali	Muraleedharan P.K.	Palanilkunnathil Vadakethl, Mudiyoorkkonam P.O., Pandalam, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12134			
206742	Arathi A.R.	Rajendran G.	Anjali', T.C. 43/353, Kamaleswaram, Manacaud P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Calicut University	Kerala	23.09.2017	12222			
206743	Arathi Pradeepan	K.K. Pradeepan	Konattu House, Vadavucoode P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13188			
206744	Arathy P.	Prabhakaran Nair J.	Nandanam, Alummodu P.O., Mukathala, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13057			
206745	Aravind C.U.	C.S. Unnikrishnan	Chullimangalathu Illom, Chempu P.O., Vaikom, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13261			
206746	Aravind K. Raj	M. Rajan	Rajadhani (House), Iringappuram P.O., Puthanpalli (South), Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12171			
206747	Aravind L.S.	Sundaran Nadar	L.S. Bhavan, Pottakuzhi, Plamoottukada P.O., Amaravila Via, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11737			
206748	Aravind S. Nair	Sivadas P.C.	'Swathi', TC 8/1156-1, Valiya Vila, Thirumala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10787			
206749	Archa P.	Preman P.	Sarayu (H), Kodakkad P.O., Chettipadi Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11150			
206750	Archana Baby	Baby Andrews	Aerathu (H), Vijayagiri P.O., Alakode, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13259			
206751	Archana J.Nair	Jayakumar M.K.	Champottu Maliyal House, Vadayar P.O., Thalayolaparambu, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.11.2018	12925			
206752	Archana K.	Unni V.P.	Keerthi (H), Kokkallur P.O., Balussery Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10993			

206753	Archana K.S.	Sivaraman K.K.	Kalachira (House), Arakathazham, Kodungallur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12527			
206754	Archana Mohan V.	Chandra Mohan S.	Archana, Decent Junction P.O., Mukhathala, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.04.2017	11845			
206755	Archana P. Nair	M. Jayachandran	Melekalpakasari Veedu, Vivekananda Nagar, Pappanamcode, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11459			
206756	Archana Prasad	Siva Prasad	Melayil Vadakkathil, Mathilil P.O., Perinad, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	05.04.2016	11211			
206757	Archana Priya M.P.	K. Prathapan	Prathapa Sadanam, Santhipuram, Mulloor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	05.01.2017	11671			
206758	Archana Unnikrishnan	Unnikrishnan P.K.	P.K. House, South Bazar, Kuttippuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.08.2019	13359			
206759	Archana V.	Venkitachalam P.T.	Panthapulakkil (H), Kottapuram P.O., Sreekrishnapuram Via, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11537			
206760	Archith Lal P.	P. Manohar Lal	Lals, College Road, Ramanattukara P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.06.2019	13184			
206761	Ardhra C.	Vidyadharan C.	Chambayil (H), Arakinar P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.01.2016	11016			
206762	Ardra Asok M.P.	Asokan M.P.	Malayamparambath (H), Ariyallur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	02.05.2016	11264			
206763	Ardra N.C.	Chandran K.P.	Karattupoyil, Nanninda P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.09.2018	12850			
206764	Ardra R.P.	Ramachandran P.K.	Mundayil (House), Theyyambadikkuth, Chembrasser P.O., Pandikkad (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12625			
206765	Arfeen Alia	Md. Arif	13/H/1/2. Elliot Lane, Kolkata-700016	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32756			
206766	Arjun B. Raj	Baburaj P.A.	Puthen Veedu (H), Peringottukurissi, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.04.2015	10781			
206767	Arjun C.H.	Surendran C.H.	Ram Nivas (H), Purameri P.O., Vatakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13291			
206768	Arjun Govind	Mohan	"Mohanalayam", House, Madapally College P.O., Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	12001			
206769	Arjun M.	Sudhakaran M.	Mundottu (House), NITC P.O., Chenoth (Road), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	16.06.2018	12516			

206770	Arooba N.	Abdul Khader N.	Pottammel House, Muthuvallur P.O., Kondotty, Neerad, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	16.12.2017	12341			
206771	Arora Akshara	Sh. Sanjay Kumar Arora	B-55, Ground Floor, Moti Nagar New Delhi-110015	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	21.09.2020	BHSD/5783			
206772	Arora Simran	Sh. C. S. Arora	Pkt-E, 344-A, LIG Flats, GTB Enclave, Dilshad Garden, Delhi-93	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	13.08.2020	BHSD/5692			
206773	Arora Simran	Sh. Ajit Arora	3784, Gali No. 21, Regharpura Vishnu Mandir, New Delhi-110005	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5733			
206774	Arsha Asokan	Asokan C.V.	Chathengadan House, Vellamchira P.O., Vellamchira, Distt.-Thirissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.03.2019	13048			
206775	Arsha Chandran	Chandradethan K.G.	Pranavam, Paranthal P.O., Pandalam Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11398			
206776	Arsha P.	Asokan P.	Sreepadam House, Kizhakke Madathil, Mannur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11996			
206777	Arshana M.V.	Ahamed Kutty	Baithul Khasab, Munderi P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.08.2018	12720			
206778	Arumugam Thamaraiselvi	N. Arumugam	302, Confident Antlia-3, Sarjapur, Bangalore 562125	BHMS	2001	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	27.08.2001	1241			
206779	Arun B Jagadheesan	Jagadheeshan G.	Uthram, Neeranikal Vilakam, Muriyathottam, Parassala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12706			
206780	Arun K. John	John	Kudiyirickal (H), Kalichanadukam P.O., Nileshwar (Via), Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13268			
206781	Arun K.K.	Kuttappan	Karumukkil House, Muttikkil, Kundannur P.O., Kottappuram, Distt.-Thirissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	22.04.2019	13107			
206782	Arun Krishna S.R.	Sivankutty Nair R.	SCTRA-49, S.L. Nivas, T.C. 19/1366, Thamalam, Poojapura P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12533			
206783	Arun P.	Gopalakrishnan K.	Souparnika, Munduparamba, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.12.2017	12355			
206784	Arun P. Thomas	Thomas Varkey P.	Purathur Kitten House, Mullakkara, Mannuthy P.O., Distt.-Thirissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12677			
206785	Arun R.S.	Subhashidan	Ramamangalam (House), Champakulam P.O., Manapra, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2019	13203			
206786	Arun S. Raj	P. Rajendran	Pankaj Nilayam, Karumkulam, Puthiyathura P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	26.07.2017	12039			

206787	Arun Vivek S.J.	B.S. Suguna Varma Raja	Swasthika Bhavan, Kidarakuzhi, Kidarakuzhi P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.07.2016	11378			
206788	Arundevan M.	Vasudevan M.	Manappadan (House), Amarambalam South P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.07.2017	12010			
206789	Arunima R.S.	V. Rajan	Chithiralayam, TRA-26, Chathanpara, Thottakkadu P.O., Kallambalam, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12145			
206790	Arunima S.	Sudarsanan K.	Aiswarya, Kazhakkunnu, Chullimanoor P.O., Nedumangad, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13152			
206791	Arunima S. Mohan	Mohanan S.	Kaleelil Veedu, Mathurappa, Thadicadu P.O., Anchal, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13344			
206792	Arunya S.J.	Sugatha Varma	Sugathas, Kidarakuzhi, Kidarakuzhi P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11458			
206793	Arya Ajith	K. Ajithkumar	Sreematha Mandiram, Rayamangalam P.O., Kuruppampady, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	20.07.2018	12616			
206794	Arya Ashokan	K.N. Ashokan	Varkkad House, Muttikulangara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.04.2017	11836			
206795	Arya Babu	Babu	Vadakke Puthuthara, Varanad P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11923			
206796	Arya C.	Anil Kumar C.	Valappil House, Mannur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.01.2019	12990			
206797	Arya C. Rajan	N. Rajan	Rajeavam, Karimpinuzha P.O., Puthur, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12643			
206798	Arya H.J.	K. Harikumar Nair	Padmavilasam Benglow, Kattachalvila, Kunnathukal P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11408			
206799	Arya J. Nair	Janardhanan Nair	Karthika (House), Unipparambath Thazham, Kuruvattoor P.O., Kakkodi (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12808			
206800	Arya K.	Narayanan Kutty K.	Kariyadath, Krishnakripa House, Pallikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	13003			
206801	Arya P.	Preman P.	Sarayu (H), Kodakkad P.O., Chettipadi Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11087			
206802	Arya Rajendran	Rajendran P.	Kollesseri, Poonthoppu Ward, Avalookunnu P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	26.07.2017	12038			

206803	Arya S.	Sasidharan Nair S.	Anugraha, T.C.-18/149(1), Plavila Junction, Thirumala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12144			
206804	Arya S. Mathew	J. Sebastian Mathew	Nellinimnathil Veedu, Chani, Kanjiramkulam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11407			
206805	Arya Subodh Kant Prakash	Anand Prakash Arya	Vill.-Bareo, Post-Khanjapur, P.S.-Muffsil, Distt.-Gaya, Bihar-823003	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	30.10.2019	33399			
206806	Arya Sudhan K.	Sudhakaran K.	Aramam (House), Onchiyam P.O., Chombala (Via), Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	29.07.2017	12050			
206807	Aryamol C.S.	Sabu C.K.	Cheerankulam (House), Thrukothamangalam P.O., Puthuppally, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12626			
206808	Aryamol P.S.	Sajeevan P.N.	Padinjarrattath House, Anmanad P.O., Chalakudy, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12964			
206809	Aryasree V.P.	Viswan Puthalath	Pratheeksha-Thaliyarambath House, Kavil P.O., Naduvannur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.09.2018	12855			
206810	Asfa Thasneem K.	Abdul Majeed K.	Kizhakkeel House, Cheruputhur, Olamathil P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12202			
206811	Ash Anirban	Dijadas Ash	Jagadishpur Road, Domjur, Howrah, PIN-711405	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32662			
206812	Asha Antony	Antony K.K.	Karuthedathu Parambil (House), Kandassankadavu P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.09.2015	10921			
206813	Asha Hussain Pudussery	Hussain Pudussery	Mukkanniyil (H), Enannalloor P.O., Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11589			
206814	Asha K.	K. Ravindran	Ushas (H), Pariyaramkundu, Mananthavady P.O., Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11025			
206815	Asha Krishna	V.K. Krishnankutty	Vaipuparampil (House), Vengal, Alamthuruthy P.O., Thiruvalla, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12155			
206816	Asha S.	Sivaraman K.	Priya Nivas, Kadamkode, Karingarapully P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11536			
206817	Asha Santhosh	M. Santhosh Kumar	Mulackal House, Chandiroor P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12753			
206818	Asha Thankachen	Thankachen K.K.	Kaallolickal, Karukachal P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12121			
206819	Ashams Ann Shaj	Shajan Thomas	"Snehashams", P.V.R. Nagar Pallipuram P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.06.2018	12508			

206820	Asharavi J.R.	Ravi T.	Kottaram Vathukkal, Thuruthi P.O., Cheruvathur (Via), Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.10.2018	12909			
206821	Asheendhra Chazhoor	Sebastian Chazhoor	Chazhoor Thattuparambil (House), Kuttur P.O., Kottekkad, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12396			
206822	Ashi Chandran	Chandran P.	Puthalath House, Perambra (Via), Chenoli P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12940			
206823	Ashida R.	Ansari P.M.	Taj Manzil, Mankamkuzhy P.O., Mavelikkara, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11739			
206824	Ashidha M.M.	M.P. Muhammed	Mukalel (House), Pallarimangalam P.O., Pallarimangalam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.10.2017	12290			
206825	Ashima Alex	Alex Mathew	Palakkuzhayil (House), St. George College Road, Aruvithara P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	30.06.2017	11908			
206826	Ashiq P.K.	Abdurahiman Kunhi T.M.C.	Pulari, T.C. 3/1459, N.S.P. Nagar-144, Kesavadasapuram, Pattom P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12085			
206827	Ashish Gajbhiye	Lt. Shri Ravindra Gajbhiye	Vill./Post-Chicholibad, Teh.-Pandhurna, Distt.-Chhindwada, Madhya Pradesh	BHMS	2009	Rani Durgavati University, Jabalpur	Madhya Pradesh	21.07.2010	17725			
206828	Ashitha M.V.	Narayanan M.V.	Mangattu Valappil (House), Vilayancode P.O., Pilathara (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2018	12603			
206829	Ashk Awed	Lt. Quadir Hussain	Chhota Bariyarpur, Birsra Nagar, Ward No.-38, P.S.-Chhatauni, P.O.-Motihari, Dist.-East Champaran, Bihar-845401	BHMS	2018	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	12.01.2019	32859			
206830	Ashlin Augustine	Augustine V.J.	Vimalamatha Provincial House, Thamarassery P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13401			
206831	Ashly George	George	Allaikkappaliyil (House), Panathady P.O., Rajapuram Via, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	27.06.2017	11906			
206832	Ashly L.J.	Lawrence D.	Chaithanya, Kannimathattu, Mulluvila, Mulluvila P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12890			
206833	Ashmeena Asharaf T.	Asharaf T.V.	Thekkathu Valappil (House), Karikkad P.O., Kunnamkulam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.08.2018	12719			
206834	Ashmina C.B.	Mohammed Basheer P.A.	Chettukudiyil House, Pullepady, Kathrikadavu Road, Kaloorkochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	19.01.2017	11691			
206835	Ashna D.	Damu A.	Alollathil (H), Kurinhaliyode P.O., Villiappally Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11144			

206836	Ashna George	George C.M.	Chennattukuzhiyil (House), Valara P.O., Trumpupalam, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12525			
206837	Ashna V. Sreedhar	Sreedharan V.	Gokulam', Shariyil Wandoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11108			
206838	Ashwani V.	Vinod Kumar K.	Muzhakkom, Cheruvathur (Via), Klayikode P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2017	12191			
206839	Asifa V.M.	Muhammed Ali V.M.	Veluthethodi Melethil (House), Natyamangalm, Chundampatta P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.11.2018	12924			
206840	Asitananda Mukhopadhyay	Lt. Amalananda Mukherjee	9A, Rashbehari Avenue, Kolkata-700026	DHMS	June-1986	University of Bihar	West Bengal	17.10.2017	31692			
206841	Asma M.	Shoukathali M.	Mailadi House, Chandakunnu P.O., Nilambur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10982			
206842	Asmiya V.	Naushad H.A.	Asmiyil, Kairali Gardens, Balaramapuram, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13082			
206843	Assia M.	Kunhimammed	Manhammatil (H), C.K. Nagar, Tirurangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	01.02.2016	11070			
206844	Assiya Ibrahim	Ibrahim Kutty	Kunnayil, Vaduthala Jetty P.O., Arookutty, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.01.2017	11684			
206845	Aswani A.	Ashokan K.P.	Kizhakke Punathil (House), Onchiyam P.O., Chombala (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.08.2017	12070			
206846	Aswani Ashokan	M. Ashokan	Thiruvathira, Kollonam, Kuriyodu P.O., Chadayamangalam, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11661			
206847	Aswani K.	Sreenivasan	Kappummal (House), Perambra P.O., Pithoth (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	12.01.2018	12445			
206848	Aswani N.	Premachandran N.	Pranavam (House), Nedungattummal, NITC P.O., Chathamangalam, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13167			
206849	Aswani P.	Raghunath	Padincharayil House, Vettathur, Cheruvayur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12651			
206850	Aswathi K.B.	Karunakaran	Karakkandi (House), Nochad P.O., Naduvannur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.09.2017	12218			
206851	Aswathi K.K.	Raveendran K.K.	Kandoth Kuzhiyil (House), Balussery P.O., Balussery (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12741			
206852	Aswathi K.N.	Narayanan	Kizhakkayil (House), Manassery P.O., Mukkom, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.09.2017	12211			

206853	Aswathi K.V.	Sasi N.K.	Aiswarya', Pudukai P.O., Neleshwar P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.07.2016	11371			
206854	Aswathi M.	Sivadasan P.	"Ambadi", Near Bodhanandha Ashram, Chevarambalam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11454			
206855	Aswathi M.V.	Venu Gopalan M.V.	Devadeyam (House), Thayyilthazham, Mayanad P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12871			
206856	Aswathi Mohan	V.P. Mohanan	Venkulathil House, Mulampuzha P.O., Pandalam, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.12.2018	12986			
206857	Aswathi P.	Unni Rajan P.	Munnalath House, Puttekkad, Feroke P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11202			
206858	Aswathi Raj	P. Rajan	Ajith' House, Near Railway Station, Koyilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.02.2017	11732			
206859	Aswathi Suresh	Suresh N.V.	Anjali' (H), Atholi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	02.05.2016	11267			
206860	Aswathi T.G.	Gopi T.V.	Thottupurath House, Nhamanghat P.O., Kunnankulam Via, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.01.2016	11051			
206861	Aswathi V.	V. Raviprasad	"Koodu", Ambalappadi, Wandoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10844			
206862	Aswathy A.	K.D. Amby	Aswathy Bhavan, Kottamkulangara Ward, Avalookunnu P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12785			
206863	Aswathy A.B.	Balachandran B.	Vaishnavam', T.C. 76/1766, MNRA-81, Kadakampally Lane, Anayara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12531			
206864	Aswathy A.S.	G. Suresh Chandran Pillai	Aswathy Bhavanam, Mullakkery, Panmana P.O., Chavara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.10.2017	12286			
206865	Aswathy A.S.	Sasidharan R.	Aswathy Bhavan, Kannaravila, Mannakkallu, Nellimoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2018	12774			
206866	Aswathy Asokan	N.M. Asokan	Nakkara House, Potta P.O., Chalakudy, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	02.02.2017	11713			
206867	Aswathy Balan M.K.	Balan M.K.	Muthukuttiyil, Manassery P.O., Mukkom, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.06.2019	13181			
206868	Aswathy Chandran	Chandran P.S.	Puthuparambil (H), Bypass Road, Thekkady P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10941			
206869	Aswathy K.L.	Lohidhakshan K.M.	Karate House, Koorenchery P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11322			

206870	Aswathy K.S.	Sadanandan D.	Kalasadanam (H), Karimthottuva P.O., Sasthankotta, Kunnathur Via, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	24.08.2019	13340			
206871	Aswathy L.	Prasannavadanam V.	Rachana, Pulloormukku, Kallambalam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.01.2018	12451			
206872	Aswathy Murali	Muraleedharan Pillai	Thevarumukalil, Moothala P.O., Pallickal, Kilimanoor, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.08.2017	12118			
206873	Aswathy Nair V.S.	Vikraman Nair K.G.	Vishnu Vihar, T.C. 23/1402 (2), CIT Road, Melaranoor, GNRA-173, Karamana, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12026			
206874	Aswathy P. Nambodiri	Vasudevan Nampoothiri P.R.	Porkalamittathillam, Eroor P.O., Tripunithura, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12734			
206875	Aswathy R.	Radhakrishnan K.	Krishna Kripa, Chithara, Chithara P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2016	11561			
206876	Aswathy R.K.	M. Rajan	Patheesh Bhavan, Kalluvarambil, Poovathoor P.O., Nedumangad, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.06.2018	12502			
206877	Aswathy R.S.	Ramachandran Pillai K.	Aswathy Bhavan (House), Padapparamba, Vattaloor P.O., Makkarapparamba (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12689			
206878	Aswathy Raj I.	K.A. Rajendran Pillai	Arun Nivas, Mylode P.O., Pooyappally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11084			
206879	Aswathy Shanmugham	Shanmugham Chettiyar	Thottumkal (House), Chengalam, P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12135			
206880	Aswathy V. Nair	M.N. Harikuttan	Mallika Sadanam, Kulapparachal P.O., Rajakumari, Kattappana, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	10.02.2017	11721			
206881	Aswathy Vijayan	Vijayan S.	Panamoottil Kizhakkethil, Kureepuzha, Kavanadu P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12644			
206882	Aswini K.V.	Sasidharan K.V.	Aswini Nivas, Pilicode Vayal, Pilicode P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2018	12613			
206883	Aswini M. Nair	P.K. Muraleedharan Nair	Kumara Sadanam, Poovathoor P.O., Koipuram, Thiruvalla, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11007			
206884	Aswitha Theertha Y.T.	Yatheendra Nath Das	Purathoott House, Muttungal West P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.11.2018	12945			

206885	Aswathi C.V.	Raghavan	Chedayantavida House, Moodadi North P.O., Koyilandy (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13030			
206886	Ateeq Afsha	Mohd. Ateeq	B-14/B, Third Floor, Block-B Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar Delhi-110025	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5748			
206887	Athidhi A.P.	Sreenivasan P.K.	Dilse (H), Neduva P.O., Parappanangadi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13307			
206888	Athif Ahmed K.	K. Qamarudheen	Koduvazhakkal House, Muriyakanni, Thiruvizhamkundu P.O., Alanallur-III, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2019	13217			
206889	Athira A.V.	Viswanathan K.M.	Sopanam (H), 39/1150, Thottumukham Paramba, Puthiyangadi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.01.2016	11021			
206890	Athira Ashok T.P.	Ashokan T.P.	Athira (H), Thrikkandiyur P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.11.2016	11577			
206891	Athira Babu M.	Babu Mangatt	Mangatt House, Pariyaram P.O., Chalakudy, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10902			
206892	Athira C.	Chandran	Athira Nivas, Kottapuram P.O., Sreekrishnapuram (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12064			
206893	Athira C.S.	J. Christu Das	Ajin Nivas, Kuttikadu, Parasuvaikal P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11083			
206894	Athira Das	K.S. Haridas	Kaniyamparambil (H), Pazhayarikandom P.O., Pazhayarikandom, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11329			
206895	Athira Das	Yogidas	Tintu Bhavanam, Clappana P.O., Karunagappally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11736			
206896	Athira E.	Gopi V.	Vithan (H), Padiyotuchal P.O., Payyannur (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13264			
206897	Athira G.	Venu V.	Nenmeli, Nikarth, Eramalloor P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.03.2019	13093			
206898	Athira J.	Jayachandran K.	Adharsh Nivas' (House), Kuttipallam P.O., Panniperunthala, Chittur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12067			
206899	Athira K.	Sahadevan	Kottilamarac (House), Pottassery P.O., Kanjiram, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12016			

206900	Athira K.	Rajagopal T.	Karapurath (House), Bhoomika, Arthat P.O., Kunnankulam (Via), Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12731			
206901	Athira K.	Murali K.	Kakkadath House, Madhura Bazar, Cheruvannur, Feroke P.O., Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13038			
206902	Athira K. Sathyan	Sathyan K.S.	Kalinjathil House, Muppathadom P.O., Aluva-10, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11955			
206903	Athira K. Thankachan	K.N. Thankachan	Kunnath Keezhthottathil House, Mullakkara, Mannuthy P.O., Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12963			
206904	Athira K.M.	Karunakara Kurup	Anjali, Kadakkarappally P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.08.2018	12757			
206905	Athira K.P.	Prasanna Kumar K.	Sreemukunda', Kariyakandy, Eranhikkal P.O., Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.03.2016	11187			
206906	Athira Krishnan	Krishnan A.	Padinjare Veedu (House), Randar P.O., Muvattupuzha, Distt.- Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12654			
206907	Athira M.	Muralidharan P.	Ambadi House, Pachattiri P.O., Tirur S., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune	Kerala	02.03.2019	13059			
206908	Athira Mohan	Mohanan K.K.	Kallumpurathu (House), Perumbillichira P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	21.07.2017	12034			
206909	Athira N.K.	Kunjupanicken K.	AJ Bhavanam, Thottua, Anayadi P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10789			
206910	Athira N.V.	Viswanathan N.	Avani, Neerveli P.O., Nirmalagiri, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.07.2019	13206			
206911	Athira P.	Preman P.	New Thej, Vayalery Meethal (House), No. 14/127/A, Velur West P.O., Atholi (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2018	12775			
206912	Athira P.B.	Balakrishnan P.R.	Pacholil (House), Selliampara P.O., Selliampara, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12576			
206913	Athira P.V.	Chandran P.V.	Athira Nivas', Padanakkad P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2016	11472			
206914	Athira P.V.	Lakshmanan P.V.	Kunhiparambath House, Punnad P.O., Iritty (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.11.2017	12316			
206915	Athira Prakash K.P.	Prakasan K.P.	Saroj (House), Kolassery Puthur, Pantheerankave P.O., Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.09.2018	12839			
206916	Athira R. Nair	M.D. Radhakrishnan	Ushus (H), Mevelloor P.O., Mevelloor, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.04.2016	11250			

206917	Athira Raju	Raju P.M.	Peckal House, Perumpally P.O., Mulanthuruthy, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11362			
206918	Athira S. Lal	Satheesh Lal K.R.	Neelambari, Purathanath House, Iringaloor P.O., Palazhi, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12136			
206919	Athira Sunil	Sunil R.	Tharayil House, Poochakkal P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13151			
206920	Athira T.K.	Vasudevan T.K.	Thekkedath Kovilakath House, Vettathoor, Vazhakkad Via, Cheruvayoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	19.10.2016	11565			
206921	Athira V. Warriar	Venukumar S.	Venunadam, Rappal Variam, Rappal, Padukad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12692			
206922	Athira V.S.	Venu R.	Kattil Puthen Veedu, Market Road, Attingal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11005			
206923	Athira Vijayakumar	V.R. Vijayakumar	Vazhapparambil, Pallickachira P.O., Paippad, Changanacherry, Distt.- Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.05.2019	13119			
206924	Athiraganga S.S.	Sasidharan B.	Thittachal Puthen Veedu, Venpakal P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11666			
206925	Athirakrishnan G.K.	Krishnan Pilachery	Pilachery (H), Puthanchery, Kunnathara P.O., Ulliyeri (Via), Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13256			
206926	Athiya C.K.	Aboobacker C.K.	Thattarakkal (House), Kizhakkum Muri P.O., Kakkodi (Via), Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.11.2017	12310			
206927	Athiyathul Bary T.A.	Aboobaker T.K.	Thanath House, House No. XX/783-B, Kacheripady (West), Palluruthy P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.12.2017	12333			
206928	Athiyya Beevi P.S.	Saidalavi P.	Kunnampally House, Second South, Kuzhimanna, Kuzhimanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.03.2016	11162			
206929	Athul Nath N.V.	Narendra Nath N.V.	Symphony, Ganesh Nagar, Highschool Road, Mele Pattambi, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13474			
206930	Athullya A.S.	Sreenivasan A.D.	Areekattu (House), Amrita Nagar, Veliyambam P.O., Pulpally, Distt.- Wayanad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12383			
206931	Athullya S.	Sasikumar C.	Pulikkal House, Vilayodi P.O., Chittur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.09.2018	12829			
206932	Athulraj R.	Rajan	Achiarambath (House), Chakkittapara P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.12.2017	12329			

206933	Athulya A.	P. Gopinathan Pillai	Varoor Veedu, Nellimukku P.O., Madanthacodu, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12650			
206934	Athulya C. Soman	P. Soman	Kuliyamoola House, Cheeyambum P.O., Pulpally, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12109			
206935	Athulya Haridas	Haridasan	Puthalath, Harilatha, Panthalayani, Koyilandy P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.10.2017	12268			
206936	Athulya K.	Gopalakrishnan K.	Devakiyam House, Beypore North P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	28.05.2019	13127			
206937	Athulya Rajesh	Rajesh Joseph	Ambatt (House), K.K. Road, Muringoor, Vadakkumury, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13408			
206938	Attela Babu	Babu A.	EF 4/5631, Bilathikulam Housing Colony, Eranhipalam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2017	12273			
206939	Attu Joy	P.K. Joy	Puthukkunnath (H), Nadukani P.O., Kothamangalam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	29.11.2016	11603			
206940	Axa Markose	Markose K.V.	Kalappurayil (House), North Piramadom P.O., Pampakuda, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.11.2017	12321			
206941	Ayimnichet Tzudir	T. Imtiakum	H. No 332 Lower PWD Colony Near Lotha Baptist Church Kohima 797001	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	17.02.2020	128			
206942	Ayisha	Kunhabdulla Kareecheri	Parappil (House), Purameri P.O., Vadakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	12.01.2018	12440			
206943	Ayisha E.K.	Mohammed E.K.	Thayyil House, Mattathur P.O., Othukkungal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12152			
206944	Ayisha Febin P.T.	Assain Kutty P.T.	Peedikathodukayil (House), Koduvally P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12411			
206945	Ayisha Jinjusha N.	Muhyudheen Koya N.	Aysha Fath (H), Raroth Chalil, Koduvally, Koduvally P.O., Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	11.07.2016	11349			
206946	Ayisha Jubairiyath K.	Ayoob K.	Meleparakote (House), Feroke P.O., Chungam 8/4, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	12.01.2018	12446			
206947	Ayisha Naseeba K.B.	Beerankutty K.B.	Kattu Bava (H), Kottappuram, Nallani Potta, Irimbiliyam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11183			
206948	Ayisha Nasrin E.C.	Ammed E.C.	Elayadath House, Panamaram P.O., Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.09.2018	12828			
206949	Ayisha Ottuparakuzhi	Abdul Nazer Ottuparakuzhi	'Naas' House, Kootalungal, Kondotty, Chirayil P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	07.09.2015	10908			

206950	Ayisha Roshin	Abdul Kader K.	Kappoor (H), Aliparanmba P.O., Anamangad (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.05.2017	11887			
206951	Ayishabi T.	Muhammed T.	Asra Manzil, Vikas Nagar, Iritty P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	10.12.2015	10966			
206952	Aysha A. Rauf	Abdul Rauf	Mehek, Athirakam UP School, Mundayad, Varam P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.11.2017	12314			
206953	Aysha Ansiya P.	P. Alavi	Puthupadan (House), Cherumannu, Edavanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	Kerala University	Kerala	05.08.2015	10903			
206954	Aysha Femin T.	Abdul Kareem T.	Theeram (House), Manipuram P.O., Koduvally (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.01.2018	12381			
206955	Aysha V.P.	Babu V.P.	Keyis, Priya Road, Tanur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	06.04.2016	11218			
206956	Ayshath Azra T.P.	Azeez T.	Dilisthan, Hidayath Nagar, Uliyathadukka P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2019	13220			
206957	Ayshath Rafeeda B.L.	Abdul Latheef B.M.	Vallyyod House, Melparamba, Kalanad P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	26.10.2015	10933			
206958	Ayshooru Rubeena T.	Thajudheen H.	H.M. House, Rose Garden Colony, Othungode, Thirunellayi, Nurani P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12197			
206959	Ayswarya	Ajayakumar G.	Nandanam, Chooracode P.O., Adoor, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2017	11681			
206960	Ayswarya G.	A.P. Gopakumar	Arunodhayam House, Palamel, Padanilam P.O., Nooranadu, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12579			
206961	Azeem T.K.	Thajudeen A.	Ambalayil, Maru-South, Alumkadavu P.O., Karunagappally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	19.08.2019	13298			
206962	Azizul Islam Khadim	Atikul Islam Khadim	C/o Asit Kumar Ge, Koushallya, Po-Kharagpur, Dist.-West Midnapore 721301	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32708			
206963	Babitha P.	Koran P.	Pulassery House, Kumaranellur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10834			
206964	Babitha Shareefa A.	Mohammed Kutty A.	Pallikkal House, Aripa P.O., Angadippuram (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.12.2018	12979			
206965	Badriyah Basheer	E. Mohammed Basheer	Thottathul Veedu, Kannanalloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12837			
206966	Bafeena N.C.	Veeran N.C.	Nanam Chirakkal (House), Kuruvannvayal, Kolathara P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12232			

206967	Bahja Nasla Valiyaparambath	Shihabudheen V.P.	M.M. House, Vadinnoor, Kuniyil Kizhuparamba P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	06.01.2018	12399			
206968	Baidya Ritu	Satyendra Nath Baidya	Vill+P.O.-Nischintapur, South 24 Parganas, PIN-743374	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32764			
206969	Baidya Sonali	Goutam Baidya	Vill-Sahajadapur Baidya Para, P.O.-Nimpith R.K. Ashram, Dist-South 24 Parganas, PIN-743338	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	26.12.2019	32788			
206970	Baishnob Samar	Rabindra Nath Baishnob	Vill+P.O.-Bagu, North 24 Parganas, PIN-700135	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32590			
206971	Baisoya Kunal	Sh. Shoraj Singh	243, Aliganj Kotla, Mubarakpur New Delhi-110003	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	18.12.2020	BHSD/5795			
206972	Bakshi Aditi	Kamal Bakshi	1/7145 Shivaji Park, Shahdara, Delhi-110032	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	13.01.2020	BHSD/5636			
206973	Balamkumar Majaw	Shri S. Khonglah	Sohkha, Model, West Jaintia Hills	BHMS	04.11.2021	The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Meghalaya	15.01.2021	500			
206974	Balanand K.S.	Sudesan K.K.	Kizhakkevelikkath (H), Cherai P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2017	11793			
206975	Balani Deepika	Sh. Sunder Lal Balani	G-13/11, FF, Malviya Nagar New Delhi-110017	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5658			
206976	Bali Saurabh	Sh. Rajesh Bali	GF, W1, Greater Kailash-1, New Delhi-110048	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	13.08.2020	BHSD/5693			
206977	Bandyopadhyay Monisha	Kali Sadhan Bandyopadhyay	Vill-Mahal, P.O.-Pandabeswar, Bardhaman, PIN-713346	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32740			
206978	Banerjee Laboni	Late Shekhar Banerjee	Najrul Palli, P.O.-Chinchuria, Dobrana, Dist-Paschim Bardhaman, PIN-713378	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32734			
206979	Banik Paulami	Jayanta Banik	38B Jannagar Road, Mahesh, Serampore, Hooghly, PIN-712202	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32690			
206980	Banrishisha Sutong	Shri D. Pajuh	Sutnga, Pohskul, East Jaintia Hills	BHMS	21.10.2020	Rajiv Gandhi University, Itanagar	Meghalaya	11.11.2020	492			
206981	Banu Istarin	Riajul Islam	Vill-Pauli, P.O.-Kherur, Dist-Murshidabad, PIN-742237	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32602			
206982	Banu Saba Nisat	Harun Al Rashid	Vill-Mandal Para, Uttar Chirail, Kaliyaganj, North Dinajpur, PIN-733129	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32594			
206983	Bareera K.M.	Mohammed Basheer K.M.	Kollamparambil House, Malapallipuram P.O., Plavinmury, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	11.07.2016	11343			

206984	Barh Ratnadip	Kamal Kishor Barh	Mahaprabhu Mandir Para, Town Padumbasam, P.O-Tamluk, Dist-Pubra Medinipur, PIN-721636	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32626				
206985	Barhan Muhammed P.P.	Muhammed Basheer P.P.	Paracheri Parambil House, Arambram, Padanilam P.O., Kunnamankalam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	01.09.2018	12776				
206986	Bari Tanha	Abdul Bari	Vill-Basudevapur, P.O-Chachanda, Dist-Murshidabad, PIN-742224	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32755				
206987	Barita Lyngdoh	Shri T. Wanniang	Pyndengrei, Nongstoin, West Khasi Hills	BHMS	14.05.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	07.07.2020	478				
206988	Basak Sneha	Snehendu Sekhar Basak	Duttapara, P.O-Mokdumpur, Dist-Malda, PIN-732103	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32632				
206989	Basheera A.	Ali A.	Alungal (H), Trippanachi P.O., Kuzhimanna Via, Distt.-Malappuram Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	23.11.2015	10960				
206990	Basheera Parveen V.	Mohammed Basheer V.	Shaji Cottege, Karuvanthiruthy, Feroke P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.10.2016	11523				
206991	Bashira P.E.	Nooruddeen P.E.	Basil Manzil, Thottasseriyara, Kannamangalam (W) P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka, Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.02.2019	13007				
206992	Basil Kurian Jose	Jose K.K.	Karikuzhiyil (H), Puthupadi P.O., Engapuzha, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13423				
206993	Basila Chennan Kulangara	Kunhi Mohammed Chennan Kulangara	Sakan Basila (H), Punnappala P.O., Kozhiparamb, Thruvali, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13412				
206994	Basima P.	Abdul Salam P.	Panthal (House), College Road, Mampad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	12.01.2018	12439				
206995	Basma M.M.	Muhammad Ali M.A.	Puthalath House, Kakkadampuram, A.R. Nagar P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.05.2015	10809				
206996	Basu Anamika	Adinath Basu	Vill-Kalinagar Dakshin Para, P.O+P.S-Diamond harbour, Dist - South 24 Parganas, PIN-743331	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32560				
206997	Basu Sanghati	Partha Sarathi Basu	Maheshitala, Bidhangarh, South 24 Parganas, PIN-700066	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.12.2019	32786				
206998	Basu Sayantan	Monotosh Kumar Basu	12/1, Chanditala Road, P.O-Purba Nischintapur, Dist-South 24 Parganas, PIN-700137	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32628				

206999	Bavitha P.B.	Bhaskaran P.K.	Puvath (H), Muthuvatoor, Chavakkad P.O., Distt.-Thirissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11542			
207000	Belinda Grace Ebenezer	S. Arul John Ebenezer	T.C. 11/940 (4), Akshaya Appartment, Nalanda, Nanthencode, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.02.2018	12468			
207001	Bella Maria Jose	Jose K.K.	Karikuzhyil House, Puthupadi P.O., Engapuzha, Puthupadi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.07.2017	12012			
207002	Benarji Nagiri Ashish	Nagiri Gnanananda Benarji	17-478/1, Cristian Colony, Sompeta (M), Srikakulam Distt. Andhra Pradesh-532284	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Andhra Pradesh	20.05.2019	8630/H/2019			
207003	Benazir P.S.	Shamsudheen P.K.	Pulimootil House, Kuzhivelipady, Edathala P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12560			
207004	Bendangyanger	Lt. Imna Ao	H.No- 56 Agri Colony 4th Mile Diphupar - A Dimapur Nagaland 797112	BHMS	2015	West Bengal University of Health Science	Nagaland	23.02.2018	102			
207005	Bera Shrijeeb	Sunil Kumar Bera	Vill Bhagwanpur, P.O-Manglamaro, Dist-East Midnapore, PIN-721434	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32660			
207006	Berly Babu	Babu Mathew	Kaniyam Kandathil House, Purapuzha P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13029			
207007	Berly Bernnabas	Bernnabas M.A.	Manakil House, Gothuruth P.O., Moothakunnam (Via), Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.05.2015	10811			
207008	Besra Prasanta	Sambhu Charan Besra	Patul, Polba, Hooghly, PIN-712102	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32504			
207009	Beulah E.	Ebezu N.	Thund Thutt Villa Veedu, Kakkavilla P.O., Pazhaya Uchakkada, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	12.01.2018	12442			
207010	Beyondestar Diengdoh	Shri T. Wanniang	Nongpyndeng, Nongstoin, West Khasi Hills	BHMS	30.05.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	16.09.2020	483			
207011	Bhagya B.A.	Biju G.	Gopi Sadanam, Pulinkudy, Mulloor P.O., Vizhinjam, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12555			
207012	Bhagyalakshmi K.	S. Gopalakrishna Pillai	Vechoor (H), Karumady P.O., Ambalapuzha, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11164			
207013	Bhagyarasmi T.K.	Vasu T.K.	Thuneer Kandi House, Ariyallur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2013	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	25.07.2016	11367			

207014	Bhagyashree	Naganath Yete	D/o. Naganath Yete, Umarga Road, Deshmuk Colony, Alandm Distt. Gulburga-585302	BHMS	2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Karnataka	25.06.2020	A-14229			
207015	Bhagyasree S.	P.G. Narayanankutty	Panampillil (House), Chundakuzhy P.O., Akanad, Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11956			
207016	Bhakat Ankita	Bablu Bhakat	Vill-Tantipara, P.O-Mangalbari, Dist-Malda , PIN-732142	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32633			
207017	Bhandari Keshvi	Sh. Raj Kumar Bhandari	A-100, 2nd Floor, Sudarshan Park, Near Moti Nagar, New Delhi-15	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5653			
207018	Bhardwaj Shatakshi	Sh. Mahesh Bhardwaj	House No. 37, Tegor Gali, Babarpur Shahdara, Delhi-110032	BHMS	2018	Delhi University	Delhi	31.07.2020	BHSD/5682			
207019	Bharti Nitika	Sh. Ravinder Kumar	House No. 220, KH. No. 322, Neb Sarai, New Delhi-110068	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5762			
207020	Bharti Poonam	Sh. Rajmani Kumar Bharti	B-191A, New Janki Puri, Gali No. 7 Near St. Michael School, Uttam Nagar New Delhi-110059	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	27.08.2020	BHSD/5708			
207021	Bharti Twinkle	Sh. Tilak Raj Bharti	3138, 2nd Floor, Gali Satgraha Arya pura, Sabzi Mandi, Delhi-110007	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5735			
207022	Bhatia Esha	Sh. Ramesh Bhatia	D-3, Krishna Nagar, Delhi-110051	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5722			
207023	Bhattacharya Soumilya	Tapas Bhattacharya	P-73 Rastraguru Avenue, Anurag Apartment, Nager Bazar, Kolkata-700028	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32761			
207024	Bhattacharyya Pujashree	Narendra Ch. Bhattacharyya	94, Rammohan Place, Konnagar, Hooghly, PIN-712235	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32604			
207025	Bhattacharyya Sudipta	Paritosh Bhattacharyya	3/12, Rabindra Nagar, Behala, Kolkata- 700060	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32687			
207026	Bhavya K.M.	K.Mohanan	Kurumdalimmal, Chokli P.O., Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	15.04.2016	11223			
207027	Bhavya Lakshmi V.S.	Sasidharan V.K.	Vellaparambil House, Pavaratty P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.05.2018	12495			
207028	Bhavya Sunny	Sunny	Malayil (House), Mankulam P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11989			
207029	Bhavyasree B.	Bhaskaran C.M.	Chittalakkottu Methal (H), Pantheerankave P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11200			
207030	Bhowmick Pamela	Swapan Kumar Bhowmick	A.T. Ghosh Road, Nandipara, Jagacha, Howrah-711112	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32699			

207031	Bhowmik Hrituparna	Rajendra Chandra Bhowmik	C/o Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01. P.O-Sainthiya, Dist-Birbhum 731234	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32449			
207032	Bhuin Arijita	Swapan Kumar Bhuin	Professor Colony, P.O-Kenduadiha, Dist-Bankura, PIN-722102	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32724			
207033	Bhukta Saradindu	Jayanta Bhukta	84/6, Nisith Sen Sarani, Baidyabati, Hooghly, PIN-712222	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	12.07.2019	32550			
207034	Bhunja Debasis	Dulal Bhunia	Vill+P.O-Rambag, Dist-Purba Medinipur, PIN-721628	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32606			
207035	Bhuvaneshwari R.	Rajachandrasekar	Sree Kudilam House, Pakkil P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2000	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.08.2019	13278			
207036	Biangdashisha Marbaniang	Shri B. Khyriem	Nongthymmai Raid Nongkynrih, East Khasi Hills	BHMS	12.05.2020	The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Meghalaya	21.10.2020	488			
207037	Bibin B. Babu	B. Babu	Pushpa Bhavan, Paraniyam, Poovar P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12183			
207038	Biji Antony	Antony	Poovakkulath (H), Kottiyoor P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11353			
207039	Bijimol N.B.	Babychan	Nadumkombil (House), Sreekanthamangalam, P.O., Athirampuzha, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11965			
207040	Bijina A.	Balakrishnan P.	Alanthattil House, Kundayam Kovval, Kankol P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	08.12.2017	12330			
207041	Bijita Mandal BG	Bankim Prasad Mandal	Ashish Govt. Hospital Road, Iritty P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13255			
207042	Billah Mehadi Arif	Abdul Mannan Mudi	Vill+P.O-Debalaya, Dist-North 24 Parganas, PIN-743424	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32584			
207043	Bimimol A.B.	A.N. Babu	Alambankuzhiyil (House), Irumpoozhikara, Udayanapuram P.O., Vaikom, Distt.-Kottam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.12.2017	12356			
207044	Binaya B.V.	N. Benjamin	Abinya Cottage, Alathottam, Parassala P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11034			
207045	Bincy A.Y.	Yesudas J.	Zion House, Karinkada, Chullimanoor P.O., Nedumangad, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2018	12455			
207046	Bincy K.	Sukumaran K.	Kunnekkatt (H), Pariyapuram P.O., Tanur Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10992			

207047	Bindhiya K. Benhur	Benhur K.V.	Kollanoor House, P.O., Palissery, Palakkal, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13420			
207048	Bindu Anil	K.Karunakaran	Lakshmi Govindam, Near Sathyan Arts Club, Annur P.O., Payyanur (Via), Distt.-Kannur, Kerala	DHMS	1996	Maharashtra Council of Homoeopathy, Mumbai	Kerala	28.11.2018	12957			
207049	Binduja Babu	Babu K.G.	Kooramalayil (H), Palalkuzha P.O., Koothattukulam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	14.12.2015	10978			
207050	Binduja S.I.	Sudhakaran G.	Binoj Bhavan, Kuzhiyamvila, Kidarakuzhy P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11664			
207051	Bineesh A.	S. Asokan	Manivilas, Erattachira, Pulimath P.O., Kilimanoor, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12179			
207052	Bini Ann Maria	Babu L.	Jesus Villa Kattil, Vayalil, Eravipuram P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13346			
207053	Binisha K.R.	T.K. Kunhiraman	Amrutha House, Karayad P.O., Meppayur (Via), Kozhikode, Kerala-673524	BHMS	2011	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.03.2019	9356			
207054	Binju Ann Punnoose	Punnoose Jacob	Kottuchalil Bijo Villa, YMCA Road, Shoranur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12810			
207055	Binju Susan Peter	Pathrose C.P.	Chemmalala (H), Vilangu P.O., Edathala Via, Oorakad, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	30.11.2016	11615			
207056	Binnath Urothodi	Veeran Kutty U.	Urothodi House, Valiyad, Kodur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.05.2015	10814			
207057	Binniya	E. Ummer	Ayilakandy House, Peruvannamuzhi P.O., Pillaperuvanna, Perambra, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12180			
207058	Binsi C.B.	Balan	Chola (H), Muduvana P.O., Payyoli (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.12.2016	11648			
207059	Binukrishna P. Menon	V.G. Peethambaran	Vadassery House, Thanissery P.O., Irinjalakuda, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13071			
207060	Binusha B.	Balan P.V.	Pothivayilil House, Narayana Nagar, Near New Bus Stand, Vatakara P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2018	12578			
207061	Binusha U.	Velayudhan Oothalakandi	Kalathingalseri House, Manhappatta P.O., Manjeri Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11093			
207062	Binzeena Basheer	Basheer T.K.	Thooppely House, Cheruvaloor P.O., Koratty, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11280			

207063	Bipin A. Pillai	Anilkumar M.S.	Bipin Nivas, Block No. 142, Kallar P.O., Thannimoodu, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2019	13297			
207064	Bipincy S.P.	G. Sudhakaran	Kannaravila Veedu, Kannaravila, Nellimoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.04.2017	11841			
207065	Bisini V.	Velayudhan K.M.	Sreenilayam (H), Rarandiyil, Chevayoor P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	14.12.2015	10976			
207066	Bismil John Jacob	Jacob John	Chemmanam (H), Mulavoor P.O., Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13269			
207067	Biswas Bitu	Bikash Biswas	Vill+P.O-Helencha Colony, Dist-North 24 Parganas, PIN-743270	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32779			
207068	Biswas Bitu	Bikash Biswas	Vill.-Helencha Colony, P.O.-Helencha Colony, P.S.-Bagdah, Distt.-North 24 Parganas, West Bengal-743270	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32779			
207069	Biswas Mouli	Suvro Pratim Biswas	Anandadeep Apartment, Flat No. F/3, H-Road, Anandapuri, Barrackpore, Opp-Pragati Sangha, Kolkata-700122	BHMS	Nov.-2019	Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune	West Bengal	13.02.2020	32796			
207070	Biswas Nishit	Nimai Chandra Biswas	Vill-Puratan Helencha, P.O-Helencha Colony, Dist-North 24 Parganas, PIN-743270	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32656			
207071	Biswas Payel	Late Kalidas Biswas	Garia, Middle Block 4th Lane, Nabagram, Rajpur Sonapur, P.O-Panchpota, PIN-700152	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32695			
207072	Biswas Puja	Dinesh Biswas	Pranta Pally, P.O+P.S-Gozole, Dist-Malda, PIN-732124	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32566			
207073	Biswas Santanu	Nishir Kumar Biswas	1 No. Beleswar, P.O+P.S-Falta, Dist-South 24 Parganas, PIN-743504	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32484			
207074	Biswas Subhash	Susanta Biswas	Vill-Parswanathpur, P.O-Gangsara Majhergram, Dist-Nadia, PIN-741238	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32564			
207075	Biswas Swarup	Sanjib Biswas	75, Ajoy Nagar South Dum Dum, Motijheel, North 24 Parganas, PIN-700074	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32685			
207076	Bittumol Benny	Patric Benny	Pulikathara House, Nellikuzhy P.O., Thrikkariyoor (Part), Kothamangalam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12751			
207077	Blessan Thomas	Thomas Mathew	Mulamoottil (H), No. 18/155, Near Maduranchery Kadavu, Vadavathoor P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11359			
207078	Blessy Chacko	Chacko P.P.	Pottanpuzha (House), Varambatta P.O., Pozhuthan (Via), Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	20.07.2018	12630			

207079	Blessy Varghese	Varghese M. Joseph	Maleparambil (House), Neelamperoor P.O., Kurichy, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12225			
207080	Bodhak Nilanjan	Nitai Charan Bodhak	Vill+P.O-Khalna, Dist-Howrah, PIN-711413	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32580			
207081	Bonny Rajan William	P. Rajan	Thottumkal (H), Peerumed P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.04.2017	11852			
207082	Bose Jogomaya	Samir Krishna Bose	14, Biren Roy Road (East), Kolkata-700008	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32701			
207083	Bose Pallob	Pradip Kumar Bose	Matripally, 54, C.R. Road, P.O-Natagarh, Sodepur, Dist-North 24 Parganas, PIN-700113	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32622			
207084	Bose Ritika	Tarun Kumar Bose	Baranilpur Uttarpara, Burdwan, Bardhaman, PIN-713103	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32680			
207085	Brighty T.S.	Simon T.A.	Thaikkadan House, R.S. Wadakkanchery P.O., Mangalam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12894			
207086	Brigit Cherian	Cheriyar	Chittinappilly House, Thuravoor P.O., Angamaly, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	05.10.2016	11514			
207087	Briji Antony	A.V. Antony	Kripa Jyothi Provincialate, Muvattupuzha P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	07.09.2015	10911			
207088	Bushra V.M.	Mohammed Ali	Valiyaparambil (House), Near G.L.R. School, Cheruthuruthy, Cheruthuruthy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.06.2018	12521			
207089	C. Chongma Chaba	H. Chongshen	Yali Village Tuensang Nagaland 798612	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	20.07.2020	130			
207090	C. Shahanas	Alavikutty C.	Marhaba Manzil, Iringalloor, Kottapparamb, Iringalloor P.O., Vengara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10897			
207091	C. Soma Sureshan	C.Sureshan	Devaki Nivas, Pallipoyil, Mowanchery P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12679			
207092	Camila Nazrine	Hamsa M.M.	Manalikudy House, Adimali, Adimali P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	08.10.2018	12880			
207093	Carmel Regeela Mainu T.T.	Thomas Michael T.A.	Thekkeveetil House, Kolarikkal Road, South Chittoor Ferry, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	02.07.2015	10866			
207094	Cerin Francis	M.O. Francis	Nirmala Provincial House, Erumathala P.O., Chunagamvely, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	07.09.2015	10910			

207095	Chaitra S.	Sugathan K.	Elluvila Veedu, Thazhuthala, Kottiyam P.O., Distt.- Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2017	11682			
207096	Chakraborty Palash	Pankaj Kumar Chakraborty	Vill+P.O-Kanpur, Const-Udaynarayanpur, Dist-Howrah, PIN-711410	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32514			
207097	Chakraborty Anindya	Chandan Chakraborty	Line No. 14, Room No. 319, Fortgloster "D" Block, Howrah-711310	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32477			
207098	Chakraborty Arpan Kumar	Anil Kumar Chakraborty	Vill-Mathura, P.O-Bodai, North 24 Parganas, PIN-700126	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32776			
207099	Chakraborty Arundhati	Asish Chakraborty	FR 5/4/A, Jyangra, South Math, P.O-Jyangra, North 24 Parganas, PIN-700059	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32706			
207100	Chakraborty Ayeshek	Partha Pratim Chakraborty	32, Shibapada Paul Pally, Ariadaha, North 24 Parganas, PIN-700057	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32603			
207101	Chakraborty Biswajyoti	Biswanath Chakraborty	2, Rafi Ahmed Kidwai Road, Dharmatala, Kolkata-700013	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32700			
207102	Chakraborty Doly	Subhash Kumar Chakraborty	GB-4, Binod Apartment, Rabindrapally, Jyangra, Baguiati, Kolkata-700059	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32684			
207103	Chakraborty Pranay	Thakurdas Chakraborty	12/G Haranchandra Banerjee Lane, P.O-Konnagar, Dist-Hooghly, PIN-712235	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32517			
207104	Chakraborty Rituparna	Soumitra Chakraborty	C/o. Amaresh Dutta, Ramchandrapur, Panihati, Sodepur, North 24 parganas, PIN-700110	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32730			
207105	Chakraborty Sm. Priyanka Chatterjee	Prangopal Chakraborty	L/3, Saratpally, Medinipur (W)-721101	BHMS	July-2008	University of Burdwan	West Bengal	30.05.2014	30620			
207106	Chakraborty Sourabh	Samir Kumar Chakraborty	Ward No. 11, Nandua, Raghunathpur, Puruliya, PIN-723133	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32600			
207107	Chakraborty Tanusree	Tapan Kumar Chakraborty	4/15, Jatin Das Nagar, Belgharia, North 24 Parganas, PIN-700056	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32624			
207108	Chakraorbty Priya	Samir Chakraborty	Khayramari, College Road, Bongaon, North 24 Parganas, PIN-743235	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32718			
207109	Chakravarthy S.G.S.	S.V. Satyanarayana Murthy	House No. 4A, DD Venture One Appartments, Near Tirunakkara Union Club, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2005	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Kerala	04.11.2019	13444			
207110	Chandana C.V.	M. Chandran	Kilikoodu, Vaidyasala Nagar-476, Asramam P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11638			
207111	Chandana K.	Rajesh K.	Navachandanam, Chirakkal P.O., Keeriyad-Puzhathil, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.10.2018	12923			

207112	Chandera Madiyan Sneha	Mangathil Ganesan	Gayahri, Bellikoth, Kanhangad, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.07.2017	11910			
207113	Chandini C.	Manikantan S.	Chandini, Plankala, Poovar P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12023			
207114	Chandini M.P.	Chandran K.M.	Chandrakantham, Ezhome, Ezhome P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11363			
207115	Chandini Raj S.N.	Rajan Kovummal	Mavatte (House), Payyoli P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12090			
207116	Chandni P.S.	Sugunan P.P.	Padinhare Purakkal House, Mannur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13042			
207117	Chandra Subhash	Shri Asharam Yadav	Mohalla-Bakerganj, P.O. & P.S.-Laheriasarai, Darbhanga	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	18.10.2019	33364			
207118	Chanu Likhuram Bidyarani	Laikhuram Ibotombi Meitei	C/o. Nabanita Kundu, Badanganj, ER Part, Dalalpara, Badanganj, Goghat, Hooghly-712122	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32705			
207119	Charu Chandran	P.S. Chandrasenan	Charulayam, Kootilikonam, Chaikottukonam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11592			
207120	Chatterjee Priash	Prabir Kr. Chatterjee	C-24, Brahmapur More, Kolkata-700096	BHMS	Mar.-2008	B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur	West Bengal	13.10.2015	30966			
207121	Chatterjee Soumi	Tapas Chatterjee	Vill-Chandinagar, P.O+ P.S- Haripal, Dist-Hooghly, PIN-712403	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32623			
207122	Chattopadhyay Swajan	Debabrata Chattopadhyay	Milanpally, Co-operative, Rajpur Sonarpur, South 24 Parganas, PIN-700150	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32505			
207123	Chaturvedi Megha	Sh. Ashok Chaturvedi	H.No. 142, First Floor New Lahore Colony, Gali No.5, Shastri Nagar Delhi-110031	BHMS	2017	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	31.12.2020	BHSD/5802			
207124	Chaudhary Juhi	Ashok Chaudhary	A-107, New Ashok Nagar Delhi-110096	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	27.08.2020	BHSD/5709			
207125	Chaudhary Saurabh	Dilawar Singh	Mithlesh Vihar Colony, Infront of Tagore Siksha Sadan Inter College, Asora Road, Hapur, Uttar Pradesh-245101	BHMS	2020	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	13.08.2020	H039122			
207126	Chauhan Smt. Indu	Anubhav Kumar Singh	H.No. 791/23 Rampuri, Muzaffarnagar	BHMS	14.09.2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	01.02.2018	H036828			
207127	Chawla Anmol	Sh. Rajesh Chawla	A-282, GF, Surajmal Vihar Delhi -110092	BHMS	2018	Punjab University Punjab	Delhi	10.02.2021	BHSD/5813			

207128	Chawla Navmidh Singh	Dr. Amarjit Singh	A-1/16, Panchsheel Enclave Ground Floor, New Delhi-17	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	21.08.2020	BHSD/5704			
207129	Chelsea Abraham	Abraham P.M.	623/B, Peruvil House, Chandni Nagar, Eranielam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2019	13216			
207130	Chhicholia Shefali	Sh. Ajit Pal Chhicholia	Plot No. 120, Ground Floor, Vipin Garden, Dwarka More, Uttam Nagar New Delhi-110059	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5742			
207131	Chinchu B.	C.Chandra Das	Bethel House, NRA-179, Kurandivila, Naruvamoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.09.2017	12189			
207132	Chindu Thomas A.	A.T. Thomas	Arakkapadan House, Near Udaya Provincial, Irinjilakuda, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12902			
207133	Chinju Paul	Jose P.M.	Paruthikarayil (House), Thenkara P.O., Cherumkulam, Mannarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12425			
207134	Chinku V. Rajan	V.G. Dharmarajan	Vettiyattil House, P.S. Road, Ollur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.05.2015	10813			
207135	Chinnu A.R.	Rajan Pillai	Vishnu Bhavan, Raloorkavu, Nagaroor P.O., Kilimanoor, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.08.2018	12760			
207136	Chinole Magh Rengma	Nhavu Magh	Rengma Colony Walford Dimapur Nagaland 797112	BHMS	2018	Srimanta Sankara Deva University of Health Science Guwahati Assam	Nagaland	19.09.2018	108			
207137	Chinthu P.S.	Sivadas	Punnakkatharayil House, Kazhuvilangu, Mathilakam P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10991			
207138	Chithra A.R.	Remavaran K.	Aramom, KRA C-8, H.S. Road, Karakulam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11130			
207139	Chithra V.S.	Vijayan K.	VS Bhavan, Uchakkada, Payattuville P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12058			
207140	Chithu V.	K. Ganesan	Vijaya Vilasam, 21/349 B, Vettiyara P.O., Kadampattukonam, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.01.2018	12464			
207141	Chitra	Sh. Naval Kishore	H.No. 17/656, Bank Enclave, Najafgarh Road, Distt. Jhajjar, Bahadurgarh, Haryana-124507	BHMS	27.11.2018	Bharati Vidyapeeth University, Pune	Haryana	27.11.2018	6423-A			
207142	Chore Kavita	Ramesh Chore	Mahaver Ganj Gali No. 2, Pipliya Mandi Mandsour Madhya Pradesh-458664	BHMS	2019	Janardan Rai Nagar Rajasthan Deemed University, Rajasthan	Madhya Pradesh	09.07.2019	24656			

207143	Choudhary Annu	Sh. Devendra Nager	E-95/6, Street No. 6, 3rd Pusta Jagjeet Nagar, Delhi-110053	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5718			
207144	Choudhary Bipin Kumar	Arjun Choudhary	New Taridih (Bhagalpur), P.O. & P.S.-Bodhgaya, Distt.-Gaya, Bihar-824231	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	14.10.2020	34014			
207145	Choudhary Rajdeep	Sh. Om Prakash Choudhary	Flat No. 301, B-3/10, Sai Baba Mandir Road, Shyam Vihar Phase-II, Dinpur Najafgarh, Delhi-110043	BHMS	2009	Janardhan Rai Ayurved Rajasthan University	Delhi	05.08.2020	BHSD/5688			
207146	Choudhary Shivani	Surender Kumar	B-99, Street No. 3, Gangavihar, New Delhi-110094	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	23.07.2019	BHSD/5568			
207147	Choudury Anjan	Late Amitaranjan Choudhury	Arabinda Pally, P.O+P.S-Suri, Dist-Birbhum, PIN-731101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32735			
207148	Chowdhury Debanjan	Debasish Chowdhury	417/3, Ashokenagar, P.O+P.S-Ashokenagar, Lelin Sarani, Dist-North 24 Parganas, PIN-743222	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32582			
207149	Chowdhury Rajesh Chandra	Suresh Chandra Chowdhury	37, Deshpriya School Road, Tarun Dal Park Nandan Kanan, P.O-Naba Pally, North 24 Parganas, PIN-700126	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	23.05.2019	32539			
207150	Chowdhury Shabnam	Moniruddin Chowdhury	Vill-Telur, P.O-Biur, Dist-Bankura, PIN-722205	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32475			
207151	Chowdhury Susmita	Sovon Chowdhury	178/A, Nibedita Pally, Raja Rammohan Ray Sarani, Baidyabati, Serampore, Hooghly, PIN-712222	BHMS	Sept.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	25.02.2020	32798			
207152	Chuvilu Rhimeh	Danyi Rhimeh	The Global Univ.P.O ARTC, Sodzulhou Village Dimapur Nagaland 797115	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	15.02.2020	126			
207153	Cinto Kanth	Suryakanth	Anugraha House, Karamakuzhi, Thirupuram P.O., Neyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.06.2019	13133			
207154	Cisna T. Surendran	Surendran T.K.	Kamal' (House), Bye-Pass Road, Thiruvannur Nada P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12873			
207155	Cristena Sara Chacko	Chacko Varghese	Koickeril House, Kurungazha P.O., Koipuram, Kurunghazhabhagam, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.07.2019	13198			
207156	Cristy Jose	Jose T. George	Thrikkannasseril (H), Muthalakodam P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13258			

207157	Cukku Ranjeev R.	Ranjeev P.K.	Uthratathi', Kayyam, Ariyil P.O., Taliparamba, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2016	11473			
207158	Dagar Manali	Sh. Satveer Singh Dagar	Flat no. 572, Pocket-8, Sector-8 Rohini, Delhi-110085	BHMS	2018	Dr. S.R. Rajasthan Ayurved University Jodhpur	Delhi	22.10.2020	BHSD/5787			
207159	Daliya E.	Balakrishnan	Edakkandiyiel (House), Kariyad South P.O., Mukkalikkara, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12068			
207160	Dana Soumen	Bhakta Ram Dana	Vill+P.O-Nirol Nirol, Barddhaman, PIN-713140	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32710			
207161	Dani C.	Sundaran C.	Cheenothingal, Munderi P.O., Munderi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.04.2019	13098			
207162	Danish Ali P.K.	Abdul Azeez P.K.	Dadu's House, Edasheeri Kadavu, Cheekode P.O., Edavannappara Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11285			
207163	Daniya Shaji	Shaji K.J.	Koyikkal (House), Edakara P.O., Kalasagar, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12676			
207164	Daniya Umar P.	Umar P.	Parokot (H), Kariavattom, Mannarmala P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.03.2017	11821			
207165	Daphnecia Pariat	Shri P. Diengdoh	Ladhadlaboh, Jowai, West Jaintia Hills	BHMS	21.10.2020	Rajiv Gandhi University, Itanagar	Meghalaya	28.11.2020	489			
207166	Darsana Dev A.P.	Pushpangithan C.	Dev Nivas, Mullaravila, Perumpazhuthoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11918			
207167	Darsana M.S.	Sugunakumar S.	Sreerudhra Bhavan, Near PHC, NH 17, Cheranalloor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	22.10.2018	12919			
207168	Das Abhisek	Parimal Kanti Das	Kakdwip, South 24 Pargana, Rathtala, Purba Ganeshpur, PIN-743347	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32511			
207169	Das Aloke Ranjan	Late. Sh. Ashu Deb Das	935/A, Farid Puri, West Patel Nagar, New Delhi-110008	DMS	1970	Council of Homoeopathy West Bengal	Delhi	28.09.2020	BHSD/5784			
207170	Das Anirban	Arup Kumar Das	3/D, Sastitala Lane, Rishra, Dist-Hooghly, PIN-712248	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32561			
207171	Das Arijit	Nirmal Chandra Das	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32518			
207172	Das Asha	Late Dilu Das	62, Bipin Ganguly Road, Moyra Bagan, Ghughudanga, PIN-700030	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32691			
207173	Das Debobrita	Kamalendu Das	Vill-Raghnathpur, P.O+Dist-Jhargram, PIN-721507	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32497			
207174	Das Joy Deb Prasanna	Krishna Chandra Das	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	14.08.2019	32552			

207175	Das Kausik	Sisir Das	Vill+P.O-Hirapur, Dist-Howrah, PIN-711310	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32715			
207176	Das Krishna Gopal	Sujit Kumar Das	E-18/4, Milon Pally, Kururia Danga, P.O-Amrai, Durgapur, Dist-Bardhaman, PIN-713203	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32519			
207177	Das Nibedita	Nityananda Das	Vill+P.O-Biswarambha (Chanpatala), Dist-Burdwan, PIN-713513	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32520			
207178	Das Palash	Gobinda Chandra Das	Vill-Jatadharpur, P.O-Kalara, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721146	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32483			
207179	Das Poulami	Late Netai Chandra Das	100/H/15 Suren Sarkar Road, Kolkata-700010	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	13.05.2019	32535			
207180	Das Puja	Gopi Lal Das	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32732			
207181	Das Raju	Manoj Das	Vill+P.O. Rangabelia, Dist-South 24 Parganas, PIN-743370	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32468			
207182	Das Shawoli	Sanjoy Das	C/o. Anirban Ash, Jagadishpur Road, domjur, Howrah, PIN-711405	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32663			
207183	Das Somnath	Late Pradipta Kumar Das	Vill-Kamarda, P.O. Kamarda Bazar, Dist-Purba Medinipur, PIN-721432	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32474			
207184	Das Sonali	Subhash Das	Vill-Uttarbrahamapur,P.O-Nimtala Bazar, Dist-Nadia, PIN-741257	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32506			
207185	Das Sourita	Tarak Nath Das	Shasthitala Lane, Kalitala, P.O-Malda, PIN-732101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32559			
207186	Das Srirupa	Late Dr. Swapan Kumar Das	10/1B, Indra Roy Road, Bhowanipore, Kolkata-700025	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32589			
207187	Das Subhojit	Narayan Chandra Das	G-49 Schobee Street, Bidhan-nagar, Durgapur-12, Dist-Burdwan, PIN-713212	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32510			
207188	Das Surajit	Ranjit Ch. Das	Bhairav Apartment, Flat No. 403, 60ft By Pass, Ismile, Sastinagar, Shatabdi Nagar, B.I.B.A.DI Polly, Hirapur, Paschim Burdwan-713301	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32440			
207189	Das Tanima	Sanat Kumar Das	Vill+P.O-Gopalnagar, Dist-Purba Medinipur, PIN-721130	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32733			
207190	Das Tanushree	Keshab Chandra Das	Adhikari Para (Purba Para) Ward No. 6, P.O+P.S-Mekhliganj, Dist-Cooch Behar, PIN-735304	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32556			

207191	Das Vashnavi	Late Manash Das	Nijgan, Pukhuria, Malda, PIN-732204	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	13.05.2019	32533			
207192	Dasmondal Soma	Arobinda Dasmondal	Vill-Jangalpara, P.O-Jangalpara Bazar, Dist-Hooghly, PIN-712701	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32722			
207193	Dastalukdar Nantu	Nikhil Das Talukdar	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32528			
207194	Datta Arindam	Uttam Kr. Datta	Bhairav Apartment, Flat No. 403, 60ft By Pass, Ismile, Sastinagar, Shatabdi Nagar, BLBA,DI Polly, Hirapur, Paschim Burdwan-713301	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32442			
207195	Dawn Suman	Ujjwal Dawn	Vill-Chaitanyapur, P.O. - Mathrun, Dist-Purba Burdwan, PIN-713143	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32459			
207196	De Shubhamay	Sankar De	Vill-Rajhati, P.O-Rajhati Bandar, Dist-Hooghly, PIN-712417	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32460			
207197	De Sourav	Balai De	Vill-Kagli, P.O-Bakhrabad, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721424	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.12.2019	32787			
207198	Deb Anuruddha	Biplab Deb	245 Birendra Kumar Dutta Lane, Ukilpara, Raiganj, Uttar Dinajpur, PIN-733134	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32689			
207199	Deb Piyali	Parimal Chandra Deb	C/o. Sima Dutta,81, Ramchandrapur Road, Panihati, 23, Khardah, North 24 Parganas, PIN-743178	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32767			
207200	Debbarma Bulti	Late Dilip Debbarma	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32452			
207201	Debbarma Susmita	Anta Mani Debbarma	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32451			
207202	Debnath Dipanwita	Dipak Kumar Debnath	C/o. Goutam Goswamy, 46-A, Arunachal (Purba), Khardah, Sodpur, Kolkata-700110	BHMS	May-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.06.2019	32548			
207203	Debnath Ishita	Shyam Prasad Debnath	1492, Shree Pally Palta, North Barrackpur, P.O-Bengal Enamel, North 24 Parganas, PIN-743122	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32696			
207204	Debnath Nabanita	Jyotirmoy Debnath	C/o. Juthika Molla, Ghoshpur Kolia, Nabagram, Sikipur, Howrah-711315	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32617			
207205	Debnath Nilanjana	Nani Gopal Debnath	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32498			
207206	Debnath Nilima	Narayan Chandra Debnath	C/o. Sujit Majumdar, 49, Swami Barga Road, 23 Khardaha, North 24 Parganas, PIN-700110	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32727			

207207	Debnath Tapas	Tarani Debnath	Bhairav Appartment, Flat No. 403, 60ft By Pass, Ismile, Sastinagar, Shatabdi Nagar, BL.BA.DI Polly, Hirapur, Paschim Burdwan-713301	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32441				
207208	Debroy Dipannita	Subrata Debroy	C/o. Asoke Kumar Baroi, 39A, Arunachal (East), Sodpur, Kolkata-700110	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32669				
207209	Deena Davis C.	Davis C.A.	Assisi Provincial House, Thrissur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2016	11471				
207210	Deepa M.	Padmanabhan P.	Kolathayil House, Pantheerankavu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.12.2017	12357				
207211	Deepa P.P.	Paithal P.P.	Padiparamb (House), Chulliode P.O., Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	09.11.2017	12294				
207212	Deepa Ramanath	T.R. Ramanathan	Lakshmi (House), Valluvally, Koonammavu P.O., North, Paravur, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.12.2016	11667				
207213	Deepa S.	Subash K.R.	Edayadiyil (House), Muriyad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12797				
207214	Deepa V.V.	Vijayaprasad V.G.	Vazhappilli' (H), Kappil P.O., Pottalungal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11089				
207215	Deepak K.P.	K. Chandran	Kunnummal Puthiya House, Karamel, Vellur P.O., Payyannur, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.10.2018	12918				
207216	Deepana Raja Vadivu G.	N. Ganapathy	Mayookham, Varanad P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2008	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13422				
207217	Deepika Lal	S.R. Lal Rajan	Rajee Mandiram, Veliyam P.O., Kottarakara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11090				
207218	Deepika P.N.	Prabhakaran K.	Mahesh Bhavan, Thottathil Potta Veedu, Kanchampazhinji P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.11.2017	12312				
207219	Deepika S. Mohan	N. Mohanan	Kundarayayalil, Mundrothuruthu, Pattanthuruthu P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.01.2018	12402				
207220	Deepthi C.	Divakaran K.	Chammur House, Kecheri Via, Chemmanhatta P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.07.2017	12045				
207221	Deepthi C.T.	Chandran C.T.	Cherukattu Thody House, Kappil P.O., Wandoor Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.02.2017	11755				
207222	Deepthi Fernandez W.	P. William Fernandez	T.C. 34/565, Jovin Land, Kannanthura, Beach P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2013	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11518				

207223	Deepthi K.V.	Unni Krishnan K.V.	Pookkate House, Nadukkavungal, Chemrakkattur P.O., Areacode (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13062			
207224	Deepthi M.K.	Kumaran M.	Manammal (House), Ariyallur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12743			
207225	Deepthi N.P.	Kumaran T.P.	Nadupparambil (House), Balussery P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	12.01.2018	12444			
207226	Deepthi Nandanam	K.V. Nandanam	Pournami, House No. Vrera 11, Vattakkattu Road East, Kaloore, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	02.07.2015	10863			
207227	Deepthi P.	Raghavan P.	Pranassery (House), Cheruvayoor P.O., Vazhakad (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.06.2018	12571			
207228	Deepthy R.K.	G. Radakrishnan	Deepak, Thirupuram P.O., Thirupuram, Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11138			
207229	Deny George	George Devasia	S.H. Provincial House, Rajamudy P.O., Murickasserry, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12906			
207230	Devendu C.V.	Vinayakumar C.	Shri Rangam, Oruma-63, Aralumoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.09.2018	12770			
207231	Devi G. Rathi	N.R. Govintha Raju	No. 3/3, K.P.G. Nagar, Sultur Coimbatore, Tamilnadu-641402	BHMS	2009	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	29.06.2009	3092			
207232	Devi Krishna	G.R. Krishna Kumar	Srivilas, Thekkevila P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11171			
207233	Devi Mahesh S.	K. Mahesan	Devi Mandiram, Punnappa P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12087			
207234	Devi P.M.	Muralidharan P.S.	Pararath (H), Methala P.O., Erisserypalam, Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.05.2017	11871			
207235	Devi Soram Amita	Soram Upendro Singh	C/o Arobinda Sarkar, Pukur Para, Kundola, Birbhum 731234	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32448			
207236	Devika Babu	P.M. Babu	Speciality Homoeopathic Clinic, City Bazar, Adimali P.O., Adimali, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2017	11676			
207237	Devika M.	Manoj M.	Avanthika, Kalpathur P.O., Meppayur, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2016	11469			
207238	Devika V. Menon	V.K. Vijayakumar	Srisailam, Manjakadu Road, Narakkal, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13416			

207239	Dewan Deepshikha	Bimal Kanti Dewan	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01. P.O. Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32729			
207240	Dey Akhilesh	Ganesh Dey	Vill-Raghubati, P.O-Brahmanpara, Dist-Hooghly, PIN-712405	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32489			
207241	Dey Nandita	Narayan Chandra Dey	4, Kazi Najrul Islam Sarani, North Dum Dum, Nimata, Dist-North 24 Parganas, PIN-700049	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32673			
207242	Dey Rudrakshi	Sudhangshu Dey	C/o. Sujit Majumdar, 49, Swami Barga Road, 23 Khardaha, North 24 Parganas, PIN-700110	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32728			
207243	Dey Sagar	Salil Kumar Dey	Vill-Muralibar, P.O+P.S-Bagnan, Dist-Howrah, PIN-711303	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32713			
207244	Dey Subhankar	Gopal Chanda Dey	A/12, Baghajatin Pally, P.O-Regent Estate, Kolkata-700092	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32625			
207245	Dey Tarachand Paramita	Sudarsan Biswas	C/o. Sudarsan Biswa, Flat No. J4, 2nd Floor, Block-B, Jeet Omega, 2153, Mukundapur, Milan Park, South 24 Parganas, PIN-700099	BHMS	Feb-2011	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	West Bengal	06.06.2019	32544			
207246	Dhanalekshmi P.	Muraleedharan M.	Lekshmi Vihar, Kunnathoor East P.O., Kunnathoor, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11654			
207247	Dhanasree M.B.	P. Mohan	Mundantakadayil Veedu, Neeravil, Perinad P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.03.2016	11159			
207248	Dhanasree Vettathu	Rajan V.K.	Vettathu House, Kolenchery P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The West Bengal University of Health Sciences	Kerala	04.12.2018	12969			
207249	Dhanesh Chandran	V. Chandra Babu	Lekshmi Vilasom, Porunthamon, Pulimath P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11734			
207250	Dhannya Francis	Francis Puthukara Varappan	Puthukkara House, Peramangalam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12024			
207251	Dhanya A.P.	Sukumaran A.P.	Areari Parambil (H), Vettom-Paddiyam P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11533			
207252	Dhanya K.	P. Kochu Govindan	16/400, Panickarkalam, Nattukal (Via), Athicode P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11742			
207253	Dhanya K.	Unnikrishnan K.	Dhanya Bhavan, Chembanthitta, Karimba P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	24.10.2017	12282			
207254	Dhanya N. Rajan	Natarajan R.	Puthu Veettu Vilakathu Puthen Veedu, Karumanoor, Parassala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.11.2019	13447			

207255	Dhanya S.S.	G. Selvaraj	S.S. Bhavan, Paruthivila, Ayira P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2017	11683			
207256	Dhanya Sudhakaran	R. Sudhakaran	Chitra Bhavan, Vencode, Cheriakolla P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13424			
207257	Dhawan Tanya	Sh. Surinder Dhawan	90/-6B, GF, Malviya Nagar, New Delhi-110017	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5758			
207258	Dhekware Devaki	Gulchand Dhekware	At. Near Pri Health Center Singola, P.O. Miriya, Teh.-Lanji, Dist.-Balaghat, Madhya Pradesh-481224	BHMS	2019	Rani Durgavati University, Jabalpur	Madhya Pradesh	03.03.2020	25340			
207259	Dhilna Abdulla T.	Abdulla T.	Thadayil House, Pullavoor, R.E.C P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.10.2016	11545			
207260	Dhilruba Abbas	P.M. Abbas	Padinhakkara House, Perumpilavu P.O., Karikkad (Via), Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.10.2017	12267			
207261	Dhini Sudheer K.	Sudheer K.N.	Kalathil House, Palayoor, Chavakkad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.11.2016	11578			
207262	Dhivya R.	Ramaswamy K.	Dhanush Nivas, Chittur Kavu, Chittu P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.10.2017	12270			
207263	Dhrisya R.	Rohith P.K.	Kripa, ITI Colony, Karingarapully P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12703			
207264	Dhrisya Sivadasan	Sivadasan	Priyankari (House), Edakkulam P.O., Koyilandy (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2018	12601			
207265	Dhyani Shambhvi	Sh. Manoj Kumar Dhyani	H. No. B-81, Street No. 10, Khajoori Khas, Colony, Delhi-110094	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	11.08.2020	BHSD/5691			
207266	Diboimi Lyngdoh	Shri H. Suting	Sohkymphor, East Jaintia Hills	BHMS	03.01.2021	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	25.03.2021	511			
207267	Difla K.	Mohammed K.	Karakkadan House, Valluvangad South, Pandikkad, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10859			
207268	Digimol Virony T.D.	T.D. Devassy	Thannikkappilly (House), Mother Theresa Lane, K.P. Vallon Road, Kadavanthra, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11998			
207269	Dilna D.S.	Davadas	D.S. House, Kattarath Thazhakkuni, Vaikkilassery P.O., Vatakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.12.2017	12338			

207270	Dilna K.P.	Ravindran P.	Kizhakke Puthalath (H), Makkada P.O., Kakkodi Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11199			
207271	Dilna P.K.	Krishnan	Arimeethal, Memunda P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2017	11792			
207272	Dilraj M.	K. Ramachandran	Dwaraka (House), Vellanoor, Choolur P.O., NIT (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12740			
207273	Dilruba Abdul Salam	T.M. Abdul Salam	Thachodi (House), Thundiparambil, P.J. Antony Road, Pachalam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.08.2018	12723			
207274	Dilsha K.	Damodaran K.	Kottarathil Kuttippallyalil (House), Pulikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.10.2018	12867			
207275	Dilshad Ali K.	Muhammed Ali K.	Kombath House, Kombam, Kodakkad P.O., Manmarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.08.2017	12117			
207276	Dinu S.	M. Sateesh	K.M.P. House, Near High School Junction, Varkala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11983			
207277	Dipti Narayan	Lalit Narayan	Vill. & Post-Mandir Tala, Bejbabur Gheri, Via-Rudra Nagar, Sagar Island, 24 Parganas South, West Bengal-743373	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32454			
207278	Disha	Sh. V. K. Malhotra	176, Rajouri Apartments Rajouri Garden, New Delhi-110064	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	18.08.2020	BHSD/5701			
207279	Diviya Krishna Nair P.	E.N. Unnikrishna Nair	Pattathil House, Puthuval Road, Pallippuram P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11476			
207280	Divya Babu	Babu	Kooremkunnel House, Uppada P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12096			
207281	Divya Babu	T.R. Babu	Thekkekavanattu, Mariathuruthu P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13070			
207282	Divya J.B.	Jaya Kumaran Thampi	Geethanjali, Ambakudi Veedu, Kodankara, Mariyapuram, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13086			
207283	Divya K.	Surendran Vydiar K.	Karuparambil (H), K. Puram P.O., Moolakkal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11538			
207284	Divya K.	Unnikrishnan K.	Kalenmaril (House), Valiyakunnu P.O., Valanchery (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.11.2018	12934			
207285	Divya K.G.	S. Gopalakrishnan	Gopalakam, Edavattom, Vellimon P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10793			

207286	Divya Pushparaj	Pushparaj K.	Pattila Muriyil House, Evoor South, Keerikad P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.12.2019	13478			
207287	Divya Rajan	Rajan T.N.	Thanikunnil House, Kuruvilassery P.O., Mala, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	06.03.2017	11776			
207288	Divya Soman	Soman Pillai K.	Amar Deepam, Prayar (North), Prayar P.O., Oachira, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	15.02.2018	12473			
207289	Divya Sreenath	K. Sreenath	Sreenilayam House, Kavumpady, Muvattupuzha P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	22.03.2019	13068			
207290	Divyasree K.V.	Divakaran K.V.	Sabari Nivas, Koyyamarakkadu, Opposite Nida Garden, Kanjikkode P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.04.2018	12485			
207291	Diwakar Urvashi	Sh. P.R. Diwakar	DDA Flats, Flat No.82D, Pocket-2 Sector-6, Dwarka New Delhi-110075	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	10.02.2021	BHSD/5811			
207292	Diya Gopi	Govindan K.V.	Kannampilly House, Kinfra P.O., Koratty, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12410			
207293	Diya Sebastian	Sebastian Joseph	Thevarkunnil House, Ramapuram Bazar P.O., Vellilappally, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10900			
207294	Donna J. Aikara	A.M. Johny	Aikara House, Thidanad P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13413			
207295	Drisy L. Jo	Jose Raj M.	T.C. 19/402-2, Dhilljo, Vattavila, Thirumala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12148			
207296	Drisy V.	G. Babu	Palavila Veedu, Yeroor P.O., Yeroor, Anchal, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.10.2017	12259			
207297	Dutta Sudeshna	Ashim Kr. Dutta	Kalyan Gram-2, P.O.-Hindusthan Cabals, Dist-West Burdwan, PIN-713335	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32693			
207298	Dutta Sudipta	Sunil Kumar Dutta	Dharmaraj Tala, P.O.+P.S.-Sainthia, Dist-Birbhum, PIN-731234	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32636			
207299	Easther Livi Shohe	Hewoto Shohe	H.No 46/B 4th Mile Diphupar Dimapur Nagaland 797112	BHMS	2017	Srimanta Sankara Deva University of Health Science Guwahati Assam	Nagaland	25.09.2018	109			
207300	Easwari T.K.	B. Thanka Nadar	Kamala Bhavan, Arayoor, Arayoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12395			
207301	Eby Sen	Sebastian P.M.	Pulickakunnil House, Ozhukur P.O., Morayur, Mongam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11993			
207302	Elby Eldhose	P.P.Eldhose	Palackappillil (H), Senapathy P.O., Senapathy, Distt.-Idukki Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.07.2015	10874			

207303	Eldho Paul	Paulose A.V.	Alungapadavil (House), Chemmanadu (Kara), Varikoli P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11102			
207304	Eldho Paul	Paulose	Pootheth (House), Vadayampady P.O., Malecruz, Aikaranad South, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12535			
207305	Elia Steffy	Shaji George	Panakkaparambil, Palliport P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12407			
207306	Elizabeth Abraham	Abraham K.V.	Kuzhivellipurath (House), Thevakkal, V.K.C. P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.09.2018	12772			
207307	Elizabeth Nissy Justin	S. Justin	Sebastian Cottage, Kalluvilayil House, Tripunithura, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	21.07.2017	12033			
207308	Elsa Anie Mathew	V.I. Mathew	Vattathichirayil (H), Kuzhimattom P.O., Panachikkad, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.04.2016	11233			
207309	Emeliya Michel	Thomas Michel	Thayil House, Mangod, Kottamala P.O. Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	29.07.2017	12054			
207310	Emidakashwa Ryngkhlem	Shri R. Gurung	Mihmyntdu, Lumpyrtuh, Jowai, West Jaintia Hills	BHMS	04.01.2021	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	18.02.2021	505			
207311	Eswary M.S.	Achuthan Pillai P.J.	Madakkavil Veedu, Poovattoor West, Mavady P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11134			
207312	Fabitha P.P.	Latheef P.P.	Puthan Peedikakkal House, Chirayil P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.11.2017	12305			
207313	Fabna M.	Veerankutty M.	Keedakkat House, Calicut Airport P.O., Kondotty, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.10.2018	12860			
207314	Faby A.	Ashrafali K.M.	Kottyl House, Kannambra P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.02.2018	12471			
207315	Fadiya Ali C.	Mohammed Aliyar C.	Chittethukudy House, Payyanad P.O., Kuttippara, Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13023			
207316	Faeza C.K.	Abamed C.K.	Anappilakkal House, Pullancheri, Kuzhimanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	06.05.2016	11268			
207317	Faheema P.	Mohamed Abdul Azeed P.	'Grace', KMH Road, Tirurangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	10.12.2015	10967			
207318	Fahima N.	Moiduty N.	Hill View, Kunnakkavu P.O., Cherukara (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.06.2018	12561			

207319	Fahisa K.	Moideenkutty	Kodangilakath House, East Ottapalam, Ottapalam, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.01.2019	12989				
207320	Fahmeeda Jahan P.	Abdussamad P.	Karippala House, East Veliyathunad, West Veliyathunad P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12590				
207321	Fahmi Backer	Aboobacker	Chundayil (H), Kottappalli P.O., Villiappalli Via, Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.03.2016	11192				
207322	Faiyaz Md.	Md. Musa	8/2/70 Aurabinda Sarani (East Kamalapur), P.O-Dum Dum, Kolkata-700028	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32709				
207323	Faiza P.S.	P.B. Shaul Hameed	Pullath Parambil (H), Azka Bhavan, U.C. Collage P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	28.07.2015	10888				
207324	Faiza Shahnaz	Gulam Md. Mustafa	Moh.-Sadpura, Near Jama Masjid, P.O.-Ramna, P.S.-Kazi Mohammadpur, Dist.-Muzaffarpur, Bihar-842002	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33708				
207325	Famitha K.M.	K.M. Muhammed Kassim	Kalakkattuparambil House, Kanjani P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11526				
207326	Fansha V.	Abdul Nazar V.	Moothedatha Paramba (House), Kavanur P.O., Kavanur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12711				
207327	Fareed Ahmed K.	M. Kamal Batcha	6-3-68/1, Indira Nagar, Uthamapalayam (P.O.)(Tk), Theni (Dt.), Tamilnadu-625533	BHMS	2019	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	23.05.2019	6280				
207328	Fareedha K.V.	Abdulla M.P.	Madeeha's, Narath P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	11.07.2016	11348				
207329	Farha Habeebulla	P.A. Habeebulla	Poovathil House, V.P. Marakkar Road, Edappally Toll Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12586				
207330	Farha M.H.	Sayed Anwar Munaffar	Ilham, Beach Road, Koyilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11075				
207331	Farhana Kamal M.	Mohammed T.M.	Ahmadiyya Muslim Jama-Ath, Pullupalam Road, Fort Kochi P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.02.2017	11758				
207332	Farheen Gulafshan	Md. Ratat Perwez Ansari	Neamatpur, Rahmanpara, P.O-Sitarampur, Dist- Paschim Burdwan 713301	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32444				
207333	Farhin Naheed	A.F.M. Samsuddoha	Kankhuli Mondal Para, Maheshtala, Bidhangarh, South 24 Parganas, PIN-700066	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32754				
207334	Farsana C.V.	Mohammed C.V.	Chelathu Valappil House, Kololamba P.O., Edappal Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2016	11157				
207335	Farsana Fathima P.	Abdulla P.	Baith-Al-Abdulla, Mannarayil Parambu, G.A. College P.O., Parakkal, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	27.08.2016	11444				

207336	Farsana M.K.	Abdul Latheef M.K.	Pattathodi (House), Kolathur P.O., Chandappadi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.05.2018	12499			
207337	Farsana P.A.	Aboobecker	Ponneth (House), Munda P.O., Palathingal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12895			
207338	Farsana V.K.	Muhammed Kabeer V.K.	Kolayil Poil House, Kodyathoor P.O., Mukkam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.03.2019	13085			
207339	Farsanath Koyissan	Sadiq Ali K.	Koyissan (House), Edakkaparamba, Kannamangalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.06.2017	11903			
207340	Farzana Mohamed N.M.	Mohamed Kunhi N.M.	Devadiyal Paramb House, Thenhipalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	27.09.2017	12256			
207341	Farzana Shirin K.I.	K.V. Ibrahim Kutty	Vellakutty (H), Souhrudha Nagar, Kaiparambu P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13341			
207342	Fasalul Farisa P.K.	Beerankutty P.K.	Pattar Kadaven (H), Valiyora P.O., Vengara Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	11.05.2016	11271			
207343	Faseela P.T.	Haris P.T.	P.T.S. House, Chemmalasseri P.O., Pulamanthole Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11165			
207344	Fasla P.	Alavi P.K.	Pavukunnath (H), Pavukkonam P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11079			
207345	Fasna K.	Mohammed K.	Kolkattil House, Karulai P.O., Nilambur Road, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.09.2017	12248			
207346	Fathim Nesla T.N.	T.S. Abdul Nazar	Thanikkappilly (H), Eramam, Muppathadom P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11465			
207347	Fathima Abdulla A.P.V.	Abdulla Haji P.A.P.	A.P.V. House, Near Olapalli, Madayi P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.12.2018	12987			
207348	Fathima Farhath P.	Alikutty Haji K.	N.V. Muhabath (H), Kadalundi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	24.05.2016	11274			
207349	Fathima Hameeda K.K.	Abdul Shukoor Karian Kattukavil	Kariyangattukavil (House), Thozhuvanur P.O., Valanchery, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12220			
207350	Fathima I.P.	Hussain I.P.	Ittikaparambil (H), Kaimalassery, Thriprangodu P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11002			
207351	Fathima Jannath Sherin C.H.	Abdul Gafoor C.H.	Chelangadan House, Anakayam P.O., Muttippalam, V.T. Padi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12684			
207352	Fathima Jumana K.	Hamza K.	Kozhikkal House, Tirurangadi P.O., Palliparambu, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.05.2017	11880			

207353	Fathima K.P.	Marakkar K.P.	Koolippilakkal, Kurumthodika (H), Moonniyur P.O., Parakkadavu, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11493			
207354	Fathima Najma Beevi P.M.	Sayyid Muhlar Shihabudheen	Puthiya Malyekkal (House), Vettichira, Punnathala P.O., Valanchery (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	13.07.2017	11979			
207355	Fathima Nazrin C.N.	Naziruddin C.K.	Cholan (H), Cheruvaloor P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2019	13303			
207356	Fathima Nusrath Kuriyedath	Abdulla K.	Kuriyodath House, Ponnundam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13051			
207357	Fathima P. Ahamed Hussain	P. Ahamed Hussain	Khamer', Near Otten English School, Wandoor, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.12.2017	12339			
207358	Fathima P.K.	Nizar A.P.	Baithul Noor, Kadambur, Edakkad P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.11.2017	12299			
207359	Fathima P.M.	Ibrahim Kutty P.M.	Machingal House, Munduparamba P.O., Kattungal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.02.2016	11124			
207360	Fathima Roshni	Ashraf N.	Lavanya House, Puthiya Road, Kadavanthara, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.11.2016	11582			
207361	Fathima S.M.	Shaheer	Fousiya Manzil, Azhicode P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.04.2016	11228			
207362	Fathima Sabnam S.	Shahul Hameed A.	Palliparambil House, Vettekkara P.O., Katampazhipuram, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.11.2018	12928			
207363	Fathima Shamna P.T.	Moosa P.T.	Pulliyanthodi House, Valapuram P.O., Pulamanthole (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12056			
207364	Fathima Shifana K.	Shamsudheen K.	Karuvadana (House), Pulissery, Vaniyambalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12055			
207365	Fathima Sugra P.	Veeran Kutty P.	TP Manzil, Poovanchina, Randathani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	24.07.2017	12037			
207366	Fathima Thahir	Thahir P.	Mariyam House, Avanavanchery P.O., Attingal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11453			
207367	Fathima Thesnim C.	Kunhikoya C.	Chelappurath (H), Velimukku South P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	10.12.2015	10964			
207368	Fathimath Abida A.	B. Abdulrahiman	Ajiladka House, Perla P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.01.2016	11049			
207369	Fathimath Nidasha P.T.	Mohamed Haneefa	Pallippatt Thoomban (House), Thalakkadathur P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	15.03.2018	12480			

207370	Fathimath Rameesa M.	Kunhimohammed M.	Meledath House, Karuvarakundu P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	07.03.2017	11778			
207371	Fathimath Shameema P.	Moideenkutty Patterkadavan	Patterkadavan House, Makkaraparamba P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	19.12.2017	12343			
207372	Fathimath Sithara T.K.	Abdul Majeed T.K.	Thekkumpurath Kalathil (H), Kariyavattom, Mannarmala P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11670			
207373	Fathimath Suhra T.	Abdulla T.	Thrasseril (House), Kodasseri, Chembrasseril P.O., Pandikkad (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.06.2018	12501			
207374	Fathimathu Shahana	Kazhungil Peedikayil Shamsudheen	Kazhungil Peedikayil House, Valayankulam P.O., Kozhikode, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12875			
207375	Fathimathul Fidha	Ismail	Thaif (House), C.P. Road, Panniyannur P.O., Paral Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.12.2017	12336			
207376	Fathimathul Insiha P.C.	Abdul Salam P.K.	Sakheenias, C.P. Ward, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.07.2015	10886			
207377	Fathimathul Muhsina Beevi C.V.	Kunhikoya	Puthiyottil House, Valliad P.O., Villiappally Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.07.2017	11973			
207378	Fathimathul Shamla P.V.	Mohamed Ashraf	Puthuveettill House, Thekkummuri P.O., Police Lane, Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.07.2019	13202			
207379	Fatima Nudrat	Mr. Absar Ahmed	House 278, Lane-14, Zakir Nagar Delhi-110025	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	21.08.2020	BHSD/5702			
207380	Feba Saju	Saju K. Paul	Kottarathumyalil, Mulanthuruthy P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	19.08.2017	12184			
207381	Febin George	Varkey K.J.	Kuzhimakkal (H), Nellikutty P.O., Chemperi (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13293			
207382	Febin P.	Ahamed P.	Parammal House, Ponnundum P.O., Vailathur, Kavanaduchola, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2017	12275			
207383	Febina N.K.	Muhammed N.K.	Nechikkaden (House), Palakkelvetta P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	25.07.2016	11381			
207384	Febina P.T.	Abdu P.T.	Pallikkattuthodi House, Cherukode, Chathangottupuram P.O., Wandoor (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12015			
207385	Febina T.	Sulaiman T.	Tharippayil (House), Thiruthiyad, Vazhayoor P.O., Ramanattukara (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12888			

207386	Febna S.	Abdul Rasheed	Dream Key, T.C. 69/421 (1), Payattikuppam Road, Kamaleswaram, Manacaud P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.01.2018	12380			
207387	Femina Thadathil	Abdul Kader	Thadathil House, Mammalippadi, Edarikode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10830			
207388	Femy Shaji	Shaji Thomas	Peringattu Parambil (H), Mannathoor P.O., Pampakuda (Via), Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.06.2019	13159			
207389	Fida P.M.	Abdulmajeed T.P.	Thekke Punathil (House), Nanminda P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12198			
207390	Fidha K.	Ameer Hamza K.	20/399, Darussalam, Pudupalli Street, Nurani P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.04.2016	11254			
207391	Fidha Sahla N.C.	Abdul Khader N.C.	"Hill View", Thekkenee Rangad, Pallikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.03.2019	13049			
207392	Fijina Fathahu	Fathahudeen	Al-Fathah, Vadakkevila P.O., (KTN-53), Pallimukku, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University	Kerala	08.06.2018	12510			
207393	Filda Mohamed T.	Mohamed T.	Thodengal (H), Aripura P.O., Angadippuram, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11031			
207394	Finsiya Sherine K.	Aboobacker K.	Cherukayil House, Puthoormadam, Pantheerankavu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.07.2017	12043			
207395	Fitha P.	Hassan P.	Pulath House, Pookkottumanna P.O., Chungathara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10984			
207396	Foujar K.K.	Komu Kareekunnan	Moothedath (House), Kuzhimanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	30.12.2017	12371			
207397	Fousa M.R.	M. Mohammed Sali	Sheras Manzil, Mullikkadu, Chithara P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12227			
207398	Fousiya A.K.	Abdulkalam	Varuvila Veedu, Nedumpana, Nedumpana P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13342			
207399	Fousiya C.P.	Hameed P.P.	"Fathivilla", Kanhirode, Kanhirode P.O., Koodali Via, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.07.2016	11306			
207400	Fousiya C.V.	Sidheeque C.V.	Cheruvallappil, Khaimah Manzil, Vengara P.O., S.S. Road, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11392			
207401	Fousiya Humayoon	Humayoon Kabeer	Alif House, Velanteparampil, Pallippattumuri, Thrikunnapuzha P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12422			
207402	Fouziya A.	Ashraf Y.	Safa House, Eravichira East, Sooranadu P.O. Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12230			

207403	Fouziya S.	Sainudeen S.	Thavakkal Manzil, Arkannoor P.O., Maniyanmukku, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.04.2016	11256			
207404	Freeda M. Joseph	Joseph K.P.	Kodiyamkunnel (House), Vellarivayal, Odackal, Aralam P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12223			
207405	Fretty Paul M.	M.G. Paul	Manavalan House, Ayroor P.O., Attupuram, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11512			
207406	G. Senthil Kumaran	A.G. Nanaprakasam	2, Pallavaram, Main Road, Manancherry Village, Kundrathur, Chennai-600069	BHMS	2013	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	21.01.2014	4729			
207407	Gadha M.P.	Sreenivasan M.P.	Muthukad Puthan Vettil, Karakulam, Mannathipoil P.O., Nilambur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11594			
207408	Ganga S.L.	Sudhakaran S.	Kunnil Veedu, Edavattom, Chirakkara P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.04.2016	11239			
207409	Gangadevi V.	Gopalan V.K.	Velathadath (H), Pallikkara P.O., Melady (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.05.2017	11883			
207410	Gangwar Bunt	Lal Bahadur Gangwar	65-Parvez Nagar, Bareilly, U.P.-243001	BHMS	2018	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	09.12.2019	H038868			
207411	Garg Tanisha	Sh. Yadram Garg	824, G/4, Sukhdev Nagar, KM Pur New Delhi-110003	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5726			
207412	Garima	Sh. Anil Kumar	B-61, Gali No. 23, Mahavir Enclave Part-2, Uttam Nagar, Delhi-110059	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5670			
207413	Gaur Aastha	Sh. Sanjay Kr. Gaur	A-3/92-93/1ind Floor, Sector-11 Rohini, Delhi-110085	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5666			
207414	Gaur Om Prakash	Sh. Rajpati Gaur	E-2/718, Gali No. 10, Pusta Sonia Vihar, Delhi	BHMS	2018	Bhim Rao Ambedkar University Bihar	Delhi	05.03.2021	BHSD/5818			
207415	Gaurav Khinda	Sh. Daljeet Singh	Vill. Gobindpura, P.O.-Ottu, Tehsil-Rania, Distt.-Sirsa	BHMS	2015	Guru Ravidas Ayurved University, Hoshiarpur	Haryana	29.09.2016	6292-A			
207416	Gautam Bhoomika	Sh. Niranjan Kumar Gautam	1/2606, Gali no. 6, Loni Road Ram Nagar, Shahdara, Delhi-32	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5744			
207417	Gayathri B. Raj	Balakrishna Raj A.	"Lakshmi", Thrikkavu, Ponnani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11112			
207418	Gayathri P. Santhosh	P. Santhosh Kumar	Akkarakattil House, Alavil P.O., (Ottathengu), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11141			
207419	Gayathridevi M.P.	Sekharan M.P.	Melepurakkal House, Alpettakulamba, Kodur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.11.2017	12308			

207420	Gayathry B.S.	G.Babu Raj	Govindam, T.C. 3/2542-2, Plammoodu, Pattom P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	16.11.2015	10953			
207421	Gayathry Vijayan	K.M. Vijayan	Kallanickal (House), Kallar, Vattiyar P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.01.2016	11030			
207422	Gayen Pallabi	Krishna Kumar Gayen	Vivekananda Pally, Beladanga, Dakshin Barasat, South 24 Parganas, PIN-743372	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32487			
207423	Gayen Ramkrishna	Pradip Kumar Gayen	Vill-Gorkhali, P.O-Maheshdari, Dist-South 24 Parganas, PIN-743609	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32605			
207424	Gazala K.C.	K.C. Abdul Gafoor	K.C. House, Kuttayi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13163			
207425	Geedhu Cheriya Kunhi	Cheriya Kunhi	Gokulam (House), Muthanad, Chemnad P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12170			
207426	Geethanjali J.L.	C. Lalappan	Rohini', Anantheri, Chaikottukonam P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.02.2017	11759			
207427	Geethanjali M.	Gopinathan Nair K.	Shanthinikethan', Kanathur P.O., Mulyar Via, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13299			
207428	Geethi S. Gopinath	Gopinathan V.P.	Souparnika, Kallissery P.O., Chengannur, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.06.2015	10821			
207429	Geethi Surendran	Surendran Achary V.	Chaitthram, Maruthamonpally, Pooyappally P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10939			
207430	Geethu G.	Asokan M.	Charuvila Veedu, Kalariyil Kizhakkum Kara, Madavoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10942			
207431	Geethu G.L.	George James	Ullikulathu Veedu, T.C. 9/2364, Edavacode, Sreekariyam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.04.2019	13103			
207432	Geethu K.P.	K.K. Ponnappan	Kolakkadan (House), Aruvappara P.O., Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12712			
207433	Geethu M.G.	Mohanasundaran S.	Santhi Bhavan, Chuttiyoorkodu, Malayinkil P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11930			
207434	Geethu Prasad	K.K. Prasad	Kallukulath Gokulam House, Kallissery P.O., Umayattukara, Chengannur, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.03.2019	13080			
207435	Georgeena George	George K.J.	Kizhakkemuryil (H), Kannivayal P.O., Cherpuzha (Via), Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.10.2017	12269			

207436	Georghese Paul Varghese	Rev. FR. Varghese M.P.	Mundackal House, Vembilly P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11943			
207437	Gerin Elizabeth George	George P. Mani	Puthurmanimalayil House, Mulakulam South P.O., Peruva (Via), Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2014	Guru Gobind Singh Indraprastha University	Kerala	25.10.2017	12289			
207438	Ghazala Musarrat	Nayeemuddin	D/o Nayeemuddin, Sayadana Chauraha Gali, Shamim Crockery, Phulwari Sharif Patna, Bihar-801505	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.09.2019	33097			
207439	Ghorai Poulami	Bikash Ranjan Ghorai	Saaraswat Co. Op.Hs. Society Ltd FL-2, Naity Road, Choto Bahera, Nabagram, Barabahera, Hooghly-712246	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32618			
207440	Ghosh Ansuman	Radhakanta Ghosh	Vill+P.O-Pahalampur, Dist-Hooghly, PIN-712223	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32642			
207441	Ghosh Atanu	Asit Kumar Ghosh	Vill-Andinagar, P.O-Karanjali, Dist-South 24 Parganas, PIN-743348	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32591			
207442	Ghosh Debosmita	Byasdeb Ghosh	Aparna Apartment, 17/2, Kabi Sukanta Lane, Kolkata-700075	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32766			
207443	Ghosh Mahasweta	Prasanta Kr. Ghosh	Vill-Atghara, P.O-Madarat, Dist-South 24 Parganas, PIN-743610	BHMS	May-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	23.05.2019	32538			
207444	Ghosh Nirupa	Nani Gopal Ghosh	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32499			
207445	Ghosh Pranab	Paritosh Ghosh	Panda Para, Ghosh Para, Ward No.14 Jalpaiguri, PIN-735101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32607			
207446	Ghosh Rahitosh	Bhagirah Ghosh	Ganjadanga Ghoshpar, D: Charkashthasali, Nabadwip, Nadia, PIN-741313	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32675			
207447	Ghosh Shibajee	Subhendu Ghosh	Vill-Mokatipur, P.O-Old Malda, Dist-Malda, PIN-732128	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32736			
207448	Ghosh Soma	Nimai Chandra Ghosh	Vill-Rameswarpur, P.O+P.S-Burwan, Dist-Murshidabad, PIN-742132	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32775			
207449	Ghosh Sudeshna	Ghosh Baran Samir	1/32 B Vidyasagar Colony, P.O-Naktala, Kolkata-700047	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32608			
207450	Ghosh Sudipta	Swaraj Kumar Ghosh	Vill-Kayesthapara, P.O+P.S-Gangarampur, Dist-Dakshin Dinajpur, PIN-733124	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32781			
207451	Gili George	George O.T.	St. Joseph's Vidyabhavan, C.T.C. Generalate, Edappally, Toll, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	18.02.2016	11113			

207452	Gilla Deepthi	G. Thomson	S-1, National Homoeopathy Research Institute In Mental Health, Kurichy, S.Puram, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2005	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Kerala	30.07.2018	12638			
207453	Gino Abraham	Abraham P.I.	Panamparambil (House), Vakathanam P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12129			
207454	Giri Mohan	Mohankumar S.	Ushus, Adinadu South, Kattilkadavu P.O., Karunagappally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.09.2018	12820			
207455	Giri Pramod	Sri Bhageshwar Giri	Mohanpur Ward No. 09, Near Durga Mandir, Samastipur, Bihar-848101	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.09.2019	33091			
207456	Girijakumari R.	V. Rajendran	House No:V/410, Powerhouse Division, Pallivasal Estate P.O., Munnar, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10836			
207457	Gisha Gopi	O.N. Gopi	Kunchu Veedu, Tangasser P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	15.04.2016	11226			
207458	Giyanka K. Gills	Gills	Kochuvembalil (H), Ambayathode P.O., Kottiyoor (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.08.2019	13355			
207459	Godsy V. Thomas	Thomas Varghese	Payikkattu, Kudassanadu P.O., Poozhikkadu, Pandalam, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13079			
207460	Goel Pankaj	Sh. Vijay Kumar Goel	B-51/C, Main Kanti Nagar, Behind Hero Agency, Delhi-110051	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5774			
207461	Goil Someya K.R.	Sh. Pawan Kumar Goyal	A-17, Aman Apartments, Sector-13 Plot No. 39, Rohini, Delhi-110085	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5731			
207462	Gokul Krishnan G.S.	Gopalakrishnan Nair T.	Puthuval Puthen Veedu, Near Engineering College, Sreekrishna Nagar, Sreekaryam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12349			
207463	Gokul Vinod	Vinod Kumar K.P.	Puliyerintavida (House), Madappally College P.O., Vadakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.07.2017	12005			
207464	Gopika G. Krishna	Gopalakrishnan T.E.	Gopuram (H), Kokkallur P.O., Balussery Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11337			
207465	Gopika G. Nair	Gopi P.	Gopika', Annur P.O., Payyannur, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13263			
207466	Gopika Gangadharan	E.A. Gangadharan	Karthika Bhavan House, Mangattukavala, Thodupuzha East P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13040			
207467	Gopikanath K.	Govindan K.	Gokulam House, Kodangad, Kondoty P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	08.10.2018	12886			

207468	Goswami Shivam	Sh. Khem Chand Goswami	103A, New Lahore Shastri Nagar Near Jain Mandir, New Delhi-110031	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	18.12.2020	BHSD/5799			
207469	Goswami Sourav	Sasti Charan Goswami	Methyali, P.O-Metali, Dist-Bankura, PIN-722142	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32643			
207470	Gouri K.	Kakkoth Mukundan	Mukundalayam, Vattipram, Mangattidom P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12892			
207471	Gouri Krishnan H.	R. Leelakrishnan	Thaimootil, Maruthoorkulangara (South), Alumkadavu P.O., Karunagappally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12787			
207472	Gouri Remesh	Remesh Babu	Kiliyara House, Vyloor, Nellyai P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.03.2019	13090			
207473	Gourikutty V.	P. Vasudevan Pillai	Geethanjali (H), Pattanakad P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11086			
207474	Goutham T.V.	Venketachalam T.P.	Geetham, Vivekananda Nagar, Chalakudy, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	24.09.2018	12845			
207475	Gouthamy Sasikumar	V.S. Sasikumar	Thejas, TC 10/123, Kadayilmudumbu Temple Road, Kulasekharam, Kodunganoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12786			
207476	Govind M.	B. Manilal	Karingottu Veedu, Pallimon P.O., Kannanalloor, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12177			
207477	Govind P. Dev	Vishnu Prakash	T.C. 21/1352 (1), Shivapadmam, Agra-121, Soman Nagar, Karamana P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	28.05.2019	13120			
207478	Goyal Mayank	Ajeet Goyal	Flat No-123, Ankur Apt., I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092	BHMS	2019	Guru Ravidas Ayurved University Punjab, Hoshiarpur	Delhi	07.10.2019	BHSD/5619			
207479	Grace Abraham	Abraham Michael	Poovathanickal (H), Poonjar P.O., Panachipara, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.05.2017	11862			
207480	Grace Rachel Paul	Poulose K.M.	Kottakkaran House, Koratty South P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.04.2017	11837			
207481	Graceleen Kynter	Shri M. Ali	Riangdo, West Khasi Hills	BHMS	27.04.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	10.03.2021	509			
207482	Greeshla Mohan P.M.	Mohan Kumar	Parappurath (H), Kavil P.O., Naduvannur Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.07.2016	11374			
207483	Greeshma C.	M.C. Bindu Saran	Ganam, Chenneerkara P.O., Kulanada (Via), Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12433			

207484	Greeshma Chandran S.	Balachandra Menon N.	Gireesh Bhavan, Valiyara, Vellanad P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11586			
207485	Greeshma G. Nair	Gopinath	Pothan Veedu (H), Thekkumuri P.O., Karalamanna Via, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	15.04.2016	11224			
207486	Greeshma I.K.	Kochu I.A.	Iruppassery (House), Arthat P.O., Kunnankulam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.01.2018	12437			
207487	Greeshma M.	Hari Kumar	Vijaya Bhavanam, Decent Junction P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	13000			
207488	Greeshma Prathap	Prathapan	Edamuttath (House), Azhikode P.O., Kodungallur (Via), Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.11.2018	12930			
207489	Greeshma V.K.	Vijayakumaran Nair S.	Pournam', Near Vinayaka Auditorium, Anappad, Malayinkeezhu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12953			
207490	Greeshma Vikraman	P.S. Vikraman	Nest, Akkaravila Nagar-86, Vadakkevila P.O., Madannada, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.08.2016	11404			
207491	Greeshmy Thomas	Thomas P.P.	Pattettu (H), Upputhara P.O., Kakkathodu, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13301			
207492	Grishma G. Krishna	P. Gopalakrishnan	Greeshmam, Moochikkal, Valanchery, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12409			
207493	Grisilda Shadap Manner	Shri K. Sutnga	Mowkaiaw, West Jaintia Hills	BHMS	20.01.2021	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	19.02.2021	506			
207494	Guha Protapaditya	Lt. Krishna Gopinda Guha	Gobinda Homoeo Hall, Dharamshala Building, Judge Bazar, Darjeeling 734101	BHMS	June-2009	B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur	West Bengal	02.05.2016	31278			
207495	Gulati Kriti	Surender Kumar Gulati	A-2/87, Sector-3, Rohini, Delhi-110085	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	26.09.2019	BHSD/5611			
207496	Gulshana S.	Said K.	Kolleth Karuvalappil, Kallarmangalam P.O., Kadampuzha (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.03.2017	11806			
207497	Gunjan Malik	Kapil Arora	J 147 Sec-41, Gautam Budh Nagar	BHMS	09.04.2005	Guru Govind Singh Indraprasth University, Delhi	Uttar Pradesh	30.05.2018	H037043			
207498	Gunjote Anand Arvind	Gunjote Arvind Baburao	At. Post-Balsur, Tq-Omerga, Distt.-Osmanabad, Maharashtra-413607	BHMS	2012	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra	24.08.2012	57322			
207499	Gupta Arunima	Dr. Bijoy Gupta	EA-1/64, Inderpuri, New Delhi-12	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	13.08.2020	BHSD/5694			
207500	Gupta Mahesh	Sh. Radha Krishan Gupta	E-312, Astha Vihar, Prem Nagar-III Kirari Sulemann Nagar, Delhi-110086	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5763			

207501	Gupta Meenu	Sh. Girish Babu Gupta	1883/1, Jagram Mandir Gali, Kotla Mubarakpur, South Extn Part-1 Delhi-110003	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5755			
207502	Gupta Shivam	Ajay Gupta	B 39/12A, Street No. 1, Arjun Mohalla, Maujpur, Delhi-110053	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	27.06.2019	BHSD/5552			
207503	Gupta Shivani	S.S. Gupta	A-343/3, Rajendra Nagar, Prem Nagar, Bareilly-243122	BHMS	2019	Kumaun University	Uttar Pradesh	11.06.2019	H038390			
207504	Gupta Simran	Sh. Narender Kumar Gupta	2473, Street No. 13, Bihari Colony Shahdara, Delhi-110032	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5732			
207505	Gupta Subhadra	Sh. Rajiv Gupta	Flat No. 34, Shubh Niketan Apartments, A-4, Paschim Vihar Delhi-110063	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5751			
207506	Gupta Sulagna	Supriya Kumar Gupta	16/8/1, Halder Para Lane, Shibpur, Howrah-711101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32655			
207507	Guryan Abhishek	Sh. Rohitawra Guryan	C-13/1, Radio Colony, Kingsway Camp GTB, Nagar, Delhi-110009	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	28.05.2020	BHSD/5652			
207508	Habeebamol K.	Muhammedkutty K.	Kunnummal (House), Poonthavanam P.O., Kondiparamba, Pattikkad (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12788			
207509	Hafeefa K.	Alavi K.	Kunduvayil (House), Ponnala P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12900			
207510	Hafsa H.	Haroon Rasheed	Hafsa Manzil, Peringammala P.O., Palode, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11954			
207511	Hafseena C.	Ashraf C.	Chenganakkattil House, K. Puram P.O., Tanalur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12655			
207512	Hafsina C.K.	Ahammed P.V.	"Sithara", Chettakkandiyil, Ummathur, Parakkadavu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.02.2016	11071			
207513	Hafza Hameed	Abdul Hameed	Thekkayil House, Kalluruttu P.O., Omasseril (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	12.12.2017	12332			
207514	Hajara P.	Abdurazak P.	Pallikkal (H), Kuruppath, Kondotty P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10950			
207515	Hajara P.	Muhammed P.	Basheer Manzil, Elangode P.O., Panoor Via, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.07.2016	11300			
207516	Hajiza C.A.	C. Abdul Hameed	Hajiza Manzil, Chomeri Kodathipadi, Mannarkkad P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.02.2019	13018			
207517	Halder Tanmoy	Nanda Dulal Halder	Vill-Kanagarh Ashrammath, South Naldanga, P.O-Naldanga, Dist-Hooghly, PIN-712123	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32585			

207518	Halder Sourav Kanti	Sumit Kumar Halder	Bahir Sarbomongala Road, Bathan Para, Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, PIN-713101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32682			
207519	Haleem K.T.	Hamza K.T.	Puthalath House, Kakkadampuram, A.R. Nagar P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.05.2015	10808			
207520	Hameeda Habeeb	Habeeb P.M.	Pattammakudiyil (House), Oravakkuzhy, Market P.O., Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12126			
207521	Hamida Rizwana M.S.	Sainudheen	Chengangalath House, Kololamba P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.09.2016	11483			
207522	Hamna K.	K. Alavikutty	Tholiyil House, Kadalundi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	08.09.2015	10914			
207523	Hamna Sherin M.S.	Mytheenkunju M.	Star Manzil, Kottoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11455			
207524	Hamnabi A. Vahid	Abdul Vahid	Kalluvilaveedu, Chavarcode, Parippally P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.09.2017	12251			
207525	Hana P.	Faisal P.	Asiya Mahal, Aripura P.O., Angadippuram Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11088			
207526	Hanan V.M.	Mohammedkunji	Vaipippadath (House), Puthiyakavu, Mathilakam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12536			
207527	Hanna C.M.	Saidalavi V.P.	'Malarvadi', Adattil House, Near A.V.S. Hospital, Kottakkal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	26.10.2015	10932			
207528	Hannath P.	Kunhi Moideen P.	Pulikkal House, T.S. Road, Payyanangadi, Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	07.09.2015	10907			
207529	Hanoona P.P.	Abdul Basheer P.P.	Palattuparambil House, Neeleswaram P.O., Omassery (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.12.2018	12976			
207530	Hansa Jamal	Jamal Mohammed K.K.	Hill View (House), Mudappallur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.08.2018	12724			
207531	Haque Sk. Najirul	Sk. Md. Golam Mustafa	Vill-Chalitapara, P.O.-Ajodhya, Dist-Howrah, PIN-711312	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32588			
207532	Harida N.A.	Aniyan Lal N.R.	Neisseril House, Thonniyakkavu, North Paravur P.O., North Paravur, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11131			
207533	Harigovind O.P.	Haridas M.	Krishnaleela (H), Near V.M.C.G. H.S.S., Wandoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2016	11474			

207534	Harikrishna H.R.	Hariharasudhan K.L.	Rohini', Porannoor, Plamoottukada P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13053			
207535	Haripriya G.	Ganeshan M.	Munhali House', Morikkara P.O., Kakkodi Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	24.08.2019	13349			
207536	Haritha A.S.	Sathyadan A.	Adangampurath, Lakshminilayam, Vezhakkode, Poovathikkal P.O., Areacode (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12435			
207537	Haritha C.	Peethambaran	Chathanath (House), Valiyakunnu P.O., Valanchery (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	25.06.2019	13173			
207538	Haritha K.	Haridasan K.	Haritha Nivas, Paravanthala, Nut Street P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	06.04.2016	11219			
207539	Haritha P.	Haridasan P.	Mankanathuvalappil (H), Perumparamba P.O., Edappal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	03.10.2019	13421			
207540	Haritha R.	Radhakrishnan P.	Sreevilasam, Panayil P.O., Nooranad, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12436			
207541	Haritha Ravi	Ravi T.V.	Haritha Nivas, Koramkulam, Udinur P.O., Trikaripur (Via), Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.05.2017	11884			
207542	Haritha S. Nair	M.N. Harichandran	Sreenilayam House, Pallippuram P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13169			
207543	Haritha Venugopal	K.Venugopal	Haritha, Kannankandari Parambu, Karattuthazham, Kuruvattur, Konott P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11934			
207544	Harsha Ashok	A.G. Ashokkumar	Smrithi (Ashokalayam), Kothakulangara, Angamaly P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10850			
207545	Harsha K.	Ummer Koya K.	Kottummal House, Kayattiyil Road, Olavanna P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12195			
207546	Harsha M.	Manikandan	Melepurakkal (House), Chathanur P.O., Peringode (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12348			
207547	Harsha Susan Ealias	Ealias	Peace Cottage, Attuvilakom, Plavila, Thirumala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.09.2017	12219			
207548	Harshiya K.T.	Mohamed Basheer	China Clay Compound, Mottammal P.O., Kannapuram, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.10.2019	13396			
207549	Hasbulla N.	Muhammed Maulavi	Baithunoor House, Kadachira P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11997			

207550	Haseena Kadavath	Moideen Kutty K.	Kadavath House, Trikkulam, Palathingal, Pantarangadi P.O., Tirurangadi Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	14.07.2016	11354			
207551	Haseera P.K.	Asees	Padinhare Kuyyal (H), Ponmeriparambil P.O., Villiappally (Via), Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	19.08.2019	13330			
207552	Haseesa V.P.	Muhammed Yousuf	Vallikkapatta (H), Areekulam, Vengara P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	09.03.2017	11800			
207553	Hasheema S.	Shanavas Khan M.	Uppoottil Sreyas, Kollaka P.O., Karunagapally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10804			
207554	Hashima M.M.	Abdurahiman K.K.	Mooppill Meethal, Parannur P.O., Narikkuni, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	26.09.2018	12848			
207555	Hashiya Jannath A.S.	Sadik T.H.	Animoottil (House), Achankavala, Madakkathanam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.07.2017	12027			
207556	Hasifa Mustari M.	Abdulla	Maruthath House, Chokkad P.O., Pedayanthal Road, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	13006			
207557	Hasifa T.P.	Moideenkutty T.P.	Thaikkandi Parambil House, Melangadi P.O., Kondotti, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10832			
207558	Hasna A.	Abdul Salam	Ayyottil House, Varavattoor, Pallur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	17.05.2017	11879			
207559	Hasna M.	Musthafa K.	Mankadakuzhi (H), Kunnappally P.O., Kalathilakkara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	11.05.2016	11270			
207560	Hasna M.C.	Abdul Salam M.C.	Cheenyedathil House, Thiruthiyad, Vazhayoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	09.10.2018	12908			
207561	Hasna M.K.	Shamsudheen P.	White House, Pannur, Kizhkkoth P.O., Koduvally (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.01.2018	12458			
207562	Hasna Parveen V.K.	Abdussalam V.K.	Vallikkadan House, Venkulam, Ok Muri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2019	13201			
207563	Hasni Jalal	O. Jalaludeen Kunju	Alummoottil Hasni Mahal, South of Railway Station, Kayamkulam P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.09.2017	12212			
207564	Hassan Sk. Imtajul	Sk.Anisul Haque	113, Ambagan Road, Netaji Subhas Sarani, Dumdum Airport, Itaighacha, North 24 Parganas, PIN-700079	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	13.05.2019	32532			
207565	Haswima Shibli M.C.	Abdul Ali M.C.	Cholakkal House, Olamathil P.O., Mongam (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13026			

207566	Hatai Ritu	Anil Kumar Hatai	Vill-Nischintabasan, P.O-Baichard, Dist Purba Medinipur, PIN-721627	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32557			
207567	Hazra Gyanendra Narayan	Indrajit Hazra	Vill+P.O+P.S-Usthi, Dist-South 24 Parganas, PIN-743375	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32568			
207568	Hazra Pritha	Sh. Manabendra Nath Hazra	Sector-14, Radhika Apartment Flat No. 451, Dwarka, New Delhi-78	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5767			
207569	Heera E. Chand	Chandrasekharan E.K.	Earimma House, Manakkodam, Chendamangalam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11205			
207570	Hegeef Christy Bareh	Shri T. Lyngdoh	Rymbai Pohskur, East Jaintia Hills	BHMS	21.10.2020	Rajiv Gandhi University, Itanagar	Meghalaya	02.11.2020	490			
207571	Hema	Sh. Pushkar Raj	N-14, GF, Sri Niwas Puri, Near L Market, New Delhi-110065	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5761			
207572	Hemant S.L.	Sukumaran K.	Bhargavi Vilasom, Ayiroor, Aruvipuram P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10795			
207573	Henna Rahman P.	Abdul Rahiman P.	Pattayil Gazal, Kuttikatoor P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12240			
207574	Henna V.	Moosakkoya V.	Shaji Cottage, Karuvanthiruthy, Feroke P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11136			
207575	Hiba	Sideeque	Arakkal House, Williams, Orumanayur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.11.2017	12297			
207576	Hiba Abdul Kader	P.K. Abdul Kader	Kadavil House, Pazhuvil, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	16.09.2015	10918			
207577	Hiba P.K.	Abdul Jaleel P.K.	Pulakadavath (House), Parappur P.O., Parayil, Kottakkal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.11.2019	13459			
207578	Hima J.S.	V. Josh Kumar	K.R.N.V. House, Kadinamkulam, Chanankara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.04.2019	13105			
207579	Hima M.	Ramesh M.	Mulloly (H), Atholy P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.12.2017	12354			
207580	Hima Madhusoodanan	A.V. Madhusudhanan	Areeckal (House), Nedumanny P.O., Nedumkunnam, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10849			
207581	Hima P.H.	N. Hari Kumar	Vaidya Retreat Apartment, Flat No.-G3, Palace Nagar, Thevally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2013	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.11.2019	13446			
207582	Hinotoli A Kiba	Aghovi Kiba	H. No-15 Valley View Colony	BHMS	2020	Srimanta Sankara Deva University of Health Science Guwahati Assam	Nagaland	21.10.2020	134			

207583	Hisana Mumthaz U.K.	Moosakutty U.K.	Kunnath, Mundakkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10990			
207584	Hisham Hyder C.T.	Hydarali C.T.	Chettiyammal Thanduparakal, Puthanpurakal House, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11050			
207585	Hoda Khurshedul	Noorul Hoda	1. Hoda Manzil, Urdu Bazar, Lal Bagh, Darbhanga, Bihar-846004 2. C/o Godwin Amanna, First Floor, Room No.-2, Barkoo Chawl, Near Jose Nagar, Sakinaka, Andheri East, Mumbai, Maharashtra-400072	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	24.12.2019	33524			
207586	Hossein Mobarak	Md. Mohiruddin	Vill-Ekdalia, P.O-Sambalpur, Dist-Malda, PIN-732102	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32716			
207587	Hredya C.N.	Girisan C.N.	Anugrah' House, Kottayam Poil P.O., Pathayakunnu, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.05.2016	11273			
207588	Hridesma S.N.	Sasidharan K.	Snehanandini House, Kovval, Cheruvathur, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11936			
207589	Hridya Balu K.	Balakrishnan K.	Niranjana (House), Vallikunnu P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12537			
207590	Hudha Abdul Razack	K.U. Abdul Razack	Kottathayil House, Chammanoor P.O., Punnayoorkulam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2015	10927			
207591	Husain Meraj	Mr. Ekram Husain	B1/702, Punjabi Saudagar (Apt) Mayur Vihar-1 Extn, New Delhi-91	BHMS	2011	Kumaun University Nainital	Delhi	21.08.2020	BHSD/5706			
207592	Hushiyar K.P.	Moidu	Poovullathil House, Nidumparamba P.O., Kallachi Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	12002			
207593	Husna Abdul Khader	Abdul Khader T.K.	Sajjad Manzil, Mattool South P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.03.2017	11817			
207594	Husna Banu M.	M.K. Alavi	Mootthali House, Poolamanna P.O., Tuvvur (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	20.07.2015	10885			
207595	Husna E.K.	Aboobacker E.K.	Ellikathodika House, Kodasseri, Chembrasser P.O., Pandikkad (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.05.2018	12500			
207596	Husna Farsana	Kunju Muhammad	Kuzhiyengal (House), Chulliyode P.O., Ellumparambu, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12656			
207597	Husna Hussain M.M.	Hussain M.M.	Muttanchery Mannil House, Padanilam P.O., Kunnamangalam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	24.01.2019	12994			

207598	Husna K.	Ummer K.	Cheruvath (H), Thalakkulathur P.O., Atholi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	11.07.2016	11345			
207599	Husna P.	Usman P.	Pakkadan House, Machingal, Melmuri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10856			
207600	Husniyah Hussain	Sayed Anwar Hussain	Husniyah Manzil, Manimala Road, Edappally, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13189			
207601	I. Saravan	N. Ilangamani	T.C. 39/1001, KRA-31, Kothuval Street, Chalai, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.07.2017	12069			
207602	Ibalasta Graceful Kharmawlong	Shri H.Buhwan	Lumsokhlur, Mairang, West Khasi Hills	BHMS	21.10.2020	Rajiv Gandhi University, Itanagar	Meghalaya	04.11.2020	491			
207603	Ifiriya V.P.	Yousuf V.P.	Valiyapeedikakkal (House), Arakkuparamba P.O., Perinthalmanna (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	30.12.2017	12366			
207604	Ifrana P.P.	Mohammed P.P.	Parammal Parakkandi (H), Vazhayoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.06.2019	13180			
207605	Ijaz Nazer Pannakal	Abdul Nazer Pannakal	Panakkal House, Kannattipadi P.O., Vengara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2016	11334			
207606	Imlisangla S Pongen	Sentitemsu T. Pongen	H. No 280 Signal Angami Village Dimapur, Nagaland 797112	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	07.03.2018	103			
207607	Indra Dev Pratap	Ashok Kumar	C/o.-BL-2, 3rd Floor, Flat-C, 168/1, Ramkrishnapur Lane, Pallimath, Shibpur, Howrah-711102	BHMS	Nov.-2010	Bharati Vidyapeeth University, Pune	West Bengal	20.09.2017	31691			
207608	Indu Kala	R. Thulasee Dharan Pillai	Kattil Puthan Veedu, Malibhagam, Thekhumbhagam, Chavara South P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Punjab University	Kerala	12.03.2018	12477			
207609	Indu Saira John	Jacob John	Kaippallimalil, Mavelikara, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.09.2015	10920			
207610	Induja Jayakumar	Jayakumar V.K.	Lakshmi Nivas, Island Club Road, Narakkal, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.09.2017	12210			
207611	Insha K.	Kabeer Das K.	Aysha Niketh, Moozhikkal, Chelavoor P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12805			
207612	Iram Gazala	Mr. Abdul Aleem	H. No. 170/1 Gali No. 9 Village Wazirabad, Near Amina Masjid Burari, Delhi 110084	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	11.03.2021	BHSD/5819			
207613	Irfan P.K.	Abdul Kader C.K.	Kadeeja Cottage, Kaviyoor, Chokli P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12881			

207614	Irfana M.V.	Muhammed Ashraf M.V.	Puthiyiruthiyil House, Ananthayoor, Vazhakkad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	26.09.2018	12847			
207615	Irfana Rahila	Ebrahim K.K.	Rahila Manzil, Bright Cross Road, Udyawar Guthu, Manjeshwar P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11277			
207616	Irfana T.S.	T.M. Sayed Ismail	XI/263, Thangaleevedu, K.B. Jacob Road, Amaravathy, Fort Kochi P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11279			
207617	Irfana Thattaruthodi	Moideen T.T.	Thattaruthodi (House), Mattathur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.08.2018	12725			
207618	Irfana Yasmin P.A.	Abdu Razak P.K.	Pallika Valiya Veedu, Azhicode Jetty P.O., Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2019	13197			
207619	Islam Aliul	Abdul Mannan	Vill-Azad Nagar, P.O-Mahesail, Dist-Murshidabad, PIN-742201	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32501			
207620	Islam Mirajul	Abdul Khaleque Miya	Vill Shimulia, P.O-Chowrashi, Dist-North 24 Parganas, PIN-743424	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32665			
207621	Isna Ibrahim	Ibrahim E.S.	Erattuparambil (H), Near Salafi Masjid, Edamuttom, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2013	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.12.2016	11662			
207622	Israr Ahammed P.P.	Muhammadali P.P.	Salamath Cottage, Karumarakkadu, Ariyallur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.10.2018	12863			
207623	Issac P. Bose	Bose P. Simon	Puthukayil (House), Poomala P.O., Sulthan Bathery, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12538			
207624	Ivin Sunil	Sunil P. Xavier	Pallivathukkal (H), Kalathukadavu P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11335			
207625	J. Vaishali	V. Jagadheesan	38/26, Flat-CG-1, Oshiya Enclave, Karnan Street, Mogappair West, Chennai, Tamilnadu-600037	BHMS	2015	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	17.08.2015	5367			
207626	Jacquilin Justus	Justus Pereira	Aaramam, Kannimel West, Kavanad P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	13.07.2017	11982			
207627	Jahan Roushan	Md. Kamrul Hoda	2/1, Tiljala Lane, Kolkata-700039	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32493			
207628	Jahana Fathima J.	J.M. Musthafa	P.V. House, Kanniakulangara, Vembayam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.09.2015	10923			
207629	Jain Mary C.J.	Jose Paul C.K.	Chakramakkil (House), Paluvai P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12730			

207630	Jaison John	V.J. John	Varayanganal (H), Erumpramattom P.O., Erumapra, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10943			
207631	Jaiswal Rajni	Prem Shankar Jaiswal	WZ-428, Raj Nagar-1, Palam Colony, New Delhi-110077	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	30.08.2019	BHSD/5586			
207632	Jaizy E.P.	P.P. Purushothaman	Thanikkampoil House, Thokkilangadi, Kuthuparamba P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	09.11.2017	12293			
207633	Jalinta Magh	Konhri Magh	H. No 27 Tseminyu New Town 797109	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	02.09.2019	121			
207634	Jammalamadaka Srikanth	Prabhakara Sarma	H.No. 1-39-21, Putta Vari Street, Nazar Pet, Tenali, Andhra Pradesh-522201	BHMS	2006	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Andhra Pradesh	14.06.2006	6261			
207635	Jamseena P.	Ali P.	Puthalan House, Kaloth, Kondotty P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.03.2017	11807			
207636	Jamshiya C.A.	Mohammed Saleem C.A.	Kunnath House, Vazhakkad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.11.2016	11579			
207637	Janagam Jayashree Narsaiah	Narsaiah	Akathiyoor P.O., Tecil Quarters, Chingavanam, Royal Enclavam, Fact Kadavu Road, Thalappilly Taluk, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2005	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Kerala	05.03.2019	13064			
207638	Jantua Maubani	Nani Gopal Jantua	Nayapara, Ganeshpur, Kakdwip, South 24 Parganas, PIN-743347	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32703			
207639	Jaseel Ahammed N.P.	Usman M.P.	Niravath Paramba (House), Kunnamangalam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12108			
207640	Jaseela Abdul Razak P.	Mohammad Abdul Razak P.	Khadeeja Mahar House, Chennamangallur P.O., Mukkam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12965			
207641	Jaseela C.	Abdul Azeez C.	Cherayakattu, Kottayil House, Thondilakkadavu, Olavanna P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12200			
207642	Jaseela C.	Moidunni C.	Chennath House, Maranchery P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.11.2018	12933			
207643	Jaseena P.	Aboobacker P.	Perayil (H), Cherakkaparamba P.O., Angadippuram Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11466			
207644	Jaseera C.K.	Mohamed Koya P.P.	Sabeera Manzil, Chaliyath, Moozhikkal, Chelavoor P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11535			
207645	Jasheela A.P.	Hamza A.P.	Anapadikkal House, Kadalundi Nagaram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	Calicut University	Kerala	10.04.2015	10776			

207646	Jasina N.	Moideenkutty N.	Nannatt House, Kavappura P.O., Addressery, Ponnundam (Via), Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12149				
207647	Jasmin A.T.	Ummarkoya A.T.	Aramthoppil (H), Kallarmangalam P.O., Kadampuzha Via, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	26.04.2016	11253				
207648	Jasmin Ali K.	Ali Kadanthodi	Kadanthodi House, Kanayam P.O., Shornur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12789				
207649	Jasmin J.D.	Dileep Kumar	V.M. House, Nagacherry, Anad P.O., Nedumangad, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10945				
207650	Jasmin Perumballi	Moosakutty P.	Perumballi (H), Randathani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11104				
207651	Jasmin T.	Muhammad P.	Thadathil Sanu Nivas (H), Karanthur P.O., Kunnamangalam, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.01.2016	11054				
207652	Jasmin Youseph	Youseph K.M.	Kalayil Parambil, Kulayattikkara P.O., Kanjiramattom, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	17.01.2017	11687				
207653	Jasmine J.	S. Peerukannu	Nirakootu, Valathungal P.O., Eravipuram, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2013	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11451				
207654	Jasmine Jose	Joseph V.A.	Vanisseril House, Vayattuparamba P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11963				
207655	Jasmine P.A.	Aboobacker	Panangaden (House), Tharish P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12658				
207656	Jasmine P.I.	Ibrahim P.P.	Kozhissery (H), Vazhakkad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.12.2015	10981				
207657	Jasmine S.	Sainullabdeen E.	Jaseem Manzil, Kottiyam P.O., Distt.- Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11126				
207658	Jasna K.R.	Rahmathulla	Kundukuly House, Pookottumana P.O., Chungathara, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10845				
207659	Jasna Mathew	M.C. Mathew	Mannariyath House, Pallikuth P.O., Chungathara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.01.2016	11013				
207660	Jasna T.P.	Hamza Kutty T.P.	Thorakkattil Pazhamthottingal (H), Vettathoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.08.2016	11409				
207661	Javad Mohamed V.K.	Mohamed V.K.	Vaniyamkulangara (House), Mookkuthala P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Calicut University	Kerala	24.10.2017	12281				
207662	Jawa B.	G. Babu	Khizhakke Kalluvila Veedu, Kannanaloore P.O., Vadakkemukku, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13036				

207663	Jawaid Areeba	Jawaid Waheed	16, Gangadhar Babu Lane, Kolkata-700012	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32747			
207664	Jaya Lakshmi M.	Raveendranathan Pillai M.G.	Thenguvila Puthen Veedu, Chathinankulam, Chandanathope P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.01.2018	12401			
207665	Jayakrishna Pal B.	Balakrishna Pal	Ganesh Mandir, New Village, Kollengode, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11507			
207666	Jayapriya P.	Jayanandan	Thekkumkattil (House), Chemmaniyodu P.O., Ucharakkadavu, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.09.2017	12216			
207667	Jayshree Rani	Chandra Kishore Pandey	Chauhan Chowk, Belbanwa, Motihari, Distt.-East Champaran, Bihar	BHMS	2017	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	11.02.2017	32029			
207668	Jaysi C.	Sasi C.	Alingal House, Vettom P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	30.12.2017	12363			
207669	Jazila Ali	Sayed Ali Bafakhi	Al-Rayyan, Beach Road, Koyilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.10.2017	12266			
207670	Jeema Johnson	K.A. Johnson	Jeevodaya Provincial House, U.C. Collage P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10893			
207671	Jeen C.	Christopher V.	Melekalluvila Veedu, Vanniyacode, Cheruvarakonam Via, Parassala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.08.2017	12116			
207672	Jeeni Joseph	M.J. Joseph	Athirthimukkil House, Karimpan, Manippara P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	15.02.2019	13013			
207673	Jeeshma K.	Krishnan K.	Kelikodan House, Eranhimangad P.O., Modavanna, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12657			
207674	Jeeva Susan Thomas	Thomas John	Edathara (H), Nalunnakal P.O., Vakathanam, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.04.2016	11237			
207675	Jeevan K.Y.	K.V.E. Yousaf	Kattumattathil (H), Mankuzhi, Udumbannoor P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11643			
207676	Jefna Ismail	Ismail K.C.	Aminas', Peringadi P.O. Puthiya Road, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2013	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.12.2016	11663			
207677	Jehitha V.S.	Sulaiman V.M.	Velumkodan House, N.A.D. P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	28.05.2019	13128			
207678	Jemshida P.	Kunhimammed P.	Parengal House, Kizhisseri, Kuzhimanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10854			
207679	Jenny Jose	Jose Joseph	Vattakudiyil (H), Avoly P.O., Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.05.2017	11875			

207680	Jerry K. Muhammad	K.P. Muhammad	Kuttikkattuchalil (House), Mathirappilly, Kothamangalam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.09.2018	12818			
207681	Jesitha A.M.	Abdul Razak A.M.	Athimannil House, Manjeri College P.O., Pandikkad Road, Manjeri, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.03.2019	13065			
207682	Jessan Joshua	Joshua M.	Jyothi Bhavan, Vengoor, Ummannoor P.O., Kottarakkara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12153			
207683	Jesvin Maria Jose	Jose P.J.	Paradiyil (H), Nallompuzha, Kannivayal P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	24.08.2019	13348			
207684	Jewel Sulthana K.F.	K.H. Faizal	14/1423 A, Kumbalath House, Illath Nagar, Palluruthy, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	15.02.2018	12472			
207685	Jha Kavita Sukhveer	Sukhveer Jha	F-54 Vibhag-7, Parshwanath Township, Near Shakti Chowk Krishnanagar, Nava Naroda, Ahmedabad-382345	BHMS	2018	Jiwaji University, Gwalior	Gujarat	30.11.2019	G-26006			
207686	Jha Moni	Sh. Kanhaiya Jee Jha	C-256, Millenium Apartment, Sector- 18 Rohini, New Delhi-110089	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/ 5674			
207687	Jibina Nazar	Nazar M.	Panikka Veedu, N.A.D. P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.03.2017	11822			
207688	Jiji Mol B.	Balasubrahmanian K.C.	Jiji Nivas, Mannath Kavu, Thannisery P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12008			
207689	Jijomon K.K.	Kuttappan	Thekkethil (H), Mannadisala P.O., Mannadisala, Ranni, Distt.- Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	19.10.2016	11572			
207690	Jijyjohn	A.P. John	Karibinkalayil House, Manichira, Poomala P.O., Sulthan Bathery, Distt.- Wayanad, Kerala	BHMS	2016	Jiwaji University, Gwalior	Kerala	18.12.2017	12342			
207691	Jilna Santhosh	A.K. Santhosh	Nellatukudiyil House, Chettapalam P.O., Pulpally, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.08.2015	10890			
207692	Jilshana P.K.	Abdul Majeed P.K.	Dhaffah (House), Parambil P.O., Cheruvatta, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.11.2018	12931			
207693	Jilsy Jose M.	Jose M.A.	Chirayath Manjiyil House, Manjilas Street, Mannuthy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.03.2018	12478			
207694	Jilu Anna Jacob	Reji Jacob Varghese	Nackolackal Pulimootil, Mampra P.O., Chengannur, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13138			
207695	Jimshi Vallikkadan	Koya V.K.	Vallikkadan House, Mambeethi, O.K. Muri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.06.2019	13155			

207696	Jincy S.V.	Selvaraj P.	T.C. 11/1401, (New T.C. 25/3053-1), Bains Compound, Nanthencode, Kaudiar P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.08.2019	13361			
207697	Jincy Zacharias	Zacharias C.	Carmelite Provincial House, Kozhipilly P.O., Kottamangalam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13466			
207698	Jini Sing	Tensing	Chittepparambil, Ambikamarket P.O., Vaikom, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13055			
207699	Jinsiya Palakkal	Moosa Palakkal	Palakkal (H), Ummalathoor, Medical College P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	02.02.2017	11714			
207700	Jintu M.	Dhananjayan	Ratnam Nivas, Manalthazham, Kommeri P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12415			
207701	Jinu Joseph	Joseph O.J.	Oozhikkatte House, Panapuzha P.O., Karakundu, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12696			
207702	Jinu Justin	Justin Raj	Thejas, Kodankara, Chenkal P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12707			
207703	Jinu P. James	J. James	J.J. Bhavan, CKRA-79 C, Chencherry, Kurumkulam, Nalanchira P.O. Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.10.2016	11549			
207704	Jinu Paul	N.Y. Poulose	Nammanaly House, Marottichal P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12181			
207705	Jisha Ashraf	M. Ashraf	Noufal Manzil, TC 19/1249 (1), (New-47/1843), Karamana P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.06.2018	12569			
207706	Jisha Shajahan	Shajahan M.A.	J.J. Land, Vadasserironam P.O., Varkala, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	15.04.2016	11222			
207707	Jishana T.P.	Muhammed T.P.	Thorakkattil Pazhamthottungal (H), Vettathur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.05.2017	11882			
207708	Jismy Thomas	A.V. Thomas	Arackal (H), Karukutty P.O., Vazhachal, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11390			
207709	Jisna Jose	Jose	Narakathara (House), Chunda P.O., Cherupuzha Via, Vazhakundam, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12700			
207710	Jisna V.E.	Ebrahim V.E.	Varappillikkudy (H), Kadavoor P.O., Panankara, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11206			
207711	Jisny Thomas	Thomas K.L.	Kattiparambil House, Chettikkad, Kunjithai P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	19.08.2017	12185			

207712	Jitha Elizabeth	V.L. Jose	Vettuvazhiyil House, St. Joseph's Church Road, Thevara, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	21.07.2017	12035			
207713	Jithesh A.P.	Rajan K.M.	Binesh Bhavan, Pattiam, Kottayodi, Pathayakunnu P.O., Thalassery Via, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.04.2017	11848			
207714	Jithi S.	Shaji P.V.	Jyothis, Kalarickal House, Thrickodithanam P.O., Changanaseery, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.08.2016	11426			
207715	Jithin M. Ouseph	M.V. Ouseph	Manjakuzhakunnel, Parappanangadi, P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10892			
207716	Jithu S. Anand	Jayanandan J.	TC 1/747, Jainagar, Medical College P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.02.2019	13017			
207717	Jithumol Joseph	Joseph P.A.	Hahnemann Homoeo House, Ullanam P.O., Parappanangadi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12952			
207718	Jiya John	P.V. Johny	Puthussery (House), Ponjassery P.O., Soubhagya Nagar, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12562			
207719	Jiyas K.P.	Abdul Azees K.P.	Hadiya House, Cheliya P.O., Edakkulam (Via), Koyilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	12999			
207720	Joan Mithila	P.F. Xavier	Pallikkaveetil, Martinpuram, Maradu (N), Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11509			
207721	Jobitha Abshen P.	Hariz P.	Kudukandan House, Valamboor P.O., Pattikkad (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.06.2018	12567			
207722	Jobu C. Caldwell	R. Chellathurai	11/181, Pammachi Vilai, Nattalam, Nattalam (P.O.) Kanniya Kumari, Tamilnadu 629165	BHMS	2009	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	22.12.2009	3381			
207723	Joffin Thomas	Thomas Antony	Mookkenthotathil House, Karuvambram West P.O., Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.06.2019	13177			
207724	John J. Vathikulam	Joseph T. Vathikulam	Vathikulam House, Aiswarya Lane, Thoppil, Thrikkakara P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11467			
207725	Joicy. Ng.	Ng. Noro Singh	58/3, Raja Dhinendra Street, Maniktala, Kolkata-70006	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32495			
207726	Joji George	K.P. George	Kunnathkudiyil House, Bhoodanam P.O., Pulpally, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10848			
207727	Jolly Helen V.	Venson C.	314 (8/311), Jayavilasam, Thachancode, Kuttichal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2012	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11000			

207728	Jomal Scaria	E.P. Scaria	Elanjimattathil (House), Chittarikkal P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12904			
207729	Jomie Joan Joseph	V.M. Joseph	Vezhambasseril (House), Upputhode P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.09.2018	12819			
207730	Jomy A.S.	Anil Kumar K.	Joshna Cottage, Ozhukupara, Vattappara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13417			
207731	Joseph K.M.	Mani Joseph	Kurumbakkattu House, Mukkulam East P.O., Elamkadu Top, Kootickal Via, Distt.-Kottam, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11278			
207732	Joshi Pragya	Pawan Kumar Joshi	C/o. Pranjal Pareek, 49, Dwarik Jungle Lane, Uttarpara, Bhadrakali, Hooghly, PIN-712232	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32573			
207733	Joshi Shreya Kirtikummar	Joshi Kirtikummar Madhusudanbhai	Harihar Nivas', Harihar Chowk, Sadar, Near GPO, Rajkot, Gujarat-360001	BHMS	2019	Saurashtra University	Gujarat	20.09.2019	G-25672			
207734	Joy Siny	P.T. Joy	House No. XIII/29/6, Manikandeswaram Road, Chiyaram, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2014	Goa University	Kerala	12.12.2015	10968			
207735	Juby Antony	Antony	Sister's of The Destitute, St. Mary's Province, Chunagamvely, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.07.2017	11967			
207736	Julia Raju	M.C. Raju	Poonthottathil House, Kureekkadu P.O., Chottanikkara, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12583			
207737	Julia Wilfred	Wilfred Ambrose	Julia Villa, Chowva P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	28.05.2019	13121			
207738	Julie Elsa James	James Joseph	Madukkakuzhy (H), Kannimala P.O., Erumely, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11391			
207739	Julie Mathew J.	Jimmy Mathew	Maranattu House, Karimba P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12066			
207740	Julka Gurleen	Sh. Surinder Singh Julka	H-32, Sreet No. 9 New Mahavir Nagar, New Delhi- 110018	BHMS	2013	Guru Ravidas Ayurved University Punjab	Delhi	10.02.2021	BHSD/ 5810			
207741	Jumaila U.K.	Ummer K.	Chembanachalil (H), Nadackal P.O., Erattupetta, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	31.03.2016	11196			
207742	Jumana Abdul Jaleel Chempayil	Abdul Jaleel C.	Jeam', Puthussery Paramba, Pavangad, Puthiyangadi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.04.2017	11842			
207743	Jumana Haseen A.G.	Gaffarudhin V.A.	Thengil House, Near Mini Anjumoorthy Mangalam P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11519			
207744	Jumana K.	Hassan	Kammana House, Meppayur P.O., Vadakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.03.2019	13087			

207745	Jumana Siraja A.V.	Abdul Razaq A.V.	Kattilthodi (House), Chelembra P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12101			
207746	Junaid Rahman A.	Mohammed A.	Aruveetil House, Achippilakkal, Karuvamburam P.O., Manjeri, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.06.2019	13129			
207747	Junaidh P.	Jamal P.	Fauz' Edasseri Paramba, Florican Road, P.O., Karaparamba, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.03.2019	13091			
207748	Jusna Binsy B.K.	Abdulsamad B.K.	Bhagavathy Kavungal House, Chullipara P.O., Valakkulam (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.11.2017	12313			
207749	Justeena John T.	Johny T.M.	Thekkeparambil House, Koottupuzha P.O., Peratta, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.12.2016	11658			
207750	Justin Joseph	Joseph M.P.	Madassery House, Kollanoor Lane, Lourupuram, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	14.12.2015	10972			
207751	Justina M. Steefan	Steeffan M.P.	Manavalan House, Mala P.O., Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11958			
207752	Jwanita Johny	Johny P.G.	Anchery House, Puliyakodekunnu, Marikunnu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.04.2019	13102			
207753	Jyothis K.P.	Sathish K.P.	Swamy Nivas, Nelkala, Vidyanaagar P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12749			
207754	Jyothis T.N.	Narayanan K.	Thottathil House, Nelliampadam, Kunissery P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2013	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	09.06.2017	11894			
207755	Jyothis Jose	Jose Haiser	Johnsy Dale, DMR House No.-1, Cutchery P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12387			
207756	Jyothisree A.S.	P.G. Sadanandan	Ayodya, Vaikaprayar P.O., Vaikom, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.11.2017	12304			
207757	Jyoti	Sh. Bijender Singh	D-50, Yadav Nagar, Samaypur Delhi- 110042	BHMS	2018	Pt. B.D. Sharma University, Rohtak	Delhi	14.12.2020	BHSD/ 5793			
207758	Kabir Khondokar Md. Altamas	Late K.M. Allarakha	B/50/H/1, Bright Street, Kolkata- 700017	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32657			
207759	Kadeeja Jasmin V.M.	Ibrahim V.M.	Valappil Meparambath (H), Mangalam P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13166			
207760	Kadeeja U.P.	Aboobacker U.P.	Ullattuparamban (H), Chungathara P.O., Vellaramkunnu, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.12.2016	11630			
207761	Kadeejath Misba M.	Moideen Kunhi	Moosa Mahal, Near L.P. School, Madhur P.O., Madhur, Distt.- Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	27.09.2017	12250			

207762	Kajal Banu M.A.	Abdul Khadar Essa S.	Kanakakkunnu Veedu, Near Depot, Kulathupuzha, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11660			
207763	Kajal Guleria	Sh. Kushal Singh	H.No. 4177, Sector-46-D, Chandigarh	BHMS	23.01.2017	Punjab University, Chandigarh	U.T. Chandigarh	13.10.2020	265-A			
207764	Kala Sonali	Sanjoy Kala	Durgachak Uttar Palli, Haldia, Purba Midnapore, PIN-721602	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32531			
207765	Kalpavalli Kandada	S.Ramanuja Chanjula Kandada	H.No. 3-9-513/A, Road No. 2, Madhura Nagar, Mansoorabad, L.B. Nagar, Rangareddy, TS-500068	BHMS	2007	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Telangana	10.09.2018	515/H/ 2018	M.D.Hom. (Organon of Medicine), 15.10.2015, MUHS, Nashik		
207766	Kapoor Medha	Sh. Virender Kapoor	401, Farsh Bazar, Shahdara Delhi-110032	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5720			
207767	Kar Ankita	Biswajit Kar	Ramchandrapur Paschim Para, P.O+P.S-Diamond harbour, Dist-South 24 Parganas, PIN-743331	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32563			
207768	Kar Sanchari	Dilip Kumar Kar	Vill-Jalalkhanbar, P.O+P.S-Contai, Dist-Purba Medinipur, PIN-721401	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32522			
207769	Kardam Ubika	Sh. Chaman Lal	V-96, Arvind Nagar, Khajur Wali Gali, Ghonda, Delhi-110053	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5764			
207770	Karmakar Anil	Fatick Chandra Karmakar	Amtala, B.P. Road, P.O-Kanyanagar, South 24 Parganas, PIN-743398	BHMS	Dec.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	03.01.2020	32790			
207771	Karmakar Sarbani	Dilip Kumar Karmakar	Vidyasagar Pally, P.O-jhaljhulia, Dist-Malda PIN-732102	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32616			
207772	Karmaline Roja M.	G. Mohandoss	Dhas Bhavan, Arniekudy Estate, Dymock P.O., Vandiperiyar, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12592			
207773	Karthik Krishnan	Gopalakrishnan C.	Thekke Chanduvarath, Nettissery P.O., Mukkattukara, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.08.2018	12764			
207774	Karthika C.R.	Ragunathan C.S.	Rarath Indu Vihar, Bank Road, Alathur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11066			
207775	Karthika Krishnan	Radhakrishna Pillai P.	Krishnalayam, Odanavattom (P.O.), Paruthiyara, Kottarakara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13028			
207776	Karthika M.	G. Rajamohan Pillai	Smruthy, Mamatha Nagar-58, Ramankulangara, Kavanad P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13146			

207777	Karthika S.N.	R. Neelakantan	'Ram Nivas', TC-21/441, JNRA B-15, Nedumcaud Road, Karamana P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11922			
207778	Karthika Sajeev	Sajeev C.P.	Cheruchilampil (House), Meenachil P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12713			
207779	Karunakara Moorthi S.	M. Sanjeevi	Ilampurayedathu House, Kurisummoodu P.O., Changanacherry, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2005	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	14.08.2019	13281			
207780	Kaur Gurkirat	Sh. Sukhbir Singh Paintal	E-26/6, Rajouri Grden New Delhi-110027	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5727			
207781	Kaur Rajanpreet	Sh. Gurnam Singh	H.No. 3156A, Sec-39-D, Chandigarh	BHMS	06.03.2018	Punjab University, Chandigarh	U.T. Chandigarh	24.08.2020	264-A			
207782	Kaur Servleen	Sh. Surendra Pal Singh	A-01, Vidisha Apartment, Plot No. 79 Patparganj, L.P. Extension, Delhi-92	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	13.08.2020	BHSD/5696			
207783	Kausar Hena	Late Md. Motiur Rahman Ansari	19C/2, Tiljala Shibtala Lane, Kolkata-700039	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32494			
207784	Kauser Shazia Tabassum	Kauser Mazhari	18J/2, Topsia Road, Kolkata-700039	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32658			
207785	Kaushik Sheegul	Sh. Sunil Kumar Kaushik	H. No. 111-C, Pooth Kalan Near Rohini, Sector-23, Delhi-86	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	18.08.2020	BHSD/5700			
207786	Kavitha Mathew	V.A. Mathew	Vellarumkuzhy (House), Monippally P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2017	12083			
207787	Kavitha Mohan	P.S. Mohanan	Thevalil House, South Nada, Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University	Kerala	10.07.2017	11940			
207788	Kavitha P	Shinu R	203, Halders Apartment, 119, Panchananthala Street, Rishra, Hooghly-712248	BHMS	Oct.-2019	Rajiv Gandhi University, Auranachal Pradesh	West Bengal	17.10.2019	32579			
207789	Kavya A.	S. Padmakumar	Padmas, Kallummoodu, Kayamkulam P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13084			
207790	Kavya Ajay	Ajaya Kumar K.	Gayathri, Thazham, Chathanoor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11917			
207791	Kavya Das A.P.	Ramadasan A.P.	Areeparambath (House), Nanminda P.O., Ambalapoyil, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12627			
207792	Kavya M.	Madhusudan M.	Chaithram (H), Near Balussery H.S., Balussery P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11358			
207793	Kavya Mohan	Kanaka Mohanan	House No. 34/402 A, Koledath House, Kunnambath Paramba, Madhuravanam Road, Civil Station P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	29.11.2016	11601			

207794	Kavya Prakash	V.V. Prakash	Sreevalsam, Mullakkery, Panmana P.O., Chavara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13046			
207795	Kavya Thampi	T.Thampiraj	Kamalanilayam, Aralumoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12645			
207796	Kavyalakshmi R.	R. Rajagopal	Pulivelil House, Velliappally P.O., Arunapuram Via, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.09.2018	12856			
207797	Keerthana Anand	Jayanandan O.	Kizhakkoot House, S.N. Puram, Panangad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12682			
207798	Keerthana Balan P.B.	Balan	Palapparambath (H), Keezhariyoor P.O., Koyilandy Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11393			
207799	Keerthana R.P.	Raveendran P.K.	Keerthanam (House), Perumalpuram, Thikkodi P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12874			
207800	Keerthana T.V.	T.K. Vimal Raj	Thachamoochikal (H), Vilyannur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11659			
207801	Keerthi	K. Krishnan Kutty	Sreevalsam (H), Aiswarya Lane, S.R.K. Nagar P.O., Ottapalam, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	07.01.2017	11673			
207802	Keerthi D.S.	Damodara B.M.	Lavanya Kripa, Peringadi, Mangalpady P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.07.2017	12011			
207803	Keerthi K.V.	Asokan K.	Kinatteravalappil House, Theyyangadu, Ponnani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12053			
207804	Keerthi Rajagopalan	M.V. Rajagopalan	Sowparnika', Pottore P.O., M.G. Kavu (Via), Thiroom, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	28.05.2019	13125			
207805	Keerthichand S.S.	Sarath Chandran	S.S. Bhavan, Vandithadam, Kakkaramale, Karakonam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13404			
207806	Keerthy P.V.	Velayudhan P.	Parakkooth House, Amballur North, Alagappa Nagar P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12522			
207807	Keneth Anderson Nongsiej	Shri K. Marbaniang	Nongbah Bynther, Mairang, West Khasi Hills	BHMS	01.05.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	19.10.2020	487			
207808	Kerdajingmen Rynthiang	Shri K.L. Mairang	Nongkhlaw, West Khasi Hills	BHMS	21.10.2020	Rajiv Gandhi University, Itanagar	Meghalaya	12.11.2020	494			
207809	Khadeeja Jisha P.P.	Mohammed Ali	Puthan Peedikakkal (H), Kunnappally P.O., Perinthalmanna (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11653			

207810	Khadeeja Jusna Kurikkal	Abdul Jabbar K.	Kurikkal House, Kuttoor North P.O., A.R. Nagar (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.07.2018	12605			
207811	Khadim Azizul Islam	Atikul Islam Khadim	Kaushallya, P.O-Kharagpur, West Midnapore, PIN-721301	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32708			
207812	Khairunneessa K.K.	Sayid Muhamed Koya Thangal	Kallu Veettil (H), Pallikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.01.2017	11696			
207813	Khairunnisa P.	Basheer P.	Palara House, Valanchery P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12221			
207814	Khan Aasif	Afsar Khan	Vill.-Rasulpura, Post-Gambhira, Teh.-Malarana Doonger, Dist.-Sawai Madhopur-Rajasthan	BHMS	2019	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Rajasthan	20.11.2019	8560			
207815	Khan Anusha	Sh. Parvez Naseer Khan	161/50, 3rd Floor, Shamsi Apartment Jogabai Main Road, Jamia Nagar Okhla, Delhi-110025	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5773			
207816	Khan Areesha	Mr. Nafees Khan	E-103/2, Abul Fazal Enclave-II Shaheen Bagh, Jamia Nagar, Okhla New Delhi-110025	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5759			
207817	Khan Bushara	Zainul Abadin Khan	P44/1, Mtijheel Avenue, South Dum Dum, North 24 Parganas, PIN-700074	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32777			
207818	Khan Farheen	Mohd. Shareef Khan	B-6/17, Sector-7, Rohini, New Delhi-110085	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	18.12.2020	BHSD/5800			
207819	Khan Imran	Sh. Isarar Ali Khan	C-503 Gali No. 12 Shri Ram Colony Rajiv Nagar Delhi-110090	BHMS	2019	Jiwaji University	Delhi	19.01.2021	BHSD/5807			
207820	Khan Shah Nawaz	Saleem Khan	35/179, Block-35, Trilok Puri, Delhi-91	BHMS	2020	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5654			
207821	Khandakar Isabela	Isauddin Khandakar	118 Kazipara Baidyabati, P.O-Baidyabati, Dist-Hooghly, PIN-712222	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32526			
207822	Khanna Simran	Sh. Kishan Khanna	10/78, Geeta Colony, Delhi-110031	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	21.08.2020	BHSD/5703			
207823	Kharade Suchita Shrimant	Srimanth B. Kharade	W/o. T.N. Kotambe, Vikram Enclave (CGRA), Flat No. Haldi-5, Sector-18, Haldia Township, Purba Medinipur-721607	BHMS	Feb.-2008	MUHS, Nashik	West Bengal	05.10.2015	30965			
207824	Khatoon Aasifa	Mohd. Aslam	B-19, DDA Colony, Khyala Vishnu Garden, New Delhi-110018	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5665			
207825	Khatoon Afsana	Ali Hussain Ansari	81/2, Jaya Bibi Road, Ghusuri, P.O-Belur, Howrah, PIN-711107	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32707			
207826	Khatri Princy	Sh. Vijay Kumar	H. No. 105, Nai Basti, Pana Mamurpur, Narela, Delhi-110040	BHMS	2018	Punjab University Chandigarh	Delhi	03.09.2020	BHSD/5710			

207827	Khatun Farjana	Md Firdaus Alam	54, Pikhana 2nd Bye Lane, 3rd Floor, P.O+Dist-Howrah, PIN-711101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32723			
207828	Khatun Mst. Niltaz	Md. Mainul Haque	Near Netaji High School, Vill-Gangapur, P.O-Bhabta, Dist-Murshidabad, PIN-742134	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32611			
207829	Khatun Mst. Towhida	Md. Sherful Hoque	Bhabta, Tentlala Para, Murshidabad, PIN-742134	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32620			
207830	Khatun Nadija	Niamatulla Sk.	Khadimpara, Vill+P.O-Mahalandi, Dist- Murshidabad, PIN-742136	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32609			
207831	Khatun Salma	Sala Uddin Mondal	Vill-Bara Mullick Par, P.O-Balitikuri, Dist-Howrah, PIN-711113	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32720			
207832	Khemraj	Ratan Lal	Akashwani Colony, Q.No. A-10, Ward No. 25, Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804	BHMS	2019	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Rajasthan	27.11.2019	8585			
207833	Khinchi Sucheta	Sh. Rajinder Khinchi	Flat No. 75, DDA Flats, Jwala Hedi Paschim Vihar, New Delhi-110063	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5738			
207834	Khoulath E.	Musthafa E.	Edathole House, Pulasseri P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12231			
207835	Kirtania Arindam	Ganapati Kirtania	Vill-Biswanathpur, P.O-Hatbahirgachi, Dist-Nadia, PIN-741501	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32681			
207836	Km. Mani Chaudhary	Sri Jai Prakash Singh	C1-13 Mansarover Colony, Delhi Road, Moradabad	BHMS	14.09.2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	24.09.2013	H033318			
207837	Km. Neelam Jyoti Nimesh	Sri C.B. Ninesh	3C&D Chandan Nagar Bodla Road Shahganj, Agra	BHMS	14.09.2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	03.10.2013	H033351			
207838	Km. Preeti Chikara	Vijender Singh	Vill./P.O. Sherpur Luhara, Tehsil-Baraut, Baghpat	BHMS	14.09.2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	28.10.2014	H034165			
207839	Km. Shruti Pundir	Kanwar Pal Singh	H.No. 791/23 Rampuri, Muzaffarnagar	BHMS	14.09.2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	01.06.2018	H037115			
207840	Koley Joydeep	Amal Koley	Benepara, Hatkhola, P.O-Chandannagar, Dist-Hooghly, PIN-712136	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32473			
207841	Komal	Sh. Mahender	E-94/A, Kondli (Near Community Hall) Delhi-110096	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5669			

207842	Konai Debabrata	Nirmal Monai	Madhunia, Amarkundu, Murshidabad, PIN-742136	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32488			
207843	Konar Soumen	Sudhanwa Konar	Bidhanpalli, P.O.-Sri Palli, Ghosh Para, Burdwan, PIN-713103	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	14.01.2020	32791			
207844	Koulath Kunnath	Khader K.	Kunnath (House), Randathani P.O., Kizhakkepuram, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11027			
207845	Krija Kesavan	Kesavan	Kripa Nilayam, Tarur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11534			
207846	Kripa George	George C.K.	Chittilappilly (House), Pax Street, Nellikunnu, East Fort P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	30.12.2017	12369			
207847	Krishna Pradeep Kumar	C.G. Pradeep Kumar	Gopalayam, North Thamaraparambhu, House No. 1/1152, Fort Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11448			
207848	Krishna S.	Mohan K.	Garden Rose, S.R.P. Market P.O., Karunagappally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11115			
207849	Krishna Sunil	Sunilkumar	Thoppilan House, Karamuck, Kandassan Kadavu P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.04.2016	11262			
207850	Krishnapriya C.R.	Radhakrishnan Nair C.T.	Chamaparampil (H), Pathamuttom P.O., Changanacherry, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	31.01.2017	11710			
207851	Krishnapriya M.	Muraleedharan P.	Anandabhavanam, East Kadungalloor, U.C. College P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12139			
207852	Krishnapriya P.D.	Deleep P.V.	Parayil House (Karthika), T.B. Junction, Angamaly, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	09.11.2018	12926			
207853	Krishnendu P.	P.M. Krishnan Kutty	Pallipparambil (House), Asokapuram P.O., Kodikuthumala Neelathoppu, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12124			
207854	Kulkarni Anjali Pralhadrao	Pralhadrao	8, Shivkrupa Appt., S.No. 120, Plot No. 19/B, Modern Colony, Paud Road, Kothrud, Pune-411038	BHMS	1998	Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University	Maharashtra	28.01.1999	28044			
207855	Kulshrestha Harshita	Sh. Hemant K. Kulshrestha	68, Guru Nanak Marg, Kewal Park Azadpur, Delhi-110033	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	31.07.2020	BHSD/5684			
207856	Kulsum Kaniz	Sahid Ali Khan	Vill-Barbahala, P.O.-Kolaghat, Dist-Purba Medinipur, PIN-721134	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32476			
207857	Kumar Abhishek	Arun Kumar Suman	Gulamehiya Chak, P.O.-Sabalpur, Patna, Bihar-800009	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33705			

207858	Kumar Anil	Radheshyam Prasad	108/4, G.T. Road, Howrah-711106	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	20.06.2019	32545			
207859	Kumar Arun	Jeewlal Yadav	Vill.-Muriyal, P.O.-Babhandeo, P.S.-Barachatti, Distt.-Gaya, Bihar-824201	BHMS	2018	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	09.08.2018	32772			
207860	Kumar Ashutosh	Sh. Kamlesh Kumar	C-274, Pul Pehlud Pur, Badarpur Border, New Delhi-110044	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5770			
207861	Kumar Brajesh	Yogendra Sahani	Vill.-Chakrotitor, P.O.-Bangranizamat, P.S.-Sahebganj, Distt.-Muzaffarpur, Bihar-843125	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33683			
207862	Kumar Daya Shankar	Vibhishan Prasad Gupta	Vill.-Mahammadpur, P.O.-Bhoraha, P.S.-Panapur, Distt.-Saran (Chhapra) 841424	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	23.09.2020	33745			
207863	Kumar Dragesh	Sri Preetam Singh	Bhawani Pur Gaddo, Post-Aurangabad, Tehsil-Chandpur, Bijnor	BHMS	30.06.2012	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	20.06.2013	H032677			
207864	Kumar Gunjan	Jay Mangal Thakur	Vill.-Rain Bishuni, P.O.-Rain Sankar, P.S.-Runni Saidpur, Distt.-Sitamarhi, Bihar-843328	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	22.09.2020	33714			
207865	Kumar Narendra	Rajendra Prasad	Kanhai Nagar, 3No. Bus Stand, Kaushalya Niwas, Nawada, Bihar-805110	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33669			
207866	Kumar Ram Lakhan	Sudama Kumar	C/o. Manisha Adhikary, 9/10, Mondal Para Bihari Mondal Road, S.O-Haltu, Kolkata - 700078	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32759			
207867	Kumar Rupesh	Prem Kumar	At & Post-Parihara, P.S.-Bakhri, Distt.-Begusarai, Bihar-851225	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.09.2019	33139			
207868	Kumar Santosh	Shobhi Rajak	Sakunat Kalan, P.O. & P.S.-Bihar Sharif, Nalanda, Bihar	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.09.2019	33142			
207869	Kumar Satyendra	Lt. Mukhlal Prasad	Vill.-Dhum Nagar Kachahari Tola, P.O.-Dhum Nagar, P.S.-Nautan, Dist-West Champaran, Bihar-845438	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33668			
207870	Kumar Shailendra	Sri Shiv Poojan Ram	Raj Eye Clinic Near Bus Stand Meahnagar, Azamgarh	BHMS	04.12.2012	Guru Ravidas Ayurved University, Punjab	Uttar Pradesh	06.09.2013	H033216			
207871	Kumar Sudhir	Sri Bhola Ram	Janta Clinic, Gejha Road, Bhangel, Noida, Gautam Budh Nagar	BHMS	14.09.2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	01.04.2013	H032480			
207872	Kumar Sumit	Sh. Prem Singh	E-23, Harijan Basti, Block-E, Kondli Delhi-110096	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5754			
207873	Kumar Sunil	Dayaram	Vill.-Basupur, Post-Adhanpur, Teh-Shahganj, Distt.-Jaunpur, U.P.-223102	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Uttar Pradesh	01.11.2019	H038803			

207874	Kumar Taanish	Sh. Hari Ballabh Kumar	A-156, Weavers Colony, Ashok Vihar Ph-IV, Delhi-110052	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5769			
207875	Kumar Tunna	Sri Nagendra Sharma	At.-Ambika Nagar, Laxman Chowk, Motihari	BHMS	2018	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	23.07.2018	32715			
207876	Kumar Vikash	Bharat Thakur	Vill.-Sirsa Balli, P.O.-Saray Box, Distt.-Chapra, Bihar-841311	BHMS	2015	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	04.02.2016	31852			
207877	Kumar Vikram	Umesh Kumar Singh	At-Goushnagar, P.O.-Hasana, P.S.-Gayghat, Distt.-Muzaffarpur, Bihar-843103	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.09.2019	33092			
207878	Kumari Anjali	Awadh Kishor Singh	Bajrangpuri, Nahar Road, Gulzarbagh, Patna	BHMS	2018	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	19.07.2018	32701			
207879	Kumari Bhawna	Abhay Kumar Singh	Vill.-Gangaur, Post-Olapur Gangaur, Dist.-Khagaria, Bihar-851204	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.09.2019	33136			
207880	Kumari Binni	Balmiki Prasad	C/o. Umayer Ahammed, Vill+P.O.-Harhari, Dist-Murshidabad, PIN-742226	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32574			
207881	Kumari Chintamani	Kulbansh Singh	Vill.-Jamodi Tola, P.S.-Nadava, P.S.-Natwar, Distt.-Rohtas, Bihar	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	27.09.2019	33280			
207882	Kumari Nibha	Sh. Mukesh Kumar	House No. 139A, Katwaria Sarai Hauz Khas, Delhi-110016	BHMS	2012	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	04.08.2020	BHSD/5687			
207883	Kumari Nidhi	Rakesh Prasad Srivastwa	Weaker Section-1/7, Yashoda Devi Path, Lohia Nagar, Kankarbagh, Patna-800020	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	24.09.2019	33239			
207884	Kumari Rinki	Lt. Dindayal Prasad	C/o Shailendra Kumar, Paswan Chowk, Gandhi Nagar, Jehanabad, Bihar-804408	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	07.08.2019	32954			
207885	Kumari Rinku	Shyam Sundar Prasad	Vill. & Post-Pataura West Tola Motihari, Dist.-E. Champaran, P.S.-Muffsil Motihari, Bihar-845401	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	22.09.2020	33712			
207886	Kumari Roshni	Chandramani Singh	Ward No.-5, Miyan Toli, Khusrupur, Patna, Bihar-803202	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	13.08.2019	32986			
207887	Kumari Rubi	Sahagird Manjhi	At & Post-Tarwara, P.S.-GB Nagar, Distt.-Siwan, Bihar-841506	BHMS	2017	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	11.02.2017	32050			
207888	Kumari Ruchi	Laxmi Shankar	D/o Laxmi Shankar, At-New Lal Medical Store, House No.-62, New Dillian, Dehri on Sone, Distt.-Rohtas, Bihar-821307	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33704			
207889	Kumari Sabita	Lt. Sahdeo Pandit	Safipur Khusrupur, Patna, Bihar-803202	BHMS	2018	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	13.07.2018	32686			

207890	Kumari Sangita	Shyam Sundar Prasad	Vill.-Pataura West Tola Motihari, E-Champaran, P.O.-Pataura, P.S.-Mufsil Motihari, Bihar-845401	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	22.09.2020	33713			
207891	Kumud Lata	Jagdish Chandra Sinha	Vill.-Bishwanathpur, P.O.-Aifni, P.S.-Kashichak, Distt.-Nawada	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	07.08.2019	32936			
207892	Kundu Nabanita	Ramprasad Kundu	Vill+P.O-Badanganj, Dist-Hooghly, PIN-712122	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32635			
207893	Kundu Sarthak	Sujit Kundu	Narayanpur NBSTC Bus Stand Balurghat, Dakshin Dinajpur, PIN-733101	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	13.05.2019	32536			
207894	Kuruvila Sebastian	V.D. Sebastian	Vazhuthanapillil (House), Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12229			
207895	Kusumam Susan Mani	Mani Abraham	Thamarasseril (H), Channanikkadu P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.04.2016	11234			
207896	Lachu S. Mohan	Mohanan D.	Charuvila Veedu, Edamulackal P.O., Anchal, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.04.2016	11238			
207897	Lailabi Pookkuth	Abdul Kareem P.	Pookkuth (H), Poolappeese, Oorakam, Melmuri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	10.05.2017	11877			
207898	Lakshmi A. Menon	Anilkumar Menon	Lakshmi, PKRA-41, Pavamkulangara Road, Thekkumbhagam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11494			
207899	Lakshmi Muraleedharan Perathara	Muraleedharan P.	Perathara House, Pariyapuram P.O., Tanur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13162			
207900	Lakshmi R. Nair	P.U. Radhakrishnan	Lakshmeeka, Illathu Nagar, Palluruthy, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11046			
207901	Lakshmi Raj P.R.	K.V. Raju	Indheevaram (H), Kollamparambu Lane, Elamakara P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11094			
207902	Lakshmy P.	P.K. Prakashan	Chaithram (H), Maradu P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11207			
207903	Lakshmy Priya E.S.	Suresh Babu E.A.	Erumathuruthy (H), Vellangallur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	06.03.2017	11775			
207904	Lakshmypriya T.M.	Mani T.K.	Thekkedath Kalarikkal (House), Plot No. 38, KSHB Colony, South Chalakkudy, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.01.2018	12405			
207905	Lalchandama Daniel	H. Thanghira (L)	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O.-Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	30.05.2019	32542			

207906	Laldingpuii Ruthi	Vanlalliana	C/o. Asit Kumar De, Kaushallya, Kharagpur, Dist- West Midnapore, PIN-721301	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32748			
207907	Lali R.	Ravi Raj	Lalu Nilayam, Paliyodu, Kottackal P.O., Neyyattinkara, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11184			
207908	Lalita	Sh. Sultan Singh	H.No.G-22/229GF,Block-G PKT-22 Rohini Sector-7 Delhi-110085	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	05.01.2021	BHSD/5804			
207909	Lalthasanga	C. Lalfakzuala	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01. P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32621			
207910	Lammeesa K.C.	Chekku K.C.	Kuruvachalil House, Kakkallur P.O., Balussery, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	12.10.2018	12914			
207911	Lanumenla	Rendinukshi	H. No-98, Lengrijan dimapur Nagaland 797112	BHMS	2019	Srimanta Sankara Deva University of Health Science Guwahati Assam	Nagaland	09.10.2019	123			
207912	Lasima Hyderali A.P.	Hyderali	Cholakal House, Padakkalipparambu, Thiruvalli, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12434			
207913	Laskar Safique Ahmed	Liaquat Ali Laskar	Vill-Amraberia,P.O-Dhalirbati, Dist-South 24 Parganas, Pin-743329	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32462			
207914	Latha Thomas	Thomas T.T.	Thekketheruvil House, Chokkad P.O., Nilambur Road, Distt.-Malappuram Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12238			
207915	Lavanya S. Pinky	Sanal Kumar D.V.	Sivamaya Mandiram, T.K.M.C. P.O., Karicode, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11975			
207916	Laya P. Surendran	Surendran	Puthupparambil (House), Malayampadi P.O., Kelakam, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	20.07.2018	12621			
207917	Layamol P.L.	Lalappan P.M.	Puthenpurackal, Kattoor P.O., Omanappuzha, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13034			
207918	Layana Backer	Aboobacker	Valiyaveetil (House), Kallor P.O., Vadakkekad (Via), Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2017	12276			
207919	Leena A. Khader	K.K. Abdul Khader	Kummalil Kutikattil House, Darusalam, Kolamangalam, Valancheri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11193			
207920	Lekha M.S.	Sreekumar M.A.	Prasanth House, Edathara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	20.07.2019	13211			
207921	Lekshmi B.V.	Bhasi K.	Chempakam, Nedungodu, Keezharoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.07.2016	11373			

207922	Lekshmi Dev M.	V. Viswadev	Vilayil Mangalam, Chittayam, Inchavila, Perinad P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.08.2017	12074			
207923	Lekshmi L.	P. Sreekumaran Nair	Mele Kalathattu, Puthan Veedu, Anachal, Kulavarambu, Thalalayal, Aralummoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13174			
207924	Lekshmi R.	Vasukuttan Pillai T.C.	Kamalalayam, Thamallackal P.O., Haripad, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2016	11556			
207925	Lekshmi S.	Pradeep Kumar P.N.	Lekshmi Nivas, Cherusseri Bhagom, Chavara P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12423			
207926	Lekshmi Thyagarajan	Thyagarajan V.	Chithira, Thazhathu Vadakku P.O., Pattazhy (North), Enath (Via), Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12593			
207927	Lekshmy Priya P.	Prasanna Kumar K.G.	Prasanna Vilasam, Kuttoor P.O., Thiruvalla, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	17.06.2015	10860			
207928	Lemiz K. Backer	Aboobacker K.M.	Karuthalil House, Nannamukku P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.04.2017	11833			
207929	Lewanki Langstang	Shri R. Lyngdoh	Sohkymphor, East Jaintia Hills	BHMS	14.05.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	07.07.2020	480			
207930	Lia Susan Abraham	T. Abraham Vaidhyan	A 2, Vaidya Bhavan Apartments, Manayilkulangara, Thirumullavaram P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2018	12778			
207931	Liansangzuali Geri	H. Laldawngliana	Shatabdi Nagar (Ismail) Netajinagar, Asansol, Hirapur, Dist-Burdwan 713301	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32445			
207932	Libi Mary K.B.	Benavanthura K.G.	Kattiparampil (H), Velankanny Bhavan, Parumala P.O., Mannar Via, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11017			
207933	Libin Job	V. Job	11/169 A (Old)/11/317 (New), Thundiyl, Cheeranchira P.O., Changanacherry, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Sardar Patel University	Kerala	16.06.2018	12515			
207934	Libina Sugathan	Sugathan D.	Rose Villa, Puthuparambil Padi, Vazhamuttom East P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11290			
207935	Lidiya Mary Jose	Josy Thomas V.	Vathalloor House, Kuruvilassery P.O., Mala, Distt.-Thirissur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	31.01.2016	11052			
207936	Lidiya Merlinrose S.R.	Stalsingrose J.R.	Rose Hut, Anakkarakonam, Uriyacode P.O., Velland (Via), Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12353			

207937	Lidiya T.A.	Aboobacker T.P.	Thazhath House, Manathala, Chavakkad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.08.2017	12113			
207938	Liji C.O.	Ouseph C.T.	St. Ann's Convent, Munambam, Pallipport P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12899			
207939	Lijin L.R.	Lenin G.	Lenin Bhavan, Murunthal-B, Perinadu P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	05.08.2017	12099			
207940	Lijina P.V.	Balan T.	Lijina Nivas, Parappoil, Mattannur P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12747			
207941	Liniya T.B.	Beeru B.	Thoppukadavil (H), Nochimanad P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	02.05.2016	11265			
207942	Linto Abraham	Abraham P.T.	Puthuparampil, Manimaruthumchal, Neriamangalam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	06.01.2018	12400			
207943	Lintu Rani Scaria	Scaria George	Pulickakunnel (House), Mattuthavalam P.O., Mattuthavalam, Upputhara, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.07.2019	13205			
207944	Linu Wilson	Wilson K.T.	Kannanthanathu (House), Pallikuthu P.O., Chungathara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12687			
207945	Lirenthung. B Khuvung	Y. Bichamo Khuvung	H. No - 90 Sankiton Village Wokha, Nagaland 797111	BHMS	2013	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	10.05.2018	105			
207946	Liya E.M.	Prakasan E.M.	Elamana Marakadath (H), Pantheerankave P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	01.04.2016	11197			
207947	Lorenbeni Z Jungio	Zanbenthung Jungio	Post Box 80 N.S.T. Colony Wokha 797111 Nagaland	BHMS	2013	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	13.11.2018	111			
207948	Loreni. C. Ezung	Chichamo Ezung	H.No-52 Vungoju Wokha Nagaland-797112	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	01.05.2019	117			
207949	Lovely	Sh. Rajesh Kumar	C-122, Samta Enclave, Qutub Vihar Phase-1, New Delhi-110071	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	10.09.2020	BHSD/5779			
207950	Lovna S.P.	S.R. Prema Kumar	Varuvilakathu Puthan Veedu, Puthankanam Kattchalkuzhi P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	15.04.2016	11225			
207951	Lulu Elizabeth	T.T. Philip	Thadathil (House), Kottamala P.O., Narkkilakkad, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12233			
207952	Lulu Kadeeja	Abdul Kader P.	Pandarathi House, Manathala, Chavakkad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.08.2016	11443			

207953	M. Akkillasuya	T. Mariyasusai	555, Mallika Arjunam Nagar, Ariyakudi Main Road Ariyakudi, Karaikkudi-Sivaganga, Distt.-Tamilnadu 630202	BHMS	2018	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	10.07.2018	6104			
207954	M. Gnnana Prakasham	Muthukamu	Mangat Building, Building No.-525, Ward-05, S.Puram, Kurichy Village, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2006	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	07.03.2019	13066			
207955	Maahila Raniya P.	Moideen Kutty P.	Pookkadan House, Valluvambram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12119			
207956	Maanasi Krishnaraj	Radhakrishnan A.K.	Arackal (House), Pothanicad, Pothanicad P.O., Kothamangalam, Distt.-Emakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.12.2017	12360			
207957	Maby James	James C.V.	Holy Trinity Convent, Kolazhy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.07.2015	10871			
207958	Madhuri	Sh. Lal Babu Prasad	H. No. 128B, Gali No. 7, DCM Colony Ibrahimipur Extension, New Delhi-36	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5664			
207959	Madhuri Mohan	I. Mohanakumar	Mohanam, House No:160, Palace Nagar, Thevally P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10847			
207960	Mahapatra Shilpi	Barid Baran Mahapatra	Vill-Bhagwanpur, P.O-Mangalamaro, Dist-Purba Medinipur, PIN-721434	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32507			
207961	Maharban K.M.	Hydress Master	Kakkamoolakkal House, Perimbalam P.O., Munduparamba Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.10.2016	11550			
207962	Mahata Debasis	Biren Mahata	Vill-Gaighata,P.O-Jhargram, Dist-Jhargram, PIN-721507	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32482			
207963	Mahata Sourav	Sarat Mahata	Vill+P.O-Manikpara, P.S+Dist-Jhargram, PIN-721513	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32749			
207964	Mahesh Menon N.T.	Girish K.P.	Nandanam, Behind Carmel School, Kallippadam, Shoranur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2019	13288			
207965	Mahesh P.D.	Dineshan P.D.	Punnaniilkunnathil (House), Gurunathanmannu P.O., Mundanpara, Seethathode, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12619			
207966	Mahfooz Hassan K.V.	Zubair C.P.M.	Emboo's, 26/365, Kunnikottu Paramba, Kallai P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.08.2017	12076			
207967	Mahida Farhana A.	Abdul Javad	Vadyssalam (H), Azhicode P.O., Nedumangadu, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	29.11.2016	11611			

207968	Mahima Susan Joseph	Joseph Mathew	Kabitha, Chennerkara P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2015	10928			
207969	Mahjabeen P.P.	Abdul Rahman P.P.	Vappan Kulangara Purayil (House), Chalipparamb, Chelembra, Pulliparamba P.O., Dist.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.11.2017	12300			
207970	Mahour Pratibha	Sh. Suresh Chandra Mahour	144, Type-III, Delhi Administration Flats, Karkardooma, Delhi-92	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5753			
207971	Mahroofa K.M.	Abdul Kareem K.M.	Kiliyamannil House, Parakkal, Vadakkemanna, Kodur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	21.12.2018	12988			
207972	Mahsheena K.	Abu C.	Kuyodiylil (H), Manipuram P.O., Koduvally, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	05.04.2016	11208			
207973	Maimoona G.K.	Muhammed Yoosaf	Amdaf Ghar (House), East Kadirur P.O., Kadirur, Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12236			
207974	Maiti Bishnu Prasad	Haripada Maiti	Vill-Bardai, P.O-Uparjagatpur, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721424	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32739			
207975	Maiti Trisha	Maiti Subrata	Vill-Santipur, P.O-Mechada, Dist-Purba Medinipur, Pin-721137	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32485			
207976	Maity Animesh	Anil Maity	Vill+P.O-Keshiapata, Dist-West Midnapore, PIN-721135	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32683			
207977	Maity Nitai Chand	Kanai Lal Maity	Vill-Talda, P.O-Chandkuri, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721467	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.12.2019	32785			
207978	Maity Rituparna	Chandan Maity	Vill+P.O-Khajutty, Howrah, PIN-711303	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32610			
207979	Maity Soumya Kanta	Sitikantha Maiti	Vill+P.O-Basudeberria, Dist-Purba Medinipur, PIN-721444	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32666			
207980	Maji Souma	Sunil Maji	Vill+P.O-Fatepur, Dist-South 24 Parganas, PIN-743513	BHMS	Dec.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	26.12.2019	32789			
207981	Majida Bathool P.	Abdul Khader P.	Parayan Kuzhiyil (House), Kadungapuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12665			
207982	Majida E.	Abdul Razaq E.	Musliyar Kandi House, Varapara, Parambil Peedika P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13033			
207983	Majumdar Shatabdi	Sushanta Kumar Majumdar	Vill-Raghabpur, P.O- Panpara, Dist-Nadia, PIN-741402	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32630			
207984	Majumder Dibya	Sanjib Majumder	C/o. Kamal Chakraborty, Part No. 202, Panihati, North 24 Parganas, PIN-700110	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32704			

207985	Majumder Nabadipa	Samarjit Majumder	C/o. Amaresh Dutta, Ramchandrapur, Panihati, Sodepur, North 24 Parganas, PIN-700110	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32750			
207986	Majumder Puja	Tapan Kanti Majumder	C/o Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01. P.O-Sainthiya, Dist-Birbhum, Pin-731234	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32450			
207987	Malakar Poorva	Sh. P. K. Malakar	H. No. A-123, Kumhar Basti, Village Gharoli, Delhi-110096	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5715			
207988	Maleeha Mahmood K.	Mahmood Ahmed	Koomancheri (H), Thiruvizhamkunnu P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11621			
207989	Malhotra Sakshi	Sh. Ramesh Malhotra	15/105, Geeta Colony, Delhi-31	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5719			
207990	Malik Shivam	Sh. Om Singh Malik	A-47, 48, G. D. Colony, Mayur Vihar Phase-3, Delhi-110096	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5712			
207991	Mallick Gourab	Samir Kumar Mallick	Brojergram Suri, Barabagan Pancherpally, Birbhum, PIN-731103	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32491			
207992	Malu Pradeep	Pradeep E.T.	Erumatharayil (House), Elappara P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12834			
207993	Manasi C.	Vijayakumar C.	Chakkachattil (House), Athavanad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.01.2018	12413			
207994	Manazila P.K.	Moideen Kutty P.K.	Poolankandiyl House, Karanthur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.02.2018	12476			
207995	Mandal Anannya	Dipti Bikash Mandal	Vill+P.O-Purba Dakshin Moyna, Purba Medinipur, PIN-721629	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32698			
207996	Mandal Birendra Kumar	Lt. Amilal Mandal	Vill. & P.O.-Belahi, P.S.-Ladnia, Distt.-Madhubani, Bihar-847227	BHMS	2017	Vinoba Bhawe University, Hazaribag	Bihar	01.10.2020	33871			
207997	Mandal Chittaranjan	Sh. Bhudhar Mandal	H. No.-540,Pocket-B 2,JJ Colony Madan Pur, Khadar New Delhi-110076	BHMS	2018	Bhim Rao Ambedkar University Bihar	Delhi	10.02.2021	BHSD/5809			
207998	Mandal Debarshi	Sunil Kumar Mandal	Arabinda Nagar, Gorkhara, Sonarpur, Kolkata-700150.	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32508			
207999	Mandal Mousami	Bikash Kumar Mandal	Kalyani Simanta, Ward No.5, P.O+P.S-Kalyani, Dist-Nadia, PIN-741235	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32613			
208000	Mandal Partha Pratim	Prashanta Kumar Mandal	Purba Bankimpally, Madhyam Gram-22, Barasat, North 24 Parganas, PIN-700129	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32654			
208001	Mandal Partha Pratim	Prashanta Kumar Mandal	Purba Bankimpally, Madhyamgram-22, Barasat, North 24 Parganas 700129	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32654			
208002	Mandal Sunita	Santosh Kumar Mandal	Vill+P.O-Manmathanagar, South 24 Parganas, PIN-743370	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32717			

208003	Maneesha G.	Guruvayoorappan A.	Flat No. Quarters No. 2/3, Kap 2nd BN, Muttikulangara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.10.2016	11544			
208004	Maneesha Sundar P.D.	Premasundaran T.	Thrikarthika House, Ambalappady, Wandoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The West Bengal University of Health Sciences	Kerala	04.12.2018	12974			
208005	Mangala S. Menon	P.N. Sankara Menon	Amma, Thekkemudavakkattil, Kanjirampallam Road, Ayyanthole P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.11.2018	12949			
208006	Mangotra Priyanka	Sh. Mulk Raj Mangotra	41A, G-Block, Gali No. 1, Som Bazar Road, Raja Puri, New Delhi-110059	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5766			
208007	Manisha	Sh. Shyam Sunder	A-44, Bapu Park, Kotla Mubarakpur New Delhi-110003	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5734			
208008	Manisha	Sh. Mahipal Singh	107, Sector-5, R. K. Puram, New Delhi-110022	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5737			
208009	Manjima A.V.	Vijayan A.M.	Manjith Vihar, Punnakulangara, Kanul P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10846			
208010	Manju Mathew	K.U. Mathai	Kalathunkal House, Kanichar P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10843			
208011	Manjusha A.	Velayudhan S.	Manoj Bhavan, Keleswaram, Kalliyoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11520			
208012	Manjusha M.	Manoharan M.	Melepurakkadan Kandi (H), Nellikode P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	14.12.2015	10975			
208013	Manjusha S. Mohan	J. Mohanan	Thiruvathira, Parvatheepuram Gramom, Attingal P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11646			
208014	Manna Trisha	Tapan Manna	31, Sukanta Park, P.O.-I.S.I., North 24 Parganas, PIN-700108	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32612			
208015	Mansi	Sh. Bhupender Bhargav	K-435A, Street No. 12, Mahipalpur New Delhi-110037	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5711			
208016	Mansoor Ali K.K.	Aboobacker K.K.	Ottathengil, A.R. Nagar P.O., Chendappuraya, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11288			
208017	Manu Chandran K.C.	Chandran	Kannanthara House, Cheranellore P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.02.2017	11752			
208018	Manu Narayanan M.	Muralidharan M.	Moothedath Mana, Mattarakkal P.O., Thazhekode Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	11.07.2016	11347			
208019	Manuja Mohan	Mohanan T.N.	Thakidiyil House, Anickad East P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10799			

208020	Margret Mary Jose	Jose A.P.	Attokaran House, Maroudeesho Road, Kuriachira P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11139			
208021	Maria Johnson	Johnson K. Paulose	Kurisunkal House, Factory Road, Telephone Exchange, North Kalamassery, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12732			
208022	Mariya Benny	Benny V.V.	Vaniyamkadu (House), Mannamthuruth, Varapuzha P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12714			
208023	Mariya K.R.	Raju Joseph	Kavungal Veedu, Kallamoola, Mambattumoola P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11637			
208024	Mariyam Hamza	Hamza P.K.	Nedumparambil House, Palayoor, Chavakkad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.08.2016	11427			
208025	Mariyam Sana Sahir	C.K. Mohammed Sahir	Karakootathil (H), Perumpadappur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2017	11786			
208026	Mariyam Zainab	P.K. Ashruf	Pallivectil (H), Mundakkayam P.O., Mundakkayam, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.04.2016	11230			
208027	Marjana M.	M. Mohamed Rafi	Dahlia (House), 22nd Miles, Mullampara Road, Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.12.2017	12328			
208028	Marseena Ahamed	Ahamed K.P.	Shaherzad House, Mokeri P.O., Kakkattil (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	02.07.2015	10865			
208029	Marufa Mubassira	Nowab Ali Molla	Vill-South Bamunia, P.O-B-Chaltaberia, Dist-South 24 Parganas, PIN-743502	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32737			
208030	Mary Princy Paul	Paul A.J.	Arattukulangara House, Kattoor P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12344			
208031	Mary Sneha P.R.	P.J. Raphael	Puthamparambil House, Varu Vayyar Road, Moolamkuzhy, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.05.2017	11863			
208032	Maryam Wajiha	Md. Abdul Mannan	C-35, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-25	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5776			
208033	Mashida K.	Moidunni K.	Kozhikkal (H), Kozhichena, Valakulam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	16.02.2016	11072			
208034	Mathew Jacob	Jacob	Kadungamparambil (H), Cheriya Kadavu, Kannamaly P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.12.2016	11641			
208035	Maurya Sanjay	Sh. Rajinder Maurya	R-838, Raghurib Nagar, New Delhi-27	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5752			

208036	Maya Devi M.	Mohanan	Manu Mandiram, Kidangayam, Kannimel, North Mynagappally P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2016	11552			
208037	Maya Gokulan	Gokulan Damodaran	Maya', Vengara P.O., Pazhayangadi, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2018	12633			
208038	Maya P.	Pushpangadhan D.	Karthika, Koonayil, Paravur P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13056			
208039	Md. Shabbir Akhtar	Md. Shamim Akhtar	Moh.-Khalasi, P.O.+P.S.-Jhajha, Dist.- Jamui, Bihar-811308	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33694			
208040	Mebanpyntngen Rani	Shri H.F. Khongsit	Pohktieh Nongthymmai, Shillong	BHMS	01.05.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Banglore	Meghalaya	10.08.2020	482			
208041	Mebashynna Lyngdoh Mawlong	Shri W. Lyngdoh Nongrang	Mairang, Mission, West Khasi Hills	BHMS	22.10.2020	The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Meghalaya	25.02.2021	507			
208042	Medda Rudra Prasad	Bhabani Prasad Medda	242/A, N.S. Road, Mallickbagan, P.O- Sheoraphuli, Dist-Hooghly, PIN- 712223	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32678			
208043	Medha S.	Sanalkumar N.	Malayude Kizhakkethil, Elavumthitta P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11926			
208044	Meena Alka	Sh. Rohitash Meena	490, Flat Numbers Shree. Awas Appartment, Sector-18B, Dwarka New Delhi-110078	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/ 5746			
208045	Meena Archana	G.S. Meena	A-302, DDA Flats, Block A, Tower Height Apartment, Pitampura, Delhi- 34	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	26.09.2019	BHSD/ 5594			
208046	Meena Gulab Singh	Jagdish Chandra Meena	401, Vyanktesh Vihar, Chhota Bagdada, Distt.-Indore, M.P.-452005	BHMS	2019	Devi Ahilya University, Indore	Madhya Pradesh	10.10.2019	24947			
208047	Meenu Maria Mathew	P.D. Mathew	Puthussery House, Kothakulangara, Narakal P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2018	12780			
208048	Meenu N.B.	Babu N.K.	Naliyat House, Panangad P.O., Kodungallur, Distt.-Thirissur, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10800			
208049	Meenukrishna S.	T. Krishnakumar	Kunnathu Mele Veedu, Valiyakattackal, Venjaramoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.06.2018	12540			
208050	Meenumol V.M.	Mohanan V.N.	Vennithakidiyil House, Manceed P.O., Piravom, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13137			
208051	Meera Gopi	Gopi V.N.	Valupurayidathil, Kollakadavu P.O., Kollakadavu, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.08.2016	11406			

208052	Meera K.K.	Krishnan K.K.	Kakkattil (H), Vadayampady P.O., Puthencruz Via, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11356			
208053	Meera Mohan	M.S.M. Mohan	Kesaveeyam, Haripad P.O., Karthikapalli Taluk, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10936			
208054	Meera Reghu	Reghu Raman	Bodhi', Karuvallikunnu, Moolankavu P.O., Sulthan Bathery, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13405			
208055	Meera Saseendran	Saseendran K.	Vadakepurackal, Pullangady P.O., Chambakulam, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12150			
208056	Megha Joseph	Joseph P.F.	Parekkattil House, Kottapuram P.O., Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13037			
208057	Megha K.A.	Ajaya Ghosh K.V.	Koonath House, Nannammukku P.O., Changaramkulam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12674			
208058	Megha Thampi	Thampi V.M.	Padath House, Kandanad P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12539			
208059	Megha Theres B.	Benjamin	Ullattil (House), Neyyassery P.O., Karimanoor, Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	06.12.2017	12326			
208060	Mehith V.	A.K. Mukundan Nair	Sreekrishna Mandir (House), Cheeleode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10786			
208061	Mehmood Ifat	Mr. Mehmood Hussain	House No. 501 Block D Jahangir Puri Delhi -110033	BHMS	2018	Bhim Rao Ambedkar University Bihar	Delhi	05.03.2021	BHSD/5817			
208062	Mehta Avni	Sh. Anil Kumar Mehta	Block MU H. No. 20-B, LIG Flats Pitampura, Delhi-110034	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5721			
208063	Mehta Rachana Jagdeep	Jagdeep V. Mehta	Mahima, Star Homes, Allied College Road, Manissery, Ottapalam, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2004	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Kerala	06.05.2019	13109			
208064	Mekaru Passah	Shri R. Mui Pakma	Panaliar, Jowai, West Jaintia Hills	BHMS	07.05.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	03.08.2020	481			
208065	Meljo Abraham	Abraham Michael	Poovathanickal House, Poonjar P.O., Panachipara, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12541			
208066	Merin Alex	Alex Mathew	Kanthappallil House, Ayroor North P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11128			
208067	Merlina Juliet M.	Michael K.S.	Geetham (H), Chalumpatil Paramba, Marikunnu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.08.2016	11401			
208068	Merlymol Antony	Antony	Sanjos Provincial, House, Nellickampoil, Ulickal P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12162			

208069	Merritta Zacharia	Zacharia P. Paul	Pallickal House, Nazareth Nagar, N.N. 314, Angamaly, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11939			
208070	Mesetsho-U Wetsh	Neitsaulo Wetsh	Vill-Kami Pfutero Phek Nagaland 797108	BHMS	2017	Srimanta Sankara Deva University of Health Science Guwahati Assam	Nagaland	07.03.2018	104			
208071	Middya Ramjan Ali	Rafique Middya	Vill+P.O-Lauhati, Via-Rajarhat,North 24 Parganas, PIN-700135	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	14.01.2020	32792			
208072	Midhila M.C.	Sankaran M.C.	Moochikkachalil (H), Cherumuttem, Valiyaparamba P.O., Pulikkal Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	21.03.2016	11161			
208073	Midhu Ittiachen K.	Ittiachen Kinattingal	Kinattingal House, Kaizen, Pattalakinar Road, Chiyaram P.O., Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	25.10.2017	12283			
208074	Midhu Mathew	Mathew V.T.	Vakkaparambil (H), Mananthavady P.O., Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11096			
208075	Midhu Sasikumar	Sasikumar P.S.	Radha Nivas, Valara P.O., Adimaly, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.04.2017	11832			
208076	Midhun Jose	Jose K.P.	Konattu House, Thokkupara P.O., Kunjithanny, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12686			
208077	Midhun Madhavan	Madhavan	Pulickakunnel (H), Vannappuram P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	16.11.2015	10958			
208078	Midhun Mohan K.M.	Mohandas K.P.	Kizhakkepalakkath (H), Konathukunnu P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11003			
208079	Midhuna T.S.	S. Thilakakumar	Gokulam, Mamoodu, Chandanathope P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11968			
208080	Miliemol Maria Punnoose	Punnoose C.J.	Chaliachan House, 24/1056, Vattamakkal, Mundaveli P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12799			
208081	Min Mary Jose	Jose Varghese	Thachil (H), Near East Church, ACN 3rd Street, Angamaly, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11078			
208082	Mini Shadap	(L) Shri J. Lamurong	Mookhain, East Jaintia Hills	BHMS	27.04.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	11.01.2021	497			
208083	Minsha Mohan	N. Mohanan	Minsha Nivas House, Ambalachal, Kanniyambetta P.O., Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12967			
208084	Minsy Thasneem N.P.	Mohammed Ali N.P.	Ummathas', V.K. House, Moduvungal, Chettipadi P.O., Parappanangadi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2017	11788			

208085	Minu Jayaraj	Jayaraj C.B.	Minuvika', P.R.R.A.-52, S.N. Nair Lane, Ponoth Road, Kaloore, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11283			
208086	Minu Mol Thoppil	T.P. Unnikrishnan	Thoppil House, Unity Road, Elthuruth P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11129			
208087	Minu Paul	Polly K.P.	Kalaparmbil House, Sanjo Nagar, Kinfra Park P.O., Muringur Vadakkummuri, Koratty, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10901			
208088	Minu Sebastian	V.S. Sebastian	Thannikkamattathil (House), Sankarampady P.O., Paduppu, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.10.2018	12905			
208089	Mir Umayer Ahammed	Mir Zubdatul Arefin	Vill & P.O.-Harhari, P.S.-Sagardighi, Distt.-Murshidabad, West Bengal-742226	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32644			
208090	Mirshana Latheef	M. Abdul Latheef	Moodambail House, Thekkil P.O., Chengala, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	12.01.2018	12441			
208091	Mirza Saddam	Manglu Mirza	Vill+P.O.-Maligram, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721140	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32577			
208092	Mishra Chhavi	Sh. Chitra Dhar Mishra	Janta Flats H. No. 10, Group-1 Hastsal, Uttam Nagar, New Delhi-59	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	31.07.2020	BHSD/5683			
208093	Mishra Lalit Mohan	Sri Pooran Mal Mishra	43/478/96-97, Radha Nagar Colony Sikandra, Agra	BHMS	08.09.2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	03.10.2013	H033353			
208094	Mishra Pramod Kumar	Dayashankar Mishra	Bakerganj, Laheria Sarai, Darbhanga	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	18.10.2019	33365			
208095	Mishra Pratima	Arjun Prasad Mishra	14/569, Indira Nagar Lucknow Uttar Pradesh-226015	BHMS	2019	Barkatullah University, Bhopal	Uttar Pradesh	05.03.2020	H-039004			
208096	Mishra Ruby	Shiv Chandra Mishra	Vill+P.O.-Malaya, Dist-South 24 Parganas, PIN-743399	BHMS	Nov.-2012	Vinoba Bhave University, Hazaribag	West Bengal	20.06.2019	32547			
208097	Mishra Shanta	Sh. Vivekanand Mishra	Rz-105, Nehru Garden Colony, New Roshan Pura, Najafgarh, New Delhi-110043	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	17.08.2020	BHSD/5698			
208098	Mishra Uttam	Kanan Mishra	Vill-Soulam P.O-Hatsarberia, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721146	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32592			
208099	Misiriya O.P.	Hassainar O.P.	Oduparayil (H), Anayoor P.O., Pattambi Via, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10951			
208100	Misna Linad C.P.	C.P. Mohammed	Cheruvathu Poyil (House), Unnikulam P.O., Poonoor, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12201			
208101	Mitha Antony	Antony K.K.	Kalaparambath (House), Poovathussery P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12017			

208102	Mithuna K.V.	Mohandas E.P.	26/256-7A, Near Kovil Veettil, Kommeri P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.07.2017	11912			
208103	Mittal Manvi	Sh. Madan Mittal	A-2/67a, Block A2, Keshav Puram Delhi-110035	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5717			
208104	Mittu B.S.	Bhasi N.	Anakuzhi Code House, Vellarada P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12394			
208105	Moarenla	Noklennungang	H. No - 505 Mongsen Ungma B-Khel Mokokchung 798601	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	21.02.2018	101			
208106	Mohamed Ramees Sabu C.K.	Mohamed Haneefa C.K.	Chelakodan (H), Angadipuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.04.2016	11232			
208107	Mohammad Altmas Rahis	Mohammad Rahis	Naguno Chak Shop Ke Pass, House No. 1559/40/A, Bande Nawaz Nagar, Near Yadav Nagar, Nagpur, Maharashtra-440026	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	12.10.2019	33319			
208108	Mohammed Fasil K.	Ummer K.	Karuppam Veetil, Karappoyil, Marikkunnu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	14.03.2017	11805			
208109	Mohammed Irshad	Abdul Majeed	Darul Huda, Njattara Junction, Near Parambi Mukku, Vadakkumthala East P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.08.2019	13357			
208110	Mohammed Irshad P.	Yoosaf P.	Pappat Valappil (House), Kachinikkad, Makkaraparamba P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12392			
208111	Mohammed Nabeel K.T.	Moideenkoya K.T.	House No. 9/136, 'Hafsan' House, Kuthukallu Road, Mathottam, Arakkinar P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.09.2018	12827			
208112	Mohammed Rajeb M.	Mohamed Badhusa	Paruthi Thoppu Puthen Veedu, Balaramapuram P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13175			
208113	Mohammed Shafeeqe M.M.	Mohammed M.M.	Mullanmadakkal House, Karkidam Kunnu P.O., Alanallur Via, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12691			
208114	Mohanta Aditi	Buddhadeb Mohanta	Tehatta-Nadia, P.O-Tehatta, Dist-Nadia, PIN-741160	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32688			
208115	Mohita Tashnim	Md. Akbar Ali Molla	Vill- Laugachi, P.O-Ghoshpur, Dist-North 24 Parganas, PIN-743502	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32496			
208116	Mohitha P. Raj	C. Rajan	Suraj Homes, Vyapari Bhavan Road, Thiruvilwamala P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11074			

208117	Molla Juthika	Baharul Amin Molla	Vill-Kolia, P.O-Nabagram Sikipur, Dist-Howrah, PIN-711315	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32661			
208118	Mondal Amit Kumar	Sunil Kumar Mondal	Vill-Gontra, P.O-Ghentugachi, Dist-Nadia, PIN-741222	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	27.09.2019	32554			
208119	Mondal Ashabul	Pirboks Mondal	Vill-Goaldanga, P.O-Kalyandaha, Dist-Nadia, PIN-741123	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32650			
208120	Mondal Bibek	Kalu Mondal	Vill+P.O-Sutia, Dist-Nadia, PIN-741103	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32773			
208121	Mondal Bichitra Kumar	Gnanendra Nath Mondal	PG Hostel of National Institute of Homoeopathy, Block-JC, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700098	BHMS	Nov.-2017	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32782			
208122	Mondal Hossain Dilwar	Manarul Hoque	Vill-Chhatumara, P.O-Shyamagar, Dist-Murshidabad, PIN-741156	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32575			
208123	Mondal Mahadev	Arun Mondal	PG Hostel of National Institute of Homoeopathy, Block-JC, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700098	BHMS	Jan-2017	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32783			
208124	Mondal Pallabi	Byomkesh Mondal	Vill-Dihimedan malla, P.O-Dakshin Gobindapur, Dist-South 24 Parganas, PIN-743353	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32721			
208125	Mondal Payel Roy Chowdhury	Suman Mondal	Jotbhim, Hatgacha, South 24 Parganas, PIN-700059	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32527			
208126	Mondal Rimi	Sushil Kumar Mondal	Vill-Kunchli,P.O-K. Gopalpur, Dist-Birbhum, PIN-731204	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32614			
208127	Mondal Rinki	Asit kumar Mondal	Near Tosh House, Jagacha, GIP Colony, Howrah-711112	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32567			
208128	Mondal Sagar	Abdur Rouf Mondal	Iswarigachha, P.O-Baduria, North 24 Parganas, PIN-743401	BHMS	Aug.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32774			
208129	Mondal Sampriti	Ananda Mondal	Vill-Bhogpunga, P.O-Dostipur, Dist-South 24 Parganas, PIN-743504	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32752			
208130	Mondal Sumita	Subhas Mondal	Sonarpur Noapara, Rajpur Sonarpur, South 24 Parganas, PIN-700150	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32738			
208131	Mondal Tuhin Subhra	Atish Chandra Mondal	Vill-Mitrapur, P.O-Kastadanga, Dist-Nadia, PIN-741257	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32486			
208132	Mongkochollen Chang	Chechuba	H. No - 150 Tuensang Village Tuensang Nagaland 798612	BHMS	2013	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	21.07.2020	132			

208133	Monika	Sh. Viram Singh	House No. 605, Pana Pachhiyan Village and Post Office, Chhawla New Delhi-110071	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5713			
208134	Monika	Sh. Dharmanand	P-72/4, Kabul Line, Sadar Bazar Delhi Cantt-110010	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5772			
208135	Monisha M.M.	O.D. Manmadhakumar	Maneesh Vihar, Kumarankary P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.09.2018	12817			
208136	Monu Sai Sangeeth V.S.	Sreekumar M.	Sree Sadan (MCRA-45), Nelligumkku, Thirumullavaram P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2017	12080			
208137	Moomina A.J.	Abdul Khader Jailany P.A.	36/950, Moosariparamba, Thadambattuthazham, Vengeri P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12025			
208138	Moon Mikhita Bindusar	Sh. Bindusar Shankar Moon	B2-202 Type-4 Delhi Govt. Officers Residential Complex Heiderpur Road, Shalimar Bagh Delhi-110088	BHMS	2003	Maharashtra University of Health Sciences Nashik	Delhi	31.12.2020	BHSD/5803			
208139	Mridhula P.S.	Sadeesan P.N.	Ponath House, Sahadharanagar, West Njarackal P.O., Vypin, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.08.2018	12666			
208140	Mrinal Pramanik Kanti	Mukul Krishna Pramanik	Vill.-Mohanpur, P.O.-Chakradhaban, Dist-Purba Medinipur, West Bengal-721152	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32596			
208141	Mrinalini	Sh. Avadhesh Kumar Parashar	B-54, Second Floor, Gali no. 5 Mandawali Unchepar, Delhi-110092	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5725			
208142	Mrudula L.S.	A. Shanmughadas	Sreelekshmy, Thachingal, Aniyoor, Chempazhanthy P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12659			
208143	Mubashira C.	Abdul Khader	Sareena's, Payanchery, Vikas Nagar, Iritty P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11320			
208144	Mubashira K.	Mohamed Abdu Rahman	Kolambil (House), Punnathala P.O., Puthanathani, Chungam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.07.2017	12059			
208145	Mubashira P.	Muhammed Kutty P.	Lakeview (H), Muttichira, Moonniyoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.02.2017	11754			
208146	Mubeena Musthafa M.K.	Musthafa M.K.	Muringakodan (H), Poovathani, Thazekode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11515			
208147	Mubeena P.N.	Musthafa P.N.	Narikkuth House, Thottiyam Para, Pulikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12971			

208148	Mubina Salim	Salim A.	T.C. 49/1124, Malik Manzil, Kalippankulam, Manacaud P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2017	12084			
208149	Mufeeda A.	Muhammadali	Alattil Thazhakuni House, Ayancheri P.O., Thiruvallur (Via), Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2017	12274			
208150	Mufeeda Beegum K.V.	Mohammedali K.V.	Vellat House, West Kadungalloor P.O., Muppathadam Via, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	12.11.2015	10937			
208151	Mufeeda C.P.	Musthafa N.	Al-Falah', Elayavoor Temple Road, Near Badar Masjid, Mundayad P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13461			
208152	Mufeeda Mumtaz K.T.	Hamza K.T.	Koori Mahal (H), Mukkilapeedika, Valanchery P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2016	11156			
208153	Mufsila K.K.	Mohammed Kutty K.K.	Mafaz, Kariparamb, Ugrapuram P.O., Areekode, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.03.2019	13092			
208154	Mufsina P.	Muhammadali P.	Puthiyottil House, Anjolumukku, Naduvannur (Via), Karuvannur (Post), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13063			
208155	Muhamed Gasel C.	Abdul Gafoor C.	Alif (H), Cheriyaakate, Palorathazam, Olavanna P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11336			
208156	Muhammad Basheer Methuvin Nalakath	Abdul Salam M.N.	Methuvin Nalakath, Thirurangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	13.02.2017	11738			
208157	Muhammad Nizar Kambran	Abu K.	Kambran (HO), KM West P.O., AR Nagar (Via), Valakkuda, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.06.2019	13179			
208158	Muhammed Ashraf C.N.	Noordheen Kutty	Olippil Vadakkathil, Kottiyam P.O., Kottiyam, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.08.2019	13257			
208159	Muhammed Basheer K.M.	Muhammed K.C.	Kallingalakath (House), Mullurkara P.O., Vazhakode, Indiraji Road, (Via), Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.08.2018	12763			
208160	Muhammed Farhan T.	Abbas T.	Thottoli (H), Thirurkad P.O., Perinthalmanna, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11287			
208161	Muhammed Fayis C.A.	Muhamed Aliyar C.	Chittethukudy (H), Payyanad P.O., Kuttipara, Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	21.04.2017	11846			
208162	Muhammed K.S.	Saidalavi K.	Kottarath Sayyid, Edayur P.O., Pookattiri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11314			
208163	Muhammed Mahshoom P.	Abdul Razak P.	Palayil (H), Athanikkal, Vallikkunnu P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.03.2017	11820			

208164	Muhammed Minnathullah	P. Muhammed Sadaqathullah	Pottungal House, Kappil P.O., Wandoor Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	04.01.2018	12373			
208165	Muhammed Rashid K.	Kunhabdulla	Parayullathil House, Cheruvannur P.O., Meppayyur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	12.10.2018	12912			
208166	Muhammed Safeer V.	Abu Rahiman P.V.	Viswas Bhavan, College Road, Mattanur, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	26.10.2015	10935			
208167	Muhammed Shijas A.K.	Yoosaf A.K.	Anakkazhavan (House), Porur P.O., Ayanikode, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	30.12.2017	12370			
208168	Muhasifa Fathima M.T.	Hassan M.T.	Maskan (H), Karuvamburam P.O., Manjeri, Mangalasseri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.10.2017	12262			
208169	Muhsina Badruddeen C.	K. Badruddeen	Rayyan, Chana Road, Ponnani, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10858			
208170	Muhsina K.V.	Mohammed Kutty K.V.	Kottela Valappil (House), Alankode P.O., Manthadam, Changaramkulam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.12.2017	12367			
208171	Muhsina K.V.	Alavi K.V.	Kalathil House, Irumbuzhi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12937			
208172	Muhsina Mumthaz	Salim M.	Thushara (H), Avitanallur P.O., Naduvannur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.04.2017	11858			
208173	Muhsina P.	Muhammad	Puthiyottil (H), Paleri Town P.O., Kuttiaady Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Calicut University	Kerala	14.03.2017	11802			
208174	Muhsina Pulikkathodi	Saidalavi P.T.	Pulikkathodi (House), Randathani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.08.2018	12726			
208175	Muhsina Thasnim T.T.	Mohamed	Thottiyil Malakkal House, Cholakkundu, Millompadi, Parappur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	11.06.2015	10826			
208176	Mukherjee Pan Oindrila	Moloy Mukherjee	375, D/3, B.B.D. Road, P.O-Hindmotor, Dist-Hooghly, PIN-712233	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32645			
208177	Mukherjee Rimpa	Biswajit Mukherjee	Vill-Panchra, P.O-Panchra Hat, Dist-Birbhum, PIN-731133	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32457			
208178	Mukherjee Rittika	Gouranga Mukherjee	B-137/5, Ktupts , Kharisha, Purba Medinipore, PIN-721171	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32500			
208179	Mukherjee Suranjana	Pradip Kumar Mukherjee	Purandar Khan Road, Mallikpur, P.O-Malancha Mahinagar, Barupur, South 24 Parganas, PIN-700145	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32649			

208180	Mullick Ahsan Zamil	Md. Abdul Aziz Mullick	Vill-Singjor, P.O-Bhagabatipur, Dist-Hooghly, PIN-712701	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32742			
208181	Mumina A. Samad	Abdul Samad A.	Thenguvila Veedu, Near TCM Co, Elampalloor, Kundara P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.09.2018	12851			
208182	Muneefa Huda P.	Moosa Kutty P.	Pattath House, Velluvangad P.O., Vettikkattiri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11132			
208183	Muneer K.M.	Muhammed K.M.	Koramangalath House, Meppadam P.O., Mampad, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.11.2018	12939			
208184	Muneera K.	Ummer Farooq K.	Kattungal House, Chembankunnu, Kakkoath, Perinthalmanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12106			
208185	Muneesa Muhamed K.	Muhamed K.	Muhammed Manzil, Kodoor P.O., Vadakkemanna, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11110			
208186	Munshi Chanda	Abu Taher Munshi	Vill+P.O-Gopalpur, Dist-North 24 Parganas, PIN-743445	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32719			
208187	Munshida T.P.	Abdul Kareem	Thachuparamban (H), Kunnummal Potty P.O., Narokkavu Via, Edakkara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	20.04.2016	11241			
208188	Murshid M.K.	Abdulkhader M.K.	Vakkat Rayyan, Pullipparamba P.O., Chelembra, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11339			
208189	Murshida B.S.	Mujeebu Rahman T.P.	Shereefa Manzil, Near Post Office, Mattul North P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.07.2018	12637			
208190	Musfira Mahali	M. Abdul Rasheed	49, Dwarik Jungle Lane, Uttarpara Kotrung, Bhadrakali, Hooghly, PIN-712232	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32571			
208191	Musheera K.	Koyakutty K.	Kazhungum Thodan (H), Eleyadath Paramba, Farook College P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	11.07.2016	11350			
208192	Muskan	Sh. Nand Lal	A-542, Chaukhandi, JJ Colony, Tilak Nagar, New Delhi-110018	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5714			
208193	Myanbemo. N. Jungio	Nrisao Jungio	Tsopo Village	BHMS	2013	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	20.07.2020	131			
208194	Naaz Shagufta	Md. Rezaur Rahman	Vill+P.O-Harhari, Dist-Murshidabad, PIN-742226	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32576			

208195	Nabeel U.V.	Muhammed K.V.	U.V. House, Mattool South P.O., Near Government Hospital Mattool, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.08.2016	11400			
208196	Nabeela C.K.	Moidu C.K.	Naseef Manzil, Kodyyura P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2017	11789			
208197	Nabeela T.	Ali T.	Tharayampatt House, Alathiyur P.O., Panchampadi, Tirur-2, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11942			
208198	Nada Raafath K.	Abdurahiman K.	Nawras House, Thurakkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11541			
208199	Nadeeda T.A.	Abdul Kareem	Thottiyil (H), Edathanattukara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.05.2017	11885			
208200	Nadha Alavi T.P.	Alavi T.P.	Thattaruthodi, Poduvannikkavil House, Mattathur P.O., Munambath, Othukkungal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	03.06.2015	10820			
208201	Nadha Jinan	Muhammed Najeeb	Kandan Chathanari House, Kovoov, Medical College, P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13073			
208202	Nadha Mohamed Sadiq	P.P. Mohamed Sadiq	"Kenz", Near Govt. HQ Hospital, Ayikkara, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.11.2018	12956			
208203	Nadhira P.A.	Saidalavi P.A.	Pathyattarappoyil, Vannathody, Chelooopadam, Chelembra P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11740			
208204	Nadira Ummar	Ummar	Mammallyil (H), Ummathur, Parakkadavu P.O., Nadapuram Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	06.03.2017	11774			
208205	Nadiya Ambadi	Noushad Ambadi	Ambadi (H), Kakkad P.O., Tirurangadi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.02.2017	11760			
208206	Naeema K.T.	Abdul Kareem K.T.	Madari Panamkavil House, Thekkumbad, Pandallur, Kadambode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12942			
208207	Naeema Rasheed	Mohammed Rasheed	Valiyaveetil (House), Madavana P.O., Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.01.2018	12459			
208208	Nafeesathunnaseeha K.V.	Abdulhader A/S Kunchimon K.V.	Padinharakam (House), A.K. Road, Ponnani Nagaram, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.08.2017	12187			
208209	Nafiah M.R.	Muhammed Rafeeq	Seena, Pulikalakam, V.K.K. Menon Road, Kallai P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13074			

208210	Naga Sai Kiran Korlapati	K.S.N. Ramanujulu	43-127-23(F4), KL Rao Road, Krishna Hotel Centre, New Ajith Singh Nagar, Vijayawada (Urban), Krishna Dist. Andhra Pradesh-520015	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Andhra Pradesh	01.10.2019	8783/H/2019			
208211	Nahala P.A.	Abdu P.K.	Panachikuzhy (House), Cheruvelikunnu, Mudickal P.O., Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12237			
208212	Naheeda Hamza	Hamza Ismail	5/141, Kottampara Thottathil, Peedikappadi, Edayur North P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2015	10929			
208213	Naheema A.P.	Aboobacker A.P.	Umaithodika House, West Chathalloor P.O., Edavanna Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2017	12082			
208214	Naheema C.P.	Noorudeen C.P.	Cholapparambil (House), Anamangad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.09.2017	12217			
208215	Nahila A.C.	A.C. Moidu	Karattayil (H), Eramangalam P.O., Nakkola, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	20.01.2017	11697			
208216	Nahitha R.	Nazeer Ahamed	Regency, Krishnapuram, Perunkuzhi P.O. Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11596			
208217	Nahja Jayash	S.M. Jayash	Lal Bhavan, Palliveetil, Arangottukara P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11464			
208218	Nahla Pulikkathodi	P.T. Mammikkutty	Pulikkathodi (House), Randathani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.07.2017	12046			
208219	Naila Ahmedunni	Ahmedunni P.K.	Mullen Madakkal (H), Chirayil P.O., Kondotty, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	18.08.2016	11428			
208220	Nair Bipsa Prasanna	Prasanna Kumar	V.P. VIII/4, Janatha Bhavan, Pottayil, Malayinkeezhu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2012	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Kerala	06.02.2019	13012			
208221	Nair Deepa Vishwambharan	Vishwambharan Nair	Flat No. 9 A, Grand Meadows, VTJ Enclave, Maradu, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2013	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Kerala	20.07.2018	12611			
208222	Naja Gafoor N.K.	Abdul Gafoor N.K.	Nattikallingal (House), Kodyathur P.O., Mukkam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12544			
208223	Najeeba P.	Aboobacker P.	Favourite Cottage, Ramanatukara P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2017	12192			
208224	Najeeba P.V.	Salmi P.V.	Shakeela Manzil, Kurikkal Road, Neduva P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	14.07.2016	11364			
208225	Najil K. Noufal	Noufal H.K.	Musaliyar House, Mannacherry P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	06.08.2015	10904			

208226	Najimal H.	Hydrose B.	Nowfel Nivas, Kanchimoodu, Pantha P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10792			
208227	Najiya Kallungal	Ahamed K.	Kallungal (House), Kakkad P.O., Tirurangadi (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Calicut University	Kerala	17.01.2018	12457			
208228	Najiya M.	Saidalavi M.	Kodakkattu Parambil (House), Karinganad, Vilayur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	12.01.2018	12447			
208229	Najiya M.	Mohammed Kutty M.	Mullappally House, Ponnala P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.12.2018	12960			
208230	Najiyah N.J.	Nadeer Shah M.	Aysha Manzil, Kaithodu P.O., Nilamel, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11195			
208231	Najla Hassan C.	Hassainar C.	Rahmath Manzil, Ok Muri P.O., Vengara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.04.2018	12491			
208232	Najla K.P.	Kunhi Mohamed K.P.	Chundanveetil Puthiyanalakath (H), K. Puram P.O., Moolackal, Tanur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	26.04.2016	11251			
208233	Najla P.P.	Abdu Rahiman P.P.	Bushara's 15/1756 A, Maliyekkal Road, Kundungal, Kallai P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.11.2017	12309			
208234	Najma A.M.	Mohamed Ali A.V.	Kolattuthodiyil House, Kanhiramukku P.O., Ponnani, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12898			
208235	Najma C.P.	Usman C.P.	Cheeran Parambil, Pallippuram P.O., Pattambi (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.12.2018	12980			
208236	Namita Benoy	Benoy Paulose	Koottappalayil (House), Kothamangalam P.O., Thankalam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12670			
208237	Namitha K.S.	Sathyanathan K.	Harinandhanam (House), Sisumanthiram Road, Perambra P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12542			
208238	Namitha M.N.	Nazar M.	M.N. Afzal Manzil, Sougritha Nagar, Old Karakkamandapam, Nemom P.O., T.C.-46/134, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12543			
208239	Namitha Satheesh	Satheesan Bhaskaran	Krishna Kripa, VE-91, Vengoor, Kidangoor P.O., Angamaly, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.09.2016	11479			
208240	Namratha P.C.	Udayakumar P.C.	Navodhayam, Chirakkara P.O., Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13352			
208241	Namsiya N.	Kunhabdulla	Naseeb Manzil, Tharopoyil P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.04.2017	11835			

208242	Nandha S.L.	Sasilal A.	Vallikuddil, Angavilla, Vakkom P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12022			
208243	Nandi Madhumita	Biswanath Nandi	Vill-Babla, P.O+P.S-Galsi, Dist- Burdwan, PIN-713406	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32651			
208244	Nandini M.	Mohan P.	7/861, Erool Kunnummal, Kanhiramuzhi, Neeleswaram, Mukkam, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.12.2016	11625			
208245	Naorem Deepa	N. Dhananjay Singh	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01. P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin- 731234	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32523			
208246	Naphisabet Marpan	Shri K. Biam	Lumdaitkhla, Bhoiymbong, Ri Bhoi District	BHMS	14.05.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Banglore	Meghalaya	07.07.2020	479			
208247	Narayan Dipti	Dr. Lalit Narayan	Mandirtala Bejbadur Gheri, Sagar, South 24 Parganas, Via-Rudra Nagar, PIN-743373	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32454			
208248	Narayana Prakash S.	Sivarajan	Narayana Nilayam, Thorapuram, Mannarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11730			
208249	Naseeba Abdul Majeed	Abdul Majeed K.M.	Rainbow, Mannam P.O., North Paravur, Distt.-Ernakulam Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10985			
208250	Naseeba M.	Ali Madassery	Thumbayil (House), Puthalam, Areacode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	19.10.2017	12277			
208251	Naseeba T.	Mohammed Kutty T.	Tharammal (House), Muthuvallur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	06.12.2017	12323			
208252	Naseef T.	Thaseef T.	Thorappa (H), Valiyangadi, Down Hill P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11181			
208253	Naseeha Ahmed	Ahmed Ali	Darulhamd, China Clay Road, P.O., Payangadi R.S., Payangadi, Distt.- Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10896			
208254	Naseeha C.K.	Mohammed Abdul Gafoor C.K.	"Malayath Kuzhiyil" (H), Arakurussi, Kalavathi Road, Manarkkad P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.01.2016	11053			
208255	Naseeha K.K.	Ahmed Kutty C.V.	Hasanath House, Kakkottkuniyil, Cherupparamba P.O., Thuvakkunnu (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10899			
208256	Naseeha P.	Hanza P.	Poolakkodan (H), Randathani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	23.11.2015	10961			
208257	Naseeha T.	Abdul Azeez T.	Thayyil (H), Cheriya, Mankada, Koottil P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.03.2016	11172			

208258	Naseeha Thasli K.	Abdul Hameed K.	Madambath (House), Koottilangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	19.10.2017	12278			
208259	Naseela K.N.	Noushad M.K.	Vadakkathu Parambil House, Manappattiparambu, 7th Cross Road, Kaloore, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.01.2018	12465			
208260	Naseela M.	Mohamed Basheer M.	Rose Mahal, Fire Station Road, Perinthalmanna, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	29.11.2016	11610			
208261	Nasheeda Mol	Abdu Raouf	Payyadi Purayil (H), Kurukkoll Paramb, Valavannur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.05.2017	11874			
208262	Nasiha K.	Sideek K.	Kottayil House, Poovanchina, Randathani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12715			
208263	Nasila C.K.	Muhammedkunhi K.	Nadeem Manzil, Market Road, Nileshwar, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2015	10879			
208264	Nasima Sultana	Md. Kalimuddin	D/o Md. Kalimuddin, Post/P.S.-Dumkam, Masjid Gali Dudhanighat, Near Rasikpur, Dumka, Jharkhand-814101	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	12.10.2019	33325			
208265	Naskar Partha Pratim	Sankar Prasad Naskar	Vill-Kaneyya (Bara), P.O-Ramakanta Nagar, Dist- South 24 Parganas, PIN-743395	BHMS	Dec.-2014	B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur	West Bengal	13.02.2020	32795			
208266	Naskar Suparna	Dibakar Naskar	Vill-Dakshin Kalikapur, P.O-Dakshin Barasat, South 24 Parganas, PIN-743372	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32601			
208267	Nasneem Salim	P.H. Salim	Pallithottungal House, Near Christ College, Irinjalakuda P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.09.2017	12254			
208268	Nasreen A.	Usman A.	Nattukallingal House, Kollemchina, Peruvallur Post, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13088			
208269	Nasreen M.	Abdul Majeed M.	Mannayil (H), Cholackal, Payyanad P.O., Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	28.03.2017	11825			
208270	Nasrin A.	Abdul Latheef A.	Santhi Mahal, Maranchery P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.10.2019	13394			
208271	Nasriya P.	Assain	Pullani (House), Othukkungal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11978			
208272	Nasvana N.	Nisamudheen C.K.	Nasvana's, Eachoor P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.01.2016	11056			
208273	Nasweeha Farsana T.	Mohamadali T.	Pullil Peedikayil (House), Konote P.O., Kunnamangalam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2017	12258			

208274	Naufija	S. Nazimudeen	35/432, Mullath House, Main Road, Olavakkode, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.06.2017	11892			
208275	Naushad Afreen	Md. Naushad Ahmed	Quraishi Mohalla Railpar Asansol, Paschim Barddhaman 713302	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32443			
208276	Naveeta	Sh. Vijay Kumar	House No. 321, Baprola Village Delhi-110043	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5668			
208277	Navoria Kirti	Sh. Girish Navoria	80/5683, Reghar Pura, Karol Bagh, New Delhi-110005	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5730			
208278	Navya C.	Udayakumar C.	Madhurima, Chotanikkara' (House), Makkada P.O., Kakkodi (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	09.01.2018	12424			
208279	Navya K.M.	K.K. Muraleedharan	Kalavampara House, Palace Road, Kannankulangara, North Paravoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	27.06.2017	11905			
208280	Nayana M.	Muraleedharan M.E.	"Sarath" Panniyannur P.O., Thalassery (Via), Paral, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.03.2019	13072			
208281	Nayana S. Nair	M.S. Sasidharan	Meleth House, Chottanikkara P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	05.01.2017	11672			
208282	Nayana S. Thankappan	Thankappan Asari D.	Melathil Veedu, Thokkalakkuzhy, Pullampara P.O., Venjaramoodu, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2016	11307			
208283	Nayana V.S.	R. Vamadevan	Aneesh Vihar, K.K. Nagar, Vattappara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12093			
208284	Nayana V.S.	P.P. Shaji	Veliyil House, Perumpadappu Road, Palluruthy, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13403			
208285	Nayban Nilratan	Surath Chandra Nayban	Vill-Kalikapur, P.O-Bohalberia, Dist-South 24 Parganas, PIN-743399	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32509			
208286	Nayek Debopam	Pranay Chandra Nayek	Vill-Panachhatra, P.O-Changual, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721301	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32513			
208287	Nazreen	Mr. Alauddin Khan	H. No. A-14, Kidwai Nagar (East) Delhi-110023	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5663			
208288	Nedah Mufeeda Kabeer	Kabeer	KRWA 105-A, Nishan, Kavalloor Lane, Vattiyookavu, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12546			
208289	Neebha Kiran	Krishna Choudhary	Vill.-Mor English, P.S.-Mokama, P.O.-Mor, Distt.-Patna, Bihar-803302	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	07.08.2019	32952			

208290	Neeha Fyzee	Abdul Fyzee	Salama, House No. D-7, Vadakevila Nagar, Vadakevila P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2018	12781			
208291	Neema Purushothaman	D. Purushothaman	Neetha Nivas, Valamangalam North, Thuravoor P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2017	11680			
208292	Neena Saleem V.	Saleem V.	Saleem Nivas, Puduponnani, Ponnani South P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.02.2017	11745			
208293	Neenu C. Iype	P.C. Iype	Binu Bhavan, Palamukku, Kannanalloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11394			
208294	Neenu Dayal M.V.	Visweswara Dayal	6/108 C, Manathara House, Mayithara P.O., Puthanambalam, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12351			
208295	Neenu G.N.	Narayanan T.K.	Sreeragam (House), Chingapuram P.O., Thikkodi (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	19.10.2017	12279			
208296	Neenu Mohan	Mohanan K.N.	Kadavikkattu, Kallelibhagam P.O., Karunagappally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.03.2019	13067			
208297	Neenu Narayanan K.	Narayana Pillai R.	Palazhy, Palamoodu, Vembayam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.01.2018	12404			
208298	Neenu Razia K.P.	Ishak K.P.	Korathpulkathodiyil House, Pallippadi, Kazhuthallur, Kuttippuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	26.09.2018	12846			
208299	Neeraja M.J.	Madhusoothanan Asari	Udayavihar, Geethanjali Lane, Kariyam, Sreekaryam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12545			
208300	Neeraja Mohan	Mohanan C.K.	Karthika (H), Thenjipalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.04.2016	11245			
208301	Neeranjana C.B.	Bajju C.S.	Cheruthuruthy (House), Chatukulam, Arthat P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.02.2018	12475			
208302	Neethu Gopi	Gopikuttan K.R.	Kokkappallyil (House), Thonackadu P.O., Cheriyanaadu, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10852			
208303	Neethu K.	Sukumaran K.	Karakkakavil House, Pollapoyil, Kodakkad P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.01.2016	11011			
208304	Neethu K.S.	Sahadevan A.	Kizhakkakalam (H), Kannambra P.O., Alathur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11148			
208305	Neethu Krishnan A.U.	Unnikrishnan A.	Adimoolitharayil House, Perumpilavil Parambu, Kannamthrikkavu, Ponnani, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11999			

208306	Neethu M.	M. Bhaskaran Nair	Payoorvalappil (House), Kadavallur P.O., Kunnamangalam (Via), Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10857			
208307	Neethu Mohan M.M.	Mohana Raj M.S.	Madhavam, Valiyavila, Kanjiramkulam P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11970			
208308	Neethu Mohan S.	K. Mohanan Pillai	Padinjare Vila Veedu, ETC P.O., Ambalappuram, Kottarakara, Distt.- Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.08.2018	12766			
208309	Neethu P.	Anandan	Poklancheri (H), Karthikappally P.O., Villyappally Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11145			
208310	Neethu P. Narayanan	Narayanan	Vaikundam (H), Kizhakkummuri P.O., Kakkodi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.03.2017	11785			
208311	Neethu P.M.	Manoharan P.G.	Paranganattu (H), Elavally North P.O., Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11185			
208312	Neethu Raj	Rajan K. Pappy	2/43, Kaleekkal, Aryampallam, Chittur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11298			
208313	Neethu Raj	Raju K.	Santha Sadanam, K.S. Mangalam P.O., Vaikom, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	27.01.2017	11702			
208314	Neethu S. Sabu	Sabu B.S.	Vijaya Mandiram, TRWA 167, Thalamal, Thattanvila Lane, Poojappura P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12556			
208315	Neethu S. Vijayan	Vijaya Kumar M.	V.S. Cottage, Kavuvila, Ponvila, Arayoor P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.12.2016	11626			
208316	Neethu Sudhakaran	P.K. Sudhakaran	Pappalil House, Njarakkal P.O., Distt.- Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11203			
208317	Neethu T.	A. Gopalakrishnan	Bhavana, Kuttichira, TKMC P.O., Distt.- Kollam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.07.2015	10872			
208318	Neethu Unni	M. Unni Krishnan	Sree Bhavan, Varam P.O., Distt.- Kannur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.10.2015	10926			
208319	Neethu V. Satheesh	Satheeshan K.C.	Thottungal, Kakkazhom P.O., Distt.- Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.06.2018	12572			
208320	Neethu Venugopal	V.S. Venugopal	Vallassery House, Eranellur P.O., Mazhuvanchery, Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	16.11.2015	10955			
208321	Neethulekshmi V.R.	Rajendran Nair S.S.	Sarada Vilasam, Kuyimpil, Mithirmala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.08.2018	12765			
208322	Negi Nishant	Sh. Narender Singh Negi	A-60, Phase-5, Aya Nagar New Delhi-110047	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	21.09.2020	BHSD/5782			

208323	Neha B.M.	Murali B.A.	61, 2nd Main 3rd Cross, Samvrudhhi Layout, Kumaraswamy Layout, 2nd Stage, Bangalore South, Bangalore-560111	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Karnataka	09.07.2019	A-13862			
208324	Neha Nazeer V.	Premnazeer	Jameela Nilayam, Valiparambil House, P.O. Talikulam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13410			
208325	Nejila K.	Nasar Ali K.	Kodiyadan (H), Mylappuram, Down Hill P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Calicut University	Kerala	15.04.2017	11838			
208326	Neliva. W. Momin	Shri P. M. Marak	Nokgila'we, Williamnagar, East Garo Hills	BHMS	12.05.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	16.09.2020	484			
208327	Nesma U.	Abdul Razaack U.	Uzhinhalath House, Mukkilapeedika, Painkannur P.O., Valanchery Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.12.2017	12325			
208328	Netta Joseph	Joseph K. Thomas	Kuzhiparambil (H), Azhakam P.O., Karukutty, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13345			
208329	Nidha M.T.	Abduraheem M.T.	Kottakkal House, Areacode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13032			
208330	Nidheesha Noushad	Noushad M.	T.C. 58/1325, Puthen Veedu, Pachallur P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2019	13295			
208331	Nidhi Dehalvi	S.K. Dehalvi	3/101, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010	BHMS	2020	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	28.08.2020	H039213			
208332	Nidhikrishna M.	M.K. Krishnankutty	Mampara (House), Kizhakkummuri P.O., Peringottukara, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	06.10.2017	12260			
208333	Nidhin K.	Jayaprakash K.	Kundoolilthodi (H), Parudur P.O., Pallippuram, Pattambi, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11524			
208334	Nidhina K.	Sahadevan K.	Konoth (H), Kuthiravattam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11656			
208335	Nidhish V.S.	Surendran	Vengamparambil (H), Thambalamanna P.O., Thiruvannambady, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11143			
208336	Nidma E.P.	Shoukathali E.P.	Salafi House, South Bazar, Kuttippuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.04.2016	11214			
208337	Nijisha Krishnan	A.G. Krishnan	Ambalathinal (H), Kanjikuzhy P.O., Thallakkanam, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11327			
208338	Nikesh P.S.	Sudhakaran P.K.	Pullarkat (H), Pullut P.O., Narayanamangalam, Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11511			

208339	Nikhil Anand M.S.	Sadanandan	Pottankavil (H), Kannadipoyil P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.12.2016	11642			
208340	Nikhila K.S.	Sasidharan K.K.	Koolothumkandi (H), Chunda P.O., Cherupuzha Via, Vayalal, Distt.- Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.10.2016	11555			
208341	Nikhila Krishnan	Gopalakrishnan Nair R.	Sopanam, Elippakulam P.O., Pallickal (Via), Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2015	10880			
208342	Nikhitha S.	S. Sasikumar	Prasadam, Pally Street, Poonthura P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12624			
208343	Nila K.J.	Jayaprakash	Kalavampara House, Nayarambalam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11170			
208344	Nilufara K.T.	Abbas Abdu K.T.	Kolothodi (House), Poovathani, Aliparamba P.O., Anamangad (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.06.2017	11898			
208345	Nima Varghese	N.J. Varghese	Njaliyath House, Mamala P.O., Thiruvankulam (Via), Distt.- Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12523			
208346	Nimi C.B. Das	Y. Christudas	T.C. 11/1729, CRA F-17 (B), Charachira, Plamoodu, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11190			
208347	Nimisha Krishna D.S.	Suresh Kumar K.	Saraswathy Bhavan, Pozhiyoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.04.2019	13104			
208348	Nimitha C.	Mohanam C.	Athira', Ullanam P.O., Parappanangadi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.04.2017	11850			
208349	Nimitha M.P.	Manoharan M.P.	Malayamparambath House, "Sreelakam", Ariyallur P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10994			
208350	Nimmi Sathyan	S. Sathyan	Nimmi Bhavan, Venniyoore, Nellivila P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13069			
208351	Nimmy George	George Thomas	Parappillil (H), Adoormala P.O., Kudayathoor, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	28.03.2017	11826			
208352	Nimonki Tang	Shri W. Lyngdoh	Lawthymme, Looski locality, West Jaintia Hills	BHMS	04.11.2020	The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Meghalaya	11.01.2021	499			
208353	Ninama Kaushalsinh Dolatsinh	Ninama Dolatsinh Badaji	At & Post-Kilwat, Distt.-Hajipur, Bihar	BHMS	2015	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	01.12.2017	32495			
208354	Ninu Raju Thottan	Raju Thottan	Thottan House, Kannapuram, Chettupuzha P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10828			
208355	Niraja Nazeer	Nazeer S.	T.C. 1/881/8, Kmlra-79 (B), Mosque Lane, Kumarapuram, Medical College P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11644			

208356	Nirja R.	K. Rajendran	Niranjali, Yakkara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12014			
208357	Nirmala Annie Ipe	Ipe Varkey P.	TC-13/1827/24, Podimattathil, Koyikal Lane, Medical College P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12790			
208358	Nisha S. Kumar	Sasikumar P.	Puthenveedu (H), Karaparamba, Pulpatta P.O., Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11338			
208359	Nishana Majeed S.	Abdul Majeed M.	T.C. 36/1420 (I), Homoeo Clinic, Near HDFC Bank, Vattiyoorkavu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.02.2019	13016			
208360	Nishana V.	Ebrahim V.	Vettuvalappil House, Mannur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.06.2018	12507			
208361	Nishkala P.S.	Shankaranarayana Bhat P.S.	Pattaje House, Peradala P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2018	12604			
208362	Nisreena R.K.	Kunjimon R.M.	Rayimarakkar House, Kadavallur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	01.04.2017	11829			
208363	Nitha P.S.	P.K. Sivan	Preetha Soudham, Nelliadi Road, Kollam P.O., Koyilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12102			
208364	Nitha Raj R.G.	Rajagopal U.K.	Rajageetham', 22nd Miles, Manjeri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11064			
208365	Nitheena Krishnan	A.K. Krishnan	Sreevalsam (H), Malesamangalam P.O., Thiruvilwamala Via, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11107			
208366	Nithin R.M.	V. Rajasekharan Nair	Pattathanam, Manjadimoodu, Pirappancode P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.11.2016	11583			
208367	Nithya J.	Jayaraj J.	J.P.J. Stores, Karaparamba P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11385			
208368	Nithya Nath A.	Somanathan M.V.A.	Gayathri, Olavattur P.O., Kondotty Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11114			
208369	Niveditha K.S.	Sasidharan K.G.	Kovath (House), Cheruval, Palazhi P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12196			
208370	Niveditha M.S.	Manoharan P.	Meethalay Pazhankave (House), Nut Street P.O., Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.07.2017	11909			
208371	Niveditha R.	Narendran R.	Ram Nivas, Mavungal, Anandashram P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	09.01.2018	12428			
208372	Nivya Ouseph P.	Ouseph P.L.	Puthoor House, Mangalam, Wadakkanchery (Railway Station) P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	12.01.2018	12443			

208373	Nivya Thampi	T.Thampi Raj	Kamala Nilayam, Aralumoodu, Aralumoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	14.12.2015	10970			
208374	Niyadhisha K.E.	Ismail K.E.	Kulangarayil House, Kulasekhara Mangalam P.O., Vaikom, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	05.10.2016	11513			
208375	Niza N.S.	A.K. Nazeer	N.S. Nivas, Madathara, Madathara P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11133			
208376	Nolibabu K.M.	Babu K.M.	Kizhakke Muthiyeri (House), REC (NIT) (Via), Choolur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	12.01.2018	12448			
208377	Noofa Safar	Safar V.M.M.	Periyaveedu, Kadavalavu Street, Tattamangalam P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12702			
208378	Nooha Mohammed T.M.	Mohammed T.S.	Mathumkattil House, Manary P.O., Paipra, Muvattupuzha, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	19.07.2017	12004			
208379	Noopura S.R.	K. Rajendra Kumar	Indira Bhavan, Chambayil Road, Neyyattinkara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11461			
208380	Nooru Shifa	Mohammed Ali	Akkara Peedika (House), Kakkaparatha, Edakkara P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	16.06.2018	12519			
208381	Notozo Naleo	Viswehoi Naleo	Z.Khel Viswema Kohima Nagaland 797001	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	12.09.2018	107			
208382	Noubath P.	Abdurahiman Poolakkodan	Poolakkodan House, Randathani P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12968			
208383	Noufal M.	Ummer Mangadan	Mangadan (House), Karulai P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.05.2018	12498			
208384	Noufi T.K.	Abdurehiman T.K.	Pezhumkatil (H), Kolathol, Naduvattom P.O., Kuttippuram, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11018			
208385	Noufia B.S.	Basheer I.	Noufi Nivas, Kannimel, Pattazhy P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.06.2019	13130			
208386	Noufimol R.	Rahim K.	Karinjeeraveli, Punnapra P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12125			
208387	Noufira C.P.	Nazar V.	Naaz 34/84 G, Kairali Nagar, Florikan Road, Karaparamba P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	12.08.2016	11417			
208388	Noufiya P.S.	Sulaiman P.	Padinjarkara House, Akaloor P.O., Old Lakkidi, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10801			
208389	Noushila N.	Mohammed N.	Naduvanchery (House), Vadakkumpuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.09.2018	12823			

208390	Nufla Thasni P.	Muhammed P.	Parakkal (House), Chelakode, Urangattiri P.O., Areacode (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12547			
208391	Numeena K.T.	Hassankoya K.T.	Mishkath House, Ayyanil Thazham, Near Thalikulangara L.P. School, Mankave, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11640			
208392	Nusrath P.	Mohamed	Pari House, Hajiyyar Pally P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	19.10.2016	11570			
208393	Ornima Maria Shaj	Shaju	Chirappattu (H), Pulpally P.O., Near BSNL Office, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2019	13212			
208394	P. Kavitha	M.K.K. Pillai	Thachisseril House, Varavila P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University Itanagar, Arunachal Pradesh	Kerala	13.02.2017	11726			
208395	P.P. Shemi	P.P. Sreenivasan	Pandara Parambath, Sreenilayam, Palazhi, G.A. College, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13472			
208396	P.S. Aishwarya	N.A. Sreejith	Flat No. 6X, 6th Floor, DD Platinum Planet, Tower-3, Pipeline Road, Kathrikadavu, Kaloore, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2014	Dr. B.R.Ambedkar University, Agra	Kerala	21.06.2018	12534			
208397	Pachuan Vanlalfakawmi	Zohmingliana	C/o. Sukla Sao, Vill-Lautor, 36 12 Sainthiya, Dist-Birbhum, Pin-731234	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	30.05.2019	32540			
208398	Padigapati Dastagiri	P. Dastagiri	Flat No. 825, Ward No. XXXVIII, Royal Enclave Apartments, Fact Road, Chingavanam, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2006	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Kerala	20.08.2019	13331			
208399	Padmapriya P.	Pazhaniyappan V.S.	Vadakkapurath (H), Cherumkulam, Mannarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.04.2017	11847			
208400	Paik Rathindra Nath	Kalipada Paik	Vill-Ratneswarapur, P.O-Bazar Beria, Chandpur (M) (CT), Dist-South 24 Parganas, PIN-743395	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32469			
208401	Pal Achintya	Swapan Pal	Vill-Dhulia Danga, P.O-Moula Paramanandapur, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721242	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32725			
208402	Pal Nayanika	Pratap Chandra Pal	4,Kashi Mitra Ghat Street, Flat-E, Block-II, P.O-Bagbazar, PIN-700003	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32648			
208403	Pal Punam	Ram Surat Pal	Vill- Adisaptagram, Trishbigha, P.O- Adeconagar, Dist-Hooghly, PIN-712121	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32464			
208404	Pal Subhasree	Satyanarayan Pal	Ratanganj, P.O-Sonamukhi, Dist-Bankura, PIN-722207	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32478			
208405	Pallavi Jayendran	Jayendran K.	Ashirvaad, Kaithapadam, Kuthiravattom P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12414			

208406	Pallavi R. Krishna	Radhakrishnan T.P.	Padmavilas, Mayithara P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11060			
208407	Pamei Damguanglung	Late Disiyang Pamei	C/o Swadhin Das, 107, Ramchandrapur, Panihati, Sodepur, North 24 Parganas, PIN-700110	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32743			
208408	Panda Suprakash	Kamalendu Panda	Vill-Purba Maishagote, P.O-Jhawa, Dist-Purba Medinipur, PIN-721450	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32480			
208409	Pandey Jaynandan	Lt. Ramchandra Pandey	Vill.-Sugija, P.O.-Chaurawan, P.S.-Sekhopur, Sarai, Distt.-Sheikhpura, Bihar-811103	BHMS	2010	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	29.04.2010	29057			
208410	Pandey Kamlesh	Suresh Pandey	50/3/1, G.T. Road, Pilkhana. Howrah-711101	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	20.06.2019	32546			
208411	Pandey Neetu	Sri Aditya Prasad Pandey	N 406 Ashiana, Lucknow	BHMS	16.09.2003	Vikram University, Ujjain	Uttar Pradesh	30.09.2013	H033331			
208412	Pandey Supriya	Om Prakash Pandey	EPT-51, Sarojini Nagar, P & T Colony, New Delhi-110023	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	26.09.2019	BHSD/5592			
208413	Pandey Vikas Kumar	Dileep Kumar Pandey	At-Gudri Bazar, P.O. & P.S.-Bagaha-1, West Champaran, Bihar-845101	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	13.08.2019	32974			
208414	Pandit Soumyajit	Samit Pandit	8/1, Lal Bihari Bose Lane, Salkia, Howrah, PIN-711106	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32466			
208415	Pannikessery Venipriya Anil	Anil P.G.	Pannikessery (House), Near Bank Center, Manalur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11276			
208416	Parija A.	Ananthan V.	Thiruthy (House), Thanneer, Panthal, Kinassery P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12147			
208417	Parvathi C.	D. Chandrakumar	Thejus, Mudapuram, Chirayinkil, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11647			
208418	Parvathy C. Sreenivas	Sreenivasan C.	Sreenilayam, Behind K.S.E.B. Substation, Nallalam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2017	11678			
208419	Parvathy M. Nair	K. Muraleedharan Nair	Block No. 1359, Nedumkandam P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12416			
208420	Parvathy S.	Radhakrishnan	Vishukani, Thoduway Road, Varkala, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	21.02.2017	11765			
208421	Parvathy S.	Sreevallabhan S.	Vallabhasseril, Parumala, Mannar P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12018			
208422	Parvathy Sankar A.	M. Ravisankar	Achuth', Vadakkanthara, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.10.2016	11543			

208423	Parvathy V.R.	Ranganathan J.C.	Vezhakkattu House, Chingavanam P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12127			
208424	Parveen Rafat	Late Asgar Ali Khan	36D/1E/2, Topsis Road, Tiljala, South 24 Parganas, PIN-700039	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32758			
208425	Parveen Sultana	P. Khadir Mohiuddin	1-728, Yemmiganur, Kurnool Distt., Andhra Pradesh	BHMS	1991	Sri Venkateswara University, Tirupathi	Andhra Pradesh	22.02.1991	4843	M.D.Hom. (Philosophy), Jan. 2003, Dr. N.T.R. University of Health Sciences		
208426	Parveen Zeenat	Samsur Rahaman	Vill+P.O-Barnia, P.S-Palashi Para, Dist-Nadia, PIN-741156	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32652			
208427	Parvin Jayeda	Jakir Hossain Laskar	Vill-South Makhaltala, P.O-Bansra, Dist-South 24 Parganas, PIN-743363	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32726			
208428	Parvin Selina	Asgar Ali	Vill+P.O-Gushkara, Sanghati Pally, Dist-Purba Barddhaman, PIN-713128	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32598			
208429	Parvin Sideeque K.M.	Aboobacker	Karanath Mattummal Kandi, Cheekode P.O., Cheruvazhur (Via), Distt. Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	16.12.2017	12337			
208430	Patel Jyotsana	Lt. Shree Davaram Patel	F835, 3rd Phase, Sitapura, Jaipur, Rajasthan-302022	BHMS	2019	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Rajasthan	21.11.2019	8563			
208431	Patel Tridewanand	Tribhuwan Singh	Vill.-Sikathi, P.O.-Akhlaspur, P.S.-Bhabhua, Dist.-Kaimur, Bihar-821101	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	17.09.2020	33682			
208432	Pati Soumik	Nitya Gopal Pati	Vill-Hasimpur, P.O+P.S-Keshiary, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721133	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32702			
208433	Patra Milan	Shankar Patra	Vill+P.O-Balitikuri, Kalitala, Dist-Howrah, PIN-711113	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32524			
208434	Patra Rashmita	Sh. Sudershan Patra	A-690, Sec.-2 Rohini Avantika Delhi-110085	BHMS	2017	Guru Ravidas Ayurved University Punjab	Delhi	31.12.2020	BHSD/5801			
208435	Paul Malay	Maheswar Paul	Vill+P.O-Pabra, Dist-Bankura, PIN-722143	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32664			
208436	Paul Rupan	Khokan Paul	45, R.B. Chatterjee Road, Lakurdi, Buardhaman, Burdwan (Sardar) PIN-713102	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32711			
208437	Paul Saj	Sajal Paul	C/o. Yudhisthir Haldar, N/243, B.P. Township Panchasayar, Kolkata-700094	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32672			

208438	Payal Sachan	Sh. Nagendra Singh Sachan	B-Block-103, Barra- 6, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 203027	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	22.08.2019	H-038622			
208439	Persara Lyne Gatphoh	(L) Dr. M. Tham	Ladhadlaboh, Jowai, West Jaintia Hills	BHMS	27.04.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	11.01.2021	498			
208440	Pertin Susu	Nyolet Pertin	C/o. Akshay Biswas, Lakurdi Bakarpar, Mahisgali, Goda (P), Lakurdi, Bardhaman PIN-713102	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32714			
208441	Perveen Shamailla	Md. Reazuddin	24A, Ekbalpore Lane, 2nd Floor, Flat No.6, Khiddirpore, Kolkata- 700023	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32744			
208442	Philipson Iype	Iype K.V.	Padinjara Kuzhiyelil (House), Puttumanoor, Puthencruz, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12397			
208443	Phoebe Maria Thomas	P.A. Thomas	Puthan Pally House, Vythiri P.O., Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2016	11574			
208444	Pillai Ambili Lekshmanan	B. Lekshmanan Pillai	Kalappura Puthen Veedu, 7/125, Poopani Road, Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2013	Saurashtra University	Kerala	11.07.2016	11312			
208445	Pitokali Chishi	Lhokhapu Chishi	H. No - 35 Old Town Colony Zunheboto Nagaland	BHMS	2013	Dibrugarh University	Nagaland	21.07.2020	133			
208446	Pooja	Hanuman Prasad	Vill. Amarpura, Near Dharamshala, Ward No. 2, Tehsil-Narnaul, Distt.-Mahendergarh, Haryana-123023	BHMS	2020	Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak	Haryana	13.10.2020	6536-A			
208447	Pooja Chandrasekhar	V.N. Chandrasekhar	Poorna Chandrika, Perumpilly P.O., Mulanthuruthy, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.06.2018	12568			
208448	Pooja Das A.	K. Mohandas	Manapuzha Das Bhavan Kallumala P.O., Mavelikara, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12582			
208449	Pooja M.K.	Kunjunni M.K.	Mangaramkottil (H), Choorakode, Kalladikode P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11330			
208450	Pooja Prakash	R. Prakash	Hari Bhavan, Kumaramangalam P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.09.2018	12813			
208451	Pooja Raju	Raju T.V.	"Prarthana", Nidumkanda, Nileshwar, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2018	12599			
208452	Pooja S.	K.N. Suresh	Koovayil (House), South Vazhakulam, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.03.2018	12479			
208453	Poornima E.	Subrahmanian E.	Cherumkuzhi (House), Muthuparamba P.O., Kondotty (Via), Mundakkulam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.11.2017	12291			

208454	Poornima T.P.	Pradeep Kumar R.	Thoppil House, Pallipport P.O., Pallipuram, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	13.02.2017	11725			
208455	Poornima V.R.	Ramachandran Nair	'Similia', Naduvath, Karakkamandapam, Nemom P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11153			
208456	Popli Charu	Sh. Pawan Kumar Popli	669, Bhai Parmanand Colony Delhi-110009	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5739			
208457	Pouline Reshma M.R.	Joseph Roy	Mukkath House, Kacheripady, N. Paravoor P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.01.2019	12993			
208458	Prabha Devi P.S.	Pushpa Kumar P.	Thottathil Veedu, Eravipuram P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13052			
208459	Prabhu K.A.	Ayyappan K.C.	Kolangara (House), Thazhekode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12548			
208460	Prabhudev P.L.	Prabhan A.	Prabhan Nivas, Thettichira, Kurakkada P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12178			
208461	Pradeep Kumar R.G.	Raveendran R.	Vilayil Vilakom Veedu, Pallam, Pulluvila P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12646			
208462	Pradhan Monika	Adikanda Pradhan	Type-2 Qtr No. 90, G.C. C.R.P.F. Campus, Anrabati, Durgapur-014. Barddhaman, PIN-713214	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32780			
208463	Prajapati Nikhil	Dr. D. C. Prajapati	S-11/3, Pandav Nagar, Delhi-92	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	17.08.2020	BHSD/5699			
208464	Prajitha G.	P.Prabhakaran	Ganitha (House), Kodikkunnu, Pallippuram P.O., Pattambi, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.09.2015	10919			
208465	Prakash Jai	Sh. Uma Shankar	H. No. D-228/2 Gali NO.-6 Bhajanpura, Delhi-110053	BHMS	2018	Jiwaji University	Delhi	10.02.2021	BHSD/5812			
208466	Prakash Ravi	Sh. Satya Narain Singh	202, 2nd Floor, Type-IV, Bhagwan Mahavir Hospital, Pitampura, Delhi-34	BHMS	1998	Calcutta University	Delhi	22.07.2020	BHSD/5680			
208467	Pramanik Mrinal Kanti	Mukul Krishna Pramanik	Vill-Mohanpur, P.O.-Chakradhaban, Dist-Purba Medinipur, PIN-721152	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32596			
208468	Pramanik Pratima	Gurudas Pramanik	98 N/2, Suren Sarkar Road, Kolkata-700010	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32581			
208469	Pramanik Subhashis	Gopal Chandra Pramanik	Vill-Santoshpur, P.O+P.S-Kulpi, Dist-South 24 Parganas, PIN-743351	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32619			
208470	Pranav C.P.	Premaraj C.P.	Pranavam (House), Mokeri P.O., Panoor (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11937			

208471	Pranesh Shanker	Shri T. Shanker	Ronmgram, West Garo Hills	BHMS	13.05.2020	The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Meghalaya	18.01.2021	501			
208472	Prasad Priti	Ramashray Prasad	R.A-2/F-1, Ward No. 98, Near Electric Sub Station, Rangapara, P.O.-Bumrapur, Dist-Paschim Bardhaman, PIN-713325	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32456			
208473	Prasad Priti	Ramashray Prasad	R.A-2/F-1, Ward No. 98, Near Electric Sub Station, Rangapara, P.O.-Bumrapur, Dist.-Paschim Bardhman, West Bengal-713325	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32456			
208474	Prasad Saurabh Suman	Kailash Prasad	Vill.-Bidhan High School, P.O.-Bithan, P.S.-Bithan, Distt.-Samastipur, Bihar-848207	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	12.10.2019	33344			
208475	Prasanth R.	S. Rajagopal	Prasanthi, T.C. 6/2273, Thirumala P.O., Valiyavila, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	11.07.2016	11346			
208476	Praseeda Balakrishnan P.	Balakrishnan P.	Pokkat House, Parappanangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.04.2016	11243			
208477	Praseena P.	Ravi P.	Punnassery (H), Vettom P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.10.2016	11547			
208478	Praseetha A.	Prakashan A.	Chettiyamthodikayil House, Chundal P.O., Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	19.03.2018	12482			
208479	Prashar Pooja	Sh. Satish Kumar	RZ-A-97, Prem Nagar, Najafgarh New Delhi-110043	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5673			
208480	Prashobh K.P.	Prabhakaran M.K.	Chalil Parambath House, Nettu P.O., Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.01.2018	12379			
208481	Pratheeksha M.	Madhusoothanan	Kuzhivila Veedu, Vakkom P.O., Attingal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	25.07.2016	11380			
208482	Pratheesh N.P.	A.V. Purushan	Ottathengil Tharayil, Muttom P.O., Haripad, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	23.02.2017	11766			
208483	Prathibha M.	S.S. Mohanan	Kaitthamuttom, Municipal Stadium Ward, Head Post Office P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11986			
208484	Prathibha P.	Pradeepkumar S.L.	P.P. House, Chirakkani, Vencode P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.01.2019	12992			
208485	Pratima Pramanik	Gurudas Pramanik	98N/2, Suren Sarkar Road, Kolkata-700010	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32581			
208486	Praveen Kumar E.R.	E.V. Raghavan	Elliambath House, Pakkom P.O., Pulpally, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	31.01.2016	11058			
208487	Pravitha Therayil Sunil Kumar	T. Sunil Kumar	Therayil House, Mookkuthala P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.10.2017	12265			

208488	Preetha Prabhakar	Prabhakaran Pillai B.	Lekshmi Nilayam, KNRWA-152, Medamukku, Manacaud P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.01.2018	12406			
208489	Prem Deeshna Pritam	K.P. Premkumar	Prem Preeth, Kizhunna P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12421			
208490	Prem Kumar S.	P.S. Sivakumar	4-3-1, South Street, Palanichettipatti Theni, Tamilnadu-625531	BHMS	2013	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	24.05.2013	4530			
208491	Premkumar C.	Sukumaran C.	Akkottuchalil House, Ally P.O., Mukkom (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.11.2018	12944			
208492	Perna	Sh. Narender Kumar	RZ-B8 I/A, Phase-II, Prem Nagar Najafgarh, New Delhi-110043	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	10.09.2020	BHSD/5778			
208493	Prethy Alexander	Alexander Mathew	Plavila Puthen Veedu, Karavaloor P.O., Punalur, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2008	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Kerala	25.04.2015	10782			
208494	Prinsha C.P.	Premarajan Chellathan	'Priyanka' Nivas, Near Theroth Madapura, Kakkad P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	19.11.2015	10959			
208495	Prinston G.	J. Gunamony	Rose Vilasam, Venganoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11008			
208496	Priya Abraham	Abraham K.T.	Kurutholayil (House), Puthuppady P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12199			
208497	Priya Bhanu	Sh. Hari Om Gupta	RZ-T-15/230, Dayal Park, West Sagarpur, New Delhi-110046	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5677			
208498	Priya Joseph	Joseph K.C.	Kottayil House, Chittarikkal P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.09.2018	12833			
208499	Priya K.A.	Anto K.A.	Kanjirathingal House, Kuttanellur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	06.01.2018	12398			
208500	Priya Lovely	Gouri Shanker Sharma	D/o Gouri Shanker Sharma Near Jain Mandir, New Area Aurangabad, Bihar-824101	BHMS	2018	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	09.08.2018	32777			
208501	Priya Thiyam	Thiyam Amuba Singh	C/o Arobinda Sarkar, Pukur Para, Kundola, Birbhum 731234	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32447			
208502	Priya Titus	Titus Thomas V.A.	Kalarikalayil House, Kodikutumala, Ashokapuram, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.10.2017	12261			
208503	Priya V.	Rajendran P.V.	Vappanthody (House), Thenhipalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	18.09.2017	12208			
208504	Priyalakshmi Prakash P.	S. Prem Prakash	6/190, Akkarakattil, Wayanad Road, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The West Bengal University of Health Sciences	Kerala	17.12.2018	12982			

208505	Priyanka Gnanadas	Gnanadas J.	Jaya Nivas, T.C. 34/365, KGRA-45, Arappura Junction, Vattiyorkavu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11125			
208506	Priyanka J.	N. Karthikeyan	T.C. 50/101 (2), KRWA-131, Tharanilayam, Keezhkkadi Lane, Kalady, Karamana P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.01.2018	12377			
208507	Priyanka J. Nair	C. Jayapalan Nair	Nelambari, VP-2, 1389, Sanra (A-15), Thaniniram, Shankaran Nair Road, Vattavila, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11010			
208508	Priyanka Krishnan	K.K. Gopalakrishnan	Velikkakathottu House, Perumpadana, North Paravur P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.12.2018	12975			
208509	Priyanka Radhakrishnan	P. Radhakrishnan	Kummarapilly House, Annanad P.O., Chalakudy, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11475			
208510	Priyanka Shaji	P.P. Shaji	Sabarmathy House, Veliyanadu P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11634			
208511	Priyanka Vijayan	C.K. Vijayan	"Sneha Priya", Kolakkattuchali P.O., Chelambra, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.06.2018	12509			
208512	Priyesh K.	Gangadharan K.	Ganesh Bhavan, Pantherpadam, Kunnamangalam, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.11.2018	12929			
208513	Punna Mukesh	Raju Punna	H.No. 12-209, Adarsh Nagar, IDPL Colony, Quthbullapur, Ranga Reddy 500037	BHMS	2017	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Telangana	05.01.2018	405/H/2018			
208514	Punya K.C.	Bhaskaran M.	Kadavenchalil (House), Cheruvannur P.O., Meppayour (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	06.12.2017	12324			
208515	Purkait Laboni	Pankaj Purkait	Vill-Ramjibanpur (K), P.O-Ghateswar, South 24 Parganas, PIN-743336	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32627			
208516	Putchala Bhagya Vinesha	Putchala Bhramareswara Rao	D.No. 28-1-35/1, Devi Chowk, Rajahmundry, East Godavari Dist. Andhra Pradesh-533101	BHMS	2018	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Andhra Pradesh	17.07.2018	8478/H/2018			
208517	Putuinla	Lanutemjen	H. No -37 Block-2 Unity Village 5th Mile Dimapur Nagaland 797112	BHMS	2020	Srimanta Sankara Deva University of Health Science Guwahati Assam	Nagaland	27.01.2020	124			
208518	Pynhunlang Japang	Shri R. Baidya	New Majai, Bholaganj, East Khasi Hills	BHMS	04.01.2021	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	18.01.2021	502			
208519	Pyntbit-I-Dilang Rynghkhem	Shri S. Rymbai	Wapung Skur, Lad Rymbai, East Jaintia Hills	BHMS	01.01.2021	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	08.03.2021	508			

208520	Quazi Jafir Ahmed	Quazi-Naseem Ahmed	H-50, Vill.-Sikatiya, Post-Khurwasiya, Distt.-Deoria, U.P.-274703	BHMS	2012	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra	05.02.2013	58302			
208521	R. Tharakrishna	A.M. Radhakrishnan Nair	Mazhavannoor (House), Kudamaloor P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.09.2018	12815			
208522	R. Vishnuvardhan	P. Ravi	Muringadiyil', Arthala, Kollangana, Kalakatta P.O., Vidyannagar (Via), Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13305			
208523	R.T. Shaji Kumar	Sh. Rama Krishnan G	Property No. 28, Upper GF Street No. 1 Rajpur Khurd Extension Delhi-110068	BHMS	1994	Manglore University Karnataka	Delhi	19.01.2021	BHSD/5808			
208524	Rabeeha K.	Zubair K.	Kozhikkal House, Chemmad, Tirurangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	02.05.2016	11263			
208525	Rachana C.	Chandran K.M.	Karthika, Nattukal P.O., Chittoor, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11317			
208526	Rachita Kumar	Pawan Kumar	Vill.-Mubarakpur Camp, Teh-Dera Bassi, Distt.-S.A.S. Nagar (Mohali) Punjab 140201	BHMS	2020	Punjab University	Punjab	06.07.2020	4346-A			
208527	Radhika Bhatt V.R.	K.N. Rajan	Vrindavan, 749 C/34, Kannanthodath Road, Edappally P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11167			
208528	Radhika Menon	I. Gopinathan	Kuttikkat Madhom, Narakkal P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12737			
208529	Radhika P.	Gopalakrishnan P.	Palamanna (H), Thiruvizhamkunnu P.O., Alanallur (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.04.2017	11859			
208530	Radhu Radhakrishnan	T.K. Radhakrishnan	Pynumvilayil Nandanam, Pazhakulam P.O., Adoor, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	08.06.2016	11299			
208531	Rafa Basni K.K.	Koyakutty K.S.	Sabni Mahal (Keepurath), Thottumugham P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12241			
208532	Rafeeda K.T.	Ismail K.T.	Chinju's House, Iruvetty, Thottilangadi P.O., Areakode (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.12.2017	12340			
208533	Rafeek F.	Faziludeen B.	Shamma Manzil, College Ward, Chemmanthoor, Punalur, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.09.2017	12253			
208534	Rafiya A.	M. Ayub Jan	50/41 North Street, Pension Line, Line Medu, Salem Distt., Tamilnadu-636006	BHMS	2019	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	19.02.2020	6757			
208535	Rafiya N.V.	Abdul Rahman N.V.	Nachuveetil House, Kanchiramukku P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.04.2016	11260			
208536	Rafiya P.R.	Rasheed P.M.	Peroth House, Kaipamangalam P.O., Vazhiyambalam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.01.2018	12374			

208537	Rafseena	Muhammed	Vannarath (House), Kakkamvelli, Nadapuram P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	13.07.2017	11981			
208538	Ragam R.	G. Raveendran	B.R. Bhavan, Adichanalloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12754			
208539	Ragesh V.	Vishnu G.	Sarada Mandiram, Kayalvarathu Veedu, Tenra-81, Thevally P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.08.2017	12073			
208540	Ragtha Basheer K.	Abdul Basheer K.	Kizhiseri House, Udharampoyil, Pullangode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	09.03.2017	11790			
208541	Rahaman Afrida	Waliur Rahaman	Vill+P.O.+P.S.-Kushmandi, Dist-South Dinajpur, PIN-733132	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32631			
208542	Raheema K.	Saithalavi K.	Kottackal (H), Valiyakandam, Kumily P.O., Peerumade, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.02.2016	11100			
208543	Rahma M.	Mohamed Abdu Rahiman M.	Mundekatt House, Kott, Alinchuvadu, Tirur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.03.2019	13075			
208544	Rahmath Beevi P.	Embichikoya Thangal	Rahmath Manzil, Karyavattom, Mannarmala P.O., Pattikkadu Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11652			
208545	Rahna K.K.	Abdu Rahiman K.K.	Kunnumal Kottathodiyil House, Chirayil P.O., Kondotty, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	13004			
208546	Rahna N.A.	Aboobacker N.K.	Nalakath House, Erumapetty P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.03.2017	11812			
208547	Rahseema K.	Soopykutty	Korachikandiyil, Perode P.O., Nadapuram Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.07.2016	11305			
208548	Rahul R.	S. Rajeev	Vrindavanam, Cherumoodu, Vellimon P.O., Kundara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11168			
208549	Rai Sneha	Sh. Ramesh Chand	A-901, Happy Home Apts, Plot No. 12A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5757			
208550	Rainu N.L.	N.P. Lawrence	Naduvikunnath (H), Vallarpadom P.O., Panambukadu, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11154			
208551	Raj Prakash A.V.	S. Vidya Prakash	Akkarakattil House, Civil Station P.O., Wayanad Road, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	30.08.2016	11456			
208552	Rajalakshmi O.U.	O.N. Unni	Thekkeannam Kulangara, Palluruthy, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11281			
208553	Rajaram N.K.	Narayanan Nair K.	Balakrishnalayam, Vellampuram South, Karad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.03.2016	11182			

208554	Rajasree Nambiar	P. Raveendran	Sreechitham, Thekkil P.O., Chengala Via, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.07.2016	11369			
208555	Rajesh R.S.	Rajaratnam P.	Ratna Bhavan, Plankala, Chenkal P.O., Amaravila, Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11004			
208556	Rajila P.	Radhakrishnan E.	Prasannanivas, Pollakada, Haripuram P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2018	12634			
208557	Rajimol K.S.	K.G. Suresh	Kattakalil (H), Chathurangapara P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11121			
208558	Rajisha K.R.	K. Ramachandran	Kunnath House, Moothedam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10841			
208559	Rajisha P.	Radhakrishnan C.M.	Ponnambili House, Maniyat P.O., Trikaripur Via, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	18.02.2016	11099			
208560	Rajisha Ramachandran	Ramachandran V.	Vadakkereath House, Vadakkumbad, Cheruvathur P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11938			
208561	Rajnish Kumar Raja	Kesho Mahto	Vill.-Meerbigaha, Post.-Chakway, P.S.-Warisaliganj, Distt.-Nawadah, Bihar-805130	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.09.2019	33140			
208562	Rajpal Shikha	Prem Kumar Rajpal	F-19/2 Sham Nagar, Khayala Road, New Delhi-110018	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	03.06.2019	BHSD/5518			
208563	Rajpurohit Meenakshi	Mandhar Singh Rajpurohit	1/6, Ward No. 26, Avri Mata Kacchi Basti, Udaipur, Rajasthan-313001	BHMS	2019	Janardan Rai Nagar Rajasthan Deemed University, Rajasthan	Rajasthan	09.07.2019	8462			
208564	Rajula N.	Abdul Latheef	Narangoli (H), Kinaloor P.O., Balussery Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11622			
208565	Rakhi P.	Nambuthodiyil Raghavan	Lakshmi Nivas (H), Pathiriyal P.O., Manjeri Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10989			
208566	Rakhi Raj	Rajkumar B.	Navamalika, Vellappally, Naruvamoodu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	25.07.2016	11379			
208567	Ralte Lathangliana	Rosangzuala Ralte	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01, P.O.-Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	30.05.2019	32541			
208568	Ram Chand Lal C.P.	Pyarelal T.C.	Chandra Vihar (House), Poothotta P.O., Udayamperoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.06.2018	12566			
208569	Ramees A. Rahman C.K.	Abdurahiman C.K.	Pratheeksha (H), Thodannur P.O., Vadakara Via, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	31.01.2016	11059			
208570	Ramgopal	Harveer	Vill+Post-Bati, Distt.-Mathura, Uttar Pradesh-281004	BHMS	2019	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	05.12.2019	H038851			

208571	Ramisha Ramesh M.P.	Ramesh Kumar P.	Sukritham (H), Kutimakool, Thiruvangad P.O., Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10940			
208572	Ramiz Ibrahim	Ibrahim P.T.	Thirikkottu Thodikayil House, Mavoor P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11331			
208573	Ramlathul Shana	Yousuf Abdulla	Al-Bushra House, Paivalike P.O., Uppala, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2018	12777			
208574	Ramseena M.V.	Rayinkutty M.V.	Moyyalath Valappil (House), Polpakkara P.O., Pothanur, Kalady, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12382			
208575	Rana Abhijit	Bimal Prasad Rana	Patnabazar, P.O.-Midnapore, Dist-Paschim Medinipur, PIN-721101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32639			
208576	Ranci A.	Abdul Rahman M.	Resmi Manzil, Malackal P.O., Madavoor, Pallickal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12791			
208577	Ranees V.N.	Nazar V.K.	Vadakkumpurath House, Edavanakad P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11061			
208578	Rani Cherian	Cherian	Madukkakuzhi (House), Pallikunnu P.O., Kalpetta, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12745			
208579	Ranjini K. Rajan	K. Rajan	Rajani' House, Kuthappady Temple Road, Thammanam P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11502			
208580	Ranjusha A.	Rajan A.	Avunhikkattu Parambil, Vazhakkad, Cheruvayoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12809			
208581	Ranjusha V.	Ramachandran V.	Vazhadan House, Karulai P.O., Nilambur Road, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.09.2017	12252			
208582	Rasha E.C.	Abdul Kareem E.C.	Parambil House, Munchakulam, Koottilangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12883			
208583	Rasheekha Mumthas P.	Saidalavi	Parammal House, Valiyora P.O., Vengara Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10998			
208584	Rashida C.	Abdul Azeez	Chelatt (House), Niramuruthur P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11065			
208585	Rashida K.	Hashim K.	Kuttiyil (House), Muchukunnu P.O., Koyilandy (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.09.2018	12783			
208586	Rashidha P.K.	Abdul Rasheed	Parakkadan (House), Cherumannu, Edavanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12028			
208587	Rasina Farsath K.P.	Abdul Majeed K.P.	Sameena Manzil, Vayalkudissery, Kodinatummukku, Olavanna P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	18.08.2015	10905			

208588	Rasiya S.	M. Abdul Sathar	Riyas Manzil, Kuracode, Nedumangad P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.10.2018	12868			
208589	Rasliya N.	Firoz N.	Navath (House), Purakkad P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12103			
208590	Rasmitha E.	Sankaranarayanan E.	Eledath House, Elad P.O., Cherukara Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12705			
208591	Rastogi Stuti	Sh. Rajiv Rastogi	A-703, Swami Dayanand Apartment Plot No. 5, Sector-6, Dwarka, New Delhi-110075	BHMS	2019	Dr. S.R. Rajasthan Ayurved University Jodhpur	Delhi	14.12.2020	BHSD/5791			
208592	Rathi Sheetal	Sh. Sunil Rathi	H. No. 335, Ground Floor, Parmanand Colony, Near Mukharjee Nagar Delhi-110009	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5743			
208593	Rathore Deepak	Sh. Amrit Lal Rathore	J, B-2/9, 10 Welcome Seelampur Phase-III, Delhi-110053	BHMS	2018	Barkatullah University Bhopal	Delhi	22.10.2020	BHSD/5788			
208594	Rathu N. Ravi	Raveendran N.	Narukunnath Arath Bhavan, Malika, Ambalavayal P.O., Nenmeni, Ambalavayal, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12735			
208595	Rauza	Sh. Munna	H.No. 1148, Burial, U.T. Chandigarh	BHMS	06.02.2019	Punjab University, Chandigarh	U.T. Chandigarh	21.07.2020	263-A			
208596	Raveena Raveendran T.	Raveendran Tharippala	Santhi Nilayam House, Mannathipoyil P.O., Pookkott Umpadam, Amarambalam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12947			
208597	Ravi Prakash	Bundi Lal	Vill.&Post&P.S.-Nagarnausa, Distt.-Nalanda, Bihar-801305	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.09.2019	33137			
208598	Rawat Vaishali	Sh. Lakhpat Singh Rawat	C-1/79-B, Keshav Puram, Lawrence Road, New Delhi-110035	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5662			
208599	Rayana P.P.	Ali P.P.	Padinjarapalla (House), Payyanadam P.O., Mannarkkad College (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12648			
208600	Razeena Salam A.	M. Abdul Salam	Thadathil House, MVRA (A-33), Vattiyookavu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12390			
208601	Reba Cheruvath	Raghavan C.	Cheruvath (H), Villiappally P.O., Vatakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	17.01.2017	11685			
208602	Rebadalyne Siangshai	Shri S. Rymbai	Wapungkur, P.O. Ladrymbai, East Jaintia Hills	BHMS	18.08.2020	Srimanta Sankaradeva University of health Science, Assam	Meghalaya	22.09.2020	485			
208603	Reena	Sh. Om Hari	A-93, Shiv Enclave, Vikas Nagar Uttam Nagar, New Delhi-110059	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	18.12.2020	BHSD/5798			

208604	Reenidge Emmanuel	Mathew	Aykaramattam (House), Cherukattoor P.O., Panamaram, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2018	12606			
208605	Reeshma P.	Parameswaran P.	Panakkal (House), Pookkottur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10988			
208606	Reethu M.R.	Ravindran	Madathiparambil House, Mattathur P.O., Ithupadam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	05.04.2016	11210			
208607	Rehana Lohidhakshan	Lohidhakshan	Nedumpully House, Alagappa Nagar, Kallur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.11.2018	12927			
208608	Rehman Shabnam	Sh. S. M. Rehman	9-A, Gautam Nagar, New Delhi-49	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5771			
208609	Reja Thashreef K.	Hamza Kunnath	Kunnath House, Cheriya, Koottil P.O., Mankada, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11037			
208610	Rejula Thayalagath	Thayalagath Abdul Rehman	Aysha Manzil House, Nadapuram Road, Madapally College P.O., Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	15.02.2019	13021			
208611	Rekha I.	Purushothaman I.	Sreeragam (House), Pathappiriyam P.O., Karuvampuram (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12695			
208612	Rekha K.R.	K.B. Rajendran	Kothaparambu Nikarth, Pattanakad P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12716			
208613	Relima Dhar	Shri S. Lamare	Chiechruphi, East Jaintia Hills	BHMS	21.10.2020	Rajiv Gandhi University, Itanagar	Meghalaya	11.11.2020	493			
208614	Remisha T.	Mohanan T.	Madathum Kandiyil House, Panoor P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11632			
208615	Remya B.S.	Balakrishnan	Varuvilakathu Veedu, Mangalathukonam, Kattachalkuzhi P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	28.03.2017	11827			
208616	Remya Das P.	K.P. Ramadas	Punnakkattu Parambu, Kumarapuram, Ezhupunna P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.04.2016	11236			
208617	Remya K.B.	K.P. Babu	Sourabhyam', Kooliparambil (House), Niramathur P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12347			
208618	Remya R.	V. Jyothirbhas	J.R. Nivas, Janatha Road, Chempazhanthu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11915			
208619	Remya R.R.	K. Rajan Achari	Rejani Remya, Ambalamukku, Vamanapuram P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2016	11308			

208620	Remya Raj P.R.	Raj Kumar P.	Sowremya, Malayam P.O., Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11735			
208621	Remya S.	T. Sailan	S.S. Nivas, Puthenkanam, Kattachalkuzhi P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	28.03.2017	11824			
208622	Remya Varghese	M.T. Varghese	Adoration Convent, South Kalamassery, Thrikkakara North (Part), Rajagiri, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.07.2017	11985			
208623	Renjima P. Mathew	Mathew	Pallattu (House), Chittarikka P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12750			
208624	Renjith R.	T.N. Radhakrishnan Nair	Sevitham', Sakthi Nagar-66, T.K.M.C. P.O., Karicodu, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	19.10.2016	11564			
208625	Renuka M.V.	Venugopal M.S.	Muthalam Chira House, Chelakkode P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11527			
208626	Renya K.B.	Babu K.P.	Harsham, Near Rani Public School, Chorode P.O., Vadakara, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13287			
208627	Resha Mundodan	Muhammed Ashraf M.	Nizamudheen Manzil, West Pathanapuram, Kizhuparamba P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	18.03.2017	11813			
208628	Reshma A. Raheem	Abdul Raheem Kattoo	Fathima Manzil, Fire Station Road, Ponnani South P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12591			
208629	Reshma B.R.	Remanan S.	T.C. 31/1036, Chandramathy Nilayam, (AVRA 11-0), Pettah, Pettah P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12427			
208630	Reshma Das	A.G. Haridas	Plathanathu House, Poovanthuruth P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.08.2018	12761			
208631	Reshma Fasal	Mohammed Fasal Haque	Vadakey Veetil, Amra-79, Kakkanad P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.02.2017	11741			
208632	Reshma Jose	Jose V. Thomas	Usha Bhavan (H) Pulincunoo P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13139			
208633	Reshma K.A.	Mohanam P.C.	Mohanam, Near Kerala Water Authority, Thrikulam, Tirurangadi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	10.12.2015	10965			
208634	Reshma K.J.	Johnson K.C.	Thadiakaran House, Thalore P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.06.2015	10819			
208635	Reshma K.P.	Ramakrishnan K.P.	Kannipoyil Laksham Veedu, Perambra P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.03.2016	11189			

208636	Reshma K.S.	Sathyan K.N.	Perumbaparambil (H), Kadungamangalam P.O., Thiruvankulam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.04.2017	11840			
208637	Reshma K.S.	Sudevan K.K.	Konnayath House, Vellaroad, Mankara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12104			
208638	Reshma Kumari Roy Amatya	Prafulla Kumar Sharma	Ward No.-07, Dhuabai, Dhaowa, Bhagalpur, Bihar-813204	BHMS	2017	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	20.03.2017	32192			
208639	Reshma M.	E.K. Madhusudanan	Madhurima, Surya Nagar, Akathethara, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.06.2019	13182			
208640	Reshma M. Nair	M.V. Muraleedharan Nair	Anandam, Muriyamangalam, Mamala P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	30.11.2016	11613			
208641	Reshma M.R.	K.K. Muraleedharan	Kailasam (H), Thiruvanchoor P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	08.02.2017	11718			
208642	Reshma M.R.	Raveendran M.S.	Maheshwaram (House), Valiyattiparambu, Puthukudi, Manjeri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.07.2017	11911			
208643	Reshma Nandanam	M.K. Nandanam	Melamkuzhiyil (H), Monappilly (Kara), Puthencruz P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.03.2016	11175			
208644	Reshma P.	Suresh P.	Puthumana (H), Thachinganadam P.O., Pattikkad Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.04.2017	11844			
208645	Reshma P. Guptha	Hariharan	Sri Yesodh (House), Challikkal Kongad P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.12.2017	12335			
208646	Reshma Radhakrishnan	N. Radhakrishnan	Sreevalsam, Puthanthara, Chittilamcherry P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10785			
208647	Reshma Rudran P.M.	Rudran Nambodiri P.M.	Paramal Mana House, West Nada, Kadavallur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.05.2019	13115			
208648	Reshma Sasidharan P.	Sasidharan P.	Nambidimannu Nilam, Vadakevayal, Kannadikkal, Vengeri P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10895			
208649	Reshma Sreejith	Sreejith Kumar D.	Geethanjali, Sivapuram, Parakunnu P.O., Navaikulam, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11960			
208650	Reshma Theresa Jose	K.K. Jose	Kayyalathottiyil House, Moodakkolly P.O., Sultan Bathery, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.08.2015	10898			

208651	Reshma V.	Vijayan C.	Geethanjali, Thycadu, Pirappancode P.O., Venjaramoodu, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.10.2016	11540			
208652	Reshma V.S.Mohan	Vijaya Mohan T.C.	Chandrodayam, Pongil, Mulluvila P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11962			
208653	Reshmi M.	Chithrakaran M.	Mananthrivil (House), Malaparamba P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	25.10.2017	12284			
208654	Reshmi P.	Sasidharan P.A.	Smitha Nivas, Malayamma P.O., NIT, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	02.07.2015	10862			
208655	Reshmi V.R.	V.S. Raveendran	Valiyakulathinkal House, Mannam P.O., Makkana, North Paravoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.05.2015	10815			
208656	Reshmy J.	S. Anandanarayanan	Narayaneeyam BN-87, Pongummoodu, Medical College, P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10948			
208657	Revan B.L.	Basavaraj P. Lamboonavar	Sri Ramnagar, Muchinthal, JIMS Hospital, Palamukula Post, Rangareddy, Telangana-509325	BHMS	2005	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Karnataka	22.08.2005	A-8454			
208658	Revathi Ravikumar	Ravikumar T.	Perumbulavil House, Trithala P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13185			
208659	Revathi Ravindran N.	Ravindran N.	Nammili House, Kodanad, Vaidyamadam, Trithala Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12688			
208660	Revathi T.R.	T.K. Rajendra Kumar	Thuruthipallil Illom, Puliyanloor P.O., Pala, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11590			
208661	Revathy J.	Anil Kumar M.	Revathy, Thengolil Veedu, Thirumullavaram P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11163			
208662	Revathy K.V.	Viswambharan K.K.	Kochu Pollayil, Poleathai P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11063			
208663	Revathy Ramesh K.	Ramesh P.	Parvathi House', Bellikoth, Ajanur P.O., Kanhangad, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.09.2018	12835			
208664	Revathy T.H.	Haridas T.C.	Thandiagattil House, Chavakkad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.11.2016	11584			
208665	Reya T.	Damodaran T.	Sree Ragam (H), Panniyoorkulam Pantheerankavu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.07.2015	10887			
208666	Rezimol R.H.	Abdul Rahim	Vayallil Puthan Veedu, Kilikolloor P.O., Universal Nagar 98, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.11.2017	12296			

208667	Ria Roy	Roy Thomas A.	Akkanath House, Alangad P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Barakatulla Vishwavidyalaya, Bhopal	Kerala	17.12.2018	12985			
208668	Rifana Gafoor	Abdul Gafoor K.A.	Kadambot House, KSRA-62 A, Kaloor, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.01.2018	12466			
208669	Rihajanmi Susngi	Shri Y. Pde	Upper Chutwakhu, West Jaintia Hills	BHMS	16.02.2021	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	19.03.2021	510			
208670	Rija Maga	Maga Teri	Girls Hostel, National Institute of Homoeopathy, GC-Block, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700106	BHMS	July-2008	Rajiv Gandhi University, Itanagar	West Bengal	04.01.2016	30970			
208671	Rilfa V.M.	Mohamed	Vattappillil House, Madavana P.O., Eriyad, Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.05.2017	11866			
208672	Rimshina Rasheed S.	S. Abdul Rasheed	Surayya Manzil, Thekinkode Road, Perinthalmanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	06.07.2017	11913			
208673	Rina C.P.	Kunhahammed K.	Halam, Thayyib Manzil (House), Koroth Road, Azhiyur P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	29.06.2017	11907			
208674	Rincy Musna P.	Musthafa Parokot	Parokot House, Kariavattom, Mannarmala P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.12.2016	11633			
208675	Rini S. Raju	Raju B.	Kala Nivas, Powrasamidi Road, Thalalay, Aralummooode P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12393			
208676	Rini Varghese	Varghese	Jaimatha Adoration Provincialate, Mariapuram, P.O., Kuthirakallu, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.10.2016	11530			
208677	Rinishah C.S.	C.A. Shoukath Ali	Kolparambil House, Kattoor P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2013	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Kerala	05.10.2016	11516			
208678	Rinju P.	Bavakutty P.	Panangooramml (House), Konot P.O., Kunnamangalam, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.07.2017	11966			
208679	Rinkumol R.R.	Raveendran G.	P.K.G. Nivas, Chani, Kanjiramkulam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.09.2018	12821			
208680	Rinsa M. Jose	Jose M.J.	Mundolickal House, Vayattuparamba P.O., Vellad, Naduvil (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.07.2015	10875			
208681	Rinsiya M.	Abdu Raheem Mundakkodan	Mundakkodan House, Keeramkundu, Kootilangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.05.2017	11888			

208682	Rinsy Ali P.	Ali P.	Palliyali House, Near Depot Nilambur, Nilambur R.S., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12164			
208683	Rinu Rasheed N.C.	Rasheed N.C.	Ambalapurayil (House), Kannadikkal, Vengeri P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	17.09.2018	12838			
208684	Rishad N.M.	Muhammed N.	Neelangadan (House), Myladi, Eranhimangad P.O., Nilambur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.08.2017	12111			
208685	Rishana Rasheed	Rasheed P.M.	Chalumkandathil House, Thaikattukara P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13025			
208686	Rithik Raveendran	Raveendran K.	Rohini, Pachalloor P.O., T.C. 68/1165, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.12.2017	12327			
208687	Riya	Tarsem Lal	1340/1, Near Prem Valecha Residence, Thana Bazar, Jalalabad (W), Dist.-Fazilka, Punjab-152024	BHMS	2019	Guru Ravidas Ayurved University Punjab, Hoshiarpur	Punjab	12.07.2019	4234-A			
208688	Riya Rajan	Rajan T.P.	Kuzhikkattu, Sachivothamapuram, P.O., Kurichy, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.09.2017	12214			
208689	Rizwa Shirin K.	Mohamed Basheer K.	Kuvapparambil House, Thekkummuri P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.11.2017	12318			
208690	Rizwan Abdul Rasheed T.T.	Abdurasheed T.T.	Rizwan Tower, Tirurangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12206			
208691	Rohini A.	Sudhakaran K.	Chaitram, Pachattiri P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2019	13214			
208692	Rohith P.S.	Sathyan K.	Sree Vilasamandiram, Mulluvila P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11980			
208693	Rohitha P.C.	Ramankutty	K.V. House, Koorara P.O., Champad Via, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11092			
208694	Rokan Raihan Sabir	Sadekul Islam	Vill-Mathuri, P.O-Dhalhara, Dist-Purba Medinipur, PIN-721636	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32479			
208695	Ronnie Frankson Lyngdoh	Shri S. Sangriang	Nongstoin, West Khasi Hills	BHMS	22.04.2020	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	01.07.2020	477			
208696	Roopa Sukumar	K.A. Sukumaran	Nadakkal House, Aroor P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	26.07.2017	12041			
208697	Roopa V.V.	Velayudhan V.N.	Vailappilly House, Edathiruthy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	16.11.2015	10957			
208698	Rosemary Joseph M.	Joseph M.J.	Muthalakuzhiyil (H), Pulikurumba P.O., Naduvil (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13260			

208699	Roshin M. Basheer	Basheer	Kandathil Parambil (House), Kaipuzha P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2017	12079			
208700	Roshmin Basheer	K.S. Muhammad Basheer	Kaithapalayil, Civil Station Ward, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.07.2016	11302			
208701	Roshni K.	Mohan K.	Sree Saravana, Mathurka Nagar, House No.22, Uliyacovil P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11293			
208702	Roshni K.P.	Kunhan K.P.	Kattuputhoor House, North Beypore, Thambi Road, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12158			
208703	Rosilin John	John Mathai	Pallivadakethil Angel Cottage, Kizhakkekara, Kottarakara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.04.2017	11834			
208704	Rosmin Thomas	K.J. Thomas	Kurikilamkattu (H), Nellikutty P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13286			
208705	Rosmy Varghese	Varghese P.V.	M.S.J. Nirmala Provincialate, Erumathala P.O., Chunangamveli, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2018	12632			
208706	Rosni K. Sani	Sani K.J.	Kuttikkadan House, Nattika P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.09.2018	12840			
208707	Rowena Juhi A.L.	Andrews M. Fernandez	Bou-Gain-Villea, Karichal, Kazhuvor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2019	13292			
208708	Roy Prabir Kumar	Jogen Ch. Roy	Sri Nagar Colony, Dabgram, Bhaktinagar, Dist.-Jalpaiguri 734015	BHMS	Jan.-2015	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.01.2015	30892			
208709	Roy Shalini	Samir Kumar Roy	D/o.Samir Kumar Roy, Vill+P.O.-Payer, Dist-Birbhum, PIN-731214	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32465			
208710	Roy Soumik Rudra	Subir Rudra Roy	1: Kali Charan Ghosh Road, Baranagar, Sinthee, North 24 Parganas, PIN-700050	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32762			
208711	Roy Ushasree	Hiralal Roy	8/3, S.K. Deb Road, 1st Bye Lane, Balaji Apartment, P.O.-Sreebhumi, Dist-North 24 Parganas, PIN-700048	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32481			
208712	Roychowdhury Debarpan	Dr.Ashis Kr. Roychowdhury	14/2, Fakir Para Road, Behala,Kolkata-700034	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32463			
208713	Rubeena A.C.	Abdulla A.C.	Areekkatt Cholathoduvil (House), Peruvallur P.O., Kondotty (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12105			
208714	Rubeena K.P.	Ebrayi K.P.	Kovuppurath (H), Avadukka P.O., Peruvannamuzhi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	10.04.2015	10778			
208715	Rubeena M.	M.M. Thaha	Rasim Manzil, Karukone, Anchal P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12587			

208716	Rubeena Mumtaz P.A.	Aboobacker Parayil	Parayil House, UDMA P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12167			
208717	Rubinamol V.A.	V.A. Assis	Vaniyapurayil (House), Edavetty P.O., Thodupuzha, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.10.2017	12272			
208718	Ruby Ameena T.K.	Aboobacker T.K.	Fajar (House), Eravannur P.O., Narikkuni (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13193			
208719	Rugma Udayan	Udayakumar V.R.	Vazhathara (House), Panambukad, Vallarpadam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.09.2018	12825			
208720	Rukseena M.C.	Abdul Rahman M.C.	Koyaparambath (H), Madavoor P.O., Narikuni (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	13.02.2017	11743			
208721	Rukshana A.	Abdul Rahim N.	Fahad Manzil, Manappadam P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12235			
208722	Rumana V.P.	Ameer Ali V.P.	Arham (House), Kinassery, Pokkunn P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.11.2017	12307			
208723	Rushdi C.T.	Abdussalam C.T.	Chakkingal Thodika (House), Vattaparambu, Thiruvai P.O., Manjeri (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	22.01.2018	12462			
208724	S. Ammu	L. Sajan	Kavintazhikam, Thekkevila P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.07.2017	12013			
208725	S. Amrutha	G. Sasikumar	Souparnika', Narakassery Paramba, Puthiyangadi, Pavangad P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.10.2018	12866			
208726	S. Nithya	R.M.Sivanathan	8/5, Bharathiyar Street, Kaveri Lane, Dharmapuri-636702	BHMS	2010	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	06.12.2010	3790			
208727	S. Sandhya	N. Sundaram	Plot No. 10, Balaji Nagar 1st, Virugambakkam, Chennai-600092	BHMS	2009	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Tamilnadu	22.10.2009	3296			
208728	Sabira P.	Hussain	Pichamannil House, Kizhuparamba Post, Areecode, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	04.05.2015	10797			
208729	Sabitha T.K.	Safarulla T.K.V.	Thottungalaka Menna Karuppam Veedu, Kuttikkad, Ponnani, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11665			
208730	Sabna K.P.	Saidalavi K.P.	Shery Mahal, Puttekkad, Feroke P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	30.07.2015	10889			
208731	Sachin Philip Oommen	Prasad Oommen George	Pulimoottil Thampi's Cottage, Alayamon P.O., Anchal, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	25.07.2016	11377			
208732	Sadaf Pari	Mohammed Hussain Pari	Pari House, Mangattupulam, Kodur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	31.01.2016	11067			

208733	Sadaquathulla Thahir E.K.	Abdul Rasheed E.K.	Earikunna House, Narukara P.O., Manjeri Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11635			
208734	Sadikh Ali B.	Veerankutty Bengalath	Bengalath (House), Koorad P.O., Thaneeri, Vaniyambalam Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11081			
208735	Sadikha V.P.	Kunhimohammed	Vattaparambil (House), Klari South, Edaricode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.11.2017	12306			
208736	Sadiq IBN Kasim T.	Mohamed Kasim K.V.O.	Tiruthool (H), Murivazhikkal, Paravanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	19.10.2016	11562			
208737	Sadiqa C.	Aboobacker C.	Chalaparambil (House), Pattikkad P.O., Near Railway Station, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12549			
208738	Saeed Dhalait Nazia	Moulali	62, B Antrolikar Nagar 1, Solapur, Solapur-413003	BHMS	2014	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Maharashtra	20.04.2019	70880			
208739	Saeed P.S.	Siddique	Padinjareveetil House, Kandamkulam P.O., Methala, Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.10.2016	11548			
208740	Safa Ishaq Pookkattil	Mohamed Ishaque Pookkattil	Pookkattil House, Kottakkal, Puthur, Kottakkal Puthur P.O., Othukkungal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13400			
208741	Safa P.T.	Abdul Hameed P.T.	Panathodi House, Valiyakunnu P.O., Valanchery, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11091			
208742	Safar Ahmed T.T.	Siddique T.T.	Thacharupadikkal Thazhath, Machingal House, Achanambalam, Kannamangalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.12.2018	12983			
208743	Safashirin T.	Mohammed Koya Thoyalil	Thoyalil House, Pilathara, Kadampuzha, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.12.2016	11629			
208744	Safeeda Yasmine V.	Unneenkutty V.	Vadakkethodi (House), Kattilasseri, Kadungapuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12798			
208745	Safeeka S.	Abdul Rahiman S.	Srambikkal House, Karimpuzha P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	11.06.2015	10825			
208746	Safeera	Yousuf	Pattoth (H), Karanthur P.O., Kunnamangalam, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	20.04.2017	11839			
208747	Safna K.	Saidalavi	Kadavath (H), Palathingal, Pantharangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11289			
208748	Safnu N.J.	Nazarudeen S.	Pallivilakathu Veedu, Market Junction, Santhivila, Nemom P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	06.07.2015	10878			

208749	Safoora Rahman C.K.	Abdurahman C.K.	Rahath Mahal, Cheenikkal, Valluvambram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	25.04.2015	10783			
208750	Saghi K. Shaji	Shaji K.P.	Killikulangara House, Koolimuttam P.O., Poklai, Distt.-Thirssur, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.10.2017	12280			
208751	Saha Arpita	Arjun Kumar Saha	C/o Sima Dutta, 81, Ramchandrapur Road, Ramchandrapur Play Ground, Panihati, North 24 Parganas, PIN-700110	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	13.05.2019	32534			
208752	Saha Kathakali	Tapas Ranjan Saha	C/o. Sajal Paul , 1F-5/1, Baguiati Rajarhat-Gopalpur, Ashwininagar, North 24 Parganas, PIN-700159	BHMS	June-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	03.07.2019	32549			
208753	Saha Rajdeep	Sanatan Saha	C/o. Nabanita Kundu, Vill+P.O-Badanganj, Dist-Hooghly, PIN-712122	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32637			
208754	Saha Samadrita	Priya Ranjan Saha	43, Aswini Datta Road, New Barrackpore, Dist-North 24 Parganas, PIN-700131	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32586			
208755	Saha Shilpa	Chitta Ranjan Saha	137, Prafullanagar, Belghoria, Kamarhati, Dist-North 24 Parganas, PIN-700056	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32583			
208756	Saha Tamoghna	Ramaprasad Saha	Vill-Sadpur, P.O-Maslandapur, Dist-North 24 Parganas, PIN-743289	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32634			
208757	Sahala N.M.	Muhammad Basheer N.M.	Kuyyodiyil (H), Eelttil, Pannikottur P.O., Koduvally (Via), Narikkuni, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.06.2017	11899			
208758	Sahdiya P.	P. Abdussamad	Parakkundil (H), Athirumada, Kalpakancherry P.O., Tirur Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11324			
208759	Sahdiya P.	Jafar P.	Puthanangadi (House), Karinkallathani, Thazhekode P.O., Perinthalmanna (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2018	12575			
208760	Sahila Shem Sham C.N.	Hyder P.	AL-Safa House, Kadiparambath Lane, AIMS P.O., Cochin, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	02.07.2015	10867			
208761	Sahla I.	Abdussalam I.	Illikkal House, Pandikkad, Pandikkad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12972			
208762	Sahla K.K.	Kunjumuhammed	Karayil, Kumbankallu, Thodupuzha East P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.01.2019	12991			
208763	Sahla M.	Abdul Salam M.	Manakkathodi House, Amayur P.O., Pattambi, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10853			
208764	Sahla P.	Basheer P.	Maskan, Tharippanam Parambu, Jayanthiroad, Nallalam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13027			

208765	Sahla S.M.	Muhamed Sheriff S.A.	Souryam Parambil (House), Marathkunnu, Enkakkad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	22.01.2018	12460			
208766	Sahla Sherin T.	Mamu T.	Jannath House, Madamkallikoth Paramba, Padinhattummuri P.O., Kakkodi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	12.10.2018	12916			
208767	Sahna Jan K.A.	K.A. Abdul Jaleel	Thundil (H), Vandanam P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	29.11.2016	11605			
208768	Sahu Bharati Swaraj	Ramesh Sahu	C/o. Sumita Roy, Kaushallya, Kharagpur, West Midnapore, Pin-721301	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32760			
208769	Saifunnisa S.	Salavudeen	Shemeer Manzil, Venchempu P.O., Punalur, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	09.01.2018	12429			
208770	Saini Mansi	Sh. Om Prakash Saini	F-336, Near Mother Dairy, Veer Bazar Road, Krishan Vihar, Delhi-86	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	18.12.2020	BHSD/5796			
208771	Saira Fathima Hameed	P.S. Abdul Hameed	Sherin Manzil, NLRA-240, Neerazhi Lane, Ulloor, Medical College P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12386			
208772	Saira Thomas	M.P. Thomas	Pynnumoottil (Near Glass Factory), Kunnom P.O., Mavelikara, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2001	University of Pune	Kerala	09.08.2018	12718			
208773	Saisha K.R.	Purushothaman P.V.	Puthiyaveedu, Kottarathumpara, Azhikode, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12733			
208774	Saja P.	Abdul Jaleel Punakkath	"Safalam", Kappil, Cherur, Vengara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11977			
208775	Sajal Sajid P.P.	Sajid	Puthupadan House, Cherumannu, Edavanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11101			
208776	Sajidurrahman C.	Aboobacker C.	Chelaparambil (H), Near Railway Gate, Pattikkad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11039			
208777	Sajimol K.	Sethumadhavan K.	Kariparambil (House), Kallipadam P.O., Shoranur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	24.11.2017	12320			
208778	Sajira P.P.	Yoosaf P.P.	Baithul Safa, Chakkerikkadu Parambu, Arakkinar P.O. Mathottam, Dist.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	07.03.2017	11779			
208779	Sajitha R.S.	Sekharan P.	T.C. 55/1228, Smitha Bhavan, Cheryathaikootam, Neeramonkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2013	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11477			
208780	Sajjad Nasir	Muhammed Nasir M.V.	Naseeba's, Near Railway Station, Payangadi R.S. P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12672			

208781	Sajna A.	Saidalavi Akkarakkadan	Akkarakkadan House, Chembrasseri P.O., Pandikad, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	25.05.2015	10810			
208782	Sajna Jaleel	Jaleel K.K.	Karthante Parambil House, House No. 43/54-A, Ayyappankavu, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.11.2016	11575			
208783	Sakeera T.M.	Moideenkoya	Fathah Manzil, House No. 33/1153 B, Marikunnu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.07.2016	11365			
208784	Sakiya C.M.	Abdul Karim	Mishkath (House), Puthur P.O., Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.11.2017	12302			
208785	Salafeena E.	Saidalavi E.	E.P. House, Pathappiriyam, Edavanna P.O., Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	25.04.2019	13108			
208786	Salahudheen M.P.	Hassan Kutty M.P.	Arasheeri Moolayil (H), Omanoor P.O., Cheruvayoor Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	14.03.2017	11804			
208787	Saleem N.	Sulaiman N.	Neelangodan, Kodasseri, Valluvangad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.04.2016	11229			
208788	Saliha K.T.	Abduljaleel K.T.	Koorattu Thodiyil House, Arafah Nagar, Attur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11639			
208789	Saliha P.	Ismail P.	Puthan Peedikayil (H), Alathiyur P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13161			
208790	Saliha Shabnam P.A.	Abdul Samad P.A.	Nalakath, Bismillah Manzil, Anangadi, Kadalundi Nagaram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	31.01.2016	11068			
208791	Salik Mahak	Sh. Manesh Kumar Salik	C-13, Amar Colony, Lajpat Nagar-4 New Delhi-110024	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5724			
208792	Salima A.S.	M.S. Ahad Saleem	Kattuparathy (H), Chungam, Kondotty P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.11.2016	11580			
208793	Salma C.K.	Ahamed Rasheed C.K.	Kuyilan Kunnu House, Mongam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	12.10.2018	12915			
208794	Salma Shahada M.	Yousaf K.M.	K.M. House, Near Neechal, U.P. School, Kannur City P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12163			
208795	Salman C.P.	Alavi C.P.	Cheripurath House, Palod P.O., Mannarkkad (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13081			
208796	Salva Saeed E.	Saidhalavi E.	Erakadavath House, Cholomkunnu, Kunnappally P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.11.2017	12301			
208797	Salwakaleem	Kaleemullah	Kandanalil (H), Kottapally P.O., Villiapally (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	26.11.2016	11585			

208798	Salyneey P. Kharkongor	Shri H. Pathaw	Laitjem, Upper Shillong, East Khasi Hills	BHMS	12.08.2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Bangalore	Meghalaya	17.02.2021	504			
208799	Samaddar Payoli	Dinesh Chandra Samaddar	Kampa, North 24 Parganas, PIN-743193.	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32458			
208800	Samal Avinash	Ajit Samal	Vill+P.O-Turturi, Dist-Alipurduar (Jalpaiguri), PIN-736206	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32641			
208801	Samander Sadaf	Mr. Shakeel Jamali	165-B-2, First Floor, Hadi Apartment Jogabai, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5745			
208802	Samanta Promisa	Prokash Chandra Samanta	Ajodhya Kashipur, Hooghly, PIN-712410	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32515			
208803	Samanta Ria	Subrata Samanta	Ichapur Sealdanga, Santragachi, Howrah-711104	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32512			
208804	Samanta Sanaka	Sakti Pada Samanta	Vill+P.O-Helan, P.S-Khanakul, Dist-Hooghly, PIN-712412	BHMS	Dec.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	25.02.2020	32797			
208805	Sambhu S.	Soman Pillai	Sambhu Nivas, Edavanassery, Mynagappally P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11095			
208806	Sameeha Karimkurayil	Mohammedali K.K.	Karimkurayil House, Thozhuvanoor P.O., Valanchery, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.11.2019	13458			
208807	Sameeha P.	Abdul Ravooof P.	Darul Fana (House), Pulikkal P.O., Periyembalam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.01.2018	12372			
208808	Sameena P.S.	Siddique P.M.	Padinjareveetil House, Kandamkulam P.O., Methala, Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12882			
208809	Samudra M. Ali	Muhammed Ali	Thrimudra Bhavan, Chetivelikkam, Thondankulangara Ward, Avalukunnu P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.04.2017	11843			
208810	Samuel R. John	R.S. Rajan	Vill.-Paudasavai, P.O.-Laheriasarai, Distt.-Darbhanga	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	10.02.2020	33585			
208811	Samui Susovan	Naba Kumar Samui	1/1/4, Kasundia 2nd Bye Lane, Shibpur, Bally Jagachha, Santragachi, Howrah-711104	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32565			
208812	Sana P.	Abdul Majeed P.	Parathoduvil House, Codacal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	30.11.2016	11616			
208813	Sanam Mohammed M.	Mohammed Vahid M.	Sandram, Keecheri, Pappinissery P.O., Pappinissery S.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.04.2019	13106			
208814	Sanam Mudassir	Abdul Mannan	Vill-Azad Pally, P.O+P.S-Chanchal, dist-Malda, PIN-732123	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32490			

208815	Sanath V.S.	Vijaya Kumar P.	Shymas House, Vaikundam (Via), Balussery P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2018	12484			
208816	Sancy S.S.	Shibu Thomas	Angels House, Uchakkada, Venganoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11076			
208817	Sandeep	Paleram	Vill.-Ramnagar, Teh-Safidon, Distt.-Jind 126112	BHMS	2020	Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak	Haryana	12.01.2021	6566-A			
208818	Sandra M. Ajith	P. Ajith Kumar	Thiruvonam (House), Enathu P.O., Enathu, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11085			
208819	Sandra T.S.	T.D. Sanal Kumar	Thachara (H), Nedumpuram P.O., Thiruvalla, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13350			
208820	Sanfui Ayan	Dulal Sanfui	Vill.-Vivekananda Pally (Beliadanga), P.O.-Dakshin Barasat, Dist-South 24 Parganas, PIN-743372	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32516			
208821	Sangeeth S.	Suresh T.	Pullackill House, Pallarimangalam, P.O., Mavelikkara, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	26.07.2017	12040			
208822	Sanjana S.	Sasikumar V.	Sasi Nivas, Koyyamarakkad, Kanjikode, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12065			
208823	Sanjay Kumar Saroj	Ram Sumer Saroj	Vill.-Pure Niranjana, Post- Warikalan, Teh-Patti, Dist.-Pratapgarh, Uttar Pradesh-230405	BHMS	2020	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	28.08.2020	H039226			
208824	Sanjeev K.P.	K.P. Mohan Das	Kizhakke Purakkal, 'Karthika', Karakali Parambu, Mannur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12615			
208825	Sanju Satheesh	R. Satheesan	Padannayil, Kallikkadu, Arattupuzha, South P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13060			
208826	Sankaranarayanan P.	Muralidharan B. Nair	House No. 17, ITI Colony, Kuppiode, Marutharoad P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11042			
208827	Sanoj M.	Mohanan R.	Vaniyan House, Puthurkkara, Ayyanthole P.O., Dist.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.05.2019	13112			
208828	Santhi Priya A.U.	S. Ajaya Kumar	Santha Bhavan, TC 5/1171/1, Peroorkada, Peroorkada P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13150			
208829	Saranya A.S.	Sreekumaran Nair V.	Saranyasree, Railway Station Road, Neyyattinkara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.01.2018	12378			
208830	Saranya Chandran P.K.	Chandrakaladharan Nair V.K.	Kochupurackal, Cheppad P.O., Cheppad, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	18.02.2016	11098			

208831	Saranya Das S.	S.K. Christudas	S.D. Cottage, Mele Nachiyarvilakam, Arumanoor, Poovar P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2017	11787			
208832	Saranya M.M.	Manikantan Nair B.	Padma Vilasom, Varattayam, Kunnathukal P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11919			
208833	Saranya M.P.	Surendran M.P.	Madapparambath Puthan Purayil (House), Kolarad Street, Chombala P.O., Vadakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12806			
208834	Saranya Mohan	Sasi Mohanan	Thayyilpadannayil (H), Thalikulathur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	28.01.2017	11708			
208835	Saranya Mol N.	Narayanan B.	Navaratna House, Iringole P.O., Pattal, Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.02.2017	11712			
208836	Saranya Nambiar S.	Saseendran P.K.	Thekkekotteri House, Pathiyarakara P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11341			
208837	Saranya P.A.	Sreekumar V.	Saranya Bhavan, Mudiyoorkonam P.O., Pandalam, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.04.2017	11851			
208838	Saranya S. Kumar	P. Sasi Kumar	Anamika, AKG Junction, Elamadu P.O., Ayoor, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.03.2018	12483			
208839	Saranya S. Nair	Sasidharan	Saranyalayam, Kottathala P.O., Kottarakkara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.05.2017	11869			
208840	Saranya Santhan	K.T. Chandan	Kalapozhinjal, Punnappa P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12842			
208841	Sarath U.B.	Bhuvanendran Pillai K.R.	Ushus House, Thekkumuri P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13058			
208842	Sardar Animesh Sing	Joydev Sing Sardar	Vill-Batikara, P.O.-Saluipahari, Dist-Bankura, PIN-722136	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.04.2019	32503			
208843	Sardar Chandra	Dinesh Chandra Sardar	Vill-Akhraberia, P.O.-Chandipur, Dist-South 24 Parganas, PIN-743399	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32653			
208844	Saren Ruma	Bimal Saren	Vill- Banbandha, P.O.-Salboni, Dist-Purulia, PIN-723143	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32467			
208845	Sariga N.K.	Suresh Kumar N.K.	Thodeepalil (House), Koroth Road P.O., Azhiyur, Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11987			
208846	Sariga Roy V.	V.S. Roy	Vylopilly House, Cheroor P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.08.2018	12727			
208847	Sarika S. Pillai	P. Sivarajan Pillai	Poovanvila, Kurumandal, Paravoor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10805			

208848	Sarkar Abdul Wahab	Altah Hossain Sarkar	Vill-Chhoto Jhila, P.O-Singi Mari Madnakura, Dist-Cooch Behar, PIN-736135	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32615			
208849	Sarkar Banti	Ramcharan Sarkar	C/o. Sanjay Singha, Colonelgola, Midnapore, West Midnapore, PIN-721101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32599			
208850	Sarkar Biplab	Biswajit Sarkar	Vill-Jharkhali, P.O-Jharkhali Bazar, Dist-South 24 Parganas, PIN-743312	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32670			
208851	Sarkar Bishan	Bidhan Chandra Sarkar	C/o. Ranjit Prasad Ismile, Shatabdi Nagar, Asansol, Bardhaman, PIN-713301	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32763			
208852	Sarkar Durga	Sunil Chandra Sarkar	Vill-Deogaon, P.O-Majlishpur, Dist-Uttar Dinajpur, PIN-733209	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32525			
208853	Sarkar Kousttav	Asis Kumar Sarkar	Vill-Chandrapur, P.O+P.S-Bagnan, Dist-Howrah, PIN-711303	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32712			
208854	Sarkar Mrinal	Arabinda Sarkar	Vill+P.O-Dighalgram, Madhyapara, Nadia, PIN-741257	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	24.10.2019	32638			
208855	Sarkar Payel	Pradip Sarkar	Vill-Karimpur, P.O-Oari, Dist-Purba Bardhaman, PIN-713142	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32597			
208856	Sarkar Subnamoy	Late Swapan Sarkar	Vill-Silbari Hat, P.O-Sonapur, Dist-Alipurduar, PIN-736204	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32530			
208857	Sarkar Tapan Kumar	Lt. Nagendra Nath Sarkar	Flat No. 407, Mayfair Bloom, 155, Dr. B.C. Roy Road, Dakshin Jagaddal, Kolkata-700151	DHMS	July-1986	University of Bihar	West Bengal	24.01.2017	31993			
208858	Sarhi Kanhaiya Partha	Sh. Rajeev Partha Sarhi	H. No. E23, Harijan Basti, Kondli Delhi-110096	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	01.10.2020	BHSD/5786			
208859	Satavisha Bhowmik	Sri Dulal Chandra Bhowmik	D/o Sri Dulal Ch. Bhowmik, Ward No. 21, Master Para, Town Pratapgarh, Tripura West 799001	BHMS	2016	The West Bengal University of Health Sciences	Tripura	03.03.2017	355/17			
208860	Sathya Prakash P.	S. Prem Prakash	6/190, Akkarakattil, Waynad Road, Nadakkavu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The West Bengal University of Health Sciences	Kerala	26.11.2016	11593			
208861	Sathyakrishna P.K.	Kedarnath P.S.	Padeesseri House, Edakkara P.O., Distt.-Malappuram Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13467			
208862	Satyarthi Ajit Kumar	Mahendra Prasad Chaurasia	Vill. Khemchand Bigha, P.O. Ketaki, P.S. Deo, Dist-Aurangabad, Bihar-824216	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	03.01.2020	33536			
208863	Saumya Rajan	Rajan	Pazhayidam (H), Rajamudy P.O., Pathinaramkandam, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	14.07.2016	11352			
208864	Savad K.	Saidu K.	Kallil Thodiyil, Moozhikkal, Chelavoor P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	09.07.2018	12574			

208865	Saxena Harshika	Sh. Rambir Saxena	D-354, 1st Floor, Laxmi Nagar Delhi-110092	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	31.07.2020	BHSD/5686			
208866	Saxena Sabira	Ajay Kumar Saxena	N-11, Gandhi Nagar, Near Railway Crossing, Padav, Gwalior, Madhya Pradesh	BHMS	2005	Jiwaji University, Gwalior	Madhya Pradesh	02.03.2021	26107			
208867	Sayana A.K.	Nanu	Eddakkudiyantavida (House), Puthoor P.O., Panoor Via, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11041			
208868	Sayeeda	Manzoor Alam Ansari	Mohalla-Chak Abdul, Wahid Majaulia Road, Muzaffarpur, Bihar-842001	BHMS	2018	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	18.06.2018	32615			
208869	Sayid K.A.	Aboobacker	Koppara (House), Valad P.O., Thalappuzha Via, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	27.06.2017	11902			
208870	Sayoojya Sanan	Sanadhanan D.	Rohini, Thekkevila P.O., Puthennada Nagar-22, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11127			
208871	Seba Rani. T. Sangma	Shri S. Rabha	Kusimkolgre, Williamnagar, East Garo Hills	BHMS	18.08.2020	Srimanta Sankaradeva University of health Science, Assam	Meghalaya	28.09.2020	486			
208872	Seena Ann Mathew	T.S. Mathai	Thattasseril Nedyakalayil, Kindanganur P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.10.2017	12271			
208873	Seena K.S.	Chandran	Kolothuparambil (H), Sulthan Bathery P.O., Kypencheri, Bypass Road, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	24.05.2016	11275			
208874	Seena Naseem K.A.	Abdul Kareem K.	Santhi House, Punnassery P.O., Narikkuni (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	02.07.2015	10868			
208875	Seethal P.S.	P.N. Sasi	Paraparambil House, Konathukunnu P.O., Mukundapuram, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.10.2019	13395			
208876	Sekh Rustam	Mosraf Sekh	Vill-Shiyalmara, P.O-Radharghat, Dist-Murshidabad, PIN 742187	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32471			
208877	Selma Ansari	Ansari M.	Shine Dale, Mundakkal East, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11463			
208878	Selma Varghese	Varkey Varghese	Alvernia Provincial House, Chalakudy P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12166			
208879	Selmath P.T.	Saidalavi P.T.	Panangattu Thodiyil (H), Perumudiyoor P.O., Pattambi Via, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	18.04.2016	11227			
208880	Semeera V.A.	Abdul Nazer	Vaisyan (House), Narangapatta, Mannarkkad P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12897			
208881	Sen Prim	Madhusudan Sen	Vill-Siddheswar Tala, Ward No. 10, P.O+P.S-Sonamukhi, Dist-Bankura, PIN-722207	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32741			

208882	Sen Soumyojit	Arijit Sen	Bejikhali Road, Krishnanagar-1, Nadia, PIN-741101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32569			
208883	Senchoudhuri Solankhi	Jiban Senchoudhuri	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01. P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin-731234	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32731			
208884	Sengupta Debashis	Late Amulya Sengupta	51/1, Kailash Pandit Lane, P.O-New Alipur, South 24 Parganas, PIN-700053	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32768			
208885	Sengupta Shreya	Dulal Sengupta	Indra Prastha Appt. BL-5, G-2, 24M.B. Road, Kalabagan, North Dum Dum, Birati, PIN-700051	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32692			
208886	Sengupta Shreyasi	Sudipta Sengupta	Shaktinagar, P.O-Kharia, Dist-Jalpaiguri, PIN-735101	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32757			
208887	Sengupta Subhagnita	Subhashish Sengupta	Vill+P.O-Madarihat, Ashwini Nagar, Ward No. 1, Dist-Alipurduar, PIN-735220	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	29.04.2019	32521			
208888	Sereena Shareef	C.A. Mohammad Shareef	Allannoor House, Thalayolaparambu P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.06.2015	10824			
208889	Serene Joy	O.S. Joy	Oliyappuram House, JN-165, Near-E-Colony, Ankamaly P.O., Distt.-Ernakulam Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.01.2016	11014			
208890	Serin Peter	K.A. Peter	Kanjirathinkal House, Market Road, Tripunithura P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12589			
208891	Sethulakshmi K.P.	Preman K.R.	Kurumboor House, Elavally South P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12174			
208892	Sha Ajim	Rasul Box Sha	Vill-Jharubati, P.O-Goda Annada, Dist-Purba Bardhaman, PIN-713122	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32659			
208893	Shaba Shahul Tharayil	Shahul Hameed Tharayil	Zainu Mahal, Edakkaparamba, Kannamangalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	09.06.2017	11890			
208894	Shabana	Abdul Rahiman M.M.	Muttipalathingal House, Perumpilavu P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	28.05.2019	13122			
208895	Shabana A.	Abdul Rasheed A.	Manchiyathil Noor House, Zackariya Ward, Bazar P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11624			
208896	Shabana B.	Badarudeen	Shabana Manzil, Kummil P.O., Kottarakkara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11173			
208897	Shabana S.	Shajahan M.	Shahina Manzil, Pathirickal P.O., Pathanapuram, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10952			
208898	Shabana T.A.	Mohammed Asaraf T.S.	Baitul Hamdu, 6/144, Kuttiyil Vayal, Bepore, Arakkinar P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	07.03.2017	11777			

208899	Shabeeba Kuruniyan	Ahamed Kutty	Arukattil House, Mattathur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	30.11.2016	11617			
208900	Shabeena A.R.	Abdul Rasheed	2/245 A, Darul Kanz, Anganwadi Road, Adoor Palam, Kadachira P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	08.08.2017	12114			
208901	Shabeera Shireen	Basheer Thayyil	Thayyil House, V.K. Road, Atholi, Kongannur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.07.2017	12003			
208902	Shabna K.	Ashraf K.	Alingal House, Ziyarathu Palli Road, Anappadi, Ponnani South, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	15.12.2016	11620			
208903	Shabna K.K.	Moidu	Kalayam Kulath (H), Ayanchery P.O., Vadakara (Taluk), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	09.06.2017	11891			
208904	Shabna Karadan	Zubair Karadan	Karadan House, Vellilakkad Road, Tirurangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.04.2016	11198			
208905	Shabna N.	P. Nizamudeen	Nishad Manzil, Dr. S.H. Nagar-209, Thattamala P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11595			
208906	Shabna V.	Muhammed Ashraf	Venkellil (House), Poonath P.O., Naduvannur (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.07.2017	12044			
208907	Shabnam Sidheek	M. Sidheek	T.C. 25/3609, P.R.A. T-50, Tankroad, Pulimoodu, G.P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	Kerala	02.12.2019	13477			
208908	Shadiya Febin P.	Abdul Nasir P.	Abhayam House, Punnassery P.O., Narikkuni (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.12.2018	12966			
208909	Shadiya P.	Abdul Majeed P.	Parakkal (H), Nooradi, Vadakkemanna, Kodur P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11111			
208910	Shadiya Yusuf V.P.	Mohamed Abu Yusuf V.P.	Vellapully House, Ariyoor P.O., Mannarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2019	13061			
208911	Shafna M.P.	Akbar Ali M.P.	Puthiyedath House, Nelliparamba, Nilambur Road, Manjeri, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2018	12600			
208912	Shafna P.K.	P.L. Kunjumohamed	Pandaparambath House, Kaipamangalam Beach, Distt.- Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10855			
208913	Shafseena K.P.	Abdul Azeez K.P.	Paloth Paramba, Kuttiyil Thazham, Pokkunn P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2017	12193			
208914	Shah Rinki Kumari	Bhola Shah	Besara Homoeo Clinic, Main Road, Bihar-802101	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	23.11.2019	33455			
208915	Shahadiya T.	Kunhammad	Thiyyarambath (House), Villiappally P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2018	12584			

208916	Shahala M.	Assan Koya M.	Mundoly House, Nallalam P.O., Jayanthi Road, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10996			
208917	Shahana A.	Hamza A.	Alukkal (H), Tirur Road, Kuttippuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	25.07.2016	11372			
208918	Shahana A.U.	Shahul Hameed A.U.	Kolletth Karuvalappil House, Kallarmangalam P.O., Kadampuzha (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.05.2019	13117			
208919	Shahana Haris	Haris C.	Meenas Manzil, Morikkara P.O., Kakkodi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	08.05.2019	13111			
208920	Shahana K.	Sulaiman K.	Kavuthiyottil (H), Chundappuram, Koduvaly P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11323			
208921	Shahana K.K.	Kunjumuhammed K.V.	Madassery House, R.S. Road, Tuvvur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11186			
208922	Shahana P.T.	Abdussalam P.T.	Mangattuthodi (H), Kuniyil, Kizhuparamba P.O., Areacode, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11587			
208923	Shahana T.P.	Moosakoya T.P.	Santi', Baithulhamd, Kuttiyilpadi, Thiruvannur P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.02.2018	12474			
208924	Shahana V.	Hassan V.	Shahana Manzil, Veluthen Kadan (House), Rippon P.O., Meppadi, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12021			
208925	Shaharban S.D.	A.K. Darvesh	Vadakke Tharayil, Ponnad P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	28.05.2019	13124			
208926	Shaharshana K.P.	Ammad	Komath (H), Chalappuram, Nadapuram P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	16.11.2015	10956			
208927	Shaheeba P.K.	Abdulla P.K.	Soubhagy (H), Pullooni, Mangalam P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11296			
208928	Shaheeka M.	Assan Koya M.	Mundoly House, Nallalam P.O., Jayanthi Road, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10986			
208929	Shaheen Arifa	Mr. Sohail Ahmed	I-8, Haji Colony, Gaffar Manzil Extn- II Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/ 5741			
208930	Shahida M.	Mohamed Idress M.	Mundasseri, Arafa (H), Kozhichena, Valakolam P.O. Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	10.04.2015	10777			
208931	Shahila Jalaludeen	Jalaludeen	Shahla Manzil, Pandakassala, Poovar P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.11.2019	13449			
208932	Shahina B.V.	Moideen	Balara Veetil House, Valliad P.O., Villyappalli Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.03.2016	11174			

208933	Shahir K.	Abdul Khadir K.	Kundil House, Korangath, Tirur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11103			
208934	Shahla C.H.	Abdussamad C.H.	Cherayakuth (House), Kadungooth, Koottilangadi P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	20.09.2017	12213			
208935	Shahla U.	Mohammed Ali V.	Al-Noor, Pappinisseri West P.O., Pappinisseri, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13465			
208936	Shahna K.	Shahul Hameed K.	Nisha Manzil, Kallampara P.O., Perumugham, Feroke, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11151			
208937	Shahna N.S.	Najeeb A.	Najeeb Buildings, Ayiroor P.O., Varkala, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.06.2018	12520			
208938	Shahnas N.	A.M. Nujumudeen	Nass Plavila-5, Nellimoodu, Kulathupuzha P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11412			
208939	Shahzadi Sayyada Uzma	Late Md. Zafiruddin	16, Nil Madhab Sen Lane, Chittaranjan Avenue, Circle Avenue, Kolkata-700073	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32746			
208940	Shaibina V.A.	Abdulkareem	Vellikulam (House), Koorachundu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12122			
208941	Shaikh Rozamin Alamgir	Shaikh Alamgir A. Gafur	201-Maitri Complex, Near TDC Bank, At/Post-Kudus, Palghar-421312	BHMS	2015	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra	03.09.2015	62614			
208942	Shaima M.	Abdussamad M.	Moyikkal (House), Athanikkal, Karad P.O., Vaniyambalam, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12426			
208943	Shaima S.	Shamsudin S.	Seelath (House), Illikkadu, Edakkara P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12896			
208944	Shakeeba P.N.	Abdulvhab P.N.	Kozhisseri House, Andiyoorunnu, Valiyaparamba P.O., Pulikkal Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	30.12.2017	12364			
208945	Shakeel Khulood	Mr. Shakeel Ahmed	N-3, Abul Fazal Enclave, Okhla New Delhi-110025	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	18.12.2020	BHSD/ 5794			
208946	Shakira P.K.	Abdul Salam P.K.	Pattarkadavan (H), Hajiyarpalli P.O., Kolmanna, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.04.2016	11215			
208947	Shakira S.	Shaikmeeran M.	TC 88/1293, Baithul Noor, Gandhinagar, Puthenpalam, Vallakadavu, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.10.2018	12869			
208948	Shalika K.S.	Shareef K.	Arakkal Vettath House, Perakam P.O., Chavakkad, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.06.2018	12513			
208949	Shalini Priya	Sh Vishwas Kumar	Flat No. 15-D, DDA Flats, Harsh Apartments, Sector-10, New Delhi-75	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/ 5765			

208950	Shama P.	Asainar P.	Pakkarath (H), Mangode P.O., Cherppulassery Via, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11733			
208951	Shameema N.	Saidalavi N.	Nheliyathodi House, Nattamangalam, Chundambatta P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	13001			
208952	Shameema P.	Aboobacker P.	Pookuth House, Pullipparamba P.O., Chelembra, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	16.06.2015	10829			
208953	Shameema V.K.	V.P. Kamarudeen	Suhair Manzil, Chakkamkandam P.O., Paluvai (Via), Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2019	13290			
208954	Shameena E.P.	Aboobacker	Edappetti (House), Edacheri P.O., Vadakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12243			
208955	Shameena P.	Ali P.	Koomankallingal (H), Valamangalam, Olamathil P.O., Mongam Via, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	14.12.2015	10979			
208956	Shameer S.	Sainudeen P.	Arshin House, Devarvila, Parassala, Parassala P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12608			
208957	Shameera Beegum K.P.	Kunhipocker K.	Kunnum Purayil (H), Kizhakkoth P.O., Koduvally, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	01.02.2016	11069			
208958	Shameera M.K.	Mohammed M.K.	Moochikkootathil (H), Trikkadeeri P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	14.07.2016	11355			
208959	Shamina Parveen E.	Mohammed Mansoor E.	Mullan (H), Kalikavu P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11147			
208960	Shamla Beegum C.K.	Mohammed Hassan Haji C.K.	Karappakunnu (H), Omanoor P.O., Chekode, Kondotty, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	13.01.2016	11015			
208961	Shamla Edaloli	Alavi E.	Edaloli (House), Kasalakkunnu, Pandikkad Road, Manjeri College P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.12.2017	12358			
208962	Shamla S.	Sainudeen	S.S. Manzil, Adinadu South, Kattilkadavu P.O., Karunagappally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	21.07.2017	12036			
208963	Shamleena C.K.	Hassan Kutty C.K.	Chullikulavan (H), Ambalakkadavu P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.12.2015	10973			
208964	Shamly P.	Yousuf Ali P.	Nanna (H), Poolakkal (H), Payyanangadi, Tirur P.O., Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11727			
208965	Shamna M.	M. Abdul Hameed	Mangadakkuzhiyil House, Alanallur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.12.2018	12977			
208966	Shamna Mattakath	Chekkuppa M.	Veluthadath (H), Marikunnu P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2010	Mahatma Gandhi University	Kerala	27.01.2017	11699			

208967	Shamna N.	Ashraf P.P.	Shahala Nivas (House), Kayyath Road, Near Surya Kulam, Thalassery P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	11.10.2018	12910			
208968	Shamna Najeeb P.	N. Najib	Modhi Nivas, O.G. Road, Thiruvannur Nada P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.07.2016	11301			
208969	Shamna P.K.	Abdul Salam	Parakkombath (House), Nochat P.O., Naduvannur, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.08.2017	12071			
208970	Shamna U.K.	Hussain U.K.	M.S. Mahal (H), Pannikkottur P.O., Koduvally (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.04.2017	11830			
208971	Shamna V.	Abdu Rahiman V.	Valathil House, Palapetta, Edavanna (Via), Pannippara (Post), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.03.2019	13089			
208972	Shamseera M.	Moosa M.	Mangada House, Thennala P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.03.2018	12481			
208973	Shamsiya K.T.	Abdul Razak K.T.	Shamsi Manzil, Pallikandy, Kallai P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.09.2018	12859			
208974	Shana Fathima M.	Ummer Koya M.	Moodentharammel (H), Karuvanthiruthy P.O., Feroke, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.03.2016	11177			
208975	Shana Fathima S.	A. Abdul Nazar	81/18, Baithul Majeed, P.P.M. Junction, Ayingamam, Parassala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.01.2017	11698			
208976	Shana K.	Unnimuhyiddeen K.	Hill View House, Elayur, Iruvetty P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10806			
208977	Shana K.V.P.	Saidu K.V.P.	Cheriyi Thottathil, Thangal's Road, Kuttichira, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12097			
208978	Shana P. Rahman	Mohammed Abdul Rahman	Kottangodan House, Karulai P.O., Nilambur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	13005			
208979	Shana Parveen M.P.	Ebrahim	Poyilil (H), Iyyad P.O., Unnikulam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	26.04.2017	11854			
208980	Shana Parveen T.	Kunheedu Master T.	Thayyil House, Thiruvizhamkundu P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	26.07.2017	12042			
208981	Shaniba P.A.	Abdulkasheed P.S.	Poothokkil House, Ettumana, Karuvannur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.08.2018	12667			
208982	Shanon P.S.	Subash P.S.	Pookkottil House, Perakom P.O., Guruvayoor, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Goa University	Kerala	10.04.2019	13100			
208983	Shanooja C.	C. Usman	Chemban (H), Karkidamkundu P.O., Alanallur (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	10.05.2017	11876			

208984	Shanu M.	K.M.A. Manaf	Nest, Brindavan Garden, Near Meadows Colony, BPL Junction, Kootupatha, Chandranagar P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12830			
208985	Sharan Elizabeth George	Shibu G. Cheriyan	Kishara, PRA-37, Polayathodu, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11006			
208986	Sharath Kumar P.	Haridasan P.	Parol (H), Ariyallur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	31.01.2016	11057			
208987	Shari K.S.	A. Sivan	Kizhakkanchalil (H), Perinchankutty P.O., Chempakapara, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11073			
208988	Sharma Abhay Rankishor	Ramkishor Sharma	Near Indumati Hospital, Shivaji Nagar, Sillod, Distt. Aurangabad, Maharashtra-431112	BHMS	2020	Devi Ahilya University, Indore	Madhya Pradesh	05.08.2020	25518			
208989	Sharma Amita	Mishri Lal Sharma	H.No. 857, Behind of Gupta Petrol Pump, Alinagar, Mughalchuk, Distt.-Chandauli, Uttar Pradesh-232101	BHMS	2013	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	06.08.2013	H033086			
208990	Sharma Arun	Sh. Kailash Chand	H.No. 371, Ward No. 4, Near Arya Samaj Mandir, Firozpur Jhirka, Nuh-122104	BHMS	04.01.2018	Dr. S.R. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Haryana	04.01.2018	6372-A			
208991	Sharma Aviksha	Sh. Sushil Sharma	D-49, Sarawati Garden Near Kirti Nagar, New Delhi-110015	BHMS	2018	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	05.01.2021	BHSD/5805			
208992	Sharma Devika	Sh. Bhushan Dutt Sharma	116-A, Kamla Nagar, Near Shakti Nagar Chowk, Delhi-110007	BHMS	2019	Homoeopathy University Jaipur	Delhi	21.07.2020	BHSD/5679			
208993	Sharma Gaurav	Jagdeesh Sharma	Vill. & Post-Ratauti, Teh-Bah, Distt.-Agra, Uttar Pradesh-283113	BHMS	2019	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	05.12.2019	H038849			
208994	Sharma Himanshu	Sh. Anil Sharma	A-1/24, Budh Vihar Phase-1 Delhi-110086	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	04.08.2020	BHSD/5690			
208995	Sharma Himanshu	Mr. Dinesh Sharma	126-Third Floor, Venus Apartment Inder Enclave, Rohtak Road New Delhi-110087	BHMS	2017	Bhim Rao Ambedkar University Bihar	Delhi	05.03.2021	BHSD/5816			
208996	Sharma Lokendra	Sh. Ishwar Sharma	JB-4/16, Welcome Seelampur-III Delhi-110053	BHMS	2018	Bhim Rao Ambedkar University Bihar	Delhi	14.12.2020	BHSD/5790			
208997	Sharma Manish	Sh. Uma Shankar	E-7/332, Nehru Vihar, Delhi-94	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5651			
208998	Sharma Mohit	Sh. Rajender Kumar	33-X, Chitragupta Road, Paharganj New Delhi-110055	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5678			
208999	Sharma Pragya	Vipin Kumar Sharma	RZ-654/9, Gali No.-18J, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045	BHMS	2020	Homoeopathy University, Jaipur	Delhi	27.07.2020	BHSD/5681			

209000	Sharma Rajesh Kumar	Bechan Sharma	Vill-Barzi, Post-Nayepur, Choumuhani, Thana-Fulpur, Distt.-Varanasi, Uttar Pradesh- 221207	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Uttar Pradesh	15.01.2020	H-038929			
209001	Sharmeela	Sadique	Mathath (House), Kummenkode, Nadapuram P.O., Vadakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13473			
209002	Sharminas A.P.	Muhammed Ashraf M.P.	Dawn', Chakkarappara, Azhikode P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.03.2017	11819			
209003	Sharmy T.R.	M. Muhammed Rasheed	Sharmy Manzil, Velloorkonam, Mancha P.O., Nedumangadu, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12564			
209004	Sharon Elza Sam	Sam John	Eattimoottil (H), Kumplampoika P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	01.07.2016	11304			
209005	Shary Krishna B.S.	M. Balakrishnan	"Sumi Villa", Sunnra-15 B, Puthan Road Junction, Pethah, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10798			
209006	Shashitha D.S.	Shankara	Chundiran (House), Vengad P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.07.2017	12061			
209007	Shaw Pradip	Late Ashok Shaw	Vill-Jangalpur, P.O-Argori, Dist-Howrah, PIN-711302	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32753			
209008	Sheeka Jamal	Jamal Musthafa	Varikkappulakkal (House), South Bazar Via, Kuttippuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.06.2017	11897			
209009	Sheena Basheera P.	Muhammed Basheer Poonthottil	Poonthottil (House), Olippuzha, Edayattur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12207			
209010	Sheena Vincent	Vincent Joseph	Orappaniyil House, Kalladikode P.O., Mannarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.01.2016	11023			
209011	Sheenamol Kuruvilla	M.C. Kuruvilla	Marampil House, Amalagiri P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12420			
209012	Sheetal Rani	Sh. Vijay Pal	V.P.O. Nilothi(19), Tehsil-Bahadurgarh, Distt.-Jhajjar, Haryana-124404	BHMS	2019	Pr. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak	Haryana	09.10.2019	6481-A			
209013	Sheetal E.S.	E.N. Sivasankaran	Edathiparambil House, Annamanada P.O., Palisserry, Chalakudy (Via), Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12203			
209014	Shefeera K.	Sirajudheen K.A.	Kallupurakkal House, Edappal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.08.2019	13360			
209015	Shehana S.	Sainullabdeen	Fasna Manzil, Arafa Nagar-69, Paratayil Padinjattathil, Eravipuram P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.07.2017	12051			

209016	Shehna S.S.	Sirajudeen A.	A.P.K. Manzil, Salamath Nagar 10, Kilikkolloor, Kallumthazham P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.02.2019	13011			
209017	Sheikh Asif Ahmed	Khadem Ali Sheikh	Vill-Golpukur Mondalpara, P.O-Baruipur, Dist- South 24 Parganas, PIN-700144	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32668			
209018	Shende Sanchita Chandrashekhar	Chandrashekhar Nemaji Shende	House No. B-1/2, Bombay Dyeing Colony (West), Chambharli, Mohopada, Khalapur, Raigad-410222	BHMS	2016	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra	19.12.2016	64773			
209019	Sheneefa P.K.	Haneefa P.K.	White House, Chemmankadavu, Down Hill P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.12.2018	12962			
209020	Sherbin Sulthana P.	Kunhimohammed Pachayi	Pachayi (H), Cherumukku P.O., Tirurangadi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11452			
209021	Sherija A.K.	Abdul Latheef A.K.	Anakkayi (H), Janathappadi, Nilambur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	14.03.2017	11801			
209022	Sherin Jacob	P.M. Jacob	Panackal House, Mararikulam North P.O., S.L. Puram, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.06.2015	10823			
209023	Sherin P. James	James P.P.	Pulikkal House, Cherai P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12091			
209024	Sherin S. Babu	P.R. Babu	Santhwanam, Pavathianvila, Parassala P.O. Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11925			
209025	Sherin Shahanas P.K.	Kunhimuhammed	Pulayakkalathil, Karkidamkunnu P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12736			
209026	Sherin Shaju	Shaju P.A.	Porathur Panokkaran (House), Pullanikkad, Wadakkanchery (R.S.) P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12690			
209027	Shibila Febin P.	Mohamed Haneefa P.	Poolakkal House, Panangangara, Ramapuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.02.2018	12470			
209028	Shibila Nufly K.P.	Yoosuf Mehrali K.P.	Puthan Veetil House, Morayur P.O., High School Padi, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13024			
209029	Shibila V.K.	Kent V.K.	Vadakkumpurath (H), Ochanthurath P.O., Vypin, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.03.2016	11155			
209030	Shibin Pattakka Puthukudi	Vijayan P.	Vijay Bhavan, Mooriyad P.O., Kuthuparamba, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	21.11.2018	12951			
209031	Shibina K.	Veerankutty K.	Eachikunnummal (House), Menhannium P.O., Perambra Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11038			
209032	Shibla T.K.	Abdusalam T.M.	Kanangattu Kalathil (H), Velimukku South P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	31.01.2016	11044			

209033	Shibna Gafoor T.	Abdul Gafoor T.	Thorakath House, Thottintakkara, Mampad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.09.2018	12824			
209034	Shifa Basheer	P.K. Basheer	Puthen Veettil (House), Near Noor U-L Masjid, Kanjirappally P.O., Kanjirappally, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12664			
209035	Shifa K.	Mohamed Kaderi	Valiyattu (House), Melmuri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	11.10.2018	12911			
209036	Shifa Parvin K.	Moideen Kutty K.	Kodakkatt (House), Kodinhi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.05.2018	12497			
209037	Shifa Razak	Abdul Razak K.C.	Rhythm, Viruppil (House), Anappara, Kunnamangalam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.09.2018	12814			
209038	Shifana Kabeer	Kabeer A.	Thaiparambil House, Allissery Ward, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12418			
209039	Shifana Majeed T.T.	Abdul Majeed T.T.	Thottingal Thodika (H), Vaniyambalam P.O., Kuttyil, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11191			
209040	Shifna K.P.	Ummer K.P.	Kottarapparambil (H), Velliyanchery P.O., Melatour Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11315			
209041	Shihad Ahmed	Siddique Hasan B.	Bathery House, Panchayathumpadi, Karulai P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	29.07.2017	12049			
209042	Shihanath K.	Abdulla K.	Kozhishery (House), Kombam, Kodakkad P.O., Mannarkkad (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.10.2018	12921			
209043	Shiji Babu	Babu C.V.	Chathiyath (House), Mayyannur, M.C.M. UP School, Vadakara, Villiappalli, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11933			
209044	Shiji G.V.	George Stephenson	Shiji Bhavan, Mullilavuvila, Kudayal P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11411			
209045	Shiji K.T.	Panchankutty K.T.	Kavungalathodi (H), Aripa P.O., Angadippuram Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	22.12.2015	10987			
209046	Shijin Shahu	E. Shahudeen	Shijin Sha Manzil, Udayathara Nagar, House No. 28, Eravipuram P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11179			
209047	Shilja C. Cherian	Cherian	Chempakara (H), Chettiamparamba P.O., Kelakam Via, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11291			
209048	Shilpa K. Karthikeyan	Karthikeyan K.V.	Kavungal (H), Near Asmabi College, P. Vemballur P.O., Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.01.2016	11029			

209049	Shilpa K. Nath	Gopinath K.V.	Kavalayil House, Karapuzha P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2017	12078			
209050	Shilpa M.	Madhavan Namboothiri M.	Thalavanattu Illam, Nagambadom, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12614			
209051	Shilpa P.	Sivaraman P.	Padinjarethil (House), Kulappadom, Kumerempthur P.O., Mannarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12831			
209052	Shilpa Prasad	Jayaprasad K.S.	Krishna', PRA-36(2), TC-49/66(1), Kamaleswaram, Manacaud P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11916			
209053	Shilpa S.	Kaimal N.S.	Vishakhham, Panavally P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.09.2018	12857			
209054	Shilpa Shahu P.S.	Shaju P.A.	Pazhayakat House, Edavanakad P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12673			
209055	Shilpa Sivan	Sada Sivan Pillai	Midhula Cottage-2B, Skyline Canopy, Nadakavu P.O., Vandipetta, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	29.07.2017	12048			
209056	Shima Mohan	Mohanan P.K.	Polassery (House), Chentrappinni P.O. (17), Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	25.10.2017	12285			
209057	Shimna T.	Abdu T.	Thonikkara House, Thachinganadam P.O., Pattikkad Via, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	21.03.2017	11815			
209058	Shincy Joseph	Joseph M.J.	Mamballithadathil House, Azhiyannur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.06.2019	13165			
209059	Shincy P.T.	Muhammadali P.T.	Veluthedath Kandi (House), Nallur(Via), Feroke P.O., Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	02.07.2015	10861			
209060	Shine Samuel C.	Samuel C.S.	Cheeran House, West Mangad P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	12000			
209061	Shini Kurian	P.J. Kurian	Sh. Provincial House, Thondiyil P.O., Peravoor, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.07.2015	10877			
209062	Shinsa Rahmath K.N.	Nazar K.A.	Kurudamparambil (House), Illathulane West, Edavanakad, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.11.2017	12315			
209063	Shinu Jose	Joseph C.J.	Little Flower Convent, Manapuram P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	03.10.2019	13402			
209064	Shireen M.T.	Hamza M.	Mankarathodika (House), Pullengode P.O., Srambikkallu, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	04.08.2018	12699			

209065	Shireen Mohammed Ali Ummalil	Mohammed Ali	'Al-Noor', Pappinisseri West P.O., Near Arabic College, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	06.04.2016	11212			
209066	Shirin	Seethi Varikkapulakkal	Mundothodi House, Mavandiyoor, Vadakkumpuram P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.12.2017	12368			
209067	Shirin Fabi M.	Moosa Mekkunath	Fabees (H), Modakallur P.O., Atholi Via, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	10.12.2015	10962			
209068	Shivani	Sh. Vijay Kumar	C-4, MCD Flats, Padang Nagar New Delhi-110007	BHMS	2017	Pt. B.D. Sharma University, Rohtak	Delhi	15.09.2020	BHSD/5780			
209069	Shm. Kalpana Pathak	Vipin Kumar Pandey	Vill. Kolhua Lakada, Post-Utarawal, Dist.-Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh-272175	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Uttar Pradesh	23.10.2019	H038768			
209070	Shobhana M. Nambiar	Mohan Chandran	"Kaveri", Pattana, Nileshwar P.O., Hosdurg, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.09.2015	10916			
209071	Shreefa E.	Ali Akbar Irumban	Cholakkalkundil, Amayur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.04.2018	12494			
209072	Shreya N. Padiyar	Naresh V. Padiyar	"Springfield", R.G. Pai Road, Cherial South, Mattancherry P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.07.2016	11370			
209073	Shreya P.	Kumaran P.	Palery Thazhe Kuniyil (House), Elangode P.O., Panoor, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11036			
209074	Shuji Shahma P.	Kammunni P.	Pottayil (H), Amapoyil, Vellayoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.01.2017	11677			
209075	Shukla Richa	Rajesh Kumar Shukla	594, Kumar Niketan Adarsh Nagar Unnao, U.P.-209801	BHMS	2019	Jiwaji University, Gwalior	Uttar Pradesh	01.11.2019	H038801			
209076	Shukla Shivanki	Sh. Arun Kumar Shukla	L-29/10A, Street No. 8, Jai Prakash Nagar, 4th Pusta, Delhi-110053	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5768			
209077	Shwetha Mariam Titty	Titty Daniel	Mundakkal House, Adichanalloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	28.01.2017	11709			
209078	Shyama Prathap	Prathapachandran N.S.	Theyyanathu Madom, East Gate, Vaikom P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	19.08.2019	13300			
209079	Shybi P.T.	P.T. Thomas	D.S.H.J. Convent, Malloossery P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2019	13306			
209080	Sibi Raj V.C.	J. Vijayaraj	Arun Nivas, T.C. 18/1430, Das Nagar, Aramada P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11137			

209081	Sibin R.A.	Ramabhadran G.	Ananda Bhavan, Eanthikala, Kakkottukonam, Cheruvarakonam, Parassala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11627			
209082	Sibiya K.S.	S. Kumaradas	Green View Bethel, Muttacaud P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11399			
209083	Siddabathina Uma Devi	Siddabathina Madhu Sudhana Rao	D.No.-23-11-4/7, F.No. 204, Sai Seethe Mansion, Sri Ram Nagar, Rajamahendravaram (U), East Godavari, Distt. Andhra Pradesh 533105	BHMS	2018	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Andhra Pradesh	17.07.2018	8483/H/2018			
209084	Siddqui Shazia	Mohd. Salim	F-7/B-4, Block-F, Dilshad Colony Jhilmil, Delhi-110095	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	27.08.2020	BHSD/5707			
209085	Sidhi Raj S.	Rajappan M.G.	Surya', P.H.E.D. Road, Eranhipalam, Civil Station P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13187			
209086	Siji S.	G. Stephen	Rosehouse, DRA-37, Kollavila, Mosque Lane, Kesavadasapuram, Pattom P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12239			
209087	Silpa M.S.	Sahadevan M.K.	Snehasipam, Mariappadam, Elavampadam P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	06.12.2017	12322			
209088	Silpa P. Sasidharan	Sasidharan P.C.	Punnakkatharayil House, Kazhuvilangu, Mathilakam P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11043			
209089	Silpa Sankar P.K.	Sankaran P.K.	Parappum Kattil (H), Naduvannur P.O., Koyilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	26.05.2017	11889			
209090	Silpa Sasi M.K.	Sasidharan	Chinnukutty Veedu, Peruvattur P.O., Koyilandy, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12100			
209091	Silpa T.K.	Venugopalan T.K.	Thekkinkattil House, Chulliyode P.O., Pookkottumpadam, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.09.2018	12782			
209092	Silpa Unni	K.G. Unnikrishnan	Tharammal House, Near S.K. Temple, Head Post Office, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12954			
209093	Simi Mathew Kappadakkamadathil	Mathew Paul	Kappadakkamadathil, Kottekkulam, Korenchira P.O. Kizhakkenchery, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.06.2019	13153			
209094	Simi P. Ismail	Ismail P.C.	Payyampallil House, Edayirickapuzha P.O., Kangazha, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10838			
209095	Simi S. Aradan	Saji Aradan	Arattu Galilee, Koivila P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.01.2018	12432			

209096	Simi S. Joy	J.M. Joy	Joy Bhavan, T.C. 4/2310, Alathara, Sreekariyam P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12146			
209097	Simihaneefa R.	Haneefa A.M.	T.C. 5/1107, Opposite G.G.H.S.S., Peroorkada, Peroorkada P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2016	11321			
209098	Simran	Sh. Sukhdarshan Kumar	D-38, Sanjay Enclave, Raja Puri Road, Uttam Nagar, New Delhi-59	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5661			
209099	Sindhes Mohammed P.K.	Mohammed P.K.	Peruvankuzhiyil House, Cheloor, Kodur, P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.11.2016	11588			
209100	Sindhi Pooja	Ajay Kumar Das	160/6, Railway Quarter, Beliaghata Road, Kolkata-700015	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	28.11.2019	32765			
209101	Sindhu Kumari	Sasi Kumar	TC 2/507, Madathuvila Veedu, Medical College, Near P.T. Chako Nagar P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2014	The West Bengal University of Health Sciences	Kerala	21.11.2018	12936			
209102	Sindhu V.S.	G.V. Nair	Aswathy', Pazhayar, East Kallada P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.06.2018	12506			
209103	Singh Abhijeet Kumar	Chandradeep Singh	Anand Nagar, Road No. 02, Gobarsahi, Post-Khabra, P.S.-Sadar, Distt.-Muzaffarpur, Bihar-843146	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	30.08.2019	33064			
209104	Singh Ashna	Sh. S. V. Singh	Flat No 119, Rashtrapati Bhawan Apts, Plot-3, Sector-10, Dwarka New Delhi-110075	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5728			
209105	Singh Devendra	Sri Jawahar Lal	GF-1, Plot No. 318, Gyan Khand 1, Indira Puram, Ghaziabad	BHMS	14.09.2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	28.05.2013	H032600			
209106	Singh Disha	Dashrath Singh	C/o. Tarak Nath Haldar, Krishnapur, Murshidabad, PIN-742185	BHMS	Oct.-2018	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	22.07.2019	32551			
209107	Singh Gajender	Ram Kishan	V.P.O.-Ujina, Teh. & Distt.-Nuh Mewat, Haryana-122107	BHMS	2019	Jiwaji University, Gwalior	Haryana	09.06.2020	6514-A			
209108	Singh Kanika	Sh. Inder Jeet Singh	1/6879, Azad Gali no. 5, East Rohtash Nagar, Shahdara, Delhi-32	BHMS	2019	Dr. S.R. Rajasthan Ayurved University Jodhpur	Delhi	14.12.2020	BHSD/5792			
209109	Singh Karanjeet	Dr. Surinder Singh Rajput	8/19, Top Floor, West Patel Nagar New Delhi-110008	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	11.08.2020	BHSD/5689			
209110	Singh Kawaldeep	Sh. Gorcharan Singh	E-2/88, 2nd Floor, Sector-11, Rohini Delhi-110088	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5675			

209111	Singh Komal	Sh. Dalip Singh	B-528,Avantika,Sector-1,Rohini Delhi-110085	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	08.01.2021	BHSD/ 5806			
209112	Singh Manadip	Sri Thakur Das	Vill.-Malhella Vijay Post Kundol, Agra	BHMS	16.11.2012	Guru Ravidas Ayurved University, Punjab	Uttar Pradesh	04.10.2013	H033372			
209113	Singh Manish Chandra	Ram Samujh Singh	H.No.-428 Shivaji Nagar (Mahusugharpur), P.O.- Shivpuri New Colony, Distt.-Gorakhpur 273016	BHMS	2010	Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune	Uttar Pradesh	30.08.2010	H030320			
209114	Singh Naorem Gopeshwor	Naorem Tombi Singh	237/L, Manicktala Main Road, S.O.- Kankurgachi, Kolkata-700054	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32697			
209115	Singh Omvir	Sh. Rajpal Singh	E-85, Nehru Vihar, Near Timarpur Delhi-110054	DHMS	1984	Rajasthan Board	Delhi	06.07.2020	BHSD/ 5667			
209116	Singh Pooja	Ashok Kumar	Flat A/6, RZ-437, Raj Nagar-1, Yadav Niwas, Palam Colony, New Delhi-45	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	31.07.2020	BHSD/ 5685			
209117	Singh Priya	Sh. Sohan Singh	Flat No. 270, Gangotri Apartments Sector-12, Pocket-1, Dwarka, New Delhi-110078	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/ 5756			
209118	Singh Priyanka	Dharmendra Singh	D/o Dharmendra Singh, H.No. 69, Vill.-Bibipur, Post- Gulzarganj, Thana-Sikrara, Distt.- Jaunpur, Uttar Pradesh-222135	BHMS	2018	Barkatullah University, Bhopal	Uttar Pradesh	03.06.2019	H038340			
209119	Singh Rahul	Achal Singh	15/101C, M.P. Pura Tajganj Agra U.P. 282001	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	20.05.2019	H038293			
209120	Singh Rajtilak Kumar	Kailu Yadav	Tetariya Khurd, P.O.+P.S.-Barachatti, Gaya, Bihar-824201	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	30.08.2019	33080			
209121	Singh Rishikanta Konhoujam	Konthousam Jiten Singh	C/o. Arindam Sarbadhikari, 1760, Prantik Pally, Kasba, Kolkata-700042	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32453			
209122	Singh Sudipti	Surendra Pal Singh	Maharaj Nagar, Near KKR School, Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh- 262701	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	27.06.2019	H038522			
209123	Singh Surendra	Om Prakash Singh	669, Brij Vihar Colony, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Mathura, U.P.- 281403	BHMS	2020	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	13.08.2020	H039128			
209124	Singh Vijya	Sh. Shashi Kant Singh	House No. E-20, Phase-1, Qutub Vihar, Delhi-110071	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/ 5671			
209125	Singha Aiswarya	Sanjay Singha	Colonelgola, Midnapore, West Midnapore, PIN-721101	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32593			
209126	Singha Debojyoti	Tarun Kumar Singha	Narottampur, Kahala, Maldah, PIN- 732205	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32647			
209127	Singha Kanak Kanti	Mahim Chandra Singha	Vill+P.O-Basar, Dist-South 24 Parganas, PIN-743374	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32595			

209128	Singha Kanak Kanti	Mahim Chandra Singha	Vill & P.O.-Basar, P.S.-Dholahat, Distt.-South 24 Parganas, West Bengal-743374	BHMS	2019	The West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32595			
209129	Sinha Abanindra	Ajoy Kumar Sinha	Mangalpur, Balurghat, P.O.-Beltala Park, Dist-Dakshin Dinajpur, PIN-733103	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32674			
209130	Sinha Kakali	Paritosh Sinha	Vill-Gopalpur, P.O-Bhupalpur, Dist-Uttar Dinajpur, PIN-733143	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32461			
209131	Sinha Karunamay	Dwipendra Narayan Sinha	Netaji Pally, P.O+P.S-Islampur, Dist-Uttar Dinajpur, PIN-733202	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32679			
209132	Sini K.V.	Subrahmanyam	Kolathum Purath Vayalil (H), Panangad P.O., Balusserry (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.06.2017	11896			
209133	Sini N.	Nadi P.	Nechikkodupoyil (House), Thrikkalangode P.O., Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11082			
209134	Sini N.N.	A. Nazimudeen	Subah, TC 75/633, Pettah, Anayara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12794			
209135	Sinju P.	Surendran P.	Kaipara House, Avinissery P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.06.2017	11900			
209136	Sinsiya M.S.	Siddique M.A.	Mathiyadath House, Pallipport P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12893			
209137	Sinu V.P.	Devadasan V.P.	Veluthedathu Parambil (House), Vairancode P.O., Thirunnavaya, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12132			
209138	Siraj V.A.	Abdulrazak	Valiyakath, Mangalam RS Wadakkancherry P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.06.2019	13156			
209139	Sisira M.A.	M.V. Arjunan	Manayil (House), Thaikkad P.O., Guruvayoor, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	21.07.2017	12031			
209140	Sithara Fathima Cherukopathialil	T. Abdul Majeedkhan Ansari	Kizhakkethil House, Mariyathuruthu P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11964			
209141	Sithara Perveen	Abdul Assis Koroth	Perveen, Muttungal West P.O., Chorode, Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2015	10884			
209142	Sitharthan R.	Ramalingam	Vazhachira House, Sachivothamapuram P.O., Kurichy, Kottayam, Kerala	BHMS	1971	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2019	13283			
209143	Sithrathul Munthaha P.V.	P.V. Mohammed	Sukoon House, N.S.S. College Road, Manjeri College P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12346			
209144	Siva Sagar	Mohan Das K.G.	Kochukaleekal Tharayil, Changankulangara, Vavvakavu P.O., KNPY, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.08.2019	13356			

209145	Sivapriya C.B.	Bharathan K.T.	Yavanika (House), Makkada P.O., Kakkodi, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.01.2017	11688			
209146	Sivapriya G. Kamath	S. Gopala Krishna Kamath	JASU Nivas, Azad Road, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11119			
209147	Sk. Alam Chand	Jajman Sk.	Vill+P.O-Chandanpur, Dist-Nadia, PIN-741162	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32587			
209148	Smrithi R.	M. Radhakrishnan	Kallankode Kalam, N.S.S. College, Nenmara P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11045			
209149	Smruthi S.	Surendran K.	Sreesailam (House), Vilayil P.O., Kuzhimanna (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12550			
209150	Sneha	Sh. Suresh Kumar	House no. 159, Pana Mamurpur Narela, Delhi-110040	BHMS	2018	Punjab University Chandigarh	Delhi	15.09.2020	BHSD/5781			
209151	Sneha C.	Soman Chembothodiyil	Chembothodiyil (House), Varangode, Downhill P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12877			
209152	Sneha George	P.J. George	Railway Quarters No. 140 B, Near Q.A.C. Road, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	15.05.2017	11878			
209153	Sneha Jacob K.	K.P. Jacob	Kottakaran House, Koratty East P.O., Chirangara, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.05.2019	13114			
209154	Sneha James P.J.	James P.J.	Puthiyaparambil House, Thrikkaloor P.O., Thachampara, Mannarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	27.09.2017	12255			
209155	Sneha Jayaprakash	Jayaprakashan C.	Sneha Jyothi (House), Kaikottuvayal Road, Malaparamba P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	16.06.2018	12514			
209156	Sneha Joseph	Joseph Augustine	Naduviledathu, Narakakkanam, Narakakkanam P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12552			
209157	Sneha P. Martin	Martin P.V.	Palakkapillil, Easanandam, North Fort Gate, Tripunithura, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.01.2016	11022			
209158	Sneha Pradeepan	Pradeepan K.M.	Souparnika', Chakyali Road, Alinkeezhil, Mamba P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.08.2016	11387			
209159	Sneha S.	R. Srikumar	Sindhu Nivas, Kannath Lane, Karthiyani Temple Road, Ayyanthole, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.10.2019	13393			
209160	Sneha S. Kumar	Sasikumar T.S.	Thazhathethil (H), Neelamperoor P.O., Kurichy, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.11.2016	11581			
209161	Sneha S.S.	B. Surendran Nair	Therrickal House, Vilavoorkal, Malayinkil P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11180			

209162	Sneha Sethu	Sethu P.C.	Pathayapurakal (H), Nedungad, Nayarambalam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.06.2019	13157			
209163	Sneha Suresh	Suresh Andavan	Kailasam' (Saurabham), Ayyappankavu, Pirayiri P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.05.2017	11872			
209164	Snija N.	Suresan P.A.	Jayalayam', 19th Mile, Chavasseri P.O., Mattanur, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.08.2018	12748			
209165	Soliya N.C.	Chandran N.	Puthuval Vilakathu Veedu, Near Sasthamthala U.P.S., Neyyattinkara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2016	11318			
209166	Sona Raroof	Mohamed Abdul Raroof	Punnilath House, Vachakal Edavanakad P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.05.2016	11272			
209167	Soni Abhishek Kumar	Sh. Rajindra Prasad Soni	G-10/71, Sector-15, Rohini Delhi-110089	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5749			
209168	Soniya M.	Mahmood M.	Nest', T.C. Road, Tirurangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.09.2018	12853			
209169	Sooraj C. Suresh	Suresh C.K.	Chorattil House, Ollukara, Paravattani, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.12.2018	12984			
209170	Sooraj C.C.	Chandran C.	Cheeramkunnath (House), Thenkara P.O., Manmarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11286			
209171	Sooraj K. Panicker	Kamalasanan Panicker	18/326 (18/348), Mangalasseril, Ponakam, Mavelikkara, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.08.2018	12762			
209172	Sooraj K.V.	K.V. Kunhikannan	Sooraj Nivas, Kinanoor Road, Chayyoth P.O., Nileshwar, Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	26.10.2015	10931			
209173	Sooraj S.S.	Santhoshkumar B.	Kalathinkal (House), Nateri P.O., Koyilandi (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12685			
209174	Sooraj T.U.	Unnikrishnan T.G.	Tharayil House, Perambra P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11729			
209175	Soorya S.K.	Surendran Nair P.	501, Soorya, Kochottukonam, Mariyapuram P.O., Chenkal (Part), Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12585			
209176	Sophia Joseph	Joseph	Jaimatha Adoration Provincialate, Mariapuram, P.O., Kuthirakallu, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.10.2016	11531			
209177	Souda Beevi T.	Koya Haji T.	Chullikulavan House, Kalikavu P.O., Puttamanna, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11135			

209178	Soudha Beevi K.K.	Abdulla K.	Kolangarakandy (House), Vellalasseri P.O., NIT (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12879			
209179	Soumya K.M.	K.M. Mohammed Basheer	Kollamparambil House, Malapallipuram P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.09.2018	12852			
209180	Soumya A.	Gopalakrishnan A.	Karikkam Parambil House, Valikunnu P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.10.2018	12870			
209181	Soumya Chakkarayan	Sureshan C.	Nakshathra, Kapilepedika, Azhikode South P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11332			
209182	Soumya Gopal	K. Gopalakrishna Pillai	Gopasree, Pudukonoor, Perumpuzha P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	18.05.2015	10802			
209183	Soumya Krishnan	Leela Krishnan	Sameeksh Bhavan, G.N. Kavu, Alamcode P.O., Attingal, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10938			
209184	Soumya P.S.	Sundaran P.	Soumya Nivas, Thirukad P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.05.2017	11881			
209185	Soumya Peter	Peter P.P.	Sacred Heart Provincial House, Clarapuram, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2016	11470			
209186	Soumya T.R.	Thulaseedharan Pillai	Thushara, Earam North, Chathanoor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10788			
209187	Sowmya N.P.	Pradeep N.	Narangaparambil House, S.N.S. Road, Vadookkara P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.09.2018	12826			
209188	Sreedevi A.J.	Asokakumar V.	Visakham', Harbour Road, Vizhinjam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	27.12.2017	12345			
209189	Sreedevi M.O.	Muthayyan Chettiar A.	Muthayya Bhavan, Vanigar Street, Balaramapuram P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.01.2018	12412			
209190	Sreedevi Venugopal	Venugopal Bhaskar	Kongattil House, Vatanappally P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10835			
209191	Sreegowri L.K.	V. Krishnakumar	Vasudevam, Near JPHSS, Ottasekharamangalam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12092			
209192	Sreehari K.M.	Sreenivasan K.M.	Kaikalat House, Vellalassery P.O., NIT (Via), Choolur, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	24.09.2018	12844			
209193	Sreeja M.	Sreenivasan M.	Gokulam (H), 14/189-B, Cemetery Road, Chullikkal, Thoppumpady P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	09.03.2017	11791			

209194	Sreeji Mol K.S.	K.V. Sreedharan	Kuzhumullil (House), Nedumkandom P.O., Minorcity, Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12647			
209195	Sreejimal M.R.	Rajan M.K.	Melady (House), Ollur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.08.2017	12072			
209196	Sreejithra T. Keyan	Karthikeyan	Pooram House, Mulloor, Mulloor P.O., Vizhinjam, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12563			
209197	Sreekutty R.	S. Sasidharan	Peroor, Padinjattathil Veedu, Nediyaivila, Kunnathoor East P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2019	13207			
209198	Sreelakshmi K.	K.K. Remanan	Vallyarpadam House, Nazerath Road, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	09.01.2018	12431			
209199	Sreelakshmi K.	P. Surendran	Sreekrishna House, Punnappala P.O., Wandoor, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.09.2018	12803			
209200	Sreelakshmi L.S.	N. Sasidharan Nair	Sivasdanam, T.C. 31/1246 (2), Avra-60, Petta P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11460			
209201	Sreelakshmi M.G.	Gopalakrishnan M.R.	Maneli (House), Parakkadavu P.O., Kurumassery (Via), Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.06.2018	12565			
209202	Sreelakshmi N.S.	Nadumuri Suresh Babu	Nadumuri House, Chathedath Parambu, Lokamaleswaram, Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	21.06.2018	12551			
209203	Sreelakshmi P.	Sudhakaran E.M.	Sreevalsam, Kuttimunda, Pookkottumanna P.O., Chungathara Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2016	11558			
209204	Sreelakshmi T.P.	T.P. Ramachandran	Aksharam (House), Aravankara, Pookkottur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.06.2017	11904			
209205	Sreelakshmy S.R.	Sreekumar G.	Anupama, Vaalikunnu, Mukkudil P.O., Venjaramoodu, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12793			
209206	Sreelakshmy V.	Venugopalan K.	Vipanchika, Punchiramil, Chorode P.O., Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11941			
209207	Sreelekshmi J.S.	V. Jayachandran Nair	Ambika Nivas, Mukkampalammood, Vembayam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12943			
209208	Sreelekshmi S.	K. Gopakumar	TC 19/347 (1), Melathil Veedu, Vattavila, Thiruvimala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13141			
209209	Sreelekshmi S.R.	Ramdas Chaudhari B.	Vrindavan, Pidaram, Perukavu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12661			

209210	Sreelekshmi T.R.	Ranjan T.K.	Thaiveilyil House, Muhamma P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11976			
209211	Sreelekshmi V.S.	R. Vijayan	R.V. Gardans, Oyoor P.O., Distt.- Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.01.2016	11009			
209212	Sreenath P.D.	Devadas P.V.	Peringothara (H), Kothaparambu P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.08.2016	11405			
209213	Sreepriya M.S.	Sreekumar M.A.	Prasanth House, Edathara P.O., Distt.- Palakkad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	14.08.2019	13279			
209214	Sreepriya S.	Sreevalsan K.V.	Ajanta, Nitumbrom, Chokli P.O., Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2018	12623			
209215	Sreepriya S.L.	K. Sathyan	Sreenilayam, Marayamuttom P.O., Perumkadavila, Neyyattinkara, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13409			
209216	Sreeraji R.Nair	M.K. Raju	Sreemandiram, Chittattinkara, Kizhuvilam P.O., Attingal, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12662			
209217	Sreeshma K.S.	Sreedharan K.P.	Sreesadan (H), Kaithakkal, Chenoli P.O., Perambra (Via), Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.08.2019	13265			
209218	Sreeshna N.M.	Narayanan N.M.	Amrutham (House), Cholam Vayal, Vatakara P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12182			
209219	Srisobh S.	Sreekumaran Nair K.	Sreelakam (H), Vettampally, Irinchayam P.O., Nedumangad, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	08.02.2017	11719			
209220	Sruthi G.P.	G.P. Ramesh	Smitham', Near Madathankandy Kavu, Jayanthi Road, Chalad P.O., Distt.- Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11342			
209221	Sruthi Krishna	Krishna Moorthy P.	Vrindavanam (H), 1/1699-A, B.G. Road, Westhill P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11396			
209222	Sruthi Lakshmanan C.	Lakshmanan Chirayil	Sruthi Layam, Pariyaram P.O., Distt.- Kannur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.12.2017	12359			
209223	Sruthi Lekha S.S.	Sreedharan K.	Keloth (House), Thandorappara (Post), Kayanna (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13194			
209224	Sruthi M.	Sankar Babu M.K.	Muttath, Mayilvalappil, Karivellur P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	18.06.2019	13160			
209225	Sruthi M. Mohan	Mohanan M.U.	Muttancheriyil House, Surya Nagar, Chandra Nagar P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2016	11559			

209226	Sruthi Mohan	Mohanan T.R.	Nandanam', Thaniyampuram Road, Kizhisseri, Kuzhimanna P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.04.2016	11244			
209227	Sruthi Nair S.	T. Sukumaran Nair	Kadavath, Chengamanad P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11927			
209228	Sruthi P.	Soman P.	Madhathil House, Pudukode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11297			
209229	Sruthi Raj P.	K.G. Rajan	Paryath, 2nd Floor, Maaniyattukudy Buildings, Changampuzha Nagar P.O., Kalamassery, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.07.2015	10876			
209230	Sruthi S. Anand	Sadanandan A.	Sruthi' (House), Pappinipara P.O., Manjeri College (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12247			
209231	Sruthi Sukumaran T.	Sukumaran T.	Thattarambath House, Pachattiri P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11097			
209232	Sruthi Thekkepallikkuth	Balakrishnan T.P.	Nechiparambil (House), Chemrakkatur P.O., Areacode, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12878			
209233	Sruthi V.	Gowthaman V.	Lakshmi Sadanam, Thavakkara Road, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Calicut University	Kerala	13.02.2017	11722			
209234	Sruthy Das	P.K. Vishnu Das	Karunanilayam, Kadakkarappally P.O., Thaikkal, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13039			
209235	Sruthy G.S.	Gopalakrishna Pillai	Flat No. 215, LF-2, Block No.-4, Vrindavan Gardens, Pottom, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12175			
209236	Sruthy K. Shaji	K.V. Shaji	Koottappadickal House, Ayarkunnam P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2018	12663			
209237	Sruthy M.	Madhavan Nair S.	Thuruthukkudy House, Valayanchirangara P.O., Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12123			
209238	Sruthy R. Dineshan	Dineshan Pillai G.	Madhava Nivas, Ravivarma Lane, Near B.H.S.S. Attingal P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11668			
209239	Sruthy Ramachandran	Ramachandran A.R.	Akamala House, Kanipayyur P.O., Kunnankulam, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12887			
209240	Sruthy Sreekumar	Sreekumar	Sivasyam (H), Umayanalloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	05.10.2016	11521			

209241	Sruthy Susan John	John Abraham	Karukapully House, Kathrikadavu, Marvel Mansion Road, Near Marvel Mansion, Kaloor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	18.09.2017	12209			
209242	Stanly Mathew	C.C. Mathai	Charivukalayil Marojust Villa, Eraviperoor P.O., Thiruvalla, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	26.09.2015	10924			
209243	Steeffy Anna Varghese	Syrus Varghese	Flat No. 1D, AC Gold, St. James Road, Vyttila, Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11340			
209244	Stefi Peter	G. Peter	Christ Villa, E.T.C. P.O., Kottarakara, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.08.2019	13347			
209245	Stephy Ann George	George Kutty V.J.	Vazhappillathu House, Vadaserikara P.O., Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	28.05.2019	13123			
209246	Stephy M. Raj	Wilson Raj M.W.	Marottikkal House, Vellanikkara P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11047			
209247	Stephy S.L.	Sathyanesan P.	Rose Villa, Pazhaya Uchakkada, Kakkavila P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11457			
209248	Stiniya George	George Kurian K.	Kidangayil House, Thellakom P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.08.2018	12641			
209249	Subair Ali P.	Muhammed Basheer P.	Paloli House, Aliparamba P.O., Anamangad Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11284			
209250	Suchina S.S.	Sudhakumar C.	Sruthylayam, Peykkavuvila, Valiyakalungu, Parendode P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11446			
209251	Suchithra Krishna S.	Sasidharan T.M.	Arangu (House), Kuttoth P.O., Meppayoor (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	23.08.2017	12186			
209252	Suchithra Unnikrishnan	Unnikrishnan K.P.	Thekkingal House, Krishnendhu, Kunnumpuram, Kalpathy P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12683			
209253	Suchitra R. Nayak	G. Ramesh Nayak	Goshree Matham, Eroor P.O., Tripunithura, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	02.05.2016	11266			
209254	Sudeshna C.P.	M.V. Prabhakaran	Meethale Mavila Veedu, Elayavoor, Varam P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.01.2018	12419			
209255	Sudha	Sh. Ramanand	Flat No. 74, Pocket -12, Sector-21, Rohini, Delhi-110086	BHMS	1977	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Delhi	18.03.2021	BHSD/5820			
209256	Sudheesh M.	Murugan K.	Palackal Thadam (H), Chakkukulam, South Paravoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	04.10.2016	11510			

209257	Sufaija P.	Muhammed Shareef R.	Sumayyas, Kotolipram, Pattanur P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.09.2018	12858			
209258	Sufaila N.	Aboobacker N.	Nellippakundan House, Vilayil P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	29.06.2019	13178			
209259	Suha Shabjan	P. Shabjan	Dilnoor', Kizhakke Nayaru Kulangara, Mayanad P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13195			
209260	Suhail Saima	Mr. Ajmeri Suhail	M-11, Street 6/6, Jogabai Extn Jamia Nagar, New Delhi-110025	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5729			
209261	Suhana C.	Abdurahiman C.	Suhana Manzil, Kozhakkottur, Areacode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.12.2016	11650			
209262	Suhana K.P.	Noorudeen Kaliyat Parambil	Noorjas, Kuzhikandi Paramb, Near Panchayat Building, Nallalam P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11166			
209263	Suhani Usman Pulath Puthanath	Usman Pulath Puthanath	Kattungal House, Avalookunnu Ward, Thathampally P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.12.2016	11651			
209264	Suhruthom P.	Prakash T.D.	"Amruthom", Sakthi Nagar-30, Karicode, T.K.M.C. P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11449			
209265	Sujisha Dharanikkavil	Balasubramanian D.K.	Dharanikkavil House, Cherur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11657			
209266	Sujishna C.K.	Subramanian C.K.	Chellikkattil (House), Pariyapuram P.O., Schoolpadi Tanur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.07.2017	12020			
209267	Sujit P. Soman	Somasekharan P.C.	Pulickazhathu House, Chennamkary East P.O., Kavalam, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	27.06.2017	11901			
209268	Sujith Raj. P.V.	Velayudhan P.	Chithira Nivas, Eranhikode P.O., Edavanna, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	02.07.2015	10864			
209269	Sukaina Abdulla	M.P.K. Abdulla	Manhampurath (House), Kottapally P.O., Villiapally (Via), Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.04.2018	12489			
209270	Sukanya Anilkumar	S. Anilkumar	Puthenpurayil, Pragathy Nagar-59, Kilikkolloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	19.10.2016	11571			
209271	Sukrutha Vijay	K. Vijaya Kumar	Sukrutham House, Malaparamb P.O., Paroppady, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11631			
209272	Sulabha G.	V. Govindraj	Raj Bhavan, 13/21, Monastary Lane, Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	14.08.2019	13280			
209273	Sulfath Chengodan	Abdul Saleem	Saleem Manzil, Mongam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	05.04.2016	11209			

209274	Sultana Faaiza	Mr. Habib Ahmed	Flat No. 8, CRIS Officers Flats S.J.J. Airport, New Delhi-110003	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5660			
209275	Sumatha S.	Surendran G.B.	IX/440, Hariram, Chennothuparambil, Kizhakkumpuram, Chendamangalam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12553			
209276	Sumaya Musthafa Anjampeedikayil	A.P. Musthafa	Karippayi Villa P.O., Thazhechovva, Kappad, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.12.2018	12978			
209277	Sumayya Afnan Areekkan	Abbas Ali Areekkan	Chembeekad (H), Edakkaparamba, Kannamangalam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11194			
209278	Sumayya B.	Basheer	Kalathil House, Edakkad P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	25.10.2017	12287			
209279	Sumayya E.	Hassan Koya	Surur House, Pattiruthi Nilam, Kuttikkattoor P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Calicut University	Kerala	03.02.2018	12467			
209280	Sumayya K.N.	K.H. Nazar	Madathil (House), Inchoor, Kozhipilly P.O., Kothamangalam, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.01.2018	12463			
209281	Sumayya K.P.	Abdul Azeez K.P.	Jabir Manzil, Alungal Parambu, Vaidyarangadi P.O., Ramanattukara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.06.2018	12518			
209282	Sumayya Majeed	M.M. Majeed	North Malayam Veedu, Railway Station Road, Edappally P.O., Cochin, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.06.2015	10817			
209283	Sumayya Muhammed	Muhammed S.P.	Neelanjanam, Irappil, Tholicode P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University	Kerala	21.02.2017	11764			
209284	Sumayya N.	Alavikutty N.	Valiyaputhur House, Puthur Pallikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.09.2017	12224			
209285	Sumayya P.	Abdussalam P.	Poonthottathil House, Near JTS School, Karuvambram West P.O., Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.06.2018	12511			
209286	Sumayya P.	Kutty Mohamed	Parangodath (H), Chinakkal, Vengara, Valiyora P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.10.2019	13411			
209287	Sumayya S.	Syrajudeen M.	Muneer Manzil Valavupacha, Valavupacha P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13145			
209288	Sumith T.M.	Mohammed T.	Tharayil House, Kokkur P.O., Palachode Stop, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.06.2015	10818			
209289	Sumiya S. Chandran	K. Chandran	Suja Nivas, Adimaly P.O., Distt.-Idukki, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11309			

209290	Sunanda Kumari K.S.	Sureshkumar	Kalarikkal (House), Thonookara P.O., Chelakkara, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12138			
209291	Sundaram P. Bala	Late S. Palanisamy	Sonarpur, P.O.-Dhasiara, Kolkata-700150	BHMS	Apr-1993	B.B.A. Bihar University, Muzaffarpur	West Bengal	17.09.2019	32553			
209292	Suneera K.	Subair K.	P.T. House, Kundungal, Kallai P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Calicut University	Kerala	16.06.2018	12512			
209293	Suneera Pallipparamban	Moideen Kutty P.P.	Palliparamban (H), Olakara P.O., Thirurangadi, Pukayurkunnath, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.12.2016	11669			
209294	Sungtiben Amlari	Imdong Amri	H. No 36-A Near Police Point Khermahal Dimapur 797112	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	26.06.2019	119			
209295	Sunil Rameshbhai Thumar	Rameshbhai Savjibhai Thumar	'Shiv' Maruti Nagar-1, Street No. 2 Corner, B/H Shakti Pan, Kuvadva Road, Rajkot, Gujarat-360003	BHMS	2019	Saurashtra University	Gujarat	20.08.2019	G-25191			
209296	Sunisha V.	Kunhikrishnan P.	Vadakkeni (House), Farook College P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.10.2018	12876			
209297	Sunoobia P.	B.P. Rauf	Glenmoor', Swaraj Plywoods Road, Pappinisseri, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	11.07.2016	11333			
209298	Surabhi C.S.	C.M. Syam Kumar	Chathamel Thiruvampadiyil Surya Nivas, Cheriyand P.O., Chengannur Taluk, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.03.2019	13078			
209299	Surabhi Lenin	Lenin Varghese	Puliyandathil (H), Thalodil Kalathoor P.O., Vempally, Ettumanoor, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2016	11311			
209300	Suriya S. Pillai	K. Surendran Pillai	Thiruvonam, Vadakkevila P.O., Sree Vilasom Nagar-142, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.03.2016	11169			
209301	Surumi I.	Iqbal S.	Elluvila Veedu, Thazhuthala P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12941			
209302	Surya Jose	Jose A.S.	Manimalayil House, Koombara Bazar P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	02.03.2016	11142			
209303	Surya K. Pai	K.V. Kumarapai	Parvathi Mandiram, Murunthal-B, Perinad P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.11.2017	12303			
209304	Surya K. Suran	Surendran K.K.	Kalasree, Puthussery Bhagam, Vayala P.O., Parakode (Via), Adoor, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2013	Goa University	Kerala	20.04.2018	12493			

209305	Surya M.P.	Subramanian V.	Mekkalampatta House, Chembrakkattur P.O., Areacode, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2018	12580			
209306	Surya Narayana Yandamuri	Yandamuri Ratnaji Rao	H.No. 2-172, Opp. APSP Quarters, Anjaneya Nagar, Kakinada, Andhra Pradesh-533005	BHMS	2002	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Andhra Pradesh	13.11.2002	5965			
209307	Surya T.P.	Pankajakshan B.	Thoppil (H), Viruppala, Thakazhy P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	20.04.2016	11240			
209308	Surya Thomas	Thomas M.J.	Marottiparambil (H), Ulikkal P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11360			
209309	Surya V.C.	K. Rajan	'Akshara', Machery, Mowenchery P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2016	11146			
209310	Susie Gladys Kurbah	Shri J.P. Sumn	Kreit Mawshaton, Marbisu, East Khasi Hills	BHMS	04.01.2021	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka Banglore	Meghalaya	27.01.2021	503			
209311	Susira Suresh	Sureshkumar R.	Sindhu Bhavan, Kadakkavoor P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12597			
209312	Susmitha V.	Gangadharan K.	Sreesailam', Ayitharamambram P.O., Kuthuparamba (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12891			
209313	Suthi Sunil	Sunikumar A.G.	Alukuzhiyil House, Evoor North, Cheppad P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12130			
209314	Swami Tushar	Sh. Vijay Pal Swami	E-19, West Jyoti Nagar, Street No. 1 Shahadara, Delhi-110094	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	13.08.2020	BHSD/ 5697			
209315	Swaroop J.M.	G. James	J.M.S. Nivas, Aundikudi, Kanchampazhinji P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11395			
209316	Swathi K.	Chindankutty C.	"Swathi", RNRA: D-26, Mavungal, Anandasram P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	17.08.2018	12742			
209317	Swathi Mohan M.	Mohanan M.	Mohanam (House), Padinhattom Kozhuval, Nileshwer P.O., Distt.- Kasaragod, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	02.09.2017	12188			
209318	Swathi Satheesh	M. Satheesh	"Aiswarya", Near Poovadan Gate, Vatakara-3, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.07.2017	11931			
209319	Swathi T. Siddhanandan	Siddhanandan T.	Thadathil House, Velliparamba P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	23.03.2019	13076			
209320	Swathisha P.	Kumaran P.	Parakkandi (H), Chelembra P.O., Idimuzhikkal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	22.04.2016	11247			
209321	Swathy Krishna P.S.	Damodaran E.	Ellath (House), Karthikappally P.O., Villiappall (Via), Vadakara, Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13186			

209322	Swathy P.B.	B.S. Prasanna Kumar	Athikkadu Veedu, Sarayu Nagar-147, Valathungal P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12389			
209323	Swathy S. Vasanthan	K. Vasanthan	Manappurathu Veedu, Naduvathucherry, Chavara South P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12792			
209324	Swathy S.L.	Satheeshkumar S.	Ashttamy, Thirupuram, Kanchampazhinji P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.04.2018	12492			
209325	Swathy Sadanandan	Sadanandan T.K.	Thandassery House, Nalukettu P.O., Palamuri, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12946			
209326	Swathy V.C.	Jayaram V.C.	Veluthemana Cheerakkuzhi, Padinhattummuri P.O., Koottilangadi Via, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11122			
209327	Swetha Chandran K.	K.K. Chandran	Kizhakke Karattu (H), Nanmanda P.O., Balussery, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	28.04.2015	10791			
209328	Swetha Dinesh	K.R. Dinesh	Kannolil House, 29/1096, Janatha Road, Lane-5, Vyttila, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	29.11.2016	11602			
209329	Swetha Suthan	Suthan A.A.	Athikkavil House, Puthenthodu, Karuvannur P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	13.08.2018	12721			
209330	Syamili S.T.	Sasi	Yestee Bhavan, Anupama Junction, Perunguzhi P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10944			
209331	Tabassum	Mr. Yasin Khan	F.123, Street No. 5, Chand Bagh Karawal Nagar, Delhi-110094	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5655			
209332	Tamkeen Rumsha	Syed Mohammed Sharfuddin	17, Damzen Lane, Kolkata-700073	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32686			
209333	Taniya Faizal	Faizal K.E.	Kovilakath House, KMP Nagar, Rajagiri Valley P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	07.01.2017	11674			
209334	Tariq M.	Zubair Manathodi	Manathodi House, Athikkad, Eranhimangadu P.O., Nilambur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11077			
209335	Teffi Ann Varghese	Varghese P. Thomas	Aalayam, East Gate of B.H. High School, Puthiyacavu P.O., Mavelikara, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	03.06.2019	13132			
209336	Temjenrenba Pongen	Tsukjem Pongener	C/o Rongsenlemla Pongen Nagaland Hotel Limited, NIDC Building IDC House, Dimapur 797112	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	15.03.2019	115			
209337	Thaani Shaji	Shaji S.	Kollamparambil House, Ulavaipu P.O., Cherthala, Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11948			

209338	Thadathil Jayashree Bhaskaran	T.K. Bhaskaran	Thadathil House, Paralam P.O., Venginissery, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.08.2017	12160			
209339	Thahila	Pallipurath Muhammed Ali	Pallipurath (House), Kara P.O., Kathiyalam, Edavilangu, Kodungallur, Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	21.07.2017	12030			
209340	Thahira Sidheeqa	Mohammed Ismail	Thahir Masjid Quarters, Station Road, Payangadi Railway Station, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.10.2016	11557			
209341	Thahseen K.T.	Usman K.T.	Kalathil Thoduvil House, Nirmaruthur P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	30.04.2016	11255			
209342	Thahseen S.	Z.S. Zirajudeen	Madambisseril, Manthadam, Alankode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12950			
209343	Thajudheen Ali E.K.	Ashraf	Erikunna House, Patterkulam, Narukara P.O., Manjeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12617			
209344	Thanseem P.K.	Muncerudheen P.K.	Puliyakodan Kandi (House), Parambil P.O., Cheruvatta, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	16.09.2017	12204			
209345	Thara P.P.	Abdul Nazer P.P.	Pazhaya Puthan Veetil, Vettom P.O., Tirur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	24.05.2016	11292			
209346	Thasleema Basheer	E. Basheer Kutty	Thasleem Manzil, Vadakkemukku, Kannanalloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13054			
209347	Thasleema Jaleel	Abdul Jaleel	Thasleema Manzil, Njaraneeli, Elanchiyam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12577			
209348	Thasleema P.P.	Pareed	Pulimoottil (House), Kuzhivelipady, Edathala P.O., Aluva, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11992			
209349	Thaslin A.	Abdul Azeez A.	Ayur Bhavan, Kuruchiyil P.O., Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.12.2016	11623			
209350	Thasneem A.K.	Abdu Rahman	Ailakkara House, Moothedam P.O., Chemanthitta, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.10.2018	12885			
209351	Thasneem M.	Kunhalan Kutty M.	Moideen Kanta Kath House, Chandhappadi, Tirurangadi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11295			
209352	Thasneem P.A.	Abdul Jaleel P.A.	Pezhumtharakkal (House), Kongad P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	08.08.2017	12131			
209353	Thasneem S.	M. Shihab	Chetti Velickagam, Thondan Kulangara Ward, Avalookunnu P.O., Distt.-Alappuzha, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	14.11.2018	12932			
209354	Thasneem T.	S. Asharaf	Akkarayil House, Vikas Nagar, Sreekaraiyam P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	08.11.2019	13448			

209355	Thasni K.	Mohammed Shareef	Kuruniyan (House), Othukkungal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11972			
209356	Thasnim T.C.	Ashraf T.C.	Cheerambatheyil House, Eramangalam P.O., Thazhathel Padi (Opposite Petrol Pump), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	17.09.2018	12832			
209357	Thazkiya Hanan S.	Jalaludheen S.	Srampikkal (H), Meppadam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Calicut University	Kerala	11.03.2016	11158			
209358	Thazneem Zainab	K.M. Abdul Hameed	Nadakkaparambil House, Poovathussery P.O., Distt.-Thrissur Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.08.2015	10906			
209359	Theja B.	Bhaskaran A.P.	Pratheeksha', Vilakottur P.O., Thrippangottur, Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.07.2019	13219			
209360	Thejomayi Krishnapriya K.	Somasekhar K.	Manjakkal House, Karulai P.O., Nilambur Railway Station, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2013	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh	Kerala	13.01.2016	10999			
209361	Thomson Sunny	Sunny Thomas	Padikunnel House, Kurumulloor P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.03.2019	13047			
209362	Thoufeeque K.T.	Moideen	Kuttippurathodi (H), Punnathala P.O., Vettichira, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11019			
209363	Thoyyiba Nasreen P.	Saidalavi P.	Thekkethalakkal (House), Pookkottur P.O., Pilakkal, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	22.12.2015	10980			
209364	Thulasi G.	Gumban	Lakshmi Nivas House, Nakkuppathy Ooru, Kavundikkal P.O., Agali Via, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	31.01.2019	12998			
209365	Thushara R.	Rajan G.	Ullattakkalkalam, Ethanur P.O., Koduvayur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	28.12.2017	12361			
209366	Thushara T.	Thulasi Antony	Abhi Nivas, Perayam, Mulavana P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12154			
209367	Tiffany Babu	Varghese Babu	Pellissery House, Mannampetta, Varakkara P.O., Distt.-Thrissur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12708			
209368	Tindu S.	Sathyapal T.P.	Apartment, Near Paryapuram Juma Masjid, Puthanangadi P.O., Angadipuram, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	08.05.2019	13116			
209369	Tini G. Keran	S. Gnanadas Samuel	Kamala Bhavan, Marutharathala Lane, Nemom P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.02.2019	13020			
209370	Tintumul John	K.V. John	Bethany Convent, Thirumoolapuram P.O., Thiruvalla, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	10.11.2017	12298			

209371	Tisha George Anathanath	A.M.George	Bethany Provincial House, Sulthan Bathery P.O., Cheeral (Road), Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	16.09.2015	10917			
209372	Tiwari Arun Kumar	Surendra Tiwari	Flat-2, Block-J, Kesokunj, 42, Garden Reach Road, Kolkata-700024	BHMS	Mar.-2010	University of Calcutta	West Bengal	02.09.2015	30964			
209373	Toli. T	Toniho	H. No - 144, Ward No-6 New Colony Zunheboto Nagaland 798620	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	03.06.2019	118			
209374	Tolivi H Yeptho	Hetoshe. Y Yeptho	H. No 15 Lhothavi Village Dimapur Nagaland	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	15.02.2020	127			
209375	Tom Alexander	Alexander	Edacheri (H), Chittarickal P.O., Distt.-Kasaragod, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	14.07.2016	11357			
209376	Tomar Navneet	Sh. V. S. Tomar	H. No. B-47, St. No. 5, Mohan Park Naveen Shahdara, Delhi-110032	BHMS	2017	Jiwaji University	Delhi	29.09.2020	BHSD/5785			
209377	Tomar Sachin	Sri Harveer Singh	Vill/Post-Bijrol, Patti-Boghaliya, Baghpatt	BHMS	2011	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Uttar Pradesh	18.03.2013	H032448			
209378	Tongbram Omega	Tongbram Bijen Singh	Mishra Colony, House No. 25 Ismaile, Asansol, Dist-Burdwan 713301	BHMS	March-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	02.04.2019	32446			
209379	Treesa Jose	Jose Sebastian	Pallivathukkal (H), Palakkayam P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2019	13302			
209380	Tripathi Avshesh	Govind Nath Tripathi	S/o Govind Nath Tripathi, Vill./Post-Sahroj, Distt.-Mau, Uttar Pradesh-275305	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Uttar Pradesh	23.10.2019	H038765			
209381	Tripathi Julka Kumari	Onkar Nath Tripathi	14/H, Strachey Road, Liluah, Railway Colony, Howrah-711204	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32570			
209382	Tyagi Ishita	Devendra Kumar Tyagi	I-297, Shastri Nagar, Meerut, Uttar Pradesh-250004	BHMS	2020	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	25.08.2020	H039177			
209383	Ubodiat Shanay	Mr. Talib Husain	E-6 R.R. Colony Vasandhura Road, Trilokpuri, Near Gate No. 7,15 block Delhi-110091	BHMS	2017	Bhim Rao Ambedkar University Bihar	Delhi	02.03.2021	BHSD/5814			
209384	Ujjwala	M.S. Zahir Ahamed	Door No. 14/803, Karambakad Road, Tharavathupadi, Pirayiri, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2012	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	20.07.2018	12607			
209385	Uma K.M.	K.M. Mohanan Namboothirippad	Kavungal Mangalasseri Mana, 'Shyam Dham', Elankoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.04.2016	11220			
209386	Uma S. Prakash	Sivaprakash R.	Sivasakthi, Ambattu Temple Road, S.H. Mount P.O., Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	05.08.2017	12107			

209387	Umasankar	Sankara Pillai N.	Gangothri, Sooranad P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	06.02.2019	13010			
209388	Umlong Hynriewlin M. Myllem	K. Dhirendro Ramsiej	C/o. Jiten Kundu, Malir Bagan, Rajganj, P.O.-Nutanganj, Bardhaman, PIN-713102	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	08.11.2019	32677			
209389	Ummer Masood C.V.	Muhammedali C.V.	Chozivalappil House, Mansoor Manzil, Tavanur P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11990			
209390	Ummu Habeeba P.	Abdul Kareem P.	Mattath (House), Kodinhi P.O., Thirurangadi (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12795			
209391	Ummu Habeeba T.P.	Abdul Majeed T.P.	Thever Parambil, Kallingal Kalpakanchery P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	02.06.2018	12504			
209392	Ummuhabeeba P.	Muhammed P.	Poozhithara (House), Nilambur (R.S.), Mutheeri, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	24.05.2016	11294			
209393	Ummuhaseena V.	Muhammed V.	Vemmully (House), Edayattur P.O., Melattur (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.08.2017	12143			
209394	Ummul Khairath K.	Kunhimohammed K.	Karat Kalathingal (House), Pokkottur P.O., Pallyppady, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	16.01.2018	12454			
209395	Unais T.	Alikutty T.	Thacharam Kunnath (H), Ullanoor, Thrithala P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11728			
209396	Unis T.	Muhammed T.	Thoran, Mukkatta, Chembrasseri P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	01.09.2016	11468			
209397	Unithan Swati Sreekantan	B. Sreekantan Unnithan	Panamkandy House, Karani P.O., Meenangadi, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2012	Saurashtra University	Kerala	06.04.2018	12486			
209398	Unnikrishnan K.R.	K. Ramesan Pillai	Kochukaleekal (H), Parakode P.O., Adoor, Distt.-Pathanamthitta, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	08.02.2017	11717			
209399	Unnimaya R.	Ravindran N.P.	Koolikkandy (H), Perambra P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Mahatma Gandhi University	Kerala	28.01.2017	11707			
209400	Unnimaya S.	S. Sanjeev	New Bharath Villa, UR-117, Uppalam Road, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.11.2018	12948			
209401	Upadhyay Mansi	Pradeep Kumar Upadhyay	1/74, Viraj Khand, Gomti Nagar, Distt.-Lucknow, Uttar Pradesh-226010	BHMS	2020	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Uttar Pradesh	25.08.2020	H039176			
209402	Upadhyay Srishti	Sh. L. K. Upadhyay	4-C, Pocket-B, Mayur Vihar Phase-II Delhi-110091	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5775			
209403	Ursilath Ban R.	M. Jahangir	Naduthottam Puthen Veedu, Inchivila, Parassala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	14.07.2016	11351			

209404	Uthara Narayan	G.P. Narayanan Pillai	GPRAM-24, Pappanamcode P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11517			
209405	Vaisakh V.S. Nair	Vijayakumaran Nair S.	Thusharam, SKRA 71 A, Sreekrishnapuram, Malayinkil Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.04.2018	12488			
209406	Vaishali	Sh. Ashok Kumar	H. No. 831, Sector-5, R. K. Puram New Delhi-110022	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5676			
209407	Vaishna V.P.	Balan V.P.	Devi Nilayam, Azhiyur P.O., Vadakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.01.2018	12376			
209408	Vaishnavi T.G. Nair	Thrivikraman Nair G.	Geetha Bhavan, Pongummoodu, Koovalassery P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.09.2017	12245			
209409	Vaishnavi T.K.	Babydas	Thanikuzhiyil House, Nanminda P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.12.2018	12973			
209410	Vaishnu T.G. Nair	Thrivikraman Nair G.	Geetha Bhavan, Maranalloor, Koovalassery P.O., Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	Kerala University	Kerala	01.07.2016	11303			
209411	Vandana Karn	Brij Bihari Prasad	Jail Road, Sashtri Nagar, P.O. & P.S.- Rampur, Distt.-Gaya, Bihar-823001	BHMS	2020	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	14.10.2020	34011			
209412	Vandana Srinivas Ganguily	Srinivas K.	Kala', Ponniam West P.O., Thalassery (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2016	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13470			
209413	Vani Varghese V.	Varghese Antony	Valiyaparambil House, Thottakkatukara P.O., Aluva, Distt.- Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.02.2019	13019			
209414	Vanlalhriati Judy	Sh. Lalrotluanga	60A, Third Floor, Humayunpur Safdarjung Enclave, New Delhi-29	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	18.12.2020	BHSD/5797			
209415	Varada V.C.	Devaprakash V.C.	Avinjikkattu Mana, Valapuram P.O., Pulamanthole, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11105			
209416	Varna Mathew	T.J. Mathew	Thoompungal House, Nellipara P.O., Alakode, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	04.08.2018	12693			
209417	Varsha	Sh. Shrikrishan Mahto	C-43, Street No. 12, East Sagarpur New Delhi-110046	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5659			
209418	Varsha	Sh. Ranesh Kumar	A-24, Rishi Nagar, Rani Bagh Delhi-110034	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5672			
209419	Varsha Balakrishnan A.	Balakrishnan A.	"Kavitha" (House), Olavattur P.O., Kondotty (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.08.2017	12077			
209420	Varte Lalrindiki	Vanramnghaka	Old Bdo Goli, Kaushallya More, P.O.-Khragpur, PIN-721301	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	11.04.2019	32492			

209421	Varun C.S.	G. Sreedharan Nair	Chandrika Bhavan, Erappukuzhy, Kudappanakunnu P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	25.05.2015	10807			
209422	Varun Vasudev K.M.	K.M. Vasudevan Namboothirippad	Karumarappata Mana, Ambalappadi, Wandoor P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.10.2016	11529			
209423	Vashist Monica	Manjesh Kumar	C/o. Pranjal Pareek, 49, Dwarik Jungle Lane, Uttarpara, Bhadrakali, Hooghly, PIN-712232	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	17.10.2019	32572			
209424	Vasim Sihas M.	Mohammed Kutty M.	Mookkummil (House), Kannamangalam P.O., Poocholamadu, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	02.06.2018	12505			
209425	Veena Das	A.K. Devadas	5/542, Souparnika, Payambra P.O., Kunnamangalam (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	16.06.2015	10831			
209426	Veena Madhusoodanan	A. Madhusoodanan	Priyam (House), Pinarayi P.O., Thalasseri, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	01.09.2018	12779			
209427	Veena Mohan P.R.	M. Raja Mohan	Thiruvonam, Kuzhinjavila Veedu, Plamootukkada P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.09.2018	12796			
209428	Veena Santhosh	Santhosh Babu M.	Vaishnavam, Water Tank Road, Melechovva P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	17.08.2018	12746			
209429	Veneetha Jose	P.M. Jose	Pulimoottil House, Thiruvankulam P.O., Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.06.2019	13144			
209430	Verma Anubhav	Sh. Sanjay Verma	C-489/A, Street No. 24, Bhajanpura Delhi-110053	BHMS	2019	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	Delhi	06.07.2020	BHSD/5657			
209431	Verma Tushar	Sh. Raj Kumar Verma	A-78/01, Dilshad Colony, Delhi-95	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	10.09.2020	BHSD/5777			
209432	Vibin F. Layans	Francis Layans	Vinod Bhavan, Pozhiyoor, Pozhiyoor P.O., Distt.-Thiruvnanthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12391			
209433	Vidhu Krishnan T.R.	Raman Namboothiri N.	Thalayattumpilly Mana, Elambakapilly P.O., Aimury, Perumbavoor, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11062			
209434	Vidhula T.K.	T.K. Vijayan	Thekkinkattil' (H), Chulliyode P.O., Pookkottumpadam, Nilambur, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11028			
209435	Vidhya J.S.	K. Jayabhadran	Vrindhavanam, Kandala, Kandala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.08.2016	11386			

209436	Vidhyamol C.S.	Santhosh Kumar C.K.	Chirappattu (House), Chottanikkara P.O., Chottanikkara, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	17.08.2018	12729			
209437	Vidya M.	Subramaniam M.	Melethil (H), Irumbuzhi P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2015	Kerala University	Kerala	12.11.2015	10949			
209438	Vidya M.	Murali Mohanan A.V.	21/514, Bansuri (H), Valekad, Nochuppilly P.O., Puduppariyaram, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.06.2019	13158			
209439	Vidya M.T.	M.T. Gopalakrishnan	MT House, Irimbiliyam P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	19.08.2017	12172			
209440	Vidya V.	G. Vijayan Pillai	Vidhya Nivas, Punukkanoor, Perumpuzha P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11969			
209441	Vidya V.	Vasudevan A.P.	Ayanikkattu Pulikkathodi House, Athavanad P.O., Thirunavaya (Via), Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	21.06.2018	12554			
209442	Vidya V.R.	Ramachandran V.	Lavanya (H), Kumaramputhur P.O., Mannarkkad, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	31.01.2016	11040			
209443	Vidyamol Viswambharan	Viswambharan G.C.	Ganapathi Plackal House, Valayan Chirangara P.O., Puliyaambilli, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	29.01.2019	12995			
209444	Vijaya Raja Sindya S.	Vijayan Pillai R.	Kochuveetle Vilayil, Vengara Thodiyoor (N) P.O., Karunagapally, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.04.2017	11831			
209445	Vijayalakshmi V.G.	Venugopalan Nair R.	Lakshmi Bhavan, Near Government Hospital Junction, Perumkadavila P.O., Neyyattinkara, Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	11.07.2018	12596			
209446	Vijayan Arathy S.	M. Vijayan	Raghavaramam' MRA-65, Manikanteswaram (P.O.), Vittiyoorkavu, Trivandrum-695013	BHMS	2020	The Tamilnadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	25.09.2020	13644			
209447	Vijisha Vincent	Vincent E.A.	Seraphic Provincial House, West Fort Road, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.04.2016	11258			
209448	Vijitha V.	Vijayan K.	Veenilayam House, Roadvila, Cheriyaavelinelloor P.O., Oyoor, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	03.08.2017	12089			
209449	Vikas Ranjan Karn	Sudhir Kumar Karn	Mohalla-Dilawarpur, Post-Milkichak, Darbhanga, Bihar-846009	BHMS	2017	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	10.04.2017	32230			
209450	Vimal Sharma	P.N. Harisharma	Paranchikkattu Ilam, Marangattupilly P.O., Andoor, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	18.02.2016	11120			
209451	Vimalambika George	George K.U.	Kottayil House, Puttad, Nathamkuni P.O., Meppadi Via, Distt.-Wayanad, Kerala	BHMS	2015	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	25.07.2016	11368			

209452	Vimble C.V.	Vijayakumar K.	Thrambakam, Russelpuram P.O., Balaramapuram, Distt.- Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.09.2018	12767			
209453	Vinaya C.V.	Vasu	Chalil (H), Vaikkilassery P.O., Vadakara (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.04.2017	11856			
209454	Vinaya K. Suresh	K. Suresh Babu	Vibhoothi', Muringeri P.O., Anjarakandy (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	15.02.2019	13015			
209455	Vince Mary Kuruville	E.S. Kuruville	Edailayparambil (House), Pudukkudy P.O., Thamarassery (Via), Distt.- Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	01.10.2018	12861			
209456	Vincy Joseph	Joseph Devasia	Edacherry House, Kadambur P.O., Ottapalam, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	15.02.2019	13014			
209457	Vindhya Viswanathan	Viswanathan T.O.	Ram Nivas, Chery Company Road, Velam, Mayyil P.O., Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	10.08.2017	12156			
209458	Vinduja V.C.	Viswanathan P.	Chandrodoyam, Thamanikkara, Kalladippata P.O., Pattambi (Via), Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	17.01.2017	11686			
209459	Vineesh V. Kumar	S. Vasantha Kumar	Thiruvathira, Behind Daya Bavan Hostel, Thrikkakara P.O., Cochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2015	Mahatma Gandhi University	Kerala	03.06.2015	10816			
209460	Vineeth S. Nair	Sukumaran M.K.	Vadakkinedath Lakshmi Bhavan, Kuttikkattukara P.O., Eloor, Distt.- Ernakulam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	04.08.2018	12698			
209461	Vineetha V.	Vinayan M.	Vineetha Bhavan, Edamon 34, Edamon P.O., Punalur, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	29.06.2019	13191			
209462	Vinitha G.	Krishnankutty C.	Vineeth Bhavan, Thazham South, Chathannoor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.04.2016	11217			
209463	Vinitha V.S.	G. Vijaya Kumar	Vella Manal, Purayidom, Pattathanam, Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2019	13035			
209464	Vinitha Vijayan	S. Vijayan	25/52 Pavodi Parambu, Neelikkadu, Thathamangalam P.O., Distt.- Palakkad, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	26.04.2017	11853			
209465	Vinnia Rose K.J.	K.G. Joseph	Komaroath House, Elamakara P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2014	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	30.08.2016	11450			
209466	Vipin Das S.M.	G. Sathyadas	Pournami, Kakkamukal, Kattakada P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	13002			
209467	Vipin Devadas	E.N. Devadas	Sreesailam (H), Vadapuram P.O., Mampad, Nilambur, Distt.- Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	23.12.2016	11628			

209468	Vipu Chandran M.	Chandran M.	Mannuthodi (H), Thachampara P.O., Palakkad, Kerala	BHMS	2015	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	26.10.2015	10934			
209469	Vishika. Y. Chishi	P. Yeveto Chishi	H. No 96 Nihto Village Dimapur Nagaland	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	05.03.2020	129			
209470	Vishnu Hari Kumar A.M.	Hari Kumar A.M.	Evershine, Rajiv Gandhi Industrial Estate Road, Mayyanthani Via, Chandakkunnu P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2019	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	19.08.2019	13289			
209471	Vishnu J.U.	Jayakumar K.	Mulayara Thalakkal Puthen Veedu, Mulayara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	18.02.2016	11109			
209472	Vishnu Priya P.K.	Shooja Sanin	Puthukkudy House, Edakkulam P.O., Koyilandy (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	29.01.2019	12997			
209473	Vishnu R.J.	Reghuvaran A.	Govindham, T.C. 6/1145, Panachivila Veedu, Kera-66, Kanjirampara, Kanjirampara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12388			
209474	Vishnu Raj M.N.	Narendran M.K.	21/938, Palluruthy South Kochin, Near Edakochi Village Office, Sastha Temple Road, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	31.08.2019	13362			
209475	Vishnu S.	Sukumaran P.	Vishnu Nivas, Aryampallam Road, Chittur P.O., Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2019	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.08.2019	13358			
209476	Vishnudas T.M.	Mohanandas T.S.	Thundathil (H), Edakkunnam P.O., Parathodu, Kanjirapally, Distt.-Kottayam, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.01.2016	11024			
209477	Vishnumaya V.S.	Sooryakumar	Vellangal (H), Peravoor P.O., Thiruvonapuram, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2017	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	05.05.2017	11867			
209478	Vishwakarma Ram Shankar	Sh. Buddh Ram Vishwakarma	X-95, Bharat Vihar, Gali No. 3 Prem Nagar-II, Kirari, Suleman Nagar Delhi-110086	BHMS	2018	Bhim Rao Ambedkar University Bihar	Delhi	14.12.2020	BHSD/5789			
209479	Vismaya T.K.	Balakrishnan	Thuvakkunnumal (House), Thuvakkunnu P.O., Panoor (Via), Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	20.07.2018	12628			
209480	Vismaya Vijayakumar	Vijayakumar G.	Bindhuvihar, Perayam, Umayanalloor P.O., Distt.-Kollam, Kerala	BHMS	2018	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	05.02.2019	13009			
209481	Vismith Glory S.V.	Hentry Smith Kumar	Glory Bhavan, Vazhuthoor (Thozhukkal), Neyyattinkara P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2015	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	31.01.2016	11035			
209482	Viswa Gayathri V.J.	Viswa Dev P.	Kailas, Oottukuzhi, Vilappilsala P.O., Distt.-Thiruvananthapuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	10.07.2017	11928			

209483	Vivek Panicker	Somasundaran E.	Pattakkil (H), Omachapuzha P.O., Karingapara, Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	18.04.2016	11231				
209484	Vrinda Mohan	Mohanan	Vrindavan, Kakkappilly P.O., Thiruvankulam (Via), Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	19.08.2017	12168				
209485	Vrinda V.V.	Vasudevan V.V.	Vettukattu Valappil (H), Thrithala P.O., Kannanur, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	Vinayaka Missions University, Salem, Tamilnadu	Kerala	11.07.2016	11325				
209486	Vyshnav B. Chandran	Jinachandran	Malakoyiloth (House), Puthuppanam P.O., Vatakara, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	06.01.2018	12384				
209487	Wadekar Yashodhan Prafulla	Prafulla Wadekar	C/o Chaitanya Prasuti Gruha B/H Khajanchi Bhavan, Sarafa Lane, Bazar Ward, Chandrapur-442401	BHMS	2008	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra	24.02.2009	47774				
209488	Wafa Zainab	Mohamed Sadiq Kathandy	Symphony', Thiruvangad, Thalassery, Distt.-Kannur, Kerala	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka	Kerala	20.11.2019	13464				
209489	Wafah A.T.	Mohammed Ashraf A.T.	Kalathingal House, Chakkarikadu Paramba, Arakkinar P.O., Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	04.12.2018	12961				
209490	Waghanna Surekha Gurulingappa	Gurulingappa Waghanna	Shivaji Nagar, Path No. 2, Ashtvinayak Road, Latur-413531	BHMS	2000	Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University	Maharashtra	20.10.2001	32246				
209491	Wajeeda Mariyam P.P.	Muzafar Ahamed P.P.	Sneha Nagar-2, OB Road, Arts College P.O., Meenchanda, Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	23.11.2017	12317				
209492	Wapangjela Jamir	I. Toshi Jamir	Signal Angami Bosti Dimapur Nagaland 797112	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	10.04.2019	116				
209493	Wasim Md. Tousif Jamal	Mohiuddin Gaine	Dadpur, Kadambagachi, Shasan, North 24 Parganas, PIN-700125	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	05.12.2019	32772				
209494	Wohidujjaman	Md. Samsujjaman	Vill+ P.O.-Shaikh Para, Dist-Murshidabad, PIN-742308	BHMS	May-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	23.05.2019	32537				
209495	Y. Lipanlung Ovung	W. Yanthanshio Ovung	H. No-5 Serenity Cottage Kyong Colony Sewak Gate 3 Dimapur Nagaland 797112	BHMS	2019	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	15.02.2020	125				
209496	Yadav Komal	Brahm Prakash Yadav	H.No. 128, Adarsh Nagar, Near Railway Quarter, Mahendragarh, Haryana-123029	BHMS	2019	Homoeopathy University, Jaipur	Haryana	19.08.2019	6459-A				
209497	Yadav Mohit	Shyam Lal Yadav	622 Jail Road, Kaptan Ka Purwa, Raebarely, Uttar Pradesh-229001	BHMS	2019	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Uttar Pradesh	31.10.2019	H038790				
209498	Yadav Neeru	Sh. Deshraj Yadav	582, Street No.-01, Madhli Vihar, Delhi Road, Rewari	BHMS	08.06.2016	Homoeopathy University, Jaipur	Haryana	09.05.2017	6330-A				

209499	Yadav Rakesh Kumar	Amar Chand	VPO-8 SHPD, Tehsil-Suratgarh, Dist-Sri Ganganagar, Rajasthan-335804	BHMS	2019	Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	Rajasthan	27.11.2019	8584				
209500	Yadav Shikha	Sh. Kailash Chand	H. No. 76, Street 111, Sangam Vihar Dharampura Extension, Najafgarh New Delhi-110043	BHMS	2019	Delhi University	Delhi	04.09.2020	BHSD/5716				
209501	Yadav Shiv	Amamath Yadav	Sakara, Rampur, Jaunpur, U.P.-222203	BHMS	2018	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	Bihar	04.10.2018	32823				
209502	Yalkar Pritesh Vikas	Yalkar Vikas Shankarrao	81/Shivaji Nagar, Jalgaon Road, Nr. Kamal Hospital, Jamner, Distt.-Jalgaon, Maharashtra-424206	BHMS	2010	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	Maharashtra	11.04.2011	53948				
209503	Yasira P.K.	Abdul Jamal P.K.	Cherathodi (House), Alungal, Pulikkal P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	17.08.2018	12728				
209504	Yasmin M.	Abbas M.	Melethil (H), Amayur P.O., Pattambi, Distt.-Palakkad, Kerala	BHMS	2016	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.02.2017	11731				
209505	Yesmin Rimpa	Mosref Hossen Mullick	Vill-Paschim Para (Purba), P.O-Dhulagori, Dist-Howrah, PIN-711302	BHMS	Oct.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	31.10.2019	32667				
209506	Yousaf Shakir Vakkayil	Haroon Rasheed	Mambatta (House), Klari South, Edarikode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2017	The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai	Kerala	13.07.2017	11991				
209507	Yousuf Kainat	Md. Jalaluddin	150/A, Linton Street, Kolkata - 700014	BHMS	Nov.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	19.11.2019	32745				
209508	Zadika Saeed P.S.	Saeed Ahmed	House No. 13/184 D, Pallakkal (H), K.C. Road, Mattancherry P.O., Kochi, Distt.-Ernakulam, Kerala	BHMS	2016	Mahatma Gandhi University	Kerala	11.05.2016	11269				
209509	Zaidi Sara	Mr. Zafar Abbas	J-3/100A, J-Extension, Laxmi Nagar, Delhi-110092	BHMS	2019	Dr. B.R. Ambedkar University, Agra	Delhi	13.08.2020	BHSD/5695				
209510	Zake Turab Fatma	Md. Mukhtar Zake	19/C, Cantopher Lane, Kolkata-700014	BHMS	Feb.-2020	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	13.02.2020	32794				
209511	Zakkiya Abdulla F.M.	Kunhabdulla	Shaherzad (House), Mokeri P.O., Kakkattil (Via), Distt.-Kozhikode, Kerala	BHMS	2017	Kerala University of Health Sciences	Kerala	15.02.2018	12469				
209512	Zeenath Jouhara P.	Ismayil Haji	Noor Mahal, Mundamparamba, Puliyaacode P.O., Distt.-Malappuram, Kerala	BHMS	2018	Kerala University of Health Sciences	Kerala	07.08.2018	12717				
209513	Zhokhohuiu	Meshusayi Tetseo	New Minister Hill, Kohima Near Vinyard School Nagaland 797001	BHMS	2018	Rajiv Gandhi University of Health Science Bangalore Karnataka	Nagaland	06.02.2019	112				

209514	Zote Zosangzela Jerry	J. Laldawngliana	C/o. Chitra Chatterjee, Vill-Lautor 01. P.O- Sainthiya, Dist- Birbhum, Pin- 731234	BHMS	Apr.-2019	West Bengal University of Health Sciences	West Bengal	30.05.2019	32543			
209515	Sharma Brender	Lt. Sh. T.R. Sharma	49-B, Una Enclave, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi-110091	DHMS	25.10.1984	Council of Homoeo. Punjab	Delhi	28.05.2020	BHSD/ 5656	BHMS (Graded) - 2013 Council of Homoeopathy, Punjab		